

भा० दि० जैनसंघग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य त्रयोदशोदकः

श्रीयतिवृषभाचार्यरचितचूर्णिसूत्रसमन्वितम्

श्रीभगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीतम्

कसायपाहुडं

तयोश्च

श्रीवीरसेनाचार्यविरचिता जयधवला टीका

[एकादशमोऽधिकारः दर्शनमोहक्षपणानुयोगद्वारम्, द्वादशमोऽधिकारः संयमासयम-
लद्वयनुयोगद्वारम्, त्रयोदशमोऽधिकारः संयमलब्ध्यनुयोगद्वारम्,
चतुर्दशमोऽधिकारः चारित्रमोहोपशामनानुयोगद्वारम्]

सम्पादको

पं० फूलचन्द्र

सिद्धान्तशास्त्री, सिद्धान्ताचार्य
सम्पादक महाबन्ध, सह सम्पादक
धवला आदि

पं० कैलाशचन्द्र

सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्ताचार्य,
सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ
प्रधानाचार्य स्वाहाद महाविद्यालय
काशी

प्रकाशक

मन्त्री, साहित्य विभाग

भा० दि० जैन संघ, चौरासी, मथुरा

वीरनिर्वाणाब्द २४९८

वि० सं० २०२९]

मूल्यं रुप्यकवोडसकम्

[ई० सं० १९७२

भा० दि० जैनसंघ ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य

संस्कृत प्राकृत आदिमें निबद्ध दि० जैनागम, दर्शन,
साहित्य, पुराण आदिका यथासम्भव
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशन



सचालक

भा० दि० जैन संघ

ग्रन्थाङ्क १-१३

प्रासिन्धान

व्यवस्थापक

भा० दि० जैन संघ

चौरासी, मथुरा

मुद्रक :

वर्द्धमान मुद्रणालय
गौरीगंज, वाराणसी-१

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala No I-XIII

KASAYA-PAHUDAM
XIII
DARSHANMOHA KSHAPANA ETC.

BY
GUNADHARACHARYA

WITH
Churni Sutra of Yativrashabhacharya

AND
THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF
VIRASENACARYA THERE UPON

EDITED BY
Pandit Phoolchandra Siddhantashastri
EDITOR MAHABANDHA
JOINT EDITOR DHAVALA

Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatritha, Siddhantaratra
Pradhanadhyapak, Syadvada Digambara Jain
Mahavidyalaya, Varanasi

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year]

[Vira Niravan Samvat 2468

Aim Of the Series —

Publication of Digambara Jain Siddhanta,
Darshana, Purana, Sahitya and other
works in Prakrit etc., possibly with
Hindi Commentary and
Translation

DIRECTOR

**SHRI BHARATAVARSIYA
DIGAMBARA JAIN SANGHA
NO 1 VOL XIII**

To be had from—

THE MANAGER
SRI DIG JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

Printed By
Vardhaman Mudranalaya
Gauriganj, Varanasi-1

800 Copies

Price Rs Sixteen only

प्रकाशकीय

श्री कसायपाहुड सिद्धान्त ग्रन्थका जयघबला टीकाके साथ तेरहवाँ भाग स्वाध्याय प्रेमी पाठकोंके हाथोमे अर्पित करते हुए हमें प्रसन्नता है। अब दो भाग शेष हैं। आशा है कि दोनो भाग जल्द ही प्रकाशित हो जायेंगे और हम इस महान् कार्यके उत्तरदायित्वसे मुक्त हो जायेंगे।

इनके प्रकाशनमे एक मुख्य कठिनाई आर्थिक रहो है। दिनपर दिन महंगाई बढ़ती जाती है। फलतः कागज, छपाई आदिका भाव भी बढ़ता जाता है और इस तरह व्यय भार भी अधिक होता जाता है। दूसरी ओर ऐसे महान् ग्रन्थोको बिक्री बहुत कम होती है। छपने ही कुछ प्रतियाँ बिक जाती हैं, फिर धीरे-धीरे बिकती हैं। इस तरह एक भागमे जितना रुपया लगता है तत्काल उसका चतुर्थांश भी प्राप्त नहीं होता। जनता मे तो इस प्रकारके ऊँचे साहित्यको खरीदनेकी भावना कम ही है, मन्दिरोमे भी उनका संग्रह करनेकी भावना नहीं है। ऐसी स्थितिमे बिक्रीकी समस्या बनी रहती है। फिर भी जिनशासनके महान् प्रभावक ग्रन्थोका उद्धार तो जिनमन्दिर निर्माण जैसा ही आवश्यक है, नयोकि जिन वाणोसे ही जिन मन्दिरोको प्रतिष्ठा है, अतः उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

गत वर्ष भा० दि० जैन संघका अधिवेशन आचार्य श्री समन्मद्रजी महाराजकी छत्रछायामे कुम्भोज बाहुबलोमे हुआ था। उस समय महाराजके शुभाशीर्वादि तथा सेठ बालचन्द्र देवचन्द्र शाह तथा ब्र० प० माणिकचन्द्र जो चवरे आदिके सत्प्रयत्नसे इस कार्यके लिए अच्छी सहायता प्राप्त हो गई थी। तथा श्रीचवरे जीने आपवासन दिया है कि यह कार्य पूरा हो जायगा। इसके लिये हम महाराजश्रीके चरणोमे बिनत होनेके साथ श्रीचवरेजीके विशेषरूपमे कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस कार्यमे परिश्रमपूर्वक हार्दिक सहयोग दिया है। मिठान्ताचार्य प० फूलचन्द्रजीके मम्पादकत्वमे यह कार्य शीघ्र पूर्ण होगा ऐसी हम आशा करते हैं।

जयघबला कार्यालय
भदौनी, वाराणसी
बो० नि० सं० २४९८

कैलाशचन्द्र शास्त्री
मंत्री, साहित्य विभाग
भा० दि० जैन संघ

भा० वि० जैन संघके साहित्य विभागके सदस्यों की नामावली

संरक्षक सदस्य

- १३०००) दानवीर सेठ भागचन्दजी डोगरगढ़
- ८१२५) दानवीर धावक शिरोमणि साहू शान्तिप्रसादजी दिल्ली
- ५०००) स्व० श्रीमन्त सर सेठ हुकुमचन्दजी इन्दौर
- ५०००) सेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद
- ३००१) सेठ नामचन्द्रजी हीराचन्दजी गाँधी उस्मानाबाद
- २५००) लाला इन्द्रसेनजी जगाधरी
- २५००) बाबू जुगमन्दिरदासजी कलकत्ता
- २००१) सिधई श्रीनन्दनलालजी बीना

सहायक सदस्य

- १२००) सेठ भगवानदासजी मथुरा
- १२००) बा० कैलाशचन्दजी एम० डो० ओ० बम्बई
- १००१) सकल दि० जैन परिवार पञ्जान नागपुर
- १००१) सेठ श्यामलालजी फर्रुखाबाद
- १००१) सेठ घनस्यामदासजी सरावगी लालगढ़
- [रा० ब० सेठ चुप्रोलालजी सुपुत्र स्व० निहालचन्दजीकी स्मृति मे]
- १०००) स्व० लाला रघुवीरसिंहजी जैना वाच कम्पनी दिल्ली
- १०००) रायसाहब लाला उल्फतरायजी दिल्ली
- १०००) स्व० लाला महावीरप्रसादजी "
- १०००) स्व० लाला रतनलालजी मादीपुरिये "
- १०००) स्व० लाला धूमिमल धर्मदासजी "
- १०००) श्रीमती मनोहरी देवी मातेश्वरी लाला वसन्तलाल फिरोजीलालजी दिल्ली
- १०००) बाबू प्रकाशचन्दजी खण्डेलवाल ग्लास वर्क्स सासनी (अलीगढ़)
- १०००) लाला छोटारमल शंकरलालजी मथुरा
- १०००) सेठ गणेशीलाल आनन्दीलालजी आगरा
- १०००) सकल जैन पञ्जान गया
- १०००) सेठ मुस्तानन्द शंकरलालजी मुस्तानवाले दिल्ली
- १००१) सेठ मगनलालजी हीरालालजी पाटनी आगरा
- १००१) स्व० श्रीमती चन्द्रावतीजी धर्मपत्नी स्थ० साहू रामस्वरूपजी नजीवाबाद
- १००१) सेठ सुदर्शनलालजी जसवन्तनगर
- १०००) प्रोफेसर क्षुशालचन्द गोरावाला बाराणसी
- (स्व० पूज्य पिता साहू फुन्डीलालजी तथा मातेश्वरी केशरबाई गोरावालाकी पुण्य स्मृतिमें)
- १००१) सेठ मेघराज खूबचन्दजी पेंडरारोड
- १०००) सेठ ब्रजलाल बारेलालजी चिरमिरी
- १०००) सेठ बालचन्द देवचन्दजी साहू धाटकोपर बम्बई
- १०००) पद्मश्री व्र० पं० सुमतिबाई जी धाह शोलापुर

विषय-परिचय

११ दर्शनमोहक्षपणा अनुयोगद्वारा

जयधवलाका यह तेरहवाँ भाग है। इसमें दर्शनमोहक्षपणा, संयमासंयमलब्धि, चारित्र-लब्धि और चारित्रमोह-उपशामनाका बहुभाग ये चार अर्थाधिकार संगृहित हैं। उनमेंसे दर्शनमोहक्षपणा यह एक अपेक्षासे सम्यक्त्व महाधिकारका दूसरा अर्थाधिकार और एक अपेक्षासे ग्यारहवाँ स्वतन्त्र अर्थाधिकार है। इसमें दर्शनमोह-क्षपणाका विस्तारसे सांगोपांग विवेचन किया गया है। इस अर्थाधिकारमें कुल ५ सूत्रगाथाएँ आई हैं। उनमेंसे प्रथम सूत्र गाथा 'दर्शनमोहक्खवणापट्टवगो' इत्यादि है। इसमें दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक नियमसे कर्म-भूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य होता है और उसका निष्ठापक चारों गतियोंका जीव होता है यह निर्देश किया गया है।

इसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि क्षयोपशम सम्यग्दृष्टि कर्मभूमिज मनुष्य दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है वह इस क्रियाको तीर्थकर, केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही करता है ऐसा एकान्त नियम है, क्योंकि जिसने तीर्थकर आदिके माहात्म्यको नहीं देखा है उसके दर्शनमोहकी क्षपणाके कारणभूत परिणाम ही उत्पन्न नहीं होते। यद्यपि सूत्रगाथामें इस तथ्यका निर्देश नहीं किया गया है, पर यह तथ्य पट्टखण्डागम जीव-स्थान चूलिकासे जाना जाता है। उसके प्रकृत विषयके प्रतिपादक सूत्रमें 'जम्हि जिणा केवली तित्थयरा' ऐसा पाठ आया है। उससे ज्ञात होता है कि तीर्थकर केवली, सामान्य केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही कर्मभूमिज मनुष्य क्षायिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका प्रारम्भ करता है।

इस विषयमें यह प्रश्न होता है कि तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध कर जो मनुष्य दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं, वहाँसे आकर मनुष्य होने पर उन्हें क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि ऐसे जीवोंके प्रारम्भमें क्षयोपशम सम्यग्दर्शन ही पाया जाता है और उन्हें तीर्थकर केवली, सामान्य केवली तथा अन्य श्रुतकेवलीका सानिध्य मिलता नहीं, अतः उसी भवमें तीर्थकर केवली होनेवाले ऐसे मनुष्योंके क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति कैसे होती है? यह एक प्रश्न है। इसका समाधान यह किया है कि उक्त जीव स्वयं जिन अर्थात् श्रुतकेवली होने पर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेमें समर्थ होते हैं।

निष्ठापक चारों गतियोंका जीव होता है इसका यह आशय है कि कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि होने पर ऐसे जीवका मरण भी सम्भव है और ऐसे जीवने पहले जिस आयुका बन्ध किया हो, मर कर वह उस गतिमें उत्पन्न होता है। यदि नरकायुका बन्ध किया है तो प्रथम नरकमें मध्यम आयुके साथ उत्पन्न होता है। यदि मनुष्यायु और तिर्यञ्चायुका बन्ध किया है तो उत्तम भोगभूमिमें पुरुषवेदी मनुष्य और तिर्यञ्च होता है और यदि देवायुका बन्ध किया है तो वैमानिक देव होता है ऐसा नियम है।

'मिच्छत्तवेदणीप कम्मे' यह दूसरी सूत्र गाथा है। इसमें पहली बात तो यह बतलाई गई है कि जब मिथ्यात्व कर्मका सम्यक्त्वप्रकृतिमें अपवर्तन कर लेता है तब उक्त जीव दर्शन-मोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है। इस पर यह शंका की गई है कि मिथ्यात्वका सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण कर अनन्तर अन्तमुहूर्त काल द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यक्त्व प्रकृतिमें

संक्रम होनेका नियम है, मिथ्यात्वको पूरा अपवर्तन कर सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है यह कथन घटित नहीं होता ? इसका समाधान करते हुए बतलाया गया है कि मिथ्यात्वका पूरा संक्रम होने पर सम्यग्मिथ्यात्वको ही गायामूत्रमें मिथ्यात्व कह कर उक्त विधान किया है, अतः कोई दोष नहीं है ।

उक्त सूत्रगाथामें दूसरी बात यह बतलाई गई है कि ऐसे जीवके कमसे कम जघन्य पीतलेइया अवश्य होती है । इसका आशय यह है कि जो जीव दर्शनमोहकी क्षापणाका प्रारम्भ करता है उसके शुभ तीन लेइयाओंमेंसे कोई एक लेइया ही होती है । अशुभलेइयाओंके रहते हुए दर्शनमोहकी क्षापणाका प्रस्थापक नहीं हो सकता । किन्तु यह नियम प्रस्थापकके लिए ही समझना चाहिए, निष्ठापकके लिए नहीं, क्योंकि जिसने पहले नरकायुका बन्ध किया है ऐसा जीव कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होने पर यदि मर कर प्रथम नरकमें उत्पन्न होता है तो उसके मरणके समय अन्तर्मुहूर्त काल पहलेसे कपोतलेइया नियमसे हो जाती है ऐसा नियम है ।

‘अंतोमुहुत्तमद्दं’ यह तीसरी सूत्रगाथा है । इसमें पहला नियम तो यह किया गया है कि दर्शनमोहनीयकी क्षापणामें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षापणा नियमसे तीन करणपूर्वक ही होती है और तीनों करणोंमेंसे प्रत्येकका काल जब कि अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है, अतः दर्शनमोहकी क्षापणामें अन्तर्मुहूर्त कालका लगना स्वाभाविक है । दूसरा नियम यह किया गया है कि जिसने दर्शनमोहनीयकी क्षापणा कर ली है ऐसा जीव देवगति और मनुष्यगतिसम्बन्धी आयु और नामकर्मका ही बन्ध करता है, अन्यका नहीं । स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मर कर नारकी या देव हुआ है तो मनुष्यगतिसम्बन्धी आयुकर्म और नामकर्मका बन्ध करेगा और यदि मरकर तिर्यञ्च हुआ है या मनुष्य है तो देवगतिसम्बन्धी आयुकर्म और नामकर्मका बन्ध करेगा । यहाँ सूत्रगाथामें ‘सिया’ पद आया है सो उससे यह आशय ग्रहण करना चाहिए कि यदि क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव अन्तिम भवमें स्थित है अर्थात् चरमशरीरी है तो उसके आयुकर्मका बन्ध नहीं ही होगा । ऐसे जीवके देवगतिसम्बन्धी नामकर्मकी उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध भी अपने बन्ध योग्य गुणस्थान तक ही होता है ।

‘खवणाए पट्टवगो’ यह चौथी सूत्रगाथा है । इसमें इस नियमका विधान किया गया है कि जिस मनुष्यभवमें दर्शनमोहनीयकी क्षापणाका प्रारम्भ करता है उस भवमें यदि मुक्ति-लाभ नहीं होता है तो नियमसे उस भवके साथ तीसरे या चौथे भवमें मुक्ति-लाभ करता है । यदि ऐसा जीव मरकर नारकी और देव होता है तो तीसरे भवमें मुक्ति-लाभका अधिकारी होता है और यदि उत्तम भोगभूमिका तिर्यञ्च या मनुष्य होता है तो चौथे भवमें मुक्ति-लाभ करता है यह एकान्त नियम है ।

‘सखेज्जा च मणुस्सेसु’ यह पाँचवीं सूत्रगाथा है । इसमें चारों गतियोंमें क्षायिक-सम्यग्दृष्टियोंकी संख्याका निर्देश किया गया है । खुलासा इसप्रकार है—प्रथम नरकके नारकी, उत्तम भोगभूमिके तिर्यञ्च और वैमानिक देव असंख्यात हैं । साथ ही इनकी आयु भी संख्यातातीत वर्षप्रमाण है । यद्यपि प्रथम नरकमें संख्यात वर्षप्रमाण भी आयु पायी जाती है, परन्तु प्रकृतमें उसकी मुख्यता नहीं है, इसलिए इन तीनों गतियोंमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव असंख्यात बतलाये गये हैं, क्योंकि वर्षपृथक्त्वके अन्तरसे नरक, तिर्यञ्च और देवगतिमें क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न होते हैं, अतः प्रत्येक गतिमें उनका प्रमाण पत्न्योपमके असंख्यातके भागप्रमाण प्राप्त होता है । यही कारण है कि उक्त सूत्र गाथामें उक्त तीन गतियोंमेंसे प्रत्येक गतिमें क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण असंख्यात बतलाया गया है । अब रही

मनुष्यगति सो इस गतिमें जब कि पर्याप्त मनुष्योंका प्रमाण ही संख्यात है ऐसी अवस्थामें इस गतिमें आधिकसम्यवृष्टियोंका प्रमाण भी संख्यात ही प्राप्त होगा। फिर भी उनकी निश्चित संख्या कितनी है ऐसा प्रश्न होनेपर निश्चित संख्याका निर्देश करते हुए वह संख्यात हजार बतलाई है।

यह दर्शनमोहनीयकी क्षपणा नामक अनुयोगद्वारमें निबद्ध पाँच सूत्रगाथाओंमें प्रतिपादित विषयका स्पष्टीकरण है। आगे गाथासूत्रोंके आश्रयसे विशेष व्याख्या की गई है। ऐसा करते हुए आगे गाथासूत्रोंमें निबद्ध अर्थका विशेष व्याख्यान तो किया ही गया है, साथ ही प्रकृतमें उपयोगी जो अर्थ गाथासूत्रोंमें निबद्ध नहीं है उसका भी विशेष व्याख्यान किया गया है।

नियम यह है कि असंयत, संयतासंयत प्रमत्तसंयत या अप्रमत्तसंयत इनमेंसे किसी एक गुणस्थानवाला वेदक सम्यवृष्टि कर्मभूमिज मनुष्य तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेका प्रारम्भ करता है। उसमें भी सर्वप्रथम वह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करता है, क्योंकि जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है वह दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेमें समर्थ नहीं होता। इसके बाद अन्तर्मुहूर्त विश्रामकर वह दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके योग्य अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीन प्रकारके करणपरिणामोंको क्रमशः करता है। इनके लक्षण जैसे दर्शनमोहकी उपशामना अनुयोगद्वारका स्पष्टीकरण करते समय भाग १२ में बतला आये हैं वैसे ही यहाँपर जानने चाहिए।

इसप्रकार दर्शनमोहकी क्षपणाके लिए उद्यत हुए इस जीवके अधःप्रवृत्तकरणरूप परिणामोंको प्राप्त होनेके अन्तर्मुहूर्त पूर्वसे ही (१) प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिगत होता हुआ विशुद्ध परिणाम होता है। (२) चार मनोयोग, चार बचनयोग और औदारिककाययोग इनमेंसे कोई एक योग होता है। (३) क्रोध, मान, माया और लोभ इनमेंसे कोई एक कषाय होती है जो उत्तरोत्तर हीयमान होती है। (४) साकार उपयोग होता है, क्योंकि ज्ञान-दर्शनस्वभाव आत्माविषयक विशेष उपयोग हुए बिना दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके सन्मुख नहीं हो सकता। यद्यपि इस विषयमें एक उपदेश यह भी पाया जाता है कि उक्त जीवके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनरूप उपयोगका होना भी सम्भव है। सो इसका यह आशय समझना चाहिये कि जब उक्त जीव अन्य अशेष विषयोंसे निवृत्त होकर आत्माके सन्मुख होता है तब उसके चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शनरूप उपयोग भी बन जाता है और श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है, इसलिए उक्त क्रम परिपाटीमें मतिज्ञान भी बन जाता है। (५) पीत, पद्म और शुक्ल इन तीन शुभ लेश्याओंमेंसे कोई एक वर्धमान लेश्या होती है। (६) तीनों वेदोंमेंसे कोई एक वेद होता है। (७) पूर्वबद्ध कर्मोंकी सत्ता पूर्वोक्त चार गुणस्थानोंमेंसे जिस गुणस्थानमें क्षपणाके लिए प्रारम्भ करता है प्रायः उसके अनुसार है। इतना अवश्य है कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी सत्ता नहीं होती है तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता नियमसे होती है। (८) वर्तमान कालमें यह किन प्रकृतियों का बन्ध करता है इसका विचार यथासम्भव उक्त चारों गुणस्थानोंके अनुसार जान लेना चाहिये। इतना अवश्य है कि यह यथासम्भव इन गुणस्थानोंमें बन्धयोग्य नोकषायोंमेंसे अरति और शोकका बन्ध नहीं करता, किसी आयुका बन्ध नहीं करता तथा नामकर्मकी परावर्तमान किसी अनुभूत प्रकृतिका बन्ध नहीं करता। सत्कर्मकी अपेक्षा इन कर्मोंकी संख्यातगुणी हीन स्थितिका बन्ध करता है। प्रशस्त प्रकृतियोंका चतुःस्थानीय और अप्रशस्त

प्रकृतियोंका द्विस्थानीय अनुभागबन्ध करता है तथा अजघन्यानुकृष्ट या कुछ प्रकृतियोंका स्यान् उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है। जिन प्रकृतियोंका स्यान् उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है उनका नामनिर्देश मूलमें किया ही है। (९) इसके कितनी प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं और कितनी प्रकृतियोंका यह प्रवेशक होता है इसका विशेष विचार मूलमें किया ही है, इसलिए वहाँसे जान लेना चाहिये। (१०) यहाँ जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनके सिवाय शेष प्रकृतियोंकी पहले ही बन्ध व्युच्छित हो जाती है। (११) जिन प्रकृतियोंकी यहाँ उदय-उदीरणा होती है उनके सिवाय शेषकी उदयव्युच्छित हो जाती है। (१२) यहाँ दर्शन-मोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंमेंसे किसी भी प्रकृतिका अन्तर्करण नहीं होता। तथा (१३) यह जीव किस स्थितिवाले और कितने अनुभागवाले कर्मोंका अपवर्तनकर किस स्थानको प्राप्त होता है। इसप्रकार इन विशेषताओंका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विचार कर लेना चाहिए।

इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणको करके पश्चात् यह जीव अपूर्वकरणको प्राप्त होता है। अपूर्वकरणके प्रथम समयसे ही स्थितिकाण्डकघात आदि क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात तथा गुणश्रेणि रचनाकी प्रवृत्ति अधःप्रवृत्तकरणमें नहीं होती। वहाँ मात्र प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता रहता है। शुभकर्मोंका उत्तरोत्तर अनन्तगुणी वृद्धिको लिये हुए अनुभागबन्ध होता है और अशुभकर्मोंका उत्तरोत्तर अनन्तगुणी हानिको लिये हुये अनुभागबन्ध होता है। तथा एक एक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्तकाल तक उत्तरोत्तर पत्न्योपमका संख्यातवाँ भाग कम अन्य-अन्य स्थितिवन्ध होता है।

इसप्रकार अधःप्रवृत्तकरणरूप क्रियाको करनेके बाद अपूर्वकरणरूप परिणाम होते हैं। वहाँ सब जीवोंका स्थितिसत्कर्म एक समान नहीं होता। जो एक साथ उपशम सम्यक्त्वको प्राप्तकर पश्चात् अनन्तानुबन्धीकी एक साथ विसंयोजनाकर दर्शनमोहनीयकी क्षपणके लिए उद्यत हो अपूर्वकरणमें एक साथ प्रवेश करते हैं उनका स्थितिसत्कर्म एक समान होता है और तदनुसार घातके लिए गृहीत स्थितिकाण्डक भी एक समान होता है। किन्तु इनके सिवाय अन्य जीवोंका स्थितिसत्कर्म विसदृश ही होता है। तथा तदनुसार घातके लिए गृहीत स्थितिकाण्डक भी विसदृश होता है। इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण मूलमें किया है, अतः उसे वहाँसे जान लेना चाहिए। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो विशेष कार्य प्रारम्भ होते हैं उनका विवरण—

(१) स्थितिकाण्डकघातका प्रारम्भ। उसमें अजघन्य स्थितिकाण्डक पत्न्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका प्रमाण सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होता है।

(२) अन्तर्मुहूर्त अन्तर्मुहूर्तकाल तक सदृश परिमाणको लिए हुए होनेवाले एक स्थितिवन्धसे उत्तरोत्तर पत्न्योपमके संख्यातवें भागकम दूसरे-तीसरे आदि स्थितिवन्धका होना।

(३) अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकाण्डकघातका प्रारम्भ। यहाँ प्रत्येक अनुभागकाण्डक अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण होता है।

(४) उदयावलि बाह्य गुणश्रेणि रचनाका प्रारम्भ। जो गुणश्रेणि अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ अधिक आयामको लिये हुए होती है। दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें उदयादि गुणश्रेणि नहीं होती।

(५) मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंका गुणसंक्रम—उत्तरोत्तर गुणितक्रमसे संक्रम होने लगना।

प्रकृतमें ये अपूर्वकरणके प्रथम समयसे प्रारम्भ होनेवाले विशेष काय हैं। द्वितीयादि समयोंमें भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक ये कार्य इसीप्रकार चालू रहते हैं। मात्र गुणश्रेणि प्रत्येक समयमें बदलती रहती है, क्योंकि प्रथम समयमें गुणश्रेणिमें जितने द्रव्यका निक्षेप होता है, दूसरे आदि समयोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप होता है। दूसरे यह गुणश्रेणि गलित शेष आयामवाली होनेसे इसके आयाममें भी एक-एक निपेककी कमी होती जाती है। यही बात गुणसंक्रमके विषयमें भी जानना चाहिये। अर्थात् प्रथम समयमें मिथ्यात्व और सम्बन्धिमिथ्यात्वके जितने द्रव्यका संक्रम होता है, द्वितीयादि समयोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यका संक्रम जानना चाहिये।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि एक स्थितिकाण्डकघातके कालके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात हो लेता है। मात्र एक स्थितिवन्धका काल स्थितिकाण्डकके बराबर ही है। इस विधिसे अपूर्वकरणके कालमें हजारों स्थितिकाण्डक और तत्प्रमाण ही स्थितिवन्ध होते हैं।

दूसरी विशेषता यह है कि प्रथमादि स्थितिकाण्डकोंसे द्वितीयादि स्थितिकाण्डक विशेष हीन होते हैं और इसप्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिकाण्डकसे अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें होनेवाला स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा हीन होता है। इसप्रकार अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें होनेवाला स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल, अनुभागकाण्डक उत्कीरणकाल, और स्थितिवन्धकाल ये तीन एक साथ समाप्त होते हैं। इस विधिसे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जितना स्थितिसत्कर्म होता है उससे उसीके अन्तिम समयमें वह संख्यातगुणा हीन हो जाता है। इसीप्रकार स्थितिवन्ध भी प्रथम समयके स्थितिवन्धकी अपेक्षा संख्यातगुणा हीन हो जाता है।

इसके बाद अनिवृत्तिकरणका प्रारम्भ होता है। वहाँ भी ये कार्य प्रारम्भ होकर उक्त क्रमसे चालू रहते हैं। यहाँ इतनी विशेषता है कि जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट जैसे स्थितिसत्कर्मके साथ ये जीव अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करते हैं उनके प्रथम स्थितिकाण्डकका आयाम उसीके अनुसार होता है। मात्र इनके द्वितीयादि स्थितिकाण्डक सदृश आयामवाले होते हैं, क्योंकि उनके परिणाम सदृश ही होते हैं। यहाँ यह विशेषता दर्शनमोहनीयकी अपेक्षा कही है।

यहाँ अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयके उपशमकरण, निधत्तिकरण और निकाचितकरण इन तीनोंकी व्युत्थित हो जाती है। इससे दर्शनमोहनीयके जो कर्मपरमाणु उद्यम आदिमें देनेके अयोग्य रहे वे सब उदय आदिमें देनेके योग्य हो जाते हैं। इस समय दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म एक कोटिके भीतर शतसहस्रपृथक्त्वसागरोपम होता है और शेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म कोड़ा-कोड़ीके भीतर कोटिशतसहस्रपृथक्त्वप्रमाण होता है।

इसके बाद हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभागके व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म क्रमसे असंख्योपचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके समान हो जाता है। पुनः स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके घात द्वारा पल्योपमप्रमाण हो जाता है। यहाँ तक सर्वत्र स्थितिकाण्डकका प्रमाण पल्योपमके संख्यातत्वं भागप्रमाण रहा है। किन्तु यहाँसे दूरापकृष्टि संज्ञक स्थितिसत्कर्मके होने तक उत्तरोत्तर शेष रही स्थितिके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है। जिस अवशिष्ट रहे सत्कर्ममेंसे संख्यात बहुभागकी प्रहणकर स्थितिकाण्डकका घात करनेपर शेष बचा स्थितिसत्कर्म नियमसे पल्योपमके असंख्यातत्वं भागप्रमाण होकर अवशिष्ट रहता है उसे दूरापकृष्टि कहते हैं। यहाँसे लेकर स्थितिकाण्डक शेष रही स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण होता है।

इसप्रकार उक्त विधिसे बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती है। पुनः बहुत स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वके उदयावलिके बाहरके समस्त द्रव्यको घातके लिए ग्रहण किया। उस समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका पत्योपमके असंख्यातके भागप्रमाण द्रव्य शेष रहता है, शेष सब द्रव्य घातके लिए ग्रहण कर लिया जाता है। मिथ्यात्वकी सर्व प्रथम क्षपणा होती है, इसलिए यहाँ इतनी विशेषता हो जाती है। इतना अवश्य है कि मिथ्यात्वके अन्तिम काण्डकका फालिरूपसे अन्य दो प्रकृतियोंमें संक्रमण करता हुआ अन्तिम फालिका सम्यग्मिथ्यात्वमें ही संक्रमण करता है।

इसप्रकार यथोक्त विधिसे मिथ्यात्वका घातकर पुनः उसी विधिसे सम्यग्मिथ्यात्वका घात करता हुआ जब उसके उदयावलि बाह्य समस्त द्रव्यको घातके लिए ग्रहण करता है तब सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थिति शेष रहती है। किन्तु इस विषयमें एक मत यह भी पाया जाता है कि उस समय सम्यक्त्वकी संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थिति शेष रहती है। यहाँ पर इस जीवको दर्शनमोहनीयक्षपक यह संज्ञा प्राप्त होती है।

यद्यपि प्रारम्भसे ही यह जीव दर्शनमोहनीयका क्षपक है पर यदि कोई समझे कि सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय तो सम्यग्दृष्टिके वेदकसम्यक्त्वके साथ होता है, इसलिए इसकी क्षपणा करनेवाले जीवको दर्शनमोहक्षपक कहना योग्य नहीं है तो उसका एमा कहना योग्य नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व प्रकृति भी दर्शनमोहनीयका एक भेद है, इसलिए उसकी क्षपणा करनेवाले जीवको भी दर्शनमोहक्षपक कहना योग्य है यह बतलानेके लिए यहाँसे यह संज्ञा विशेषरूपसे प्रवृत्त हुई है।

सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहनेपर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है। एक तो यह विशेषता होती है और यहाँसे लेकर दूसरी यह विशेषता होती है कि सम्यक्त्वके अनुभागका प्रत्येक समयमें अपवर्तन होने लगता है। तथा यहाँसे लेकर अपवर्तित होनेवाली स्थितियोंमेंसे उदयमें थोड़े प्रदेशपुञ्जको देता है। उससे अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है। यह क्रम गुणश्रेणिशीर्ष तक चालू रहता है। पुनः उससे उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है और आगे विशेष हीन देता है। इस क्रमसे सम्यक्त्व प्रकृतिका भी घात करता हुआ जब अन्तिम स्थितिकाण्डक समाप्त हो जाता है तब इस जीवकी कृत्यकृत्य संज्ञा होती है।

कृतकृत्य होनेपर इसका मरण भी हो सकता है। लेइया भी बदल सकती है। लेइया परिवर्तन होनेपर जघन्य कापोत तथा पीत, पद्म और शुक्ल लेइयामेंसे अन्धतर लेइया हो सकती है। इस जीवके संकलेश या विशुद्धि इनमेंसे किसीके भी प्राप्त होनेपर सम्यक्त्वकी एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितिके शेष रहने तक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती रहती है। फिर भी यह उदीरणा उदयके असंख्यातके भागप्रमाण होती है।

कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें यदि यह जीव मरता है तो नियमसे द्वैवोंमें उत्पन्न होता है, क्योंकि अन्य गतिके योग्य उस समय लेइया नहीं पाई जाती। अन्तर्मुहूर्त बाद यह जीव जैसी लेइया प्राप्त हो उसके अनुसार अन्य तीन गतियोंमें भी मरकर उत्पन्न हो सकता है।

इसप्रकार क्रमसे सम्यक्त्वका भी घात होनेपर यह जीव क्षायिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है।

१२ संयमासंयमलब्धि अनुयोगद्वार

संयमासंयमलब्धि जयधबला टीकाके अनुसार यह बारहवाँ अर्थाधिकार है। इसके आगे चारित्रलब्धि नामक तेरहवाँ अर्थाधिकार है। इन दोनों अर्थाधिकारोंमें 'लब्धी य संयमासंयमस्त' यह एक सूत्रगाथा निबद्ध है। इसमें बतलाया गया है कि जो जीव अलब्ध-पूर्व संयमासंयमलब्धि और चारित्रलब्धिको प्राप्त करते हैं उनके अन्तर्मुहूर्तकाल तक प्रति समय विशुद्धिरूप परिणामोंमें अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे वृद्धि होती जाती है। दूसरे इसमें यह भी बतलाया गया है कि उक्त दोनों लब्धियोंके यथासम्भव प्रतिबन्धक कर्मोंकी उपशामना होने पर उन दोनों लब्धियोंकी प्राप्ति होती है।

उन दोनों लब्धियोंके प्रतिबन्धक कर्म कौन हैं और उनकी किस प्रकारकी उपशामना होती है इसका विशेष खुलासा करते हुए उनकी टीकामें बतलाया है कि उपशामना चार प्रकारकी है—प्रकृति उपशामना, स्थितिउपशामना, अनुभागउपशामना और प्रदेशउपशामना।

संयमासंयमलब्धिमें अनन्तानुबन्धीचतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क इनकी उदयाभावस्वरूप प्रकृतिउपशामना ली गई है। यद्यपि संयमासंयमके कालमें प्रत्याख्यानावरण-चतुष्क; संज्वलनचतुष्क और नौ नोकषायोंका यथासम्भव उदय बना रहता है, परन्तु वह सर्वघातिस्वरूप नहीं होता। इसलिए उन कर्मोंकी भी देशोपशामना यहाँ पर बन जाती है। यदि कहा जाय कि प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उदय तो सर्वघाति है, इसलिए उसकी देशोप-शामना कैसे सम्भव है सो यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि संयमासंयमलब्धिमें उसका व्यापार नहीं होता। इसलिये इस अपेक्षासे उसका उदय देशघातिस्वरूप होनेसे उसका भी देशोपशाम स्वीकार करनेमें कोई बाधा नहीं आती।

यह तो संयमासंयमलब्धिकी अपेक्षा प्रकृति-उपशामनाका विचार है। चारित्रलब्धिकी अपेक्षा विचार करनेपर प्रारम्भकी बारह कषायोंके उदयाभावरूप प्रकृति उपशामना तथा चार संज्वलन और नौ नोकषायोंकी देशोपशामना प्रकृतमें लेनी चाहिये।

स्थितिउपशामना—यहाँ उक्त दोनों लब्धियोंमें पूर्वोक्त जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है उनकी स्थितियोंके उदयका न होना एक तो यह स्थितिउपशामना है और सभी कर्मोंकी अन्तर्काण्डाकोडीप्रमाण स्थितिसे उपरिम स्थितियोंका उदय नहीं होना यह दूसरी स्थिति उपशामना है।

अनुभाग-उपशामना—पूर्वोक्त कषायप्रकृतियोंके द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागका उदय नहीं होना तथा उदयप्राप्त कषायोंके सर्वघाति स्पर्शोंका उदय नहीं होना यह अनुभाग-उपशामना है। ज्ञानावरणादि कर्मोंके त्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय अनुभागके परित्यागपूर्वक द्विस्थानीय अनुभागकी प्राप्ति होना यह भी प्रकृतमें अनुभाग-उप-शामना है ऐसा स्वीकार करनेमें भी कोई विरोध नहीं आता।

प्रदेश-उपशामना अनुदयरूप उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियोंके प्रदेशोंका उदय नहीं होना यह प्रदेशोपशामना है।

यह उक्त सूत्र गाथामें आये हुए 'उपशामना'—य तह पुव्वबद्धाणं। इस पदकी व्याख्या है।

संयमासंयम और संयमकी प्राप्ति उपशमसम्यक्त्वके साथ भीहोती है, इसलिये सूत्रमें आये हुये 'उपशामना' पद द्वारा इसका भी ग्रहण हो जाता है। इसीप्रकार 'बद्धावट्ठी' पदमें 'बद्धी' पद द्वारा संयमासंयम और संयमकी प्राप्ति करते समय जो एकान्तानुवृद्धिरूप परिणाम

होते हैं उनका तथा 'अबद्धी' पद द्वारा संयमासंयम और संयमसे गिरते समय जो संक्लेश परिणाम होते हैं उनका ग्रहण किया गया है।

'लद्धी य संजमासंजमस्' इसके अनुसार लद्धि तीन प्रकारकी है—प्रतिपातस्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान। जिस स्थानके प्राप्त होनेपर यह जीव मिथ्यात्व या असंयमको प्राप्त करता है उसे प्रतिपातस्थान कहते हैं। जिस स्थानके प्राप्त होनेपर यह जीव संयमासंयम और संयमको प्राप्त होता है उसे प्रतिपद्यमान स्थान कहते हैं और स्वस्थानमें अवस्थानके योग्य तथा उपरिम गुणस्थानकी प्राप्तिके योग्य शेष स्थानोंको अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थान कहते हैं।

यहाँ इस पूर्वोक्त विवेचनको ध्यानमें रखकर सर्वप्रथम संयमार्म्यमलद्धिका विचार करते हैं—

संयमार्म्यमलद्धिकी प्राप्ति दो प्रकारसे होती है—एक तो उद्गमसम्यक्त्वके साथ होती है और दूसरे वेदकसम्यग्दर्शनपूर्वक होती है। यहाँ जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संयमार्म्यमलद्धिकी प्राप्त करते हैं उनका अधिकार है। वे इसे प्राप्त करनेके अन्तर्मुहूर्त पहले ही प्रति समय अनन्तगुणी स्वस्थान विशुद्धिसे विशुद्ध होते हुए आयुर्कर्मको छोड़कर शेष सभी कर्मोंका स्थितिवन्ध और स्थितिसत्कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर करते हैं। सातावेदनीय आदि शुभ कर्मोंका अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्म चतुःस्थानीय करते हैं तथा पाँच ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मोंका अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्म द्विस्थानीय करते हैं।

इतना करनेके अन्तर्मुहूर्तबाद अधःप्रवृत्तकरणको करते हुए प्रति समय तथोप्य अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होते हैं। इन परिणामोंके कालमें स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात ये कार्य नहीं होते। केवल स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमके अमंख्यातवे भाग कम स्थितिकी बाँधते हैं तथा शुभ कर्मोंको उत्तरोत्तर अनन्तगुणी अनुभागके साथ और अशुभकर्मोंको अनन्तगुणी हीन अनुभागके साथ बाँधते हैं।

विशुद्धिकी अपेक्षा विचार करनेपर पहले समयमें जितनी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होती है उससे दूसरे समयमें अनन्तगुणी जघन्य विशुद्धि प्राप्त होती है। इसप्रकार विशुद्धिका यह क्रम अन्तर्मुहूर्तकाल तक जानना चाहिये। पुनः अन्तर्मुहूर्तकालके अन्तिम समयमें जा जघन्य विशुद्धि प्राप्त होती है उससे प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी होती है। उससे अन्तर्मुहूर्तके अन्तिम समयमें प्राप्त हुई जघन्य विशुद्धिसे अगले समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी प्राप्त होती है। उससे दूसरे समयमें उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी प्राप्त होती है। इसप्रकार विशुद्धिकी इस परिपाटीको दर्शनमोहनीयके उपशामकके अधःप्रवृत्तकरणमें प्राप्त हुई विशुद्धिके समान जानना चाहिए।

इस विधिसे अधःप्रवृत्तकरणके सम्पन्न होनेपर अपूर्वकरणकी प्राप्ति होती है। इसमें स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात ये दोनों कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। यहाँ जघन्य स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण होता है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होता है। शुभ कर्मोंका अनुभागघात तो नहीं होता। मात्र अशुभकर्मोंका प्रत्येक अनुभागकाण्डक अनुभागसत्कर्मके अनन्तबहुभागप्रमाण होता है। तथा स्थितिवन्ध पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण हीन होता है।

यहाँ भी अपूर्वकरणके कालके भीतर हजारों स्थितिकाण्डकघात और उतने ही स्थितिवन्धापसरण होते हैं। तथा एक स्थितिकाण्डकघातके कालके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं।

एक स्थितिकाण्डकघातका काल जिस समय समाप्त होता है उसी समय उसके साथ होनेवाले स्थितिबन्धापसरणका काल भी समाप्त होता है। तथा इस एक स्थितिकाण्डकघातके कालके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं। उनमेंसे अन्तिम अनुभागकाण्डकघात भी उक्त दोनोंके साथ ही समाप्त होता है।

इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकघातों, हजारों बन्धापसरणों और एक-एक स्थितिकाण्डकघातके भीतर हजारों अनुभागकाण्डकघातोंके होनेपर अपूर्वकरणका काल समाप्त होकर तदनन्तर समयमें संयतासंयत हो जाता है। यह भाव संयतासंयतका स्वरूप है, द्रव्य-संयतासंयत तो पहलेसे ही था। किन्तु इसके बिना उसको पालन करनेवाला जीव यथार्थमें संयतासंयत कहलानेका अधिकारी नहीं था। इसके पहले वह भावसे असंयत ही था। इसलिए भावोंकी अपेक्षा यहाँ वह असंयमरूप पर्यायको छोड़कर समयमासयमरूप पर्यायको प्राप्त करता है।

इस प्रकार जिस समय यह जीव संयमासंयमको प्राप्त करता है उसके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तकाल तक इसके परिणामोंमें प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि होती रहती है। इसलिए इस विशुद्धिको एकान्तानुवृद्धिरूप विशुद्धि कहते हैं। यद्यपि यह विशुद्धि करणस्वरूप नहीं है फिर भी इसके माहात्म्य वश अपूर्व स्थितिकाण्डकघात, अपूर्व अनुभागकाण्डकघात और अपूर्व स्थितिवन्धको यह जीव प्रारम्भ करता है। तथा असंख्यात समयप्रबन्धोंका अपकर्षणकर उद्यावलि बाह्यगुणश्रेणि रचना भी करता है। आशय यह है कि संयमासंयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें ही उपरिम स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकर्षणकर गुणश्रेणिनिक्षेप करता हुआ उद्यावलिके भीतर असंख्यात लोकसे भाजित लब्ध द्रव्यको गोपुच्छाकारसे निक्षिप्तकर उद्यावलिके बाहर अनन्तर स्थितिमें असंख्यात समयप्रकटनोंका निक्षेप करता है। इसप्रकार गुणश्रेणि शीर्षतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेपकर उससे उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। उसके बाद प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। यहाँ यह अवस्थित गुणश्रेणि है, इसलिए द्वितीयादि समयोंमें उतना ही गुणश्रेणि निक्षेप होता है।

इसप्रकार बहुत स्थितिकाण्डकघात आदिके साथ एकान्तानुवृद्धि संयतासंयतकाल समाप्त होनेपर यह जीव अधःप्रवृत्त संयतासंयत हो जाता है। यहाँसे इसकी स्वस्थान विशुद्धिका प्रारम्भ हो जाता है। इसके स्थितिघात और अनुभागघात ये कार्य नहीं होते। ऐसा जीव कुछ काल तक संयमासंयमका पालनकर तीव्र विराधनाकी कारणभूत बाह्य सामग्रोंके बिना केवल तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम होनेपर संयमासंयमसे च्युत होकर असंयमभावको भी प्राप्त हो जाता है। यह तत्प्रायोग्य विशुद्धिके साथ मन्द स्वैंगरूप परिणामके द्वारा स्थिति और अनुभागमें वृद्धि किये बिना जीवादि पदार्थोंको यथावत् स्वीकार करता हुआ शीघ्र ही संयमासंयमको भी प्राप्त हो सकता है। इसके करणपरिणाम न होनेसे स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात आदि कार्य नहीं होते।

इतनी विशेषता है कि संयतासंयतके निमित्तसे गुणश्रेणिनिर्जराके सतत होते रहनेका नियम है, इसलिए संयतासंयतके गुणश्रेणिनिर्जराका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। इतना अवश्य है कि यह गुणश्रेणिनिर्जरा यथासम्भव विशुद्धि और संक्लेशके अनुसार न्यूनाधिक होती रहती है। विशुद्धिके अनुसार प्रत्येक समयमें पूर्व समयकी अपेक्षा कभी असंख्यातगुणी, कभी संख्यातगुणी, कभी संख्यातवाँ भाग अधिक और कभी असंख्यातवाँ भाग अधिक होती है। तथा संक्लेशके अनुसार कभी असंख्यातगुणी हीन,

कभी संख्यातगुणी हीन, कभी संख्यातवाँ भाग हीन और कभी असंख्यातवाँ भाग हीन होती है ।

यदि संकलेशकी बहुलता वश यह जीव संयमासंयमसे क्युत होकर अन्तमुहुतकालमें या बहुत काल बाद पूर्वमें प्राप्त तथावस्थित वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमको प्राप्त करता है तो उसके पूर्ववत् उक्त दोनों करणपरिणाम पूर्वक ही उसकी प्राप्ति होती है और उसके स्थितिकाण्डकघात आदि वे सब कार्य भी होते हैं ।

संयमासंयमगुणकी प्राप्ति तिर्यञ्चोंके भी होती है और मनुष्योंके भी होती है । उसमें जो मिथ्यादृष्टि मनुष्य तत्प्रायोग्य विशुद्धिके द्वारा संयथासंयमगुणको प्राप्त करते हैं उनके विशुद्धिरूप लब्धिस्थानसे जो मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च तत्प्रायोग्य विशुद्धिके साथ संयमासंयमगुणको प्राप्त करते हैं उनका विशुद्धिरूप लब्धिस्थान अनन्तगुणा होता है । उससे जो असंयत-सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च उत्कृष्ट विशुद्धिके साथ संयमासंयमको प्राप्त करते हैं उनका वह लब्धिस्थान अनन्तगुणा होता है । उससे असंयत सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्कृष्ट विशुद्धिके साथ संयमासंयमगुणको प्राप्त करते हैं उनका वह लब्धिस्थान अनन्तगुणा होता है । इसीप्रकार प्रतिपात स्थानों अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थानोंके विषयमें भी मूलसे जान लेना चाहिए । मूलमें इस विषयका स्वतन्त्र विचार किया है ।

संयतासंयत जीव अनन्तानुबन्धी कषायका तो वेदन करता ही नहीं, क्योंकि सासादन गुणस्थानमें ही इनकी उदयव्युच्छिति हो जाती है । यह जीव अप्रत्याख्यान कषायका भी वेदन नहीं करता, क्योंकि इनकी उदयव्युच्छिति चौथे गुणस्थानमें ही हो जाती है । इसलिए संयमासंयमलब्धि औदयिक तो है नहीं । यद्यपि इसके प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, संज्वलन-चतुष्क और नौ नोकषायोंका उदय पाया जाता है । परन्तु उनमेंसे प्रत्याख्यानावरणचतुष्क तो सकलसंयमके प्रतिबन्धक हैं । वे संयमासंयमगुणका प्रतिबन्ध नहीं करते । इसलिए इस अपेक्षासे भी संयमसंयमगुण औदयिक नहीं है । अब रहे चार संज्वलन और नौ नोकषाय सो ये देशघातिरूपसे उद्वीर्ण होते हैं, इस कारण संयमासंयमगुण देशघाति अर्थात् क्षायोपशमिकभावपनेको प्राप्त करता है । यहाँ यद्यपि क्षयोपशम कर्मका होता है पर कार्यमें कारणका उपचारकर इस गुणको भी क्षायोपशमिक कहा गया है । आशय यह है कि प्रकृतमें चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदयक्षय होनेसे और उन्हींके देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे संयमासंयमगुणकी प्राप्ति होती है, इसलिए संयमासंयमगुण क्षायोपशमिक सिद्ध होता है ।

संयमासंयमलब्धि क्षायोपशमिक है इसकी सिद्धि इस प्रकार भी होती है कि संयता-संयत जीवके अप्रत्याख्यानावरणीयका तो उदय है नहीं । प्रत्याख्यानावरणीयका उदय होकर भी वह संयमासंयमगुणका न तो उपघात ही करता है और न अनुग्रह ही करता है, इसलिए प्रत्याख्यानावरणीयचतुष्कका वेदन करता हुआ यदि चार संज्वलन और नौ नोकषायोंका कुल भी वेदन न करे तो संयमासंयमगुण क्षायिक भावके समान एकप्रकारका ही हो जावे । परन्तु यह सम्भव नहीं है, अतः चार संज्वलन और नौ नोकषायोंका देशघातिरूपसे वहाँ उदय स्वीकार कर लेना चाहिए और यतः चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके असंख्यातलोक-प्रमाण भेद हैं, अतः क्षयोपशमस्वरूप लब्धिके भी असंख्यात लोकप्रमाण भेद जान लेने चाहिए ।

इसप्रकार संयमासंयमलब्धिका संक्षेपमें विचार किया ।

१३ चारित्रलब्धि अर्थाधिकार

जयधवलके निर्देशानुसार चारित्रलब्धि यह तेरहवाँ अर्थाधिकार है। इसका दूसरा नाम संयमलब्धि भी है। 'लब्धि च संजमासंजमस्स' इस सूत्रगाथामें आये हुए 'लब्धि तहा चरित्तस्स' इस गाथावयव द्वारा इसकी सूचना मिलती है। पहले अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जिन चार सूत्रगाथाओंका निर्देश कर आये हैं उनके अनुसार यहाँ भी परिणाम आदिका विचार कर लेना चाहिये। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि संयमगुणकी प्राप्ति मात्र पर्याप्त कर्मभूमिज मनुष्य पर्यायमें ही होती है, इसलिए इस बातको ध्यानमें रखकर उसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। दूसरे इस अर्थाधिकारमें वेदकसम्यग्दृष्टि जीवके श्लायो-पशमिक चारित्रलब्धिकी प्राप्ति कैसे होती है इसकी मीमांसा की गई है, इसलिए इसकी प्राप्तिमें अधःकरण और अपूर्वकरण ये दो प्रकारके ही परिणाम होते हैं, अतः उसकी प्राप्तिके समय आगे चलकर यह जीव न तो किसी कर्मका अन्तर करता है और न ही सर्वोपशमना द्वारा किसी कर्मका उपशमक ही होता है। शेष व्याख्यान मूलसे जान लेना चाहिए।

जैसा कि पूर्व में बतला आये हैं कि जो वेदकसम्यग्दृष्टि मनुष्य संयमलब्धिके प्राप्तिके सन्मुख होता है उसके अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण ये दो प्रकारके ही करण परिणाम होते हैं सो इनका जैसा व्याख्यान संयमासंयमलब्धिके प्रसंगसे कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। जिसके संयमलब्धिकी प्राप्ति उपशमसम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके साथ भी होती है उसके अधःप्रवृत्त आदि तीनों प्रकारके करणपरिणाम पूर्वक ही उसकी प्राप्ति होती है पर उस आधारसे यहाँ विचार नहीं करना है, क्योंकि जिसने पूर्वमें द्रव्यसंयम स्वीकार किया है और जो उसका चरणानुयोगमें बतलाई गई विधिके अनुसार यथावत् पालन करता है उसके जीवादि नौ पदार्थोंके यथावत् परिज्ञानपूर्वक आत्माके सन्मुख होनेपर अधःप्रवृत्त आदि तीन करणपूर्वक प्रथमोपशम सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय ही संयमभावकी प्राप्ति होती है। यहाँ तो ऐसे मनुष्यको लक्ष्यमें रखकर विचार किया जा रहा है जो वेदक सम्यग्दृष्टि होनेके साथ चरणानुयोगके अनुसार द्रव्यसंयमका यथावत् पालन करता है। ऐसा द्रव्य-संयमका पालन करनेवाला मनुष्य मात्र अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण ये दो प्रकारके करण परिणाम करके ही संयमका अधिकारी हो जाता है सो इसका संयमासंयमकी प्राप्तिके समय जैसा विचारकर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी विचार कर लेना चाहिए।

इस संयमको प्राप्त हुआ मनुष्य बहुत संक्लेशको प्राप्त हुए बिना परिणामवश कर्मोंकी स्थितिमें वृद्धि किये बिना यदि असंयमपनेको प्राप्त होकर पुनः संयमको प्राप्त होता है तो न तो उसके अपूर्वकरणात्मक परिणाम ही होते हैं और न ही स्थितिकाण्डकघात और अनुभाग-काण्डकघात ही होता है। परन्तु जो संक्लेशकी बहुलतावश मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके साथ असंयमपनेको प्राप्त होकर अन्तमुहूर्तबाद या दीर्घकाल बाद संयमको प्राप्त करता है उसके पूर्वोक्त दोनों करण भी होते हैं और यथास्थान स्थितिकाण्डकघात तथा अनुभागकाण्डकघात भी होते हैं।

इस प्रकार संयमको प्राप्त हुए जीवोंके संयमस्थान तीन प्रकारके होते हैं—प्रतिपात-स्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान। जिस स्थानमें स्थित यह जीव संक्लेशकी बहुलतावश गिरकर मिथ्यात्व, असंयमसम्यक्त्व और सैयमासंयमको प्राप्त होता है उसकी प्रतिपातस्थान संज्ञा है। जिस स्थानमें स्थित यह जीव संयमभावको प्राप्त करता

है उसकी प्रतिपद्यमानस्थान संज्ञा है। उत्पादकस्थान यह इसका दूसरा नाम है। इन दोनों स्थानोंमेंसे प्रतिपातस्थान संयमसे गिरते समय होता है और प्रतिपद्यमानस्थान संयमको प्राप्त होनेके पहले समयमें होता है। इन दोनोंके अतिरिक्त अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोंको विषय करनेवाले अन्य जितने चारित्रस्थान हैं उनकी लब्धिस्थान संज्ञा है। अथवा जितने चारित्रस्थान हैं उन सबकी लब्धिस्थान संज्ञा है।

इनमें प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं। उनसे प्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं और उनसे लब्धिस्थान—अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। यहाँ सर्वत्र गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है।

अथवा प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं। उनसे प्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं और उनसे लब्धिस्थान विशेष अधिक हैं। यहाँ लब्धिस्थानोंसे पूरे चारित्रसम्बन्धी स्थानोंको ग्रहण किया गया है।

संयमको प्राप्त करनेके अधिकारी पर्याप्त मनुष्य दो प्रकारके हांते हैं—कर्मभूमिज और अकर्मभूमिज। सबसे जघन्य और सबसे उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान संयमस्थान कर्मभूमिज मनुष्योंके ही होते हैं। अकर्मभूमिज मनुष्योंके मध्यके हांते हैं। विशेष स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है। सबसे उत्कृष्ट चारित्रलब्धिस्थान वीतरागके होता है। वह एक ही प्रकारका होता है, क्योंकि कर्पायके तारतम्यके अनुसार अन्य संयमस्थानोंमें प्राप्त तारतम्यके समान इसमें तारतम्य उपलब्ध नहीं होता, इसलिए वह उपशान्तकर्पाय, क्षीणकर्पाय, संयोगकेवली जिन और आयोगकेवली जिन इन सबके एक ही प्रकारका होता है। इस विषयको जंका-समाधान द्वारा मूलमें इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

‘ऐसा उवसंतकसायभयवंतये जहण्णा होदु, खीणकसाय-सजोगि-अजोगीसु च उक्कस्सिया होउ, खइयलद्धिपाहम्मादां ति णासंकणिज्जं, खीणोवसंतकसायसु कसायाभावेण अवट्ठिदसंजमपरिणामेसु जहाक्खाद्विहारशुद्धिसजदस्स भेदाणुवलंभादो।’

शंका—यह उपशान्तकर्पाय भगवन्तके जघन्य होआं तथा क्षीणकर्पाय, संयोगकेवली और अयोगकेवलीके क्षायिकलब्धिके माहात्म्यवश उत्कृष्ट होओ ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्षीणकर्पाय और उपशान्तकर्पाय जीवोंमें कर्पायका अभाव होनेसे अवस्थित संयमपरिणाम होता है, इसलिए यथाख्यात-विहारशुद्धिसंयममें भेद नहीं उपब्ध होता।

अनन्तानुबन्धी आदि बारह कर्पायोंके उदयाभावरूप उपपशमके होनेपर तथा संज्वलन-चतुष्क और नौ नोकर्पायोंके देशघाति स्पर्धकोंके उदय होनेपर चारित्रलब्धिकी प्राप्ति होती है, इसलिए सकलसंयमरूप चारित्रलब्धि क्षायोपशमिक है ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

१४ चारित्रमोहनीय-उपशामना

चारित्रमोहनीय उपशामना यह जयधवलाके अनुसार चौदहवाँ अर्थाधिकार है। इसमें आठ सूत्रगाथाएँ निबद्ध हैं। उनमें ‘उवसामणा कविब्धिधा’ यह पहली सूत्रगाथा है। इसमें तीन अर्थ निबद्ध हैं—१. उपशामना कितने प्रकारकी है? इस द्वारा, प्रशस्तोपशामना और अप्रशस्तोपशामना आदि रूपसे उपशामनाके भेदोंका सूचन किया गया है। २. किम किम कर्मकी उपशामना होती है? इस द्वारा क्या सर्वा कर्मोंकी उपशामना सम्भव

है या सम्भव नहीं है ऐसी पृच्छा करके चारित्रमोहनीयविषयक प्रकृत उपशामनाकी सूचना की गई है। ३. कौन कर्म उपशान्त होता है और कौन कर्म अनुपशान्त रहता है ? ऐसी पृच्छा द्वारा नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके किस अवस्था विशेषमें कौन कर्म उपशान्त होता है अथवा कौन कर्म अनुपशान्त रहता है इस प्रकारके अर्थकी सूचना की गई है।

‘कविभागुवसामिज्जदि’ यह दूसरी सूत्रगाथा है। यह चारित्रमोहनीयको उपशामते समय उपशामाये जानेवाले प्रदेशपुञ्जका तथा स्थिति और अनुभागके प्रमाणका निश्चय करनेके लिए पुनः उन्हींके सम्बन्धसे बँधनेवाले, वेद जानेवाले, संक्रमित होनेवाले और उपशामाये जानेवाले स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आई है।

‘केवचिरमुवसामिज्जदि’ यह तीसरी सूत्रगाथा है। इस द्वारा उपशमन क्रिया तथा उपशमाई जानेवाली प्रकृतिके संक्रमण, उदीरणा आदिके कालके निर्देश करनेकी पृच्छा की गई है। इसके उत्तरस्वरूप उपशामनक्रियामें अन्तर्मुहूर्त काल लगता है ऐसा निर्देश करना चाहिये। इसी प्रकार संक्रमण आदिके विषयमें मूलके आधारसे निर्णय कर लेना चाहिए।

‘कं करणं वोच्छिज्जदि’ यह चौथी सूत्रगाथा है। इस द्वारा उपशामकके मूल और उत्तर प्रकृतियोंके अप्रशस्त उपशामना आदि आठ करणोंमेंसे किस अवस्थामें कौन करण व्युच्छिन्न रहता है और कौन करण व्युच्छिन्न नहीं रहता तथा कौन करण उपशान्त रहता है और कौन करण उपशान्त नहीं रहता इस विषयकी पृच्छा की गई है। इसका विशेष निर्णय आगे यथास्थान करेंगे।

‘पडिवादो च कदिविधो’ यह पाँचवीं सूत्रगाथा है। इस द्वारा प्रतिपात कितने प्रकारका है, किस कषायमें प्रतिपात होता है तथा गिरता हुआ किन प्रकृतियोंका बन्ध करता है यह पृच्छा की गई है।

‘दुविहो खलु पडिवादो’ यह छठी सूत्रगाथा है। इस द्वारा प्रतिपात भयक्षयसे होनेवाला और उपशमक्षयसे होनेवाला इस तरह दो प्रकारका है। यदि भवक्षयसे प्रतिपात होता है तो बादर रागमें अर्थात् स्थूल कषायसे युक्त अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें प्रतिपात होता है और यदि उपशमक्षयसे होता है तो वह सूक्ष्मसाम्प्रायमें होता है इन सब तथ्योंका निर्देश किया गया है। इस प्रकार इस सूत्रगाथा द्वारा पिछली सूत्रगाथाके पूर्वार्थमें निबद्ध दो पृच्छाओंका निर्णय किया गया है।

‘उवसामणाखण दु’ यह सातवीं सूत्रगाथा है। इस द्वारा पिछली सूत्रगाथामें निर्दिष्ट अर्थकी ही पुनः पुष्टि की गई है। इतना अवश्य है कि पिछली सूत्रगाथामें किस क्षयसे किस कषायमें प्रतिपात होता है यह स्पष्ट नहीं किया गया था। किन्तु इस सूत्रगाथामें यह स्वतन्त्ररूपसे स्पष्ट कर दिया गया है कि भवक्षयसे बादर रागमें और उपशमक्षयसे सूक्ष्म रागमें प्रतिपात होता है।

‘उवसामणाखणण दु’ यह आठवीं सूत्रगाथा है। इस द्वारा यह पृच्छा की गई है कि उपशामनाके क्षय होनेसे गिरनेवाला जीव आनुपूर्वीसे किन कर्मप्रकृतियोंका बन्ध करता है और किन कर्मप्रकृतियोंका वेदन करता है ?

इस प्रकार ये आठ सूत्रगाथाएँ हैं जो इस अनुयोगद्वारमें निबद्ध हैं। आगे इनके आधारसे पूरे विषयको स्पर्श करते हुए बतलाया गया है कि अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी विसंयोजना किये बिना चारित्रमोहनीयकी उपशामना करना सम्भव नहीं है। इसलिए इस अनुयोगद्वारके प्रारम्भमें सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धोचतुष्ककी विसंयोजनाका निर्देश करते हुए

बतलाया गया है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाला जीव अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तकरण इन तीन करणपूर्वक ही उक्त प्रकृतियोंकी विसंयोजना करता है। दर्शनमोहनीयकी उपशामना अनुयोगद्वारमें इनके लक्षणोंका कथन कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिये। अधःप्रवृत्तकरणरूप विशुद्धिके ये विशेष कार्य हैं— हजारों स्थितिवन्धापसरण, शुभ कर्मोंका प्रतिसमय अनन्तगुणी हानिरूपसे अनुभाग-बन्धापसरण और शुभ कर्मोंका प्रतिसमय अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे चतुःस्थानीयबन्ध। यहाँ न तो स्थितिकाण्डकघात होता है और न ही अनुभागकाण्डकघात, गुणश्रेणि और गुणसंक्रमरूप कार्य विशेष ही होते हैं। ये सब कार्य अपूर्वकरणरूप परिणामोंके होनेपर ही प्रारम्भ होते हैं। इतना अवश्य है कि यहाँ होनेवाली गुणश्रेणि सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, संयतासंयत और संयतसम्बन्धी गुणश्रेणियोंसे प्रदेशोंकी अपेक्षा असंख्यातगुणी होती है और गुणसंक्रम मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्कका होता है, अन्य प्रकृतियोंका नहीं। अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जितना स्थितिवन्ध और स्थितिसत्कर्म होता है उससे उसके अन्तिम समयमें स्थितिवन्ध स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा हीन होता है। उसके बाद यह अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंको प्राप्त करता है। वहाँ प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धीयोंका स्थितिसत्कर्म अन्तःकांडाकोडीके भीतर लक्ष्यपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण होता है और शेष कर्मोंका अन्तःकांडाकोडीके भीतर होता है। यहाँ भी वे सब कार्य प्रारम्भ रहते हैं जो अपूर्वकरणमें प्रारम्भ हुए थे। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनामें अन्तरकरणरूप क्रिया नहीं होती। यह क्रिया दर्शन-मोहनीय और चारित्रमोहनीयकी उपशामना और चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें ही होती है, अन्यत्र नहीं। इसके बाद हजारों अनुभागकाण्डकघातगर्भित एक-एक स्थितिकाण्डकघात-पूर्वक हजारों स्थितिकाण्डकघातोंको करता हुआ अनन्तानुबन्धीके स्थितिसत्कर्मको कमसे असंख्य, पंचेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके समान करके पुनः उसी विधिसे पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मको स्थापित कर तत्पश्चात् शेष स्थितिके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिकाण्डको ग्रहणकर दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कर्मको स्थापित करता है। पश्चात् उत्तरोत्तर शेष स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण प्रत्येक स्थितिकाण्डके द्वारा घात करता हुआ अन्तमें उदयाबलि बाह्य अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिको शेष कषायोंकी स्थितिमें संक्रमित कर प्रकृत क्रियाको सम्पन्न करता है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका यह क्रम है। इस प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेके बाद अन्तर्मुहूर्तकालतक अधःप्रवृत्तसंयत होकर असातावेदनीय और अरति आदिका बन्ध करता है।

पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा दर्शनमोहनीयको उपशामता है, क्योंकि वेदक-सम्यग्दर्शनके साथ उपशमश्रेणिपर चढ़ना सम्भव नहीं है। या तो क्षाधिकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है या जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण करनेके पूर्व द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि हो जाता है वह उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है ऐसा नियम है।

इसके भी पहलेके समान तीन प्रकारके करणपरिणाम होते हैं तथा प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवालेके अधःप्रवृत्तकरणमें जो कार्य विशेष बतला आये हैं वे सब तथा अपूर्व-करणके प्रथम समयसे लेकर जिसप्रकार स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणि बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँपर भी जानना चाहिए। वहाँकी अपेक्षा इस विषयमें यहाँ कोई अन्तर नहीं है। यहाँ गुणसंक्रम नहीं होता। यहाँ स्थितिवन्धापसरणका कथन भी उसी

प्रकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार इस विधिसे अपूर्णकरणके प्रथम समयमें जितना स्थिति-सत्कर्म और स्थितिवन्ध प्राप्त होता है, उसके अन्तमें वह संख्यातगुणा हीन होता है।

अनिवृत्तिकरणमें भी स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य विशेष उसी प्रकार जानने चाहिए। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुभागके व्यतीत होने पर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती है। तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर दर्शनमोहनीयका अन्तर करता है। इस क्रियाको करते समय सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और मिथ्यात्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्याबलिप्रमाण प्रथम स्थिति स्थापित करता है। यहाँ जिन स्थितियोंका अन्तर करता है उनमेंसे उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रदेशपुञ्जको बन्ध न होनेके कारण प्रथम स्थितिमें निक्षिप्त करता है।

सम्यक्त्वकी द्वितीय स्थितिमें स्थित प्रदेशपुञ्जको अपकर्षण द्वारा अपनी प्रथम स्थितिमें निक्षिप्त करता है। अन्तर स्थितियोंमें गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त नहीं करता।

मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भी द्वितीय स्थितिमें स्थित प्रदेशपुञ्जको अपकर्षण कर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है। तथा अतिस्थापनावलीको छोड़ कर स्वस्थानमें भी निक्षिप्त करता है, अपनी अन्तर स्थितियोंमें निक्षिप्त नहीं करता। तथा सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके सदृश उद्याबलि बाह्य मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके प्रदेशपुञ्जको सम्यक्त्वके ऊपर समान स्थितिमें संक्रमित करता है। अन्तरकी द्विचरम फालिके पतन होने तक स्वस्थानसंक्रमका यह क्रम चालू रहता है। किन्तु चरम फालिके पतनके समय मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके प्रदेशपुञ्जको स्वस्थानमें नहीं देता है। किन्तु उनके अन्तर-सम्बन्धी अन्तिम फालिके द्रव्यको सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें ही गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है।

सम्यक्त्वकी द्विअन्तिम फालिके द्रव्यको अन्यत्र निक्षिप्त नहीं करता, अपनी प्रथम स्थितिमें ही निक्षिप्त करता है। प्रथम स्थितिमें स्थित द्रव्यका उत्कर्षण कर उसे द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त नहीं करता, बन्धका अभाव होनेके कारण स्वस्थानमें ही अपकर्षित करता है। द्वितीय स्थितिके द्रव्यका अपकर्षण होकर आबलि और प्रत्याबलिके शेष रहने तक प्रथम स्थितिमें निक्षेप होता है। उसके बाद आगाल-प्रत्यागालका विच्छेद हो जाता है तथा वहाँसे लेकर गुणश्रेणिरचना नहीं होती। मात्र प्रत्याबलिसे उदीरणा होती है। और इस प्रकार प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अनिवृत्तिकरण समाप्त होकर तदनन्तर समयमें उपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है।

यहाँ पर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके क्षीण होनेपर मिथ्यात्वके प्रदेशपुञ्जका सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें गुणसंक्रमद्वारा संक्रम नहीं होता, विध्यातसंक्रम होता है। प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करनेवाले जीवका गुणसंक्रमद्वारा जितना पूरणकाल प्राप्त होता है उससे संख्यातगुणे कालतक यह द्वितीयोपशम सम्यग्बुद्धि जीव विसुद्धि द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है। उसके बाद संकलेश-विसुद्धिवश वह स्वस्थानमें हानि-बुद्धि और अवस्थानको प्राप्त होता है। तथा हजारों बार प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत गुणस्थानोंमें परिवर्तन करता हुआ प्रमत्त-संयत गुणस्थानमें असातावेदनीय और अरति आदि प्रकृतियोंका बन्ध करता है।

इस प्रकार द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको महणकर कषायोंको उपशमानेके लिए अप्रमत्त-संयत होकर अधःप्रवृत्तिकरणरूप परिणामको करता है। इस करणमें जो विशेष कार्य होते हैं उनका निर्देश पूर्वमें किया ही है। अधःप्रवृत्तिकरणके अन्तिम समयमें 'कसायउबसामण-

पट्टबगम्स' इन चार सूत्र गाथाओंका व्याख्यान करना चाहिए। इन सूत्रगाथाओंके अनुसार कर्षाओंको उपशमानेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है आदिको मूलसे जान लेना चाहिए। उपयोग कौन होता है ऐसी प्रच्छाका स्पष्टीकरण करते हुए टीकामें दो उपदेशोंका निर्देश किया गया है। प्रथम उपदेशके अनुसार नियमसे श्रुतज्ञानरूपसे उपयुक्त होता है यह बतलाया गया है। किन्तु दूसरे उपदेशके अनुसार उक्त जीव श्रुतज्ञान, मतिज्ञान, अचक्षुदर्शन या चक्षुदर्शनरूपसे उपयुक्त होता है यह कहा गया है। सो यहाँ ध्यानकी भूमिका होनेसे यद्यपि मुख्यतासे श्रुतज्ञानरूप उपयोग होता है पर एक तो मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका जोड़ा है, दूसरे श्रुतज्ञान, मतिज्ञानपूर्वक होता है और मतिज्ञानके पूर्व चक्षुदर्शन या अचक्षुदर्शन नियमसे होता है, अतः इस क्रमको दिखलानेके लिए जहाँ तक हम समझते हैं कि इस विषयसे यहाँपर श्रुतज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपयोग स्वीकार किये गये हैं।

इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें परिणाम कैसा होता है, योग कौनसा होता है आदि तथ्योंको मूलसे जान लेना चाहिये। इसके बाद यह जीव अपूर्वकरणमें प्रवेश करता है। इसके प्रथम समयसे ही स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि कर्षाओंको उपशमानेवाला जीव यदि क्षायिक-सम्यग्दृष्टि है तो उसके घातके लिए गृहीत स्थितिकाण्डक नियमसे पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है। प्रत्येक स्थितिवन्धापसरणके बाद स्थितिवन्धमेंसे जितनी स्थितिका अपसरण करता है वह भी पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है। अनुभागकाण्डक अशुभ कर्मोंके अनन्त बहुभागप्रमाण होता है तथा गुणश्रेणि आयाम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है। इसप्रकार पूर्वोक्त विधिसे स्थितिकाण्डकसहस्रप्रथक्त्व जानेपर निद्रा और प्रचलाकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है। पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल जानेपर परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। यहाँ यशःकीतिकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं होती, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। ये सब नामकर्मकी प्रकृतियाँ गोत्रकी सहचर हैं, इसलिए सूत्रमें इन्हें गोत्र-संज्ञासे अभिहित किया गया है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्ति अपूर्वकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण कालके जानेपर होती है और परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति छह बटे सातभागप्रमाण कालके जानेपर होती है। तथा अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी बन्धव्युच्छित्ति होती है। यह अपूर्वकरणमें बन्धव्युच्छित्तिका विचार है। उदयव्युच्छित्तिको अपेक्षा विचार करनेपर हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उदयव्युच्छित्ति भी इस गुणस्थानके अन्तिम समयमें होती है।

इसके बाद अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेपर यहाँ भी स्थितिकाण्डकघात आदि वे सब कार्य होते हैं जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रारम्भ किये थे। साथ ही इसके प्रथम समयमें अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण इनकी व्युच्छित्ति हो जाती है। कर्मके उत्कर्षण, अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमके योग्य होनेपर भी उदीरणाके अयोग्य होना अप्रशस्त उपशामनाकरण है। कर्मके उत्कर्षण और अपकर्षणके योग्य होकर भी पर-प्रकृति संक्रम और उदीरणाके अयोग्य होना निधत्तीकरण है तथा कर्मके उत्कर्षण आदि चारोंके अयोग्य होना निकाचनाकरण है। जिन कर्मोंकी बन्धके समय अप्रशस्त उपशामना निधत्ती और निकाचनारूप अवस्था होती है, यहाँ अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें उनकी व्युच्छित्ति होकर यहाँसे आगे वे सब कर्मपरमाणु उदीरणा आदिके योग्य हो जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

यहाँ आयुर्कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म अन्तःकोड़ाकोड़ी सागरोपमके भीतर होता है और स्थितिवन्ध अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर लक्षपृथक्त्व सागरोपम होता है। इसके बाद अनिवृत्तिकरणके संख्यातवें बहुभागके व्यतीत होनेपर क्रमसे घटता हुआ असंखी पञ्चेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रियके स्थितिवन्धके समान हो जाता है। इसके बाद बँधनेवाले सातों कर्मोंके स्थितिवन्धमें जब मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध ज्ञानावरणादि चार कर्मोंके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा हीन होता है तब नाम और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे स्तोक होता है। उससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है और उससे ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है।

इसके बाद जब हजारों स्थितिवन्ध हो लेते हैं तब मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे थोड़ा होता है। नाम-गोत्रका उससे असंख्यातगुणा और शेष चार कर्मोंका उससे असंख्यातगुणा होता है।

इसके बाद हजारों स्थितिवन्धोंके होनेपर वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध ज्ञानावरणादि तीनके स्थितिवन्धसे भी असंख्यातगुणा होता है। शेष अल्पबहुत्व पूर्ववत् है।

इसके बाद हजारों स्थितिवन्ध होनेपर मोहनीयका स्थितिवन्ध सबसे थोड़ा होता है। ज्ञानावरणादिका उससे असंख्यातगुणा होता है। नाम-गोत्रका उससे असंख्यातगुणा होता है और वेदनीयका उससे विशेष अधिक होता है।

इसके बाद हजारों स्थितिवन्धापसरण होनेपर जो कर्म बँधते हैं उन सबका स्थितिवन्ध पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण होता है। वहाँसे असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उद्दिष्टा होती है। इसके बाद बीच-बीचमें संख्यात हजार स्थितिवन्धापसरण होनेपर क्रमसे, मनःपर्ययज्ञानावरण और दानान्तरायको, पुनः अवधिज्ञानावरण, अवधिदर्शनावरण और लाभान्तरायको, पुनः श्रुतज्ञानावरण, अचक्षुदर्शनावरण और भोगान्तरायको, पुनः चक्षुदर्शनावरणको पुनः आभिनिवाधिकज्ञानावरण और परिभोगान्तरायको देशघाति करता है।

देशघातिकरणके बाद हजारों स्थितिवन्धापसरण होनेपर बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकरण करता है। यह जीव जिस संज्वलनके साथ और जिस वेदके साथ उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है उसकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्त स्थापितकर अन्तरकरण करता है। तथा उनके सिवाय शेष कर्मोंकी प्रथम स्थिति उदयावलिप्रमाण स्थापितकर अन्तर करता है। यहाँ प्रकृतमें पुरुषवेद और संज्वलन क्रोधके उदयसे श्रेणि चढ़ा जीव विवक्षित है, अतः उनकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थापितकर उससे संख्यातगुणी उपरिम स्थितियोंका अन्तरकरण करता है। इन सब कर्मोंके अन्तरकी अन्तिम स्थिति समान होती है और अधस्तन स्थिति विषम होती है। कारण स्पष्ट है। तदनुसार यहाँ पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति नपुंसकवेदका उपशामनाकाल, स्त्रीवेदका उपशामनाकाल और सात नोकषायोंका उपशामनाकाल इन तीनों कालोंके योगप्रमाण होती है। परन्तु क्रोध संज्वलनकी प्रथम स्थिति इससे कुछ अधिक होती है।

जब यह जीव अन्तरकरणका प्रारम्भ करता है तब अन्य स्थितिवन्धका प्रारम्भ करता है तथा अन्य स्थितिकाण्डक और अन्य अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता है। यहाँ भी एक स्थितिवन्धके अपसरणमें जितना काल लगता है उतने ही कालमें अन्तरकरणका कार्य सम्पन्न होता है।

बारह कषाय और नौ नोकषाय इन इक्कीस प्रकृतियोंका अन्तरकरण होता है। उनमेंसे चार संज्वलन और पुरुषवेदका ही यहाँ बन्ध सम्भव है, शेषका नहीं। किन्तु उदय चार संज्वलनोंमेंसे किसी एकका और तीन वेदोंमेंसे किसी एकका होता है। शेष मध्यकी आठ कषाय और छह नोकषाय ये अबन्ध और अनुदयरूप प्रकृतियाँ हैं। तदनुसार ये सब प्रकृतियाँ चार भागोंमें विभक्त हो जाती हैं। यथा—

१. स्वोदयकी विवक्षामें बन्धके साथ उदय प्रकृतियाँ—पुरुषवेद और अन्यतर संज्वलन।

२. परोदयकी विवक्षामें बन्धप्रकृतियाँ—पुरुषवेद और अन्यतर संज्वलन।

३. स्वोदयकी विवक्षामें अबन्धरूप उदयप्रकृतियाँ—ऋग्वेद और नपुंसकवेद।

४. अबन्धरूप अनुदयप्रकृतियाँ—मध्यकी आठ कषाय और छह नोकषाय।

इसप्रकार उक्त २१ प्रकृतियाँ चार भागोंमें विभक्त हो जाती हैं। इनमेंसे (१) जिसके पुरुषवेद और अन्यतर संज्वलनका बन्धके साथ उदय भी होता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुञ्जका अपकर्षण होकर एक तो प्रथम स्थितिमें निक्षेप होता है, क्योंकि उक्त अवस्थामें इनकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण पाई जाती है। दूसरे इनके उक्त निषेकपुञ्जका उत्कर्षण होकर आबाधाको छोड़कर बन्ध प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिमें निक्षेप होता है। उत्कर्षित द्रव्यका आबाधामें निक्षेप नहीं होता ऐसा नियम होनेसे आबाधामें उक्त द्रव्यका निक्षेप नहीं होता है ऐसा कहा है। (२) जिसके अन्यतर संज्वलनको छोड़कर शेष संज्वलनोंका तथा पुरुषवेदका उदय नहीं होता, केवल बन्ध होता है उसके तब इनकी प्रथम स्थिति मात्र आवलिप्रमाण होनेसे इनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुञ्जका एक तो अपनी द्वितीय स्थितिमें उत्कर्षण होकर निक्षेप होता है, दूसरे जो अनुदयरूपबन्ध प्रकृतियाँ है उनकी भी द्वितीय स्थितिमें उत्कर्षण होकर निक्षेप होता है और तीसरे जो उदयसहित बन्ध प्रकृतियाँ है उनकी प्रथम स्थितिमें अपकर्षण होकर और द्वितीय स्थितिमें उत्कर्षण होकर निक्षेप होता है। (३) जो ऋग्वेद या नपुंसकवेदके उदयसे श्रेणि चढ़ा है उसके इन दोनों प्रकृतियोंकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुञ्जका एक तो अपकर्षण होकर अपनी प्रथम स्थितिमें निक्षेप होता है, दूसरे जो केवल बन्ध प्रकृतियाँ है उनकी द्वितीय स्थितिमें परप्रकृतिसंक्रमरूपसे उत्कर्षण होकर निक्षेप होता है और तीसरे जो सोदय बन्ध प्रकृतियाँ हैं उनकी प्रथम स्थितिमें परप्रकृतिसंक्रमरूपसे अपकर्षण होकर और द्वितीय स्थितिमें उत्कर्षण होकर निक्षेप होता है तथा (४) अबन्ध और अनुदयरूप जो आठ कषाय और छह नोकषाय हैं उनके अन्तरसम्बन्धी निषेकपुञ्जका एक तो जो कर्म बँधते हैं वेदे नहीं जाते उनकी द्वितीय स्थितिमें परप्रकृति संक्रमरूपसे उत्कर्षण होकर निक्षेप होता है, दूसरे जो कर्म बँधते हैं और वेदे जाते हैं उनकी परप्रकृतिसंक्रमरूपसे अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमें और उत्कर्षण होकर द्वितीय स्थितिमें निक्षेप होता है। तथा तीसरे जो कर्म बँधते नहीं, वेदे जाते हैं उनकी प्रथम स्थितिमें परप्रकृतिसंक्रमरूपसे अपकर्षण होकर निक्षेप होता है।

इस प्रकार इस विधिसे अन्तरकरण क्रियाके सम्बन्ध हो जानेपर उसके समाप्त होनेके समयसे लेकर चारित्रमोहनीयके ये सात करण प्रारम्भ हो जाते हैं। यथा—(१) चारित्र मोहनीयकी वहाँ अवस्थित सभी प्रकृतियोंका आनुपूर्वी संक्रम होने लगता है। खुलासा इस प्रकार है—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका नियमसे पुरुषवेदमें संक्रम होता है, अन्यत्र संक्रम

नहीं होता। पुरुषवेद छह नोकषाय, अपत्याख्यान क्रोध और प्रत्याख्यान क्रोधका नियमसे क्रोध संज्वलनमें संक्रम होता है अन्यत्र संक्रम नहीं होता। क्रोधसंज्वलन, अपत्याख्यान मान और प्रत्याख्यान मानका नियमसे मानसंज्वलनमें संक्रम होता है, अन्यत्र संक्रम नहीं होता। मानसंज्वलन, अपत्याख्यानमाया और प्रत्याख्यान मायाका नियमसे मायासंज्वलनमें संक्रम होता है, अन्यत्र संक्रम नहीं होता। तथा मायासंज्वलन, अपत्याख्यान लोभ और प्रत्याख्यान लोभका नियमसे संज्वलन लोभमें संक्रम होता है, अन्यत्र संक्रम नहीं होता। इन प्रकृतियोंका पहले जो आनुपूर्वीके बिना संक्रम होता रहा, वह यहाँसे उक्त विधिसे होने लगता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

(२) उक्त समयसे लेकर लोभ संज्वलनका संक्रम नहीं होता यह दूसरा करण है। पहले इसका आनुपूर्वीके बिना प्रतिलोभ विधिसे जो संक्रम होता था वह अब नहीं होता, इसलिए आगे लोभसंज्वलनका संक्रम ही नहीं होता।

(३) मोहनीयकर्मका एकस्थानीय बन्ध होता है यह तीसरा करण है। इससे पूर्व मोहनीयका जो द्विस्थानीय बन्ध होता था वह यहाँसे परिणामिके माहात्म्यबश एकस्थानीय होने लगता है।

(४) यहाँसे लेकर सर्व प्रथम आयुक्तकरण द्वारा नपुंसकवेदके उपशमानेकी क्रियाको करता है। आयुक्तकरण, उद्यतकरण और प्रारम्भकरण ये तीनों एकार्थवाची शब्द हैं। अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न करनेके साथ नपुंसकवेदके उपशमानेकी क्रियाका प्रारम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

(५) अन्तरकरणके बाद मोहनीय और मोहनीयके अतिरिक्त अन्य जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनकी बन्धमें लेकर छह आवलि काल जानेपर उदीरणा होती है यह पाँचवाँ करण है। सामान्य नियम यह है कि बन्ध होनेके बाद एक आवलि काल जानेपर बन्ध-प्रकृतिकी उदीरणा होने लगती है। परन्तु अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न होनेपर यह नियम यहाँ लागू न होकर बन्ध समयसे लेकर छह आवलि काल जानेपर उदीरणा होती है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। इसी तथ्यको कल्पित उदाहरण द्वारा मूलमें स्पष्ट किया गया है।

(६) मोहनीयका एकस्थानीय उदय होता है यह छटा करण है। इससे पूर्व मोहनीयका देशघातिस्वरूप द्विस्थानीय उदय होता था, वह यहाँसे एकस्थानीय होने लगता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

(७) मोहनीयका संख्यात वर्षप्रमाण बन्ध होने लगता है यह सातवाँ करण है। अन्तरकरणक्रिया सम्पन्न करनेके पूर्व जो असंख्यात वर्षप्रमाण बन्ध होता रहा वह अन्तर-क्रिया सम्पन्न होनेके समयसे लेकर बहुत घटकर संख्यात वर्षप्रमाण होने लगता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

इस प्रकार उक्त करणोंका प्रारम्भ कर अन्तर्मुहूर्तमें नपुंसकवेदका उपशम करता है। पुनः अन्तर्मुहूर्तमें स्त्रीवेदका उपशम करता है। स्त्रीवेदका उपशम करते समय जब ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणको छोड़कर उक्त तीनों मूल प्रकृतियोंका एकस्थानीय अनुभागबन्ध होता है। पुनः स्त्रीवेदका उपशम करनेके बाद सात नोकषायोंका उपशम करता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिस समय सात नोकषायोंका उपशम होता है उस समय

पुरुषवेदके एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं, क्योंकि जो अन्तिम आवलिमें बँधे हैं उनकी बन्धावलिका काल अभी न्यतीत नहीं हुआ और जो एक समय कम द्विचरमावलिके बँधे हैं उनकी उपशमनावलि अभी पूर्ण नहीं हुई है। इनका बादमें उपशम होता है।

सवेद भागके अन्तिम समयमें पुरुषवेदका स्थितिबन्ध सोलह वर्षप्रमाण, चार संज्वलनोंका स्थितिबन्ध बत्तीस वर्षप्रमाण और शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है।

पुरुषवेदकी प्रथम स्थिति जब दो आवलि काल शेष रहती है तब आगाल और प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है। प्रथम स्थितिमें स्थित प्रदेशपुञ्जका उत्कर्षण हांकर द्वितीय स्थितिमें निम्न होना आगाल कहलाता है और द्वितीय स्थितिमें स्थित प्रदेशपुञ्जका अपकर्षण होकर प्रथम स्थितिमें निम्न होना प्रत्यागाल कहलाता है।

अवेदभागके प्रथम समयसे अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन इन तीन क्रोधोंको उपशमानेका प्रारम्भ करता है। इसके वही पुरानी प्रथम स्थिति होती है। पहले अन्तरकरण क्रिया करते समय पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिसे जो क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति कुछ अधिक स्थापित की थी, समय-समयमें गलित होनेसे जितनी शेष बची वही यहाँपर उक्त तीन क्रोधोंके उपशमानेके प्रथम समयमें स्वीकार की गई है। आगे चलकर मानादिककी उपशमना करते समय जिस प्रकार सवेदभागसे एक आवलि अधिक उनकी प्रथम स्थिति स्थापित की जाती है उस प्रकार उक्त तीन क्रोधोंकी नहीं स्थापित की जाती है। इस प्रकार उक्त तीन क्रोधोंकी उपशमना करते हुए जब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति आवलि-प्रत्यावलिप्रमाण शेष रहती है तब द्वितीय स्थितिमेंसे आगाल और प्रथम स्थितिमेंसे प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है। उसके बाद क्रोधसंज्वलनका गुणभ्रंणिनिक्षेप नहीं होता, मात्र प्रत्यावलिमेंसे प्रदेशपुञ्जकी उदीरणा होती है। जब क्रोधसंज्वलनकी प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहता है तब उसकी जघन्य उदीरणा होती है। उस समय चार संज्वलनोंका स्थितिबन्ध चार माहप्रमाण और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण होता है। इसके बाद प्रत्यावलिमें एक समयके गल जानेपर तब क्रोधसंज्वलनके दो समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंको छोड़कर तीन प्रकारके क्रोधोंके शेष सब प्रदेश उपशमभावको प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें तीन आवलियाँ शेष रहने तक क्रोधसंज्वलनमें शेष दो क्रोधोंके प्रदेशपुञ्ज संक्रमित होते हैं। उसमें एक समय कम तीन आवलियाँ शेष रहनेपर उक्त दो क्रोधोंके प्रदेशपुञ्जका क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित होना बन्द हो जाता है। तथा जब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम एक आवलि शेष रहती है तब क्रोधसंज्वलनके बन्ध और उदय दोनों व्युच्छिन्न हो जाते हैं। कारणका खुलासा मूलमें किया ही है।

जिस समय क्रोधसंज्वलनकी उदय व्युच्छित्ति होती है उसके अगले समयमें ही वह मानसंज्वलनकी प्रथम स्थिति करनेके साथ उसका वेदक होकर तीन प्रकारके मानोंका उपशामक होता है। तब चारों संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्तकम चार माह और शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है। पुनः आगे मानसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आवलि शेष रहनेपर दो प्रकारका मान मानसंज्वलनमें संक्रमित नहीं होता। प्रत्यावलिमें शेष रहनेपर आगाल-प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं। प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहनेपर मानसंज्वलनके एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्धको छोड़कर तीन प्रकारके

मायाका शेष प्रवेशसत्कर्म तब उपशान्त हो जाता है। उस समय मान, माया और लोभसंज्वलनका दो मासप्रमाण और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है।

तदनन्तर समयमें मायासंज्वलनका अपकर्षणकर उसकी प्रथम स्थिति करता है तथा वहाँसे लेकर वह तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता है। उस समय माया और लोभसंज्वलनका अन्तर्मुहूर्त कम दो माहप्रमाण और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। अन्तरकरणक्रियाके समाप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर मोहतीयका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता, आयुर्कर्मके अतिरिक्त शेष कर्मोंका होता है। उसमें भी शेष कर्मोंके स्थितिकाण्डकका प्रमाण पल्योपमके संख्यातवर्षे भागप्रमाण होता है तथा अनुभागकाण्डककी अनन्तगुणहानिरूपसे प्रवृत्ति होती है। इस विधिसे जब मानसंज्वलनका एक समय कम उदयावलिप्रमाण सत्कर्म शेष रहता है तब उसका स्तितुकसंक्रमके द्वारा मायाके उदयरूपसे विपाक होता है। इस समय मानसंज्वलनके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं वे गुणभ्रेणिरूपसे उतने ही समयमें क्रमसे उपशान्त हो जाते हैं। उस समय जो प्रवेशपुंज मायामें संक्रमित होता है वह विशेष हीन भ्रेणिक्रमसे संक्रमित होता है। मायाके प्रथम समयमें उपशामककी यह प्ररूपणा है। पुनः क्रमसे हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर मायासंज्वलनकी जब एक समय कम तीन आवलिप्रमाण प्रथम स्थिति शेष रहती है तब दो प्रकारकी माया मायासंज्वलनमें संक्रमित न होकर लोभसंज्वलनमें संक्रमित होती है। प्रत्याबलिके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है। जब प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहता है तब वह एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्धको छोड़कर तीन प्रकारकी मायाका अन्तिम समयवर्ती उपशामक होता है। उस समय माया और लोभसंज्वलनका एक माह और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। उसके एक समय बाद मायासंज्वलनकी बन्ध और उदयव्युच्छित्ति होती है तथा उसकी प्रथम स्थितिमें जो एक समय कम एक आवलि शेष है उसका स्तितुकसंक्रमद्वारा लोभसंज्वलनरूपसे विपाक होने लगता है।

इस प्रकार जहाँ एक ओर यह क्रिया सम्पन्न होती है वहीं दूसरी ओर उसी समय लोभसंज्वलनका अपकर्षणकर उसकी प्रथम स्थिति करता है। यहाँसे लेकर जितना लोभसंज्वलनका वेदककाल है उसके साधिक दो-तीन भागप्रमाण वह प्रथम स्थिति करता है, क्योंकि लोभवेदककालमेंसे कुछ कम तीसरे भागप्रमाण सूक्ष्मसाम्परायका काल कम हो जाता है। उस समय लोभसंज्वलनका अन्तर्मुहूर्त कम एक माह और शेष कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। पश्चात् जहाँ जाकर संख्यात हजार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए रहते हैं वहाँ तक लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिका अर्धभाग व्यतीत हो चुकता है। वहाँ इस अर्धभागके अन्तिम समयमें लोभका दिवसपृथक्त्व और शेष कर्मोंका हजार वर्षपृथक्त्वप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तथा वहीं तक लोभसंज्वलनका स्पर्धकगत अनुभागसत्कर्म रहता है।

इसके अनन्तर दूसरे त्रिभागके प्रथम समयमें लोभसंज्वलनके जघन्य स्पर्धकके नीचे अनन्तगुणहानिरूपसे अपकर्षितकर सूक्ष्म अनुभाग कृष्टियोको करता है, क्योंकि उपशमभ्रेणिमें बादर कृष्टियाँ नहीं होतीं। एक स्पर्धकमें जो अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवर्षे भागप्रमाण वर्गणाएँ होती हैं, वहाँ की गई कृष्टियोंका प्रमाण उनके अनन्तवर्षे भागप्रमाण होता है। अर्थात् एक स्पर्धककी वर्गणाओंमें अनन्तका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी वर्गणाप्रमाण वे कृष्टियाँ होती हैं।

पहले समयमें बहुत कृष्टियोंको करता है। दूसरे समयमें उनसे असंख्यात गुणी हीन अपूर्व कृष्टियोंको करता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर दूसरे त्रिभागके अन्तिम समय तक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी हीन अपूर्व कृष्टियाँ करता है। यहाँ प्रत्येक समयमें जितने द्रव्यका अपकर्षण करता है उसके असंख्यातवै भागप्रमाण द्रव्यसे अपूर्व कृष्टियोंकी रचनाकर शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यका पूर्वकी कृष्टियों और स्पर्धकोंमें निक्षेप करता है। यहाँ प्रथम समयमें कृष्टियोंके छिपे जितना द्रव्य देता है, दूसरे समयमें उससे असंख्यातगुणे द्रव्यको देता है। इस प्रकार अन्तिम समयतक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यको देता है। उस समय वहाँ जो कृष्टियाँ की जाती हैं उनमेंसे जो जघन्य अनुभागयुक्त कृष्टि होती है उसमें सबसे अधिक द्रव्य देता है। उससे दूसरी कृष्टिमें विशेष हीन द्रव्य देता है। इस प्रकार अन्तिम कृष्टितक उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्य देता है। यहाँ अन्तिम कृष्टिको जितना द्रव्य प्राप्त होता है उससे अनन्तगुणा हीन द्रव्य जघन्य स्पर्धककी प्रथम वर्गणामें निक्षिप्त करता है।

दूसरे आदि समयोंमें भी ऐसा ही जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रथम समयसे दूसरे समयमें और द्वितीयादि समयोंसे तृतीयादि समयोंमें जो जघन्य कृष्टि प्राप्त होती है उसमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यको देता है। अर्थात् प्रथम समयकी जघन्य कृष्टिमें प्राप्त द्रव्यसे दूसरे समयमें प्राप्त जघन्य कृष्टिमें असंख्यातगुणा द्रव्य देता है। इसी प्रकार तृतीयादि समयोंमें भी जानना चाहिए।

तीत्र-मन्दताकी अपेक्षा विचार करनेपर इस दृष्टिसे जघन्य कृष्टिमें जितना अनुभाग होता है उससे दूसरी कृष्टिमें अनन्तगुणा अनुभाग होता है। इस प्रकार अन्तिम कृष्टिके प्राप्त हानैतक उत्तरोत्तर अनन्तगुणा अनुभाग होता है।

यहाँ जघन्य कृष्टिसे लेकर प्रत्येक कृष्टिमें कितने परमाणु होते हैं इस अपेक्षासे विचार करते हुए बतलाया है कि एक-एक परमाणुके अविभागप्रतिच्छेदोंको लेकर एक-एक कृष्टि बनती है। उनमेंसे जिसमें स्तोक अविभागप्रतिच्छेद होते हैं उसका नाम जघन्य कृष्टि है। उससे दूसरी कृष्टिमें अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। यही क्रम अन्तिम कृष्टितक जानना चाहिए।

अथवा जघन्य कृष्टिमें समान धनवाले अनन्त परमाणु होते हैं। दूसरी कृष्टिमें भी सदृश धनवाले सब परमाणुओंको ग्रहणकर अनन्तगुणा जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्तिम कृष्टितक समझना चाहिए। इन कृष्टियोंमें स्पर्धकोंके समान उत्तरोत्तर अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा क्रमवृद्धि नहीं है, इसलिए इनकी कृष्टि संज्ञा है। अन्तिम कृष्टिसे जघन्य स्पर्धककी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी होती है। प्रथम स्थितिके इस दूसरे भागमें स्थित जीव कृष्टियोंकी रचना करता है, इसलिए इस भागकी कृष्टिकरणकाल संज्ञा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जिस प्रकार क्षपकश्रेणियोंमें समस्त पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंका अपवर्तनकर कृष्टियाँ की जाती हैं उस प्रकार यहाँपर सम्भव नहीं है। किन्तु सभी पूर्व स्पर्धकोंके यथावत् बने रहते हुए उनमेंसे असंख्यातवै भागप्रमाण द्रव्यका अपकर्षणकर एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तवै भागप्रमाण सूक्ष्म कृष्टियोंकी यहाँपर रचना करता है।

कृष्टिकरणकालका जहाँ संख्यात बहुभाग व्यतीत होता है वहाँ लोभसंज्वलनका अन्त-सुहृत् और तीन घातिकर्मोंका दिवस पृथक्त्वप्रमाण स्थितिबन्ध होता है। यहाँ तक नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मका संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही स्थितिबन्ध होता रहता है, क्योंकि अभी भी घातिकर्मोंके समान अघातिकर्मोंका बहुत अधिक स्थितिबन्धापसरण नहीं हुआ है। कृष्टिकरण-

कालके अन्तिम समयमें लोभसंज्वलनका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण, तीनों घातिकर्मोंका कुछ कम दिन-रातप्रमाण और नाम, गोत्र तथा वेदनीयकर्मका कुछ कम एक वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता है।

उस कृष्टिकरणकालके एक समय कम तीन आवलिप्रमाण काल शेष रहनेपर दो प्रकारके लोभका लोभसंज्वलनमें संक्रमण न होकर स्वस्थानमें ही उपशम होता है, क्योंकि संक्रमणावलि और उपशमनावलिका यहाँपर परिपूर्ण होना नहीं बनता है। पुनः कृष्टिकरणकालमें आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है। प्रत्यावलिके जब एक समय शेष रहता है तब लोभसंज्वलनकी जघन्य स्थिति-उदीरणा होती है। उस समय कृष्टिगत लोभसंज्वलन, एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध और उच्छिष्टावलिको छोड़कर तीन प्रकारका शेष सब लोभ उपशान्त रहता है। इस प्रकार यहाँ जाकर यह जीव अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्परायिक संयत होता है।

पश्चात् अगले समयमें सूक्ष्मसाम्परायसंयत होकर यह जीव लोभसंज्वलनकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थिति करता है। लोभवेदकने प्रथम समयमें जो प्रथम स्थिति की थी यह उसके कुछ कम द्वितीय भागप्रमाण होती है। इस प्रकार सूक्ष्मसाम्परायको प्राप्तकर यह जीव उसके प्रथम समयमें किन कृष्टियोंका किस प्रकार वेदन करता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि—

(१) एक तो प्रथम और अन्तिम समयकी कृष्टियोंको छोड़कर शेष समयोंमें जो अपूर्व कृष्टियाँ की जाती हैं उनमें प्राप्त धनके असंख्यातवे भागप्रमाण सदृश धनका वेदन करता है।

(२) दूसरे प्रथम समयमें जो कृष्टियाँ की जाती हैं उनके उपरिम असंख्यातवे भागको छोड़कर शेष सब कृष्टियोंमेंसे सदृश धनका वेदन करता है।

(३) तीसरे अन्तिम समयमें जो कृष्टियाँ की जाती हैं उनमें जो सबसे जघन्य कृष्टि है उससे लेकर असंख्यातवे भागको छोड़कर शेष बहुभागप्रमाण कृष्टियोंका वेदन करता है।

इससे स्पष्ट है कि प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीव प्रथम समयमें रचित कृष्टियोंके उपरिम असंख्यातवे भागको और अन्तिम समयमें रचित कृष्टियोंके अधस्तन असंख्यातवे भागको छोड़कर शेष प्रथम और अन्तिम समय सहित सब समयोंमें रचित कृष्टियोंका उक्त विधिसे वेदन करता है।

यहाँ प्रथम और अन्तिम समयमें की गई जिन कृष्टियोंके वेदनका निषेध किया है उनके विषयमें ऐसा समझना चाहिये कि उनका अपने रूपसे वेदन नहीं होनेका ही यहाँ निषेध किया है, मध्यम कृष्टिरूपसे उनके वेदनका निषेध नहीं है। अर्थात् वे कृष्टियाँ मध्यम कृष्टिरूपसे परिणमकर उदयमें आती हैं।

यह सूक्ष्मसाम्परायके प्रथम समयमें कृष्टियोंके वेदनकी विधि है। कृष्टियोंको उपशमाता किस विधिसे है इसका निर्देश करते हुए बतलाया है कि उन्हें गुणश्रेणिरूपसे उपशमाता है। क्रम यह है कि सब कृष्टियोंमें पल्योपमके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उसको प्रथम समयमें उपशमाता है। पुनः सब कृष्टियोंमें पल्योपमके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतने प्रदेशपुंजको दूसरे समयमें उपशमाता है, जो कि प्रथम समयमें उपशमाये गये द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है। इसी प्रकार तृतीयादि समयोंमें उपशमाये जानेवाले प्रदेशपुंजके विषयमें सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समय तक जानना चाहिये। इसी प्रकार जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण स्पर्धकगत नवकबन्ध अनुपशान्त

हैं उन्हें भी असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उपशमाता है। तथा बादरसाम्प्रायिक संयतके पहले जो स्पर्धकगत उच्छिष्टावलि वैसी ही रही आई थी उसको यहाँ स्तिबुकसंक्रम द्वारा कृष्टिरूपसे वेदन करता है।

सूक्ष्मसाम्प्रायिकसंयत दूसरे समयमें किन कृष्टियोंका वेदन करता है इसका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि—

(१) एक तो प्रथम समयके उदयसे दूसरे समयका उदय अनन्तगुणा हीन होता है, इसलिये प्रथम समयमें उदीर्ण होनेवाली कृष्टियोंके सबसे उपरिम भागसे लेकर नीचे असंख्यातवें भागको छोड़ता है। अर्थात् छोड़ी गई उन कृष्टियोंका वेदन न कर अधस्तन बहुभागप्रमाण कृष्टियोंका दूसरे समयमें वेदन करता है।

(२) दूसरे प्रथम समयमें नीचेकी जिन कृष्टियोंका वेदन नहीं किया था उनमेंसे असंख्यातवें भागप्रमाण अपूर्व कृष्टियोंका वेदन करता है। तात्पर्य यह है कि प्रथम समयमें उदीर्ण कृष्टियोंसे दूसरे समयमें उदीर्ण कृष्टियाँ असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष हीन होती हैं।

इसी प्रकार तीसरे समयसे लेकर सूक्ष्मसाम्प्रायिक संयतके अन्तिम समय तक जानना चाहिये।

इस प्रकार इस विधिसे सूक्ष्मसाम्प्रायिक संयतके कालका पालन करता हुआ जब उसके कालमें आवलि और प्रत्यावलि शेष रहे तब आगाल और प्रत्यागालकी व्युच्छित्तिकर तथा एक समय अधिक एक आवलि शेष रहनेपर जघन्य स्थिति-उदीरणा करके क्रमसे सूक्ष्म साम्प्रायिकके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। उस समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्त रायका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण, नाम और गोत्रका सोलह मुहूर्तप्रमाण और वेदनीयका चौबीस मुहूर्तप्रमाण स्थितिवन्ध होता है।

तदनन्तर समयमें सम्पूर्ण मोहनीय कर्म उपशान्त रहनेसे यह जीव उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त होता है। यहाँ चारित्रमोहनीयका बन्ध, उदय, संक्रम, उदीरणा, अपकर्षण और उत्कर्षण आदि सभी करणोंकी अपेक्षा उपशम रहता है। अर्थात् उपशान्तकषाय गुणस्थान में चारित्रमोहनीयसम्बन्धी सभी कर्मपुंज तदवस्थ रहता है, उसमें किसी भी प्रकारका फेर बदल नहीं होता। अतः यहाँ अन्तर्मुहूर्त कालतक कषायोंका उदय नहीं होनेसे अशेष रागक' अभाव होकर अत्यन्त स्वच्छ वीतरागपरिणाम होता है। और इसलिए उस गुणस्थानमें वृद्धि हानिके बिना एकैरूप अवस्थित यथाख्यातविहारशुद्धि संयमसे युक्त वीतरागपरिणामका यह जीव भोक्ता होता है।

इस गुणस्थानमें जो जो कार्य होते हैं उनका विवरण इस प्रकार है—

(१) यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप आयाम इस गुणस्थानके कालवे संख्यातवें भागप्रमाण होता है जो कि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किये गये गलित शेष गुण श्रेणिनिक्षेपके इस समय प्राप्त हुए शीर्षसे संख्यातगुणा होता है।

(२) यतः इस गुणस्थानमें अवस्थित परिणाम होता है अतः यहाँ गुणश्रेणिनिक्षेपक आयाम भी अवस्थित रहता है और उसमें होनेवाला प्रदेशविन्यास भी अवस्थित होता है।

(३) जिस समय इस जीवके इस गुणस्थानके प्रथम समयमें निक्षिप्त गुणश्रेणिनिक्षेपकी अग्रस्थितिका उदय होता है उस समय ज्ञानावरणादि कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेश उदय होता है

(४) इस गुणस्थानवाला जीव केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अनुभागके उदयकी अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है ।

(५) निद्रा और प्रबुद्धा अभुव उदयवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिये इनका कदाचित् वेदक होता है और कदाचित् वेदक नहीं होता । जब तक वेदक होता है तब तक अवस्थित वेदक होता है ।

(६) पाँच अन्तरायोंके उदयका भी अवस्थित वेदक होता है । यद्यपि इन प्रकृतियोंकी क्षयोपशमलब्धि सम्भव होनेसे नीचे छह वृद्धि और छह हानिरूपसे इनका उदय सम्भव है । परन्तु यहाँपर इनका अवस्थित ही उदय परिणाम होता है ।

(७) इतना अबश्य है कि लब्धिकर्मांशरूप जो शेष चार ज्ञानावरण और तीन दर्शनावरण कर्म हैं उनका अनुभागोदय वृद्धि, हानि और अवस्थान तीनों प्रकारका होता है । यद्यपि पाँच अन्तराय कर्म भी लब्धिकर्मांशस्वरूप होते हैं पर उनपर यह नियम लागू नहीं होता । आशय यह है कि इस गुणस्थानमें मतिज्ञानादि चार ज्ञानोंमें और चक्षुदर्शनादि तीन दर्शनोंमें तारतम्य पाया जाता है, इसलिए मतिज्ञानावरणादि चार ज्ञानावरणों और चक्षुदर्शनावरणादि तीन दर्शनावरणोंके अनुभाग उदयमें भी यहाँ तारतम्य पाया जाता है । हाँ जो सर्वावधिज्ञानी इस गुणस्थानको प्राप्त होते हैं उनके अवधिज्ञानावरणका अनुभागोदय अवस्थित होता है । इसी प्रकार यथासम्भव अन्य कर्मोंकी अपेक्षा भी घटित कर लेना चाहिए ।

(८) इस गुणस्थानमें नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका उदय होता है उनमें परिणाम-प्रत्यय कर्म हैं—तैत्तिरीयशरीर, कामणशरीर, वर्ण, गन्ध, रस, शीत-उष्ण-स्निग्ध-रूक्षस्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, सुभग, आवेय, यशःकीर्ति और निर्माण तथा गोत्रकर्ममें उरुचगोत्र । इस प्रकार ये जितने परिणामप्रत्यय कर्म हैं उनका अनुभागोदय भी अवस्थित ही होता है । यहाँपर वेदे जानेवाले भवप्रत्यय सातावेदनीय आदि अघातिकर्म हैं उनका उदय छह वृद्धि और छह हानिको लिये हुए होता है । इस प्रकार कषायोंके उपशामकका यह विधान है ।



विषय-सूची

दर्शनमोहक्षपणा अर्थाधिकार

विषय.	पृ. सं.	विषय.	पृ. सं.
मंगलाचरण	१	दूसरी सूत्र गाथाके अनुसार प्ररूपणा	१७
दर्शनमोहक्षपणाके विषयमें पांच सूत्रगाथाओं- के सर्वप्रथम कहनेकी सूचना	१	तीसरी " " "	२०
प्रथम सूत्रगाथा	२	चौथी " " "	२१
इसके अन्तर्गत तीर्थकर केवली, सामान्य केवली और श्रुतकेवलीके पादमूलमें उक्त सम्यक्त्वकी प्राप्तिका सकारण निर्देश	२	अपूर्वकरणमें दो जीवोंके स्थिति सत्कर्म और स्थितिकाण्डकके सदृश और विशेषाधिक होनेका सकारण निर्देश	२३
धायिकसम्यक्त्वका निष्ठापक कौन होता है इसका खुलासा	३	एक अपेक्षा दूसरेके संख्यातगुणे होनेका सकारण निर्देश	२६
द्वितीय सूत्रगाथा	४	दोनेके स्थिति सत्कर्मके तुल्य होनेका सकारण निर्देश	२७
सूत्रगाथामें मिच्छतत्वेदणीयपदसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व दोनोंका ग्रहण किया गया है इसका खुलासा	५	पुनः प्रकारान्तरसे दो जीवोंके एककी अपेक्षा दूसरेके स्थितिसत्कर्मके स्तोक होने और संख्यातगुणे होनेका सकारण निर्देश	२९
तृतीय सूत्रगाथा	७	अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किसके स्थिति- काण्डकका क्या प्रमाण होता है इसका खुलासा	३१
गाथामें आये हुए 'सिया' पदका स्पष्टीकरण चतुर्थ सूत्रगाथा	८	वही स्थिति बन्धापसरणका प्रमाणनिर्देश	३२
पञ्चम सूत्रगाथा	९	वही अनुभागकाण्डकका प्रमाणनिर्देश	३२
उक्त सूत्रगाथाओका निर्देश करनेके बाद प्रकृत विषयके स्पष्टीकरणकी प्रतिज्ञा	१०	यहाँ गुणश्रेणि किस प्रकारकी होती है इसका निर्देश	३३
असंयतसम्यग्दृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा किस विधिसे होती है इसका खुलासा	११	अपूर्वकरणके द्वितीय समयमें स्थितिकाण्डक आदिका विचार	३४
उक्त क्षपणाके लिए तीन प्रकारके करण परिणामोका निर्देश	१२	एक स्थितिकाण्डकके कालमें हजारो अनु- भागकाण्डक होते हैं परन्तु एक स्थिति- काण्डक तथा स्थितिवन्धका काल समान है इसका निर्देश	३५
उक्त तीनों करणोंके लक्षण दर्शनमोहके उपशामकके समान जाननेकी सूचना	१५	प्रथमस्थितिकाण्डकसे आगेके सब स्थितिकाण्डक उत्तरोत्तर विशेषहीन होते हैं	३६
अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जिन चार गाथाओका कथन करना चाहिए उनकी उल्लेखपूर्वक सूचना	१५	उक्त विधिसे प्रथम स्थितिकाण्डकसे अपूर्व- करणके कालके भीतर संख्यातगुणा हीन भी स्थितिकाण्डक होता है	३६
उक्त चार सूत्रगाथाएँ चारित्रमोहक्षपणामें अन्तर्दीपकभावसे निबद्ध हैं इत्यादि विषयका विशेष खुलासा	१६	अपूर्वकरणके कालमें सब स्थितिकाण्डक संख्यात हजार होते हैं	३७
उक्त चार सूत्र गाथाओंमेंसे प्रथम सूत्र गाथाके अनुसार प्ररूपणा	१६	जहाँ एक स्थितिकाण्डक उत्कीर्णकाल समाप्त हांता है वहाँ उस सम्बन्धी	

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ सं.
अनुभागकाण्डक उत्कीरणकाल और स्थितिबन्ध काल उसके साथ समाप्त होता है	३७	उपदेशोका निर्देश	५४
अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे स्थितिसत्कर्म आदिके अल्पबहुत्वका निर्देश	३८	जब सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन हो जाता है तब उसका जघन्य स्थितिसंक्रम और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है तथा सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है इसका निर्देश	५५
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे अपूर्व स्थितिकाण्डक आदिका निर्देश	३८	पहले सम्यक्त्वकी स्थितिके विषयमे दो उपदेशोका निर्देश किया उनमेसे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मको अपेक्षा विचार करनेका निर्देश	५६
गुणश्रेणि और गुणसंक्रमका निर्देश	३९	सम्यक्त्वकी उक्त स्थिति शेष रहनेपर जीवको दर्शनमोहक्षपक यह सज्ञा प्राप्त होती है इसका निर्देश	५८
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे दर्शनमोहनीय सम्बन्धी अप्रशस्त उपशामना आदिकी व्युच्छित्ति	४०	यही यह सज्ञा क्यों प्राप्त हुई इसका टीकामे विशेष स्पष्टीकरण	५८
वही सब कर्मके स्थितिसत्कर्मका विचार	४१	प्रकृतमे स्थितिकाण्डकके प्रमाणका निर्देश	५९
अनिवृत्तिकरणका संख्यात बहुभाग जानेपर दर्शनमोहका स्थितिसत्कर्म क्रमसे कितना रहता है इसका खुलासा	४१	अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर यहाँ तक जो गुणश्रेणिनिक्षेप होता है उसमे गुणकार परिवर्तन नहीं है इसका स्पष्टीकरण	६०
दर्शनमोहका पत्रोपमप्रमाण या इससे कम स्थितिसत्कर्म रहने पर स्थितिकाण्डक कितना होता है इसका निर्देश	४३	सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके रहने पर अनुभाग अपवर्तनसम्बन्धी एक क्रियापरिवर्तन	६२
दूरापकृष्टिप्रमाण स्थिति रहने पर स्थितिकाण्डक कितना होता है इसका विचार	४४	अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होनेरूप दूसरा क्रियापरिवर्तन	६३
सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोकी उदीरणा कहां पर होती है इसका विचार	४८	सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थितिके ऊपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके द्रव्यका निक्षेप करते समय किस प्रकार गुणाकार परिवर्तन होता है इसका निर्देश	६४
जब मिथ्यात्वका आवलि बाह्य सब द्रव्य क्षपणाके लिये ग्रहण किया तब सन्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी स्थिति कितनी रहती है इसका निर्देश	४९	यह गुणाकारपरिवर्तन द्विचरमस्थितिकाण्डके अन्तिम समय तक होता है	७०
मिथ्यात्वका जघन्य सक्रम तथा उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म कहां पर होता है इसका विचार	५१	प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश	७१
मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्कर्म कहां पर होता है इसका निर्देश	५२	सम्यक्त्व के अन्तिम स्थितिकाण्डकके घात के लिए प्रथम समयमें ग्रहण करने पर प्रदेशपुंजका निक्षेप किस प्रकार होता है इसका निर्देश	७३
जब मिथ्यात्वका सर्वसक्रम होता है तब सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका स्थितिकाण्डक कितना होता है इसका निर्देश	५३		
सम्यग्मिथ्यात्वके आवलि बाह्य सर्व द्रव्यकी क्षपणा कहां होती है इसका निर्देश	५३		
सम्यक्त्वके स्थितिसत्कर्मके विषयमें दो			

विषय	पृ सं	विषय	पृ सं
यहाँ जो स्थिति गुणश्रेणिशीर्षं बनती है		खुलासा	८३
इसके निर्देशपूर्वक विशेष खुलासा	७५	गुणकारपरवृत्तिके विषयमे स्पष्टीकरण	८४
अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतन होनेपर कृत- करणीय संज्ञा प्राप्त होती है	८१	कृतकरणीयका मरण होने पर कब कहाँ जन्म होता है इसका निर्देश	८६
इस कालमे मरण और लेश्यापरिवर्तन भी हो सकता है इसका विशेष खुलासा	८१	उक्त जीवके पीतादि लेश्याओमे रहनेके कालनियमका निर्देश	८८
इसका परिणाम संविलष्ट या विशुद्ध किसी प्रकारका भी हो, उदीरणा असख्यात समय- प्रबद्धोंकी होती है इसका खुलासा	८२	प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश	९०
इसके उत्कृष्ट उदीरणा भी उदयके असं- ख्यातवं भागप्रमाण होती है इसका		सूत्र गाथाओके अनुसार विशेष कथनका निर्देश	१०१
		उसमे भी पाँचवी गाथाके आधारसे सत्, संख्या आदिको जाननेकी सूचना	१०१
सयमासंयम अर्थाधिकार			
मंगलाचरण	१०५	अपूर्वकरणमे होनेवाले कार्यविशेषोंका निर्देश	१२०
इस अनुयोगद्वारके विषयमे एक सूत्रगाथा निबद्ध है इसका निर्देश	१०५	यहाँ सयमासयमपरिणामनिमित्तक गुण- श्रेणिका निषेध	१२१
वह एक सूत्रगाथा	१०६	अपूर्वकरणके अनन्तर समयमे सयमा- सयमलब्धिकी प्राप्ति	१२३
प्रकृतमें उपयोगी शका-समाधान	१०६	संयमासयमलब्धिके प्राप्त होने पर भी स्थितिकाण्डकघात आदि कार्य होते हैं इसका निर्देश	१२४
उक्त सूत्र गाथाका स्पष्टीकरण	१०७	सयमासयमसम्बन्धी गुणश्रेणिका विधान	१२४
सूत्रगाथामे आये हुए वृद्धावृद्धि पदका खुलासा	१०८	यहाँ गुणश्रेणि अवस्थितप्रमाणवाली होती है इसका खुलासा	१२५
प्रकृतमें उपशामना पदका खुलासा	१०८	अध.प्रवृत्तसयतासयत होने पर स्थिति- काण्डकघात आदि कार्य नहीं होते इसका निर्देश	१२६
प्रकारान्तरसे सयमासयमलब्धिका खुलासा करते हुए उसके मुख्य तीन भेदोंका स्पष्टीकरण	१११	संयमासयमसे पतन होने पर पुनः उसकी प्राप्ति कब कैसे होती है इसका विचार	१२७
वृद्धावृद्धिपदका प्रकारान्तरसे खुलासा	१११	सयमासयम रहने तक गुणश्रेणि होते रहनेका नियम	१२९
उक्त सूत्रगाथाके अनुसार विशेष व्याख्या की प्रतिज्ञा	११३	परिणामोंके अनुसार गुणश्रेणिमे तार- तम्यका निर्देश	१३०
संयमासयमलब्धिकी प्राप्तिमे दो ही कारण होते हैं, अनिवृत्तिकरण नहीं होता इसका खुलासा	११३	संयमासयमसे गिरकर पुन. किस अवस्था मे दो करणपूर्वक उसे प्राप्त करना है इसका निर्देश	१३१
संयमसंयमलब्धिके प्राप्त होनेके पूर्व वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके होनेवाले कार्य विशेष	११४	प्रकृतमे उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश	१३२
अधःप्रवृत्तकरणमे क्या कार्य विशेष होते हैं इसका खुलासा	११६		
अधः प्रवृत्तकरणमे होनेवाली तीव्र- मन्दतासम्बन्धी अल्पबहुत्व	११७		

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
संयतसंयतविषयक सत्, संख्या आदि आठ अनुयोगद्वारोंको जाननेकी सूचना	१३७	तीव्र-मन्दताकी अपेक्षा लब्धिस्थान	
प्रकृतमें तीव्र-मन्दताविषयक स्वामित्वका निर्देश	१३९	विषयक अल्पबहुत्व	१४९
तथा एतद्विषयक अल्पबहुत्वका निर्देश	१४१	संयतासंयत किस कषायका वेदन करता है और किसका नहीं करता है	
संयतासंयतके लब्धिस्थानोंका निर्देश	१४१	इसका स्पष्टीकरण	१५३

चारित्रलब्धि अर्थाधिकार

मंगलाचरण	१५७	संज्ञा होती है इसकी सकारण सूचना	१६६
चारित्रलब्धि अर्थाधिकारमें संयमासंयम-लब्धिमें अर्थाधिकारमें निबद्ध सूत्र-गाथाको जाननेकी सूचना	१५७	तदनन्तर चारित्रलब्धिमें यथासम्भव वृद्धि हानि होनेका सकारण निर्देश	१६७
अथ प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें प्ररुपणयोग्य चार गाथाओंका निर्देश	१५८	प्रकृतमें उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश जो असंयमी होकर पुन संयमको प्राप्त करता है उसके सम्बन्धमें स्पष्टीकरण	१६८
जो वेदकप्रयोग्य मिथ्यादृष्टि या वेदक-सम्यदृष्टि संयमको प्राप्त करता है उसकी अपेक्षा क्रमसे प्रथम सूत्र-गाथाका विशेष स्पष्टीकरण	१५४	चारित्रलब्धि सम्पन्न जीवोंके आठ अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	१७०
दूसरी सूत्रगाथाका विशेष खुलासा	१६०	चारित्रलब्धिसम्बन्धी तीव्र-मन्दता	१७१
तीसरी सूत्रगाथाका " " "	१६२	विषयक स्वामित्व और अल्पबहुत्व	१७४
चौथी " " "	१६३	तीन प्रकारके चारित्रलब्धिस्थानोंका नाम निर्देश	१७४
संयमको प्राप्त होनेवालेकी उपक्रमविधि		प्रतिपातस्थानका स्वरूपनिर्देश	१७५
व्याख्यानकी प्रतिज्ञा	१६४	उत्पादकस्थानका " "	१७६
उक्त जीवके प्रारम्भके दो करण होनेका निर्देश तथा उनका विवेचन पहलेके समान जाननेकी सूचना	१६४	लब्धिस्थान किन्हें कहते हैं इसका निर्देश	१७७
चारित्रलब्धिकी प्राप्ति होने पर अन्तर्मुहूर्त काल तक उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होते जाननेका निर्देश	१६५	उक्त-लब्धिस्थानोंके अल्पबहुत्वका निर्देश	१७८
इसकी एकान्तानुवृद्धिके कालमें अपूर्व करण		तीव्र-मन्दताद्वारा संयमविशेषविषयक अल्पबहुत्वका निर्देश	१७९
		चूणिसूत्रों द्वारा उक्त अल्पबहुत्वका निर्देश	१८२
		उपशान्तकषाय आदि सभी वीतराशोंका चारित्रलब्धिस्थान एक प्रकारका होता है इस विषयका स्पष्टीकरण	१८७

चारित्रमोहनीय उपाशामना अर्थाधिकार

मंगलाचरण	१८९	चौथी " " "	१९३
चारित्रमोहनीय उपाशामना अर्थाधिकारमें सर्वप्रथम सूत्रगाथाओंको जाननेकी सूचना	१९०	पाँचवी " " "	१९४
प्रथम सूत्रगाथाका निर्देश	१९१	छठे " " "	१९४
दूसरी " " "	१९१	सातवीं " " "	१९५
तीसरी " " "	१९२	आठवीं " " "	१९५
		उपक्रमपरिभाषाका निर्देश	१९६

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ. सं.
वेदकसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी विसं- योजना किये बिना उपशमश्रेणी पर आरोहण नहीं करता इसका निर्देश	१९७	यह जीव कितने कालतक विशुद्धि द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है इसका निर्देश	२०८
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका निर्देश तीन करणोका नामनिर्देश	१९७	पश्चात् यह जीव भी प्रमत्त-अप्रमत्त गुणस्थानोंमें परिवर्तन करता हुआ	
अध प्रवृत्तकरणमें जो कार्य नहीं होते उसका खुलासा	१९८	असातावेदनीय आदिका बन्ध करता है इसका निर्देश	२०९
अपूर्वकरणमें होनेवाले कार्य विशेषोका निर्देश	१९९	पश्चात् कषायोको उपशमानेके लिये अध प्रवृत्तकरण परिणाम करता है	२०९
अनिवृत्तिकरणमें होनेवाले कार्यविशेषो का निर्देश	२००	इसका निर्देश	२०९
प्रकृतमें अन्तःकरण नहीं होता इसका निर्देश	२००	अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और दर्शनमोहनीयको उपशामना करने- वाले इस जीवन स्थिति अनुभाग- सत्कर्मकी अपेक्षा किन कर्मोंका नाश	
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेके बाद यह जीव प्रमत्तसयत होकर असातावेदनीय आदिका बन्ध करता है इसका निर्देश	२००	किया इसका निर्देश	२१०
तत्पश्चात् वह दर्शनमोहनीयको उपशा- मना करता है इसका निर्देश	२०१	इसके भी अध प्रवृत्तकरणमें स्थितिघात आदि कार्य नहीं होकर क्या होता है इसका निर्देश	२१२
यह दर्शनमोहनीयको उपशामनाके लिये तीन करण करता है इसका निर्देश	२०२	अध प्रवृत्तकरण के अन्तिम समयमें प्ररूपणा योग्य चार सूत्रगाथाओं- का निर्देश	२१४
यहाँ अपूर्वकरणसे स्थितिघात आदि सब कार्य होते हैं इसका निर्देश	२०३	प्रथम सूत्रगाथाका निर्देश	२१४
अपूर्वकरणके प्रथम समयमें सख्यात- गुणा होन होता है इसका निर्देश	२०३	दूसरी सूत्रगाथाका निर्देश	२१५
अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुभाग जाने पर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रवृद्धो की उदीरणाका निर्देश	२०४	तीसरी सूत्रगाथाका निर्देश	२१५
पश्चात् अन्तर्मुहूर्तवाददर्शनमोहनीयका अन्तर करनेके साथ वहाँ होनेवाले कार्य विशेषोंका निर्देश	२०५	चौथी सूत्रगाथाका निर्देश	२१६
सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके क्षीण होने पर इस जीव के मिथ्यात्वके प्रदेशपुंजका सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें विध्यातसंक्रम होता है गुणसंक्रम नहीं इसका निर्देश	२०५	उन्हीं चार सूत्रगाथाओंके अर्थका विघोष खुलासा	२१८
		अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थिति- काण्डक आदि कार्य जिसरूपमें आवश्यक होते हैं उनका निर्देश	२२२
		नियमानुसार स्थितिकाण्डकपृथक्त्व होने पर निद्रा-प्रचलाकी यहाँ बन्ध- व्युच्छित्ति होती है इसका निर्देश	२२५
		पश्चात् अन्तर्मुहूर्त जाने पर परध्व- सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बन्धुव्युच्छित्ति होती है इसका निर्देश	२२६
	२०७	प्रकृतमें उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश	२२७

विषय	पृ. सं	विषय	पृ सं
अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थिति- काण्डक आदि एक साथ समाप्त होते हैं इसका निर्देश	२२८	का निर्देश	२४०
उसी समय हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी बन्ध व्युच्छित्ति होती है इसका निर्देश	२२८	पुन. उक्त विधिसे प्राप्त अन्य अल्पबहुत्व का निर्देश	२४१
उसी समय छह नोकपायोकी उदय- व्युच्छित्ति होती है इसका निर्देश	२२८	यहाँ अन्य कर्मोंकी अपेक्षा मोहनोयकर्म- का स्थितिबन्ध युगपत् कितना घट जाता है इसका सकारण निर्देश	२४२
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थिति- काण्डक आदिका प्रमाण निर्देश	२२९	इस अवस्थामें प्राप्त एतद्विषयक अल्प- बहुत्वका निर्देश	२४३
उसी समय सभी कर्मोंके अप्रशस्त्र उप- शामनाकरण आदिकी व्युच्छित्तिका निर्देश	२३१	पुन. उक्त विधिसे प्राप्त अन्य अल्पबहुत्व- का निर्देश	२४४
वही आयुक्रमके सिवाय शेष कर्मोंके स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका निर्देश	२३१	" "	२४४
वही होनेवाले स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश	२३०	" "	२४७
पुन. आगे कब कितना स्थितिबन्ध रहता है इसका निर्देश	२३२	उक्त विधिसे स्थितिबन्ध घटते हुए जब सब कर्मोंका पल्योरमके असख्यातत्वे भागप्रमाण होता है तब आगे उदीरणा किननी होती है इसका निर्देश	२४९
तत्पश्चात् कब किस कर्मका कितना स्थितिबन्ध रहता है इसका निर्देश	२३२	आगे उत्तरोत्तर सख्यात हजार स्थिति- बन्धापसरण होने पर किन कर्मोंका किस क्रमसे देशघातिकरण होता है इसका निर्देश	२४९
इस अवस्थामें स्थितिबन्धमें अपसरण कितना होता है इसका निर्देश	२३५	इसके पहले सप्तर अवस्थामें इन कर्मोंका कैसा बन्ध होता रहा इसका निर्देश	२५२
नाम-मोत्रका पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध होने पर तदन्तर सख्यातगुणा हीन स्थितिबन्ध होता है इसका निर्देश	२३५	प्रकृतमें उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश	२५२
परन्तु शेष कर्मोंके स्थितिबन्धमें अप- सरण पूर्वोक्त ही होता है इसका सकारण निर्देश	२३६	तत्पश्चात् सख्यात हजार स्थितिबन्धा- पसरण होने पर अन्तरकरण करता है इसका निर्देश	२५२
आगे किस कर्ममें किस विधिसे स्थिति- बन्धका अपसरण होता है इसका खुलासा	२३६	बारह कषाय और नौ नोकपायोका अन्तरकरण करता है इसका निर्देश	२५३
आयुक्रमकी छोड़कर शेष कर्मोंका स्थिति- बन्ध पल्योपत्रके सख्यातत्वे भाग प्रमाण कब होता है इसका निर्देश	२३८	जिस सज्वलन तथा जिसवेदका उदयहोता है उसकी अन्तर्भूत प्रमाण प्रथम स्थिति करता है इसका निर्देश	२५३
प्रकृतमें उपयोगी अल्पबहुत्वका निर्देश	२३९	अन्तरके लिए कितनी स्थितियोंको ग्रहण करता है इसका निर्देश	२५४
पश्चात् हजारों स्थितिबन्धापसरण होने पर एतद्विषयक उपयोगी अल्पबहुत्व		शेष ११ कषाय और ८ नोकपायों की आवलिप्रमाण प्रथम स्थिति करता है इसका निर्देश	२५४

विषय	पृ. सं.	विषय	पृ सं
इन सब कर्मोंका ऊपर समस्थिति अन्तर होता है और नीचे विषम स्थिति अन्तर होता है इसका खुलासा	२५४	नोकषायोंके उपशान्त होने पर किस कर्मका कितना स्थितिबन्ध होता है इसका निर्देश	२८५
अन्तर करण करते समय स्थितिबन्ध आदिका विचार	२५५	आगाल और प्रत्यागाल कब व्युच्छिन्न होते है इसका निर्देश	२८५
अन्तरकरण क्रिया कितने कालमे समाप्त होती है इसका अन्य बातोंके साथ निर्देश	२५६	अन्तरकरण होनेके बाद छह नोकषायोंका द्रव्य पुरुषवेदमे संक्रमित नहीं होता	२८६
किन कर्मोंकी अन्तरकी स्थितियोंके प्रदेशपुंज का किस विधिसे अन्यत्र निक्षेप होता है इसका निर्देश	२५६	अवेद भागके प्रथम समय मे पुरुषवेदका जितना द्रव्य अनुपशान्त रहता है उसका निर्देश	२८७
अन्तरकरण क्रियाके समाप्त होने पर जो सात करण युगपत् आरम्भ होते हैं उनका निर्देश	२६३	पुरुषवेदके अनुपशान्त प्रदेशपुंजके उपशमाने औरसंक्रमित होने के क्रमका निर्देश	२८७
यहांसे बन्धप्रकृतियों की छह आवलि बाद उदीरणा बयो होती है इसका कल्पित उदाहरण द्वारा समर्थन	२६५	अवेदभागके प्रथम समयमे किस कर्मका कितना स्थितिबन्ध होता है इसका विचार	२८७
अन्तरकरण करनेके अनन्तर सर्वप्रथम नपुंसक वेदके उपशमाने का निर्देश	२७२	आगे तीन क्रोधोंके उपशमाने का प्रक्रिया के निर्देशके साथ अन्य बातों का खुलासा	२९०
उक्त कार्यके चालू रहते स्थितिबन्ध किस प्रकार होता है इसका निर्देश	२७५	संज्वलन क्रोधकी समयाधिक आवलि प्रमाण स्थितिके शेष रहने पर किस कर्मका कितना स्थितिबन्ध होता है इसका विचार	२९२
अनन्तर स्त्रीवेदके उपशमाने का निर्देश इस कार्यके चालू रहते कर्मोंका स्थितिबन्ध किस प्रकार होता है इसका निर्देश	२७८	क्रोध संज्वलनके दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध तीनों क्रोधोंके उपशान्त होने के बादमे उपशान्त होते हैं इस बातका निर्देश	२९३
इस स्थल पर स्थितिबन्धसम्बन्धी अल्प-बहुत्वका निर्देश	२८१	क्रोधसंज्वलनकी प्रथमस्थितिमे तीन आवलि शेष रहने तक ही दो क्रोध उसमे संक्रमित होते है उसके बाद नहीं इस तथ्यका निर्देश	२९३
स्त्रीवेदका उपशम होने पर सात नोकषायोंके उपशमानेका निर्देश	२८२	क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमे एक समय कम एक आवलि शेष रहने पर उसकी बन्ध और उदयव्युच्छिन्ति हो जाती है इस तथ्य का निर्देश	२९५
इस अवस्थामे स्थितिकाण्डक आदिका विचार	२८२	उसी समय मानसंज्वलन की प्रथम स्थितिका कारक और वेदक होता है इस बातका निर्देश	२९५
सात नोकषायोंके उपशमकालके मंख्यातवे भागके जाने पर किनकर्मोंका कितना स्थितिबन्ध होता है इसके निर्देश के साथ एतद्विषयक अल्प-बहुत्वका निर्देश	२८३		
पुरुषवेदके एक समय कम दो आवलि-प्रमाण नवकबन्धको छोड़कर सात			

	पृ सं.		पृ सं
प्रथम स्थितिको करते हुए उदय आदिमें प्रदेशनिक्षेपके क्रमका निर्देश	२९६	जब तीन प्रकारको मायाका अन्तिम समयवर्ती उपशामक होना है इसका निर्देश	३०३
जब तीन प्रकारके मानका उपशामक होता है इस बातका निर्देश	२९७	जब मायासंज्वलनकी बन्ध और उदय व्युच्छित्तिके कालका निर्देश	३०४
उस समय स्थितिबन्धका विचार	२९७	मायासंज्वलनकी एक समय कम एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिका लोभसंज्वलनरूपसे उदयका निर्देश	३०४
मानसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें तीन आवलि शेष रहने पर उसमें दो मान संक्रमित नहीं होते इस बातका निर्देश	२९८	तभी लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थिति करनेका निर्देश	३०४
उसकी प्रत्यावलि के शेष रहने पर आगाल-प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है इस बातका निर्देश	२९८	लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके प्रमाणका निर्देश	३०४
प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहने पर मानसंज्वलनके एक समय कम दो आवलि बन्धको छोड़कर तीन प्रकारके मानका प्रदेशतत्कर्म पूरा उपशान्त हो जाता है इसका निर्देश	२९९	तभी सब कर्मोंके स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश	३०५
उस समय सब कर्मोंका स्थितिबन्ध कितना होता है इस बातका निर्देश	२९९	लोभसंज्वलनको प्रथम स्थितिका अर्ध-भाग जब व्यतीत होता है उस कालका निर्देश	३०६
मायासंज्वलनकी प्रथम स्थिति करनेका निर्देश	३००	उस समय सब कर्मोंके स्थितिबन्धके प्रमाणका निर्देश	३०६
उस समयसे तीन प्रकारको मायाका उपशामक होता है इसका निर्देश	३००	इसी समय तक लोभसंज्वलनका अनुभाग स्पर्धकगत होता है इस बातका निर्देश	३०७
तब स्थितिबन्धका विचार	३००	आगे जघन्य अनुभागके नीचे अनुभाग कृष्टियोंके करनेका निर्देश	३०७
मानसंज्वलनका एक समय कम उदयावलिप्रमाण शेष रहने पर उसका मायाके उदयमें स्तिवुकसक्रमका निर्देश	३०१	प्रकृतमें बनेवाली कृष्टियोंके प्रमाणका निर्देश	३०८
मानसंज्वलनके दो समय कम दो आवलि प्रमाण समयप्रबद्धोंका उत्तने ही समयमें उपशमित होनेका निर्देश	३०२	प्रथमादि समयोंसे द्वितीयादि समयोंमें कितनी कृष्टियाँ बनती हैं इसका निर्देश	३०८
मायाके उपशमानेकी प्रक्रियाका निर्देश	३०२	कृष्टियोंमें प्रथमादि समयोंमें किस क्रमसे प्रदेश निक्षेप होता है इसका निर्देश	३०९
जब दो प्रकारकी माया मायासंज्वलनमें संक्रमित नहीं होती इसका निर्देश	३०३	कृष्टियोंमें प्रदेशविषयक अल्पबहुत्वाका निर्देश	३१०
मायासंज्वलनमें प्रत्यावलि शेष रहने पर आगाल-प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति हो जाती है इसका निर्देश	३०३	तीव्र-मन्दताकी अपेक्षा कृष्टियोंके अल्प-बहुत्वका निर्देश	३१४
		कृष्टिकरण काल कितना होता है इस बातका निर्देश	३१५
		कृष्टिकरण कालका सख्यात बहुभाग जाने	

पृ सं.		पृ सं.
	पर किस कर्मका कितना स्थिति- बन्ध होता है इसका निर्देश	३२७
३१५	कृष्टिकरण कालके अन्तिम समयमें किस कर्मका कितना बन्ध होता है इसका विचार	३२८
३१६	कौन कृष्टियाँ कब उदीर्ण होती है इसका निर्देश	३२०
३२१	कृष्टियोंके उपशमानेके क्रम और समय- का निर्देश	३२०
३२३	शेष नवकबन्धके उपशमानेका निर्देश	३२१
३२४	छोड़ी गई उदयावलिके कृष्टिरूपसे परिण- मन कर उदयको प्राप्त होनेका निर्देश	३२१
३२४	द्वितीय समयसे लेकर आगे किन कृष्टियो- का किस प्रकार विपाक होता है इसका निर्देश	३२१
३२४	सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमे कर्मों के स्थितिबन्धका निर्देश	३२२
३२५	उपशान्तकषायके कालमे परिणाम अवस्थित रहता है इसका निर्देश	३२२
	इस कालमे गुणश्रेणीका विचार	३२७
	प्रथम गुणश्रेणिशीर्षमे प्रदेशोदय कितना होता है इसका निर्देश	३२८
	उपशान्त कषायके कालमें केवलज्ञाना- वरण और केवलदर्शनावरणका अवस्थित वेदक होता है इसका निर्देश	३२०
	निद्रा-प्रचलका जब तक वेदक होता है अवस्थित वेदक होता है इसका निर्देश	३२१
	अन्तरायका अवस्थित वेदक होता है इसका निर्देश	३२१
	शेष लब्धि कर्मांगोंके उदयकी वृद्धि, हानि व अवस्थान सम्भव है इसका निर्देश	३२२
	परिणामप्रत्यय नाम और गोत्रके अनु- भागोदयका अवस्थितवेदक होता है इसका निर्देश	३२२

सिरि-जह्वसहाइरियविरइय-बुणिणसुत्तसमणिणदं
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइट्ठं
कसायपाहुडं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका
जयधवला

तत्थ

दंसणमोहक्खवणा णाम एगारसमो अत्थाहियारो

—:❀:—

खवियघणघाहकम्मं भवियजणाणंदकारिणं वीरं ।

णमियूण भणिस्सामो दंसणमोहस्स खवणविट्ठिं ॥ १ ॥

* दंसणमोहक्खवणाए पुब्बं गमणिज्जाओ पंच सुत्तगाहाओ ।

§ १. दंसणमोहोवसामणापरूवणाणंतरं जहावसरपत्ताए दंसणमोहक्खवणाए अत्थविहासा एण्हमडिकीरदि । तन्थ गुणहराइरियमुहकमलविणिग्गयाओ अणंतत्थ-गम्भिणाओ पच सुत्तगाहाओ पडिवद्दाओ । ताओ पुब्बमेत्थं परूवेयत्वाओ, ताहि

जिन्होंने अत्यन्त मान्द्र घातिकर्मोंका नाश कर दिया है और जो भव्य जीवोको आनन्द देनेवाले हैं ऐसे वीर जिनको नमस्कार कर आगे दर्शनमोह-क्षपणाविधिका कथन करेगे ॥ १ ॥

* दर्शनमोहकी क्षपणाके विषयमें सर्व प्रथम इन पाँच सूत्र गाथाओंकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

§ १ दर्शनमोहकी उपशमनाके कथनके अनन्तर इस समय यथा अवसर प्राप्त दर्शन-मोहकी क्षपणाके अर्थका विशेष व्याख्यान अधिकृत है । उसमें गुणधर आचार्यके मुखकमलसे निकली हुई, जिनमें अनन्त अर्थ गर्भित है, ऐसी पाँच सूत्रगाथायें प्रतिबद्ध हैं उनका यहाँ पर

विणा पयदत्थपरूवणाए णिण्णिबंधणत्तप्पसंगादो । संपहि ताओ कदमाओ त्ति आसंकाए पुच्छाणिद्देसमाह—

* तं जहा ।

§ २. सुगममेदं पुच्छावकं । एवं पुच्छाविसईकयाणं गाहासुत्ताणं जहाकममेसो सरूवणिद्देसो—

(५७) दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो तु ।

णियमा मणुसगदीए णिट्टवगो चावि सच्चत्थ ॥११०॥

§ ३. एदीए गाहाए दंसणमोहक्खवणापट्टवगस्स कम्मभूमिजमणुसविसयत्त-मवहारिदं दट्टुवं, अकम्मभूमिजस्स य मणुस्सस्स च दंसणमोहक्खवणासत्तीए अचंता-भावेण पडिसिद्धत्तादो । तदो सेसगदिपडिसेहेण मणुसगदीए चेव वट्टमाणो जीवो दंसणमोहक्खवणापाटवेइ । मणुसो वि कम्मभूमिजादो चेव, णाकम्मभूमिजादो त्ति घेत्तवं । कम्मभूमिजादो वि तित्थयर-केवलि-सुदकेवलीणं पादमूले दंसणमोहणीयं खवेदुमाटवेइ, णाणत्थ । किं कारणं ? अदिट्टुतित्थयरादिमाहप्पस्स दंसणमोहक्खवण-

सर्व प्रथम कथन करना चाहिए, क्योंकि उनका कथन किये बिना प्रकृत अर्थकी प्ररूपणाको निर्विबन्धपनेका प्रसंग प्राप्त होता है । अब वे पाँच सूत्रगाथाए कौनसी है ऐसी आज्ञाका हाने-पर पुच्छासूत्रका निर्देश करते हैं—

* वह जैसे ।

§ २ यह पुच्छावाक्य सुगम है । इस प्रकार पुच्छाके विषयभावको प्राप्त हुए गाथा-सूत्रोंका क्रमसे यह स्वरूपनिर्देश है—

कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्यगतिका जीव ही नियमसे दर्शनमोहकी क्षणा-का प्रस्थापक (प्रारम्भ करनेवाला) होता है । किन्तु उमका निष्ठापक (उसे सम्पन्न करनेवाला) सर्वत्र (चारों गतियोंमें) होता है ॥ ११० ॥

§ ३ इस गाथा द्वारा दर्शनमोहकी क्षणाका प्रस्थापक कर्मभूमिज मनुष्य ही होता है इस विषयका निश्चय किया गया है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि अकर्मभूमिज मनुष्यके दर्शनमोहकी क्षणा करनेकी शक्तिका अत्यन्त अभाव होनेके कारण वहाँ उसका निषेध किया गया है । इसलिये शेष गतियोंमें दर्शनमोहनीयकी क्षणाका प्रतिषेध होनेसे मनुष्यगतियों ही विद्यमान जीव दर्शनमोहकी क्षणाका प्रारम्भ करता है । मनुष्य भी कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ ही होना चाहिए, अकर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ नहीं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य भी तीर्थंकर जिन, केवली जिन और श्रुतकेवलीके पादमूलमें अवस्थित होकर दर्शनमोहनीयकी क्षणाका प्रारम्भ करता है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि जिसने तीर्थंकरआदिके माहात्म्यको नहीं अनुभव है उसके दर्शनमोहनीयकी क्षणाके कारणभूत करण-परिणामोंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

निबंधनकरणपरिणामाणमणुष्यत्तीदो । सुत्तेणाणुवइद्वो एसो अत्यविसेसो कधमुवलम्भइ
त्ति णासंकणिज्जं, 'जम्हि जिणा केवली तित्थयरो' त्ति सुत्तंतरबलेण तदुवलंभ-
सिद्धीए । एवं ताव दंसणमोहक्खवणापट्टवगस्स कम्मभूमिजमणुसविसयत्तमवहारिय
संपहि तण्णिट्टवगस्स चटुसु वि गदीसु अविसेसेण संभवपट्टुप्पायणट्टमिदमाह—
'णिट्टवगो चावि सव्वत्थ'—णिट्टवगो पुण सव्वासु वि गदीसु होइ, ण तस्स मणुस-
गइविसयणियमो अत्थि त्ति वुत्तं होइ । किं कारणमिदि चे ? मणुसगदीए आटत्त-
दंसणमोहक्खवगस्स कदकरणिज्जकालम्भंतरे समयविरोहेण काल काट्ठण पुव्वाउअ-
बंधवसेण चउण्हं गदीणं संकमणे विरोहाणुवलंभादो ।

शंका—सूत्रद्वारा अनुपदिष्ट इस अर्थविशेषकी उपलब्धि कैसे होती है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'जिस क्षेत्रमें जिन, केवली और तीर्थंकर होते हैं' इस अन्य सूत्रके बलसे उस अर्थविशेषकी उपलब्धि सिद्ध है ।

इस प्रकार सर्वप्रथम दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य है इस विषयका निश्चय करके अब उसका निष्ठापक सामान्यसे चारों ही गतियोंमें सम्भव है इस विषयका कथन करनेके लिए गाथासूत्रमें यह वचन आया है—'णिट्टवगो चावि सव्वत्थ' परन्तु निष्ठापक चारों ही गतियोंमें होता है, वह मनुष्यगतिका ही होता है ऐसा नियम नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि जिसने मनुष्यगतिमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ किया है उसका कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वके कालके भीतर परमागमके निर्देशानुसार सरकार पूर्वमें परभवसम्बन्धी आयुका बन्ध होनेके कारण चारों ही गतियोंमें जानेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयकी उपशमना कौन जीव करता है इसका निर्देश पहले कर आये हैं । यहाँ दर्शनमोहनीयकी क्षपणा कौन जीव करता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए बत-
लाया है कि पन्द्रह कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्था-
पक होता है । इस विषयका विश्लेषण खुलासा करते हुए जीवस्थान चूलिकामें वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि साधारणतः दुष्मसुषमा कालमें उत्पन्न हुए कर्मभूमिज मनुष्य ही दर्शनमोह-
नीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि कर्मभूमिमें भी जिस कालमें जिन, केवली और तीर्थंकर होते हैं, कर्मभूमियोंके उसी कालमें वहाँ उत्पन्न हुए मनुष्य दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं । किन्तु इसका एक अपवाद है वह यह कि कदा-
चित् सुषमादुषम कालमें उत्पन्न हुए मनुष्य भी दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं । वीरसेन स्वामीने यह तथ्य इस आधार पर फलित किया है कि इस अवसर्पिणी कालमें भगवान् आदिनाथ तीर्थंकर परम भट्टारक देव तीसरे सुषमादुषम कालके अन्तिम भागमें

(५८) मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओवट्टिदम्मि सम्मत्ते ।

खवणाए पट्टवगो जहण्णगो तेउलेस्साए ॥१११॥

§ ४. एसा गाढा दंसणमोहक्खवणापट्टवगो कम्हि उदेसे होइ चि पुच्छिदे

उत्पन्न होकर मोक्ष गये और उन्हींके विहार कालके समय एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर उत्पन्न हुए वर्द्धनकुमार आदिने दर्शनमोहनीयकी क्षपणा की। इससे स्पष्ट है कि दुषमसुषमा कालमें कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य जिन, केवली और तीर्थंकरके सद्भावमें तां दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते ही हैं पर कदाचित् जब सुषमादुषम कालके अन्तिम भागमें तीर्थंकर जन्म लेकर केवली होते हैं तब उस कालम उत्पन्न हुए मनुष्य भी दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं। अब यहाँ पर यह विचार करना है कि जां जीव दूसरे और तीसरे नरकांसे आकर तीर्थंकर होते हैं वे क्षायिक सम्यग्दृष्टि ता होते नहीं, फिर उन्हें इसकी प्राप्ति कैसे होती है ? इसका समाधान करते हुए वहाँ बोरसेन स्वामीने जां वतलाया ह उसका आशय यह है कि मुनिपद अंगीकार करनेके बाद वे स्वयं श्रुतकेवली जिन हो जाते हैं, इसलिए उनके दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेमें कोई बाधा नहीं आती। वहाँ 'दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदु-' इत्यादि सूत्रमें 'जिणा केवली तित्थयरा' ये तीन पद आये हैं सो सर्वप्रथम तो बोरसेन स्वामीने 'जिणा' और 'केवली' इन दोनों पदोंको 'तित्थयरा' पदका विशेषण स्वीकार कर यह अर्थ फलित किया है कि तीर्थंकर केवली जिनके पादमूलमें ही वहाँ (कर्मभूमिमें) उत्पन्न हुए मनुष्य ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं। किन्तु इस अर्थके स्वीकार करने पर सामान्य केवलियों और श्रुतकेवलियोंका ग्रहण नहीं होता, इसलिए उन्होंने उक्त तीनों पदोंको स्वतन्त्र रखकर 'जिन' पद द्वारा श्रुतकेवलियों और 'केवली' पद द्वारा सामान्य केवलियोंका भी ग्रहण कर यह वतलाया है कि इन तीनोंके पादमूलमें कर्मभूमिज मनुष्य दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करते हैं। यह तां हुआ इस बातका विचार कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ कौन जीव किस कालमें किसका निमित्त कर करता है। अब प्रश्न यह है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका निष्ठापन केवल कर्मभूमिज मनुष्य ही करता है या अन्यत्र भी निष्ठापन होता है सो इस प्रश्नका समाधान करते हुए वहाँ वतलाया है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका समाप्ति चारों गतियोंमें हो सकती है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव यदि बद्धयुष्क हां तो कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वको प्राप्तकर उसके कालमें मुख्यमान आयुके समाप्त होनेपर आगमके अनुसार यथा नियम मरकर चारों गतियोंमें उत्पन्न हो सकता है। इतना अवश्य है कि नरकमें यदि जन्म ले तो प्रथम नरकमें ही जन्मता है, देवोंमें यदि जन्म ले तो भवनत्रिकों और देवियोंको छोड़कर वैमानिकोंमें ही जन्मता है। तथा तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें यदि जन्म ले तो उत्तम भोगभूमिके पुरुषवेदी तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें ही जन्मता है।

मिथ्यात्ववेदनीय कर्मके सम्यक्त्वमें अपवर्तित (संक्रमित) कर देने पर जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाकी प्रस्थापक संज्ञाको प्राप्त करता है। और ऐसा जीव अर्थात् दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव जघन्यसे अर्थात् कमसे कम तेजोलेइयामें स्थित अवश्य होता है ॥ १११ ॥

§ ४ दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक जीव किस स्थानके प्राप्त होनेपर होता है

एदम्मि उद्देसे होदि त्ति पटुप्पायणद्वं तस्स तदवत्थाए लेस्साविसेसावहारणद्वं च आगया । तं जहा—‘मिच्छत्तवेदणीए कम्ममे ओवट्टिदम्मि सम्मत्ते’ एवं भणिदे मिच्छत्तपरिणामो वेदिज्जदि जस्स कम्मस्स उदएण तं कम्मं मिच्छत्तवेदणीयमिदि भण्णदे । तम्मि ओवट्टिदे सच्चसंक्रमेण संलुद्धे मते तत्तो प्पहुडि दंसणमोहक्खवणा-पटुवगववएसमेसो लहदि त्ति भणिदं होदि । तं पुण ओवट्टिदूण कत्थ संलुहदि त्ति भणिदे ‘सम्मत्ते’ सम्मत्तस्सुवरि संलुहदि त्ति णिहिद्वं । णेदं घट्ठे मिच्छत्तवेदणीयं कम्मं सच्चमोवट्टेदूण सम्मत्ते संपक्खिवदि त्ति । किं कारणं ? मिच्छत्तमोवट्टिय सम्मा-मिच्छत्तम्मि संपक्खिविय पुणो अंतोमुहुत्तेण सम्मामिच्छत्त सम्मत्ते संलुहदि त्ति णियमदंसणादो ? ण एस दोसो, मिच्छत्तं पडिच्छियूण द्विदसम्मामिच्छत्तस्सेव मिच्छत्तववएसं कादूण सुत्ते तहा णिहिद्वत्तादो । जइ वि अधापवत्तकरणपटममय-प्पहुडि पुव्वं पि दंसणमोहक्खवणाए पटुवगो चेव तो वि एत्थुद्देसे विसेसकिरियासु पयट्टत्तादो णिस्संसयं दंसणमोहक्खवणाए पटुवगो हांदि त्ति एसो एत्थ सुत्तस्स भावत्थो ।

एसी पृच्छा होने पर इस स्थानपर होता है इस बातका कथन करनेके लिये तथा उसके उस अवस्थामें लेश्याविशेषका अवधारण करनेके लिये यह गाथा आई है ।

‘मिच्छत्तवेदणीए कम्ममे ओवट्टिदम्मि सम्मत्ते’ ऐसा कहने पर जिस कर्मके उदयसे जीव मिथ्यात्व परिणामको वेदता है उस कर्मको मिथ्यात्व कर्म कहते हैं, उसके अपवर्तन होनेपर अर्थात् सर्वसंक्रम द्वारा संक्रमित होनेपर वहाँसे लेकर यह जीव दर्शनमोह-नीयकी क्षपणाका प्रस्थापक इस संज्ञाको प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । परन्तु उसका अपवर्तन कर किममे संक्रमित करता है ऐसा पूछने पर ‘सम्मत्ते’ अर्थात् सम्यक्त्व कर्मप्रकृतिमें संक्रमित करता है यह निर्देश किया है ।

शंका—मिथ्यात्व वेदनीयकर्मको पूरा अपवर्तन कर सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है यह घटित नहीं होता है, क्योंकि मिथ्यात्वका अपवर्तनकर सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त (संक्रमित) कर अनन्तर अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है ऐसा नियम देखा जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वका पूरा संक्रम करनेके बाद स्थित हुई सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी ही मिथ्यात्व संज्ञा रखकर गाथा सूत्रमें उस प्रकारसे निर्देश किया है ।

यद्यपि अवःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लेकर पहले ही दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्था-पक ही है तो भी इस स्थानपर विशेष क्रियाओंमें प्रवृत्त होनेके कारण निःसंशय दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक होता है यह यहाँ उक्त गाथासूत्रका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—इस गाथासूत्रमें सर्वप्रथम दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाले जीवकी प्रस्था-पक संज्ञा कहाँ जाकर प्राप्त होती है इस विषयका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि जब

§ ५. संपदि तदवत्याए वडुमाणस्स तस्स लेस्साभेदो को होदि ति पुच्छिदे तन्त्रिसेसावहारणट्टमिदधुवइडु—‘जहणणगो तेउलेस्साए’ ति । दंसणमोहक्खवणद्वाराए अब्भंतरे सच्चत्थेव वडुमाणसुहितिलेस्साणमण्णदरलेस्सिओ चैव होइ, णाणणलेस्सिओ, क्रिण्ह-णील-काउलेस्साणं विसोहिविरुद्धसहावाणमच्चंताभावेण तत्थ पडिमिद्धत्तादो । तदो सुट्टु वि मंदपरिणामे वडुमाणो दंसणमोहक्खवणो तेउलेस्सं ण बोलेदि ति एसो एदस्स भावत्थो ।

मिथ्यात्व प्रकृतिका सम्यक्त्व प्रकृतिमें पूरा संक्रमण हो लेता है तत्र जाकर यह जीव दर्शन-मोहकी क्षपणाका प्रस्थापक कहलाता है । इस पर दो प्रकार उत्पन्न होती है । प्रथम यह कि मिथ्यात्वके द्रव्यकी अन्तिम फालिका एकमात्र सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिमें ही संक्रमण होता है सम्यक्त्व प्रकृतिमें नहीं, ऐसी अवस्थामें उक्त गाथासूत्रमें जो यह कहा है कि मिथ्यात्व वेदनीय द्रव्यको पूरा अपवर्तनकर सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करना है, वह कहना कैसे बन सकता है ? दूसरी यह कि जब कि यह जीव अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक हो जाता है ऐसी अवस्थामें मिथ्यात्व मोहनीयके समस्त द्रव्यका संक्रम होनेपर अनन्तर समयसे लेकर गाथासूत्रमें इसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक क्यों कहा ? ये दो प्रश्न हैं । इनमेंसे प्रथम प्रश्नका समाधान करते हुए तो यह स्पष्टीकरण किया गया है कि मिथ्यात्वके द्रव्यका पूरा संक्रम करनेके बाद सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृतिकी मिथ्यात्व सज्ञा स्वीकार कर गाथासूत्रमें उक्त प्रकारसे विधान किया गया है । इस समाधानका आशय यह है कि मूलमें तो एक मिथ्यात्व प्रकृतिका ही बन्ध होता है और प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके पूर्वतक उसीको सत्ता और उदय-उदीरणा होती है । मिथ्यात्वके द्रव्यका तीन भागोंमें विभागीकरण तो प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेके प्रथम समयसे ही सम्यग्दृष्टिके होता है । अतः विचार कर देखा जाय तो सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृतिका मिथ्यात्वप्रकृति कहना बन जाता है । दूसरे प्रश्नके समाधानका आशय यह है कि मिथ्यात्वका पूरा संक्रम जहाँ यह जीव सम्यग्मिथ्यात्वम करता है वहाँसे इसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक प्रयोजन विशेषसे कहा गया है जैसे यह जीव अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक है ऐसा स्वीकार करना युक्ति-युक्त ही है ।

§ ५. अब उस अवस्थामें वर्तमान उसके कौनसा लक्ष्याभेद होता है ऐसी पृच्छा होनेपर लक्ष्याविशेषका अवधारण करनेके लिए यह वचन कहा है—‘जहणणगो तेउलेस्साए ।’ दर्शनमोहकी क्षपणा करते समय सर्वत्र ही वर्तमान शुभ तीन लक्ष्याओंमेंसे अन्यतर लक्ष्यावाला ही होता है, अन्य लक्ष्यावाला नहीं होता, क्योंकि विशुद्धिके विरुद्ध स्वभाववाली कृष्ण, नील और कापोत लक्ष्याआंका वहाँ अत्यन्त अभाव होनेसे निषेध किया है । अतः विशुद्धिरूप परिणामोंमेंसे जघन्यरूप मन्द परिणामोंमें विद्यमान दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव तेजो-लक्ष्याका उल्लंघन नहीं करता यह उक्त गाथासूत्रांशका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—जब यह जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है तबसे लेकर कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होने तक इस जीवके एक मात्र शुभ तीन लक्ष्याओंमेंसे कोई एक लक्ष्या ही पाई जाती है, क्योंकि अशुभ तीन लक्ष्याएँ विशुद्धिके विरुद्ध स्वभाववाली होनेके कारण उक्त जीवके उनमेंसे एक भी लक्ष्या नहीं पाई जाती । एकमात्र इसी तथ्यको स्पष्ट

(५८) अंतोमुहुत्तमद्धं दंसणमोहस्स णियमसा खवगो ।

खीणे देव-मणुस्से सिया वि णामाउगो बंधो ॥ ११२ ॥

§ ६. एत्थ गाथापुव्वद्वेण दंसणमोहकखवणापडिबद्धा अंतोमुहुत्तमेत्ती चेव होइ, ण तत्तो हीणाहियपरिमाणा त्ति जाणाविदं । तं कथं ? णियमसा णिच्छएणेव दंसणमोहकखवगो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं होइ, एत्तियमेत्तेण कालेण विणा तिकरण-पडिबद्धाए पयदकिरियाए अपरिसमत्तीदो । अंतोमुहुत्तमेत्तकालेण दंसणमोहकखवणं परिसमाणिय खीणदंसणमोहो होइण खइयसम्माइट्ठिभावे वट्टमाणस्स जीवस्स देव-मणुसगइसंजुत्तो चेव णामाउअबंधो होइ, णाण्णगइसंजुत्तो त्ति पदुप्पायणट्ठं गाहा-

करनेके लिए गाथासूत्रमें 'जहण्णगो तेउलेस्साए' यह वचन आया है । आशय यह है कि उक्त जीवके यदि सबसे मन्द विशुद्धिरूप भी परिणाम होगा तो वह तेजांलेइयाके जघन्य अंशरूप ही होगा, अशुभ तीन लेइयारूप नहीं । किन्तु शुभ तीन लेइयाओं-में से किसी एक लेइयाके पाये जानेका नियम कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होनेके पूर्वतक ही जानना चाहिए । कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होनेके बाद तो उसके अन्य तीन शुभ लेइयाओंमें से जिस प्रकार किसी एक लेइयाका पाया जाना सम्भव है उसी प्रकार कापोत लेइयाका पाया जाना भी सम्भव है, क्योंकि जिस जीवने नरकायुका बन्ध करनेके बाद क्षायिक सम्य-क्त्वकी प्राप्तिका उपक्रम किया है उसका कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वके कालके भीतर यदि मरण होता है तो ऐसी अवस्थामें उसके कापोत लेइया भी पाई जाती है, क्योंकि ऐसा जीव मरकर प्रथम नरकमें भी उत्पन्न हो सकता है और यह तभी बन सकता है जब इसके मरणके समय कापोतलेइया हो जाय ।

* यह जीव नियमसे अन्तर्मुहूर्त काल तक दर्शनमोहनीयका क्षपण करता है । तथा दर्शनमोहनीयके क्षीण हो जानेपर देव और मनुष्यसम्बन्धी नाम और आयुर्कर्म-की प्रकृतियोंका स्यात् बन्धक होता है ॥ ११२ ॥

§ ६. यहाँपर गाथाके पूर्वार्ध द्वारा दर्शनमोहनीयकी क्षपणासे सम्बन्ध रखनेवाला काल अन्तर्मुहूर्तमात्र ही होता है, उससे न तो हीन परिमाणवाला होता है और न अधिक परिमाणवाला ही यह ज्ञान कराया गया है ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि 'णियमसा' अर्थात् निश्चयसे ही दर्शनमोहकी क्षपणा अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण होती है, क्योंकि इतने कालके बिना तीन करणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली प्रकृत क्रिया सम्पन्न नहीं हो सकती । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा दर्शनमोहकी क्षपणाको समाप्त कर तथा क्षीण दर्शनमोहवाला होकर क्षायिक सम्यग्दृष्टिभावमें वर्तमान जीवके देव और मनुष्यगति संयुक्त ही नामकर्मकी प्रकृतियों और आयुर्कर्मका बन्ध होता है अन्य गति-संयुक्त नामकर्मकी प्रकृतियोंका और आयुर्कर्मका नहीं इस तथ्यका कथन करनेके लिए गाथाके उत्तरार्धका अवतार हुआ है ।

पच्छद्वस्सावयारो । तं कथं ? 'स्त्रीणे देव-मणुस्से' दंसणमोहणीए स्त्रीणे संते तदो देव-मणुसगइविसयाणं चैव णामाउअपयडीणं बंधो होइ, णाण्णगइविसयाणं । कुदो एवं चे ? सेसगइसंजुत्तणामाउअबंधसंताणस्स सम्मत्तपरसुणा पुव्वमेव छिण्णत्तादो । तदो तिरिक्ख-मणुस्सेसु वट्टमाणो खइयसम्माइट्ठी देवगइसंजुत्ताणं चैव णामाउआणं बंधओ होइ । देव-णिरयगदीसु च वट्टमाणो मणुसगइसंजुत्ताणं चैव तेसिं बंधगो होदि त्ति वेत्तव्वं । पयडिण्हिसो एत्थ सुगमो त्ति ण पुणो परूविज्जदे । एदेसिं च बंधो खइयसम्माइट्ठिमि सिया होइ त्ति जाणावणट्ठं सिया विसेसण कदं । सिया एदेमिं बंधगो होइ सिया च ण होइ त्ति । किं कारणं ? चरिमभवे वट्टमाणस्स आउअवधाणु-वलंभादो । णामपयडीण च सगपाओग्गविसये बंधुवरमे जादे तत्तो उवरि बंधाणुवलंभादो ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—'स्त्रीणे देव-मणुस्से' अर्थात् दर्शनमोहनीयके श्रीण होनेपर वहाँसे लेकर देव और मनुष्यगतिमस्वन्धी ही नाम और आयुकर्मकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है, अन्य गतिमस्वन्धी प्रकृतियोंका नहीं ।

शंका—ऐसा किम कारणसे ?

समाधान—क्योंकि शेष गतिसंयुक्त नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बन्धसन्तानका और आयुकर्मकी बन्धसन्तानका सम्यक्स्वरूपी परशुके द्वारा पहले ही छेद कर दिया है ।

अतः तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें वर्तमान क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव देवगति-संयुक्त ही नाम-कर्मकी प्रकृतियोंका और आयुकर्मका बन्धक होता है तथा देवगति और नरकगतिमें वर्तमान क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यगति संयुक्त उक्त प्रकृतियोंका बन्धक होता है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए । प्रकृतमें प्रकृतियोंका निर्देश सुगम है, इसलिए उनका प्ररूपण नहीं करते हैं । इन प्रकृतियोंका बन्ध क्षायिकसम्यग्दृष्टिके कदाचित् होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथासूत्रमे 'सिया' विशेषण दिया है । कदाचित् इनका बन्धक होता है और कदाचित् बन्धक नहीं होता, क्योंकि अन्तिम भवमें विद्यमान उक्त जीवके आयुकर्मका बन्ध नहीं पाया जाता और नामकर्मकी प्रकृतियोंके बन्धका अपने योग्य स्थानमें उपरम हो जाने पर उससे आगे बन्ध नहीं पाया जाता ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयकी क्षणणा तीन करणपूर्वक होती है और तीन करणोंमेंसे प्रत्येक करणका काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः यहाँ दर्शनमोहनीयकी क्षणणाका कुल काल अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण बतलाया है, क्योंकि तीनों करणोंके समुच्चयरूप कालका योग भी अन्तर्मुहूर्त ही है, इससे अधिक नहीं । जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्य और तिर्यञ्च है वह नामकर्मकी देवगतिके साथ बँधनेवाली प्रकृतियोंका तथा देवायुका ही बन्ध करता है, क्योंकि नरकगति-के साथ बँधनेवाली उक्त प्रकृतियोंका यद्यपि मनुष्य और तिर्यञ्च बन्ध करते हैं, पर इनका बन्ध उक्त जीवोंके मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही होता है आगेके गुणस्थानोंमें नहीं, इसलिए तो क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्यों और तिर्यञ्चोंके नरकगतिके साथ बँधनेवाली नामकर्मकी प्रकृतियों

(६०) खवणाए पट्टवगो जम्हि भवे णियमसा तदो अण्णे ।

णाधिच्छदि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥११३॥

§ ७. एदीए चउत्थगाहाए खीणदंसणमोहणीयस्स जीवस्स संसारावट्टाणकालो जइ वि सुट्ठ बहुगो होइ तो वि पट्टवणभवं भोत्तूणण्णेसिं तिण्हं भवाणमुवरि ण होइ त्ति पट्टप्पाइदं दट्टव्वं । तं कधं ? जम्हि भवे दंसणमोहकखवणाए पट्टवगो होइ तदो अण्णे तिण्णि भवे णाइच्छइ । किंतु तं भोत्तूणण्णेहिं भवेहिं खीणदंसणमोहणीयो णिच्छएणैव सध्वकम्मकलंकविप्पमुक्को होदूण णिव्वाणं गच्छदि त्ति सुत्तथसमुच्चयो ।

और आयुक्रमके बन्धका निषेध किया है । इसी प्रकार उक्त जीव (मनुष्य और तिर्यञ्च) तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिके साथ बँधनेवाली नामकर्मकी प्रकृतियोंका तथा तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका भी बन्ध करते हैं पर इत प्रकृतियोंका उक्त जीवोंके अधिकसे अधिक दूसरे गुणस्थान तक ही बन्ध हांता है, इसलिए क्षायिक सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चों और मनुष्योंके इन प्रकृतियोंके बन्धका निषेध किया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो तिर्यञ्च और मनुष्य क्षायिक सम्यग्दृष्टि है उनके तो एकमात्र देवगतिके साथ बन्धको प्राप्त होनेवाली नामकर्मकी प्रकृतियोंका और देवायुका ही बन्ध होता है, अन्य नामकर्मकी और आयुक्रमकी प्रकृतियोंका नहीं । अब रहे क्षायिक सम्यग्दृष्टि देव और नारकी सो इस अवस्थामें इनके एकमात्र मनुष्यगतिके साथ बँधनेवाली नामकर्मकी प्रकृतियोंका और मनुष्यायुका ही बन्ध होता है यह नियम है । इस प्रकार नियमको देखकर यहाँ नाम और आयुसम्बन्धी अन्य प्रकृतियोंके बन्धका निषेध किया है । परन्तु इन प्रकृतियोंका बन्ध तभी क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंके होता हो । ऐसा नहीं है । किन्तु जो तद्भव भोक्षगामी क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव है उनके तो आयुक्रमका बन्ध ही नहीं हाता, जो तद्भव भोक्षगामी उक्त जीव नहीं हैं उनके पूर्वोक्त विधिके अनुसार देवायु और मनुष्यायुका बन्ध होता है । नामकर्मके विषयमें यह नियम है कि गुणस्थान परिपाटोंके अनुसार जिस गुणस्थान तक नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका बन्ध आगममें बतलाया है वही तक उक्त क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंके यथायोग्य उन प्रकृतियोंका बन्ध जानना चाहिए, आगेके गुणस्थानोंमें नहीं ।

यह जीव जिस भवमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ करता है उससे अन्य तीन भवोंको वह नियमसे उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात् नियमसे मुक्त होता है ॥ ११३ ॥

§ ७ जिसने दर्शनमोहनीयका क्षय कर दिया है ऐसे जीवका संसारमें अवस्थान काल यद्यपि काफी बहुत है तो भी वह प्रस्थापक भवको छोड़कर अन्य तीन भवोंसे अधिक नहीं होता यह इस चौथी गाथा द्वारा कहा गया जानना चाहिए ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान — क्योंकि जिस भवमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रस्थापक होता है उससे अन्य तीन भवोंको उल्लंघन नहीं करता । किन्तु उस भवको छोड़कर अन्य भवोंके अवलम्बन

तत्थ जो देव-णेएणसु आउअबंधवसेणुप्पज्जदि खीणदंसणमोहणीओ जीवो सो देव-
णेइएहिंते आगंतूणाणंतरंभवे चेव चरिमदेहसंबंधमणुभूय सिज्झदि त्ति तस्स दंसण-
मोहक्खवणाभवेण सह तिण्णि चेव भवग्गहणाणि होति । जो उण पुव्वाउअबंधवसेण
भोगभूमिजतिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पज्जइ तस्स खवणापट्टवणभवं मोत्तूण अण्णे तिण्णि
भवा होति । ततो गंतूण देवेसुप्पज्जिय तदो चविय मणुस्सेसुप्पणस्स णिव्वाण-
गमणणियमदंसणादो ।

(६१) संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा ।

सेसासु खीणमोहा गदीसु णियमा असंखेज्जा ॥११४॥

§ ८. एसा पंचमी मूलगाथा । एदीए खीणदंसणमोहाणं जीवाणं पमापपदु-
प्यायणद्वारेण संतादिअट्टाणियोगहारेहिं परूवणा सूचिदा, देसामासयभावेणेदिस्से
पयट्टत्तादो । तं जहा—मणुसगदीए मणुसा खीणदंसणमोहा केचिया होति त्ति पुच्छिदे

द्वारा क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नियमसे सर्व कर्मकलकसे मुक्त होकर निर्वाणको प्राप्त होता है
यह इस सूत्रका समुच्चयार्थ है ।

वहाँ क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव आयुबन्धके वशसे देव और नारकियोंमें उत्पन्न होता है ।
वह देव और नारक भवसे आकर अनन्तर भवमें ही चरम देहके सम्बन्धका अनुभव कर
मुक्त होता है । इस प्रकार उसके दर्शनमोहनीयकी क्षपणासम्बन्धी भवके साथ तीन ही भवोंका
ग्रहण होता है । परन्तु जो पूर्वमें बन्धको प्राप्त हुई आयुके सम्बन्धवश भोगभूमिज तिर्यच्छ्रो
और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है उसके क्षपणके प्रस्थापनके भवको छोड़कर अन्य तीन भव होते
हैं, क्योंकि वहाँसे (भोगभूमिसे) देवोंमें उत्पन्न होकर और वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें
उत्पन्न हुए उसके निर्वाण प्राप्त करनेका नियम देखा जाता है ।

विशेषार्थ—जो दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाला जीव तद्भव मोक्षगामी नहीं होता वह
उस भवके अतिरिक्त अधिकसे अधिक अन्य तीन भव तक संसारमें रहता है यह नियम इस
गाथा द्वारा किया गया है । यदि नरकायुका बन्ध करनेके बाद क्षायिक सम्यग्दृष्टि हुआ है
या उस भवमें देवायुका बन्ध किया है तो वह उस भवसे तीसरे भवमें मोक्षका पात्र होता
है और यदि तिर्यच्यायु और मनुष्यायुका बंध करनेके बाद क्षायिक सम्यग्दृष्टि हुआ है तो
वह उस भवसे चौथे भवमें मोक्षका पात्र होता है यह उक्त गाथासूत्रका तात्पर्य है । विशेष
खुलाशा मूलमें किया ही है ।

मनुष्योंमें क्षीणमोही अर्थात् क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नियमसे संख्यात हजार
होते हैं तथा शेष गतियोंमें नियमसे असंख्यात होते हैं ॥ ११४ ॥

§ ८. यह पाँचवीं मूलगाथा है । इस द्वारा क्षीणदर्शनमोही जीवोंके प्रमाणके कथन
द्वारा सत् आदि अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे प्ररूपणा सूचित की गई है, क्योंकि देशमर्षकभावसे
यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । यथा—मनुष्यगतियोंमें जिन्होंने दर्शनमोहका क्षय कर दिया है ऐसे
मनुष्य कितने हैं ऐसी पृच्छा करनेपर नियमसे संख्यात ही हैं यह कहा है और वे गणनाकी

णियमा संखेज्जा वेव होंति त्ति भणिदं । ते च सहस्सगणणूणा ण होंति त्ति जाणाव-
णदं 'सहस्ससो णियमा' त्ति णिदिदं । तप्पाओगसखेज्जसहस्समेत्ता होंति त्ति
नुत्तं होइ । सेसासु गदीसु पुण 'णियमा' णिच्छएण असंखेज्जा खीणदंसणमोहा जीवा
होंति त्ति णिच्छओ कायव्वो, वासपुधत्तरेण तदाउट्ठिदिअब्भंतरे समयविरोहेण
संचिदाणं खइयसम्माहट्ठीणं पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्ताणं तत्थ संभवोवलंभादो ।

§ ९. एवं ताव दंसणमोहकखवणाए पडिबद्धानं पंचण्हं सुत्तगाहाणं समुक्कित्तणं
कादूण संपहि तदत्थविहासणं कुणमाणो तस्सेव परिकरभावेण परिभासत्थपरूवणदु-
मुवरिमं पंचंधमाह—

* पच्छा सुत्तविहासा । तत्थ ताव पुब्बं गमणिज्जा परिहासा ।

अपेक्षा हजारोंसे कम नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके लिये गाथासूत्रमें 'सहस्सो णियमा'
इस वचनका निर्देश किया है । तत्प्रायोग्य संख्यात हजार हैं यह एक कथनका तात्पर्य है ।
परन्तु शेष गतियोंमें जिन्होंने दर्शनमोहका क्षय कर दिया है ऐसे जीव 'णियमा' अर्थात्
निश्चयसे असंख्यात हैं ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योंकि उन गतियोंमें प्राप्त आयुस्थितिके
भीतर आगमानुसार वर्ष पृथक्त्वके अन्तरसे संचित हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव पल्योपमके
असंख्यातवें भागप्रमाण उन गतियोंमें बन जाते हैं ।

विशेषार्थ—इस गाथासूत्रमें किस गतिमें कितने क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव हैं इस बात-
का निर्देश किया गया है । मनुष्योंमें गर्भज संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्योंकी कुल संख्या ही
संख्यात है, अतः उनकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपमके भीतर संचित हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टि
कुल मनुष्य संख्यात हजार ही हो सकते हैं । इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि जो कर्म-
भूमिज मनुष्य तीर्थकर, केवली या श्रुतकेवलीके पादमूलमें क्षायिक सम्यग्दर्शनको उत्पन्न
करते हैं उनमेंसे कुछ तो उसी भवमें मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और जो तद्भव मोक्षगामी नहीं
होते हैं वे जैसी आयुका बन्ध किया हो उसके अनुसार चारों गतियोंमें मरकर उत्पन्न होते
रहते हैं । तथा गर्भज संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मनुष्योंका कुल प्रमाण संख्यात होनेसे
अन्य गतियोंमें संचयका जो नियम है वह यहाँ लागू नहीं होता, इसी लिए मनुष्यगतिये
क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका प्रमाण संख्यात हजार बतलाया है । शेष तीन गतियोंमें वर्षपृथक्त्वके
अन्तरसे एक क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यगतिये आकर जन्म लेता है, इस नियमके अनुसार
वहाँ प्रत्येक गतिमें अपनी-अपनी भवस्थितिके भीतर संचित हुए क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंका
प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । इस प्रकार इस
गाथासूत्रमें संख्याका निर्देश कर देशामर्षकभावसे सत् आदि आठों अनुयोगद्वारोंकी सूचना
दी गई है यह सिद्ध हुआ ।

§ ९. इस प्रकार सबप्रथम दर्शनमोहकी क्षपणासे सम्बन्ध रखनेवाली पाँच सूत्र-
गाथाओंकी समुत्कीर्तना कर अब उनके अर्थका व्याख्यान करते हुए उसीके परिकररूपसे
व्याख्यान करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* इस प्रकार गाथासूत्रोंकी समुत्कीर्तनाके पश्चात् सूत्रोंकी विभाषा की जाती है ।
उसमें भी सर्वप्रथम परिभाषा जानने योग्य है ।

§ १०. का सुत्तविहासा णाम ? गाहासुत्ताणमुच्चारणं कादूण तेसिं पदच्छेदाहि-
सुहेण जा अत्थपरिक्खा सा सुत्तविहासा त्ति भण्णदे । सुत्तपरिहासा पुण गाहा-
सुत्तणिबद्धमणिबद्धं च पयदोवजोगि जमत्थजादं तं सव्वं धेत्तण वित्थरदो अत्थपरूवणा
सा ताव पुव्वमेत्थाणुगतव्वा । पच्छा सुत्तविहासा कायव्वा । किं कारणं ? सुत्तपरि-
भासमकादूण सुत्तविहासाए कीरमाणाए सुत्तथविसयणिच्छयाणुप्पत्तीदो । तदो सुत्त-
परिभासमेव पुव्वं कुणमाणो तव्विसयं पुच्छावक्कमाह—

* तं जहा ।

§ ११. सुगमं ।

* तिण्हं कम्माणं द्विदीओ ओद्विदव्वाओ ।

§ १२. एत्थ ताव जो वेदगसम्माइट्ठी दंसणमोहक्खवणं पट्टवेइ मो पुव्व
चेवाणंताणुबंधिचउक्क विसंजोएइ, अविमंजोइदाणंताणुबंधिचउक्कसभ दंसणमोह-
क्खवणपट्टवणाणुववत्तीदो । तदो अणंताणुबंधिविसंजोयणाए अधापवत्तादिकणपडिबद्धाए
पुव्वमेत्थाणुगमो कायव्वो । सो उण चरित्तमोहोवसामणाए सवित्थरं भणिस्समाणात्तादो
णेह पवंचिज्जदे । तम्हा विसंजोइदाणताणुबंधिचउक्को वेदयसम्मादिट्ठी अमंजदो

§. १०. शंका—सूत्रविभाषा किसे कहते हैं ?

समाधान—गाथासूत्रोंका उच्चारणकर उनकी पदच्छेद आदिके द्वारा जो अर्थपरीक्षा
की जाती है उसे विभाषा कहते हैं ।

परन्तु प्रकृतमें उपयोगी जो अर्थ समूह गाथासूत्रोंमें निबद्ध हैं या अनिबद्ध हैं
उस सबको ग्रहण कर विस्तारसे अर्थकी प्ररूपणा करनेको सूत्र परिभाषा कहते हैं । उसे सर्व-
प्रथम यहाँ जानना चाहिए, उसके बाद सूत्रविभाषा करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रोंकी परिभाषा
न कर सूत्रोंकी विभाषा करने पर सूत्रोंका अर्थविषयक निश्चय नहीं बन सकता, इसलिए
गाथासूत्रोंकी परिभाषाको ही सर्व प्रथम करते हुए तद्विषयक पृच्छावाक्यको कहते हैं—

* वह जैसे ।

§ ११ यह सूत्र सुगम है ।

* तीनों कर्मोंकी स्थितियोंकी पृथक्-पृथक् रचना करनी चाहिए ।

§ १२. प्रकृतमें जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव दर्शनमोहकी क्षणणाका प्रारम्भ करता है वह
पहले ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है, क्योंकि जिसने अनन्तानुबन्धी-
चतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है वह दर्शनमोहकी क्षणणाका प्रारम्भ नहीं कर सकता । इस-
लिए अधःप्रवृत्त आदि करणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका
यहाँ सर्वप्रथम अनुगम करना चाहिए । परन्तु उसका चारित्रमोहकी उपशमनाका कथन
करते समय विस्तारसे कथन करेंगे, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते हैं । इसलिये जिसने
अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना की है ऐसा वेदकसम्यग्दृष्टि असयत, संयतासंयत तथा

संज्ञदासंज्ञदो पमत्तापमत्ताणमण्णदरो संज्ञदो वा सच्चविसुद्धेण परिणामेण दंसणमोह-
क्खवणाए पयड्ढिदि ति घेत्तव्वं । तत्स तहा पयड्ढमाणस्स तिण्हं कम्माणं मिच्छत्त-
सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसण्णदाणं द्विदीओ अंतोकोडाकोडिमेत्ताओ बुद्धीए पुध पुध
ओट्टिदव्वाओ विरचेव्वाओ, अण्णहा तच्चिसयड्ढिदिखंडयघादादिपरूवणाए सुहाव-
गमत्ताणुववत्तीदो । एवमेदेसिं कम्माणं परिवाडीए द्विदीणं विण्णासं कादूण पुणो
किं कायव्वमिच्चासंकाए इदमाह—

* अणुभागफहयाणि च ओट्टियव्वाणि ।

§ १३. तेसिं चैव तिण्हं कम्माणमणुभागफहयाणि च जहण्णफहयप्पहुडि जाव
उक्कस्सफहयं ति ताव द्विदिं पडि तिरिच्छेण विरचेयव्वाणि, तेसिं विरचणाए विणा
तच्चिसयकंडयघादादिपरूवणाए मिस्साणं सुहावबोहाणुववत्तीदो । एत्थ सेसकम्माणं
पि णाणावरणादीणं द्विदीओ अणुभागफहयाणि च ओट्टियव्वाणि तच्चिसयखंडयघाद-
जाणावणणिमित्तमिदि चे ? सच्चमेदं, तत्थ पडिसेहाभावादो । किंतु पहाणभावेणेदेसिं
तिण्हं कम्माणं विसेसघादपदुप्पायणडुं विसेसियूण परूवणा कदा, तम्हा तेसिं पि
द्विदि-अणुमागा ओट्टिदव्वा । एवमेदं परूविय संपहि एत्थ तिण्हं करणाणं सरूव-

प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंमेंसे अन्यतर संयत मनुष्य सबे विशुद्ध परिणामके द्वारा दर्शन-
मोहकी क्षपणा करनेमें प्रवृत्त होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । उस प्रकारसे प्रवृत्त
हुए उसके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन तीन कर्मोंकी अन्तःकोडाकोड़ी
प्रमाण स्थितियोंको बुद्धिमें पृथक् पृथक् 'ओट्टिदव्वाओ' अर्थात् रचित करनी चाहिए,
अन्यथा तद्विषयक स्थितिकाण्डकघात आदिकी प्ररूपणाका सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता ।
इस प्रकार इन कर्मोंकी स्थितियोंकी परिपाटीसे रचनाकर पुनः क्या करना चाहिए ऐसी
आशंका होनेपर इस सूत्रवचनको कहते हैं—

* तथा उन्हीं तीनों कर्मोंके अनुभाग स्पर्धकोंकी भी पृथक्-पृथक् रचना करनी
चाहिए ।

§ १३ उन्हीं तीनों कर्मोंके जघन्य स्पर्धकसे लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक अनुभागस्पर्धकों-
की भी प्रत्येक स्थितिके प्रति तिर्यकरूपसे रचना करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रचना किये
बिना तद्विषयक काण्डकघात आदि प्ररूपणाका शिष्योंकी सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता ।

शंका—यहाँ पर ज्ञानावरणादि शेष कर्मोंकी भी स्थितियों और अनुभागस्पर्धकोंके
तद्विषयक काण्डकघातका ज्ञान करानेके लिए रचना करना चाहिए ?

समाधान—यह कहना सत्य है, क्योंकि इस विषयमें प्रतिषेधका अभाव है । किन्तु
प्रधानरूपसे इन तीन कर्मोंकी विशेष बातका कथन करनेके लिये विशेषरूपसे प्ररूपणा की है,
इसलिए उन ज्ञानावरणादि कर्मोंकी भी स्थिति और अनुभागकी रचना करनी चाहिए । इस

णिदेसं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

तदो अण्णमधापवत्तकरणं पढमं, अपुव्वकरणं विदियं, अणियट्टि-
करणं तदियं ।

§ १४. तदो एदेसिं कम्माणं ठिदि-अणुभागफइयाणमोकहुणादो अणंतरमेदेसिं
तिण्हं करणाणं पादेकमंतोमुहुत्तद्वापडिबद्धाणमेयसेदीए जहाकममुद्धायारेण समय-
विरचणं कादूण तत्थ समयाविरोहेण परिणामरचना कायव्वा त्ति वुत्तं होइ । एत्थ
'अण्णमधापवत्तकरणं'इदि भणंतस्साहिप्पाओ पुव्वं ट्टिदि-अणुभागणं रचना परूविदा ।
संपहि तत्तो पुधमावेण एदेसिं तिण्हं करणाणं रचना होइ त्ति जाणावणइं 'अण्ण'
इदि भणिदं ।

* एदाणि ओट्टे दूण अधापवत्तकरणास्स लक्खणां भाणियव्वं ।

§ १५. 'जहा उदेसो तथा णिहेसो' त्ति णायवलेण पढमं ताव अधापवत्त-
करणस्स लक्खणमिह भणियूण गेण्हियव्वमिदि वुत्तं होइ । तस्स च लक्खणे भण्ण-
माणे जहा दंसणमोहोवसामणाए अधापवत्तकरणस्स लक्खणमणुकट्टिआदिविसेसेहिं
परूविदं तथा णिरवसेसमेत्थ परूवेयव्वं इदि गंथगउरवमएण ण पुणो तदुवण्णासो
कीरदे ।

* एवमपुव्वकरणास्स वि अणियट्टिकरणस्स वि ।

प्रकार इसकी प्ररूपणा कर अब यहाँपर तीनों करणोंके स्वरूपका निर्देश करते हुए आगेका
सूत्र कहते हैं—

तत्पश्चात् उक्त रचनासे भिन्न अधःप्रवृत्तकरण प्रथम, अपूर्वकरण द्वितीय और
अनिवृत्तिकरण तृतीय हैं, अतः इनके समर्थोंकी रचना करनी चाहिए ।

§ १४ 'तदो' अर्थात् इन कर्मोंकी स्थितियों और अनुभागस्पर्धकोंके अपकर्षणके
अनन्तर प्रत्येक अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालसे सम्बन्ध रखनेवाले इन तीन करणोंके समर्थोंकी एक
श्रेणिमें यथाक्रम ऊर्ध्वाकाररूपसे रचना करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यहाँ
'अण्णमधापवत्तकरणं' ऐसा कहनेका यह अभिप्राय है कि पहले स्थितियों और अनुभागोंकी
रचनाका कथन किया, अब उससे पृथक् इन तीन कारणोंकी रचना है ऐसा ज्ञान करानेके
लिए 'अण्ण' ऐसा कहा है ।

* इनके समर्थोंकी रचनाकर अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण कहना चाहिए ।

§ १५. 'उद्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता है ।' इस न्यायके बलसे सर्वप्रथम अधः
प्रवृत्तकरणके लक्षणको यहाँ कहकर ग्रहण करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है और
उसका लक्षण कहने पर जिस प्रकार दर्शनमोहकी उपशामना अनुयोग द्वारमें अनुकृष्टि आदि
विशेषताओंके साथ अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण कहा है उस प्रकार पूरा यहाँ पर कहना चाहिए,
इसलिए ग्रन्थके बड़ जानेके भयसे पुनः उसका उपन्यास नहीं करते हैं ।

* इसी प्रकार अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका भी लक्षण कहना चाहिए ।

§ १६. एवं चेवापुव्वाणियट्टिकरणार्णं पि लक्खणमेत्थ परूवेयव्वमिदि वुत्तं होइ । एदेसिं च तिण्हं करणाणं लक्खणविहासाए उवसामगमंगादो णत्थि णाणत्तमिदि पदुप्पाएमाणो उत्तरसुत्तमाह—

* एदेसिं लक्खणाणि जारिसाणि उवसामगस्स तारिसाणि च्चेय ।

§ १७. किं कारणं ? अणुकट्टियादिपरूवणाए ततो एदेसिं भेदानुवर्लभादो । तदो तत्थतणपरूवणा णिरवसेसमेत्थ वि कायव्वा । एवमेदेसिं लक्खणपरूवणं कादूण संपहि अधापवत्तकरणविसये चउण्हं सुत्तगाहाणं परूवणं कुणमाणो उवरिमं पबंधमाह—

* अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परूवेयव्वाओ ।

§ १८. अधापवत्तकरणे ताव इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ पयदपरूवणाए परिभासत्थपदुप्पायणे वावदाओ पढममेव विहासियव्वाओ ति भणिदं होइ ।

* तं जहा ।

§ १९. सुगमं ।

* दंसणमोहउवसामगस्स ०१, काणि वा पुट्टवधद्धाणि ०२, के अंसं भ्नीयदे पुट्टवं ०३, किं टिदियाणि कम्माणि ०४ ।

§ १६ इसी प्रकार अपूर्वकरण और अतिवृत्तिकरणके भी लक्षणका यहाँ पर कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है किन्तु इन तीनों करणोंके लक्षणोंका विशेष व्याख्यान उपशामनाके कथनसे भिन्न नहीं है इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* इन तीनों करणोंके लक्षण जिस प्रकार उपशामककी प्ररूपणामें कह आये हैं उसी प्रकार हैं ।

§ १७ क्योंकि अनुकृष्टि आदि प्ररूपणाकी अपेक्षा वहाँके कथनसे इनके कथनमें भेद नहीं पाया जाता । इसलिए वहाँ की गई पूरी प्ररूपणा यहाँपर भी करनी चाहिए । इस प्रकार इनके लक्षणका कथन करके अब अधःप्रवृत्तकरणके विषयमें चार सूत्रगाथाओंका कथन करते हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें इन चार सूत्र गाथाओंका कथन करना चाहिए ।

§ १८. अधःप्रवृत्तकरणसम्बन्धी प्रकृत प्ररूपणाके परिभाषारूप अर्थके कथनमें व्यापृत हुई इन चार सूत्र गाथाओंका सर्वप्रथम व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* वह जैसे ।

§ १९ यह सूत्र सुगम है ।

* दर्शनमोहकी क्षणमा करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग

§ २०. एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ एत्थ विहासियव्वाओ ति सुत्तत्थसमुच्चयो । क्खमेदाओ गाहाओ चरित्तमोहक्खवणाए पडिबद्धाओ एत्थ परूवेदुं सक्किज्जंति ति णासंकाणज्जं, अंतदीवयभावेण तत्थ एदासिमुवएसादो । तदो दंसणमोहोवसामणाए तक्खवणाए चरित्तमोहोवसामणा-खवणासु च साहरणभावेणेदासिं परूवणा चुण्णिमुत्त-णिबद्धा ण विरुज्झदि ति सिद्धं । एदासिं च विहासाए कीरमाणाए दंसणमोहउव-सामगभंगो किंचि विसेसाणुबिद्धो अणुगंतव्वो । तं जहा—

§ २१. पढमगाहाए पुव्वद्धम्मि ताव णत्थि परूवणाणाणत्त परिणामो विसुद्धो पुव्वं पि अंतोसुहुत्तप्पहुट्ठि अणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झमाणा आगदो ति एवंविहाए परूवणाए उहयत्थ समाणत्तदंसणादो । पच्छद्धे जोगे ति विहासा अण्णदर-

क्षाय और उपयोगमें विद्यमान उसके कौन सी लेश्या और वेद होता है ॥ १ ॥ पूर्ववद्ध कर्म कौन-कौन हैं, वर्तमानमें किन कर्मोंको बाँधता है कितने कर्म उदया-वलिमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मों का प्रवेशक होता है ॥ २ ॥ दर्शनमोहकी क्षणिकाके सन्मुख होनेपर पूर्व ही बन्ध और उदयरूपसे कौनसे कर्मोंश क्षीण होते हैं, आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मों का क्षण करता है ॥ ३ ॥ क्षणिका करनेवाला वही जीव किस स्थितिवाले कर्मों का तथा किन अनुभागोंमें स्थित कर्मों का अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

§ २०. इन चार सूत्रगाथाओका यहाँ पर व्याख्यान करना चाहिए यह सूत्रार्थ समुच्चय है ।

शंका—ये सूत्रगाथाएँ चरित्रमोहकी क्षणिका अनुयोगद्वारसे सम्बन्ध रखनेवाली है उनका यहाँ कथन करना कैसे शक्य है ?

ममाधान—ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्तदीपकरूपसे वहाँ इनका कथन किया है, अत दर्शनमोहकी उपशामना, दर्शनमोहकी क्षणिका, चारित्रमोहकी उपशामना और चारित्रमोहकी क्षणिका इन चारों अनुयोगद्वारोंमें साधारणरूपसे चूर्णिसूत्र विषयक इन चार गाथाओंको प्ररूपणा विरोधको प्राप्त नहीं होती यह सिद्ध हुआ और इनका व्याख्यान करने पर वह दर्शनमोहकी उपशामना अनुयोगद्वारमें किये गये व्याख्यानके समान है । तो भी जो थोड़ी सी विशेषता है उसका अनुगम करते हैं । यथा—

§ २१. प्रथम गाथाके पूर्वार्धमें तो प्ररूपणा भेद है नहीं, क्योंकि परिणाम विशुद्ध होता है । अन्तर्मुहूर्त पहलेसे ही विशुद्ध परिणाम अनन्तगुणी विशुद्धिसे उत्तरोत्तर विशुद्ध होता हुआ आया है । इस प्रकार ऐसी एकरूप प्ररूपणा दर्शनमोहकी उपशामना और क्षणिका इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें समानरूपसे देखी जाती है । प्रथम सूत्र गाथाके उत्तरार्धमें आये हुए योग इस पदकी विभाषा—अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचनयोग या औदारिक काययोग

मणजोगो वा अण्णदरवच्चिजोगो वा ओरालियकायजोगो वा । णत्थि अण्णकायजोग-
संभवो । कसाए त्ति विहासाए णत्थि णाणत्तं । किं कारणं ? अण्णदरो कसाओ, सो
च णियमा हायमाणगो ण वड्ढमाणगो त्ति एदेण मेदाभावादो । उवजोगे त्ति
विहासा । एत्थ वि णत्थि णाणत्तं । णियमा सागारोवजोगो इच्चेदीए परूवणाए
उहयत्थ साहारणभावेणावट्ठणादो ; अथवा अण्णेण उवदेसेण सुदणाणेण वा मदि-
णाणेण वा अचक्खुदंसणेण वा चक्खुदंसणेण वा उवजुत्तो त्ति वत्तवं । लेस्सा त्ति
विहासा । एत्थ वि णाणत्तं णत्थि । तेउ-पम्म-सुक्काणं णियमा वड्ढमाणलेस्सा त्ति
एदेण मेदानुवल्लदीदो । वेदो व को भवे त्ति विहासा । एत्थ वि णत्थि णाणत्त-
संभवो, अण्णदरो वेदो त्ति एदेण विसेसानुवल्लंभादो ।

§ २२. संपहि विदियगाहाए विहासा वुच्चदे । तं जहा—काणि वा पुव्ववट्ठाणि
त्ति विहासा । एत्थ पयडिसंतकम्मं ट्ठिदिसंतकम्मं अणुभागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च

होता है । अन्य काययोग सम्भव नहीं है । कषाय इस पदकी विभाषाकी अपेक्षा नानात्व
अर्थात् भेद नहीं है, क्योंकि अन्यतर कषाय होती है और वह नियमसे हीयमान होती है,
वर्द्धमान नहीं इस प्रकार इस अपेक्षासे दोनों जगह भेदका अभाव है । उपयोग इस पदकी
विभाषा । इस विषयमें भी नानात्व अर्थात् भेद नहीं है, क्योंकि नियमसे साकार उपयोग
होता है इस प्रकार इस प्ररूपणाका दोनों स्थलोंपर समानरूपसे अवस्थान पाया जाता है ।
अथवा अन्य उपदेशके अनुसार श्रुतज्ञान, मतिज्ञान, अचक्षुदर्शन या चक्षुदर्शनरूप उपयोगसे
उपयुक्त होता है यह कहना चाहिए । लेइया इस पदकी विभाषा । इसमें भी नानात्व नहीं है,
क्योंकि तेज, पद्म और शुक्ल लेइयाओंमेंसे नियमसे वर्द्धमान लेइया होती है इस प्रकार इस
कथनकी अपेक्षा दोनों स्थलोंमें भेद नहीं पाया जाता है । वेद कौन होता है इस पदकी
विभाषा । इसमें भी नानात्व सम्भव नहीं है, क्योंकि अन्यतर वेद होता है इस प्रकार इस
कथनकी अपेक्षा दोनों स्थलोंमें विशेषता नहीं पाई जाती है ।

विश्लेषार्थ—यहाँ चूर्णिसूत्रमें जिन चार गाथाओंका निर्देश किया गया है उनमेंसे
प्रथम गाथाके अनुसार दर्शनमोहके उपशामकके परिणाम आदिका जैसा व्याख्यान दर्शनमोहके
उपशामक जीवको लक्ष्य कर किया है वह सब यहाँ किंचित् भेदके साथ जान लेना चाहिए ।
भेद इतना ही है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ मनुष्यगतिमें ही होता है, अन्य
गतियोंमें नहीं, इसलिए यहाँ काययोगके भेदोंमेंसे एक ओदारिककाययोग ही स्वीकार किया
गया है । यहाँ उपयोगकी चर्चा करते हुए मतान्तरका उल्लेख कर जो यह बतलाया है कि
ऐसा जीव श्रुतज्ञान, मतिज्ञान, चक्षुदर्शन या अचक्षुदर्शन इनमेंसे किसी एक उपयोगमें उपयुक्त
होता है सो इसका यह आशय प्रतीत होता है कि अन्य किसी आचार्यका यह मत रहा है
कि ऐसे जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें उपयोग परिवर्तन भी हो सकता है और
उपयोगपरिवर्तनके कालमें मतिज्ञान, चक्षुदर्शन या अचक्षुदर्शन भी हो सकता है ।

§ २२. अब दूसरी गाथाकी विभाषाका कथन करते हैं । यथा—'पूर्ववट्ठकर्म कौन हैं'
इनकी विभाषा । यहाँ प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका

मग्गिदब्बं । तत्थ पयडिसंतकम्ममग्गणाए उवसामगभंगो । णवरि अणंताणुबंधि-
चउक्कसंतकम्मं णत्थि त्ति वत्तव्वं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णियमा संतकम्मिओ ।
आउअस्स णियमा मणुस्साउअं भुंजमाणं होदूण परमवियमणुस्साउएण सह सेसाणि
तिण्णि वि संतकम्मभावेण भयणिज्जाणि, पुब्बवद्दाउगं पडुच्च तदविरोहादो । णामस्स
उवसामगभंगो चेव । णवरि तित्थयराहारदुगं सिया अत्थि । वुत्तपयडीणं द्विदि-
अणुभाग-पदेससंतकम्ममग्गणाए उवसामगभंगादो णत्थि णाणत्तं । णवरि उवसामगस्स
द्विदिसंतकम्मादो एदस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणहीणं तस्सेवाणुभागसंतकम्मादो
एदस्साणुभागसंतकम्ममणंतगुणहीणमिदि वत्तव्वं । एवं संतकम्ममग्गणा समत्ता ।

§ २३. 'के वा अंसे णिवंधदि' त्ति विहासा । एत्थ पयडिबंधो द्विदिवंधो

अनुसन्धान कर लेना चाहिए । उनमेंसे प्रकृतिसत्कर्मका अनुसन्धान करनेपर उसका भग
उपशामकके समान है । इतनी विशेषता है कि इसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी सत्ता नहीं है ऐसा
कहना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्ता नियमसे है । आयुर्कर्मकी अपेक्षा
मनुष्यायु नियमसे भुज्यमान होकर परभवसम्बन्धी मनुष्यायुके साथ शेष तीन आयुएं भी
सत्कर्मरूपसे भजनीय है, क्योंकि दर्शनमोहकी क्षपणाके पूर्व जिन्होंने उक्त आयुओंका बन्ध किया
है उनकी अपेक्षा उनकी सत्ता स्वीकार करनेमें विरोध नहीं आता । नामकर्मका भंग उप-
शामकके समान ही है । इतनी विशेषता है कि तीर्थकर और आहारकट्टिककी सत्ता कदाचित्
है । इस प्रकार यहाँ जिन प्रकृतियोंकी सत्ता कही है उनकी अपेक्षा स्थितिसत्कर्म, अनुभाग-
सत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका अनुसन्धान करनेपर उपशामकके भंगसे यहाँ कोई भेद नहीं है ।
इतनी विशेषता है कि उपशामकके स्थितिसत्कर्मसे इसका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा हीन
होता है । उसीके अनुभागसत्कर्मसे इसका अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है ऐसा
कहना चाहिए । इस प्रकार सत्कर्ममार्गणा समाप्त हुई ।

विश्लेषार्थ—जिस वेदकसम्यग्दृष्टि जीवने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है
वही दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी क्षपणा कर सकता है, इसलिए इसके अनन्तानुबन्धी-
चतुष्ककी सत्ताका निषेधकर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्ताके नियमसे होनेका
विधान किया है । सभी सम्यग्दृष्टि जीव तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं करते और ऐसे वेदक-
सम्यग्दृष्टि जीव भी क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें अप्रमत्तसंयत गुणस्थानकी
कभी भी प्राप्ति नहीं हुई है या जिन्होंने अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें आहारकट्टिकका बन्ध
कर बादमें मिथ्यादृष्टि होकर पर्योपमके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण काल द्वारा उनकी उद्वेलना
कर पुनः यथागम वेदक सम्यक्त्व प्राप्त किया है ऐसे जीव भी क्षायिकसम्यक्त्वको प्राप्त
कर सकते हैं या जो अप्रमत्तसंयत होकर भी आहारकट्टिकका बन्ध नहीं करते ऐसे वेदक
सम्यग्दृष्टि जीव भी क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त कर सकते हैं । इसलिए क्षायिक सम्यक्त्वको
प्राप्त करनेवाले जीवोंके तीर्थकर और आहारकट्टिककी सत्ता बिकल्पसे कही है । आहारक-
बन्धन और आहारकसघात आहारकशरीरके अविनाभावी होनेसे उनका ग्रहण हो ही जाता
है । शेष कथन सुगम है ।

§ २३ 'वर्तमानमें किन कर्मांशोंको बाँधता है' इनकी विभावा । यहाँ पर प्रकृतिबन्ध,

अणुभागबंधो पदेसबंधो च मग्गियव्वो । तत्थ ताव पयडिबंधस्स मग्गणं कस्सामो । तं जहा—पंचणाणावरण—छंदसणावरण—सादावेदनीय—वारसकसाय—पुरिसवेद—हस्स—रदि—भय—दुग्ग—देवगदि—पंचिदियजादि—वेउव्विय—तेजा—कम्मइयसरीर—समचउरससंठाण—वेउव्विय—अंगोबंध—देवगदिपाओग्गाणुपुव्वि—वण्ण—गंध—रस—फास—अगुरुअलहुअ४—पसत्थविहायगह—तस—बादर—पज्जच—पत्तेयसरीर—थिर—सुभ—सुभग—सुस्सर—आदेज्ज—जसगित्ति—णिमिणणामाणि तित्थयरं सिया० उच्चागोद—पंचंतराहयाणि चि एदाओ पयडीओ बंधह, अबसेसाओ ण बंधह । एदमसंजदसम्मादिट्ठिं पडुच्च वुत्तं । एवं संजदासंजदस्स वि वत्तव्व । णवरि अपच्चक्खाणचउक्कं ण बंधह । एवं पमत्तसंजदस्स । णवरि पच्चक्खाणचउक्कबंधो णत्थि । एवं चेव अप्पमत्तसंजदस्स वि । णवरि णामपयडीसु आहारदुगं सिया बंधह चि वत्तव्वं । एसो पयडिबंधणिहेसो । एदासिं चेव पयडीणं पयडिबंधे णिदिट्ठाणमतो कोडाकोडिमेत्तट्ठिदिं संतादो हेट्ठा संखेज्जगुणहीण बंधह । एसो ट्ठिदिबंधणिहेसो । तासिं चेव पयडीणमप्पसत्थाणं विट्ठाणिओ अणंतगुणहीणो अणुभागबंधो । पसत्थाणं च चउट्ठाणिओ अणंतगुणो अणुभागबंधो । पदेसबंधो पुण तासिं चेव पयडीणमज्जहणणुक्कस्सो । णवरि णिहा—पयला—अट्ठकसाय—हस्स—रइ—भय—दुग्गुछा—देवगहचउक्क—आहारदुग—समचउरससंठाण—पसत्थविहायगदि—सुभग—सुस्सारादेज्ज—तित्थयरणामाणं सिया उक्कस्सो । एवं बंधमग्गणा समत्ता ।

स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका अनुसन्धान करना चाहिए। उसमे सर्वप्रथम प्रकृतिबन्धका अनुसन्धान करेंगे। यथा—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पच्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामगणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण, स्यात् तीर्थकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका बन्ध करता है, अवशेष प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता। यह असंयतसम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा कहा है। इसी प्रकार सयतासंयतके भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह अप्रत्याख्यानचतुष्कका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार प्रमत्तसंयतके भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह प्रत्याख्यानचतुष्कका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार अप्रमत्तसंयतके भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह नामकर्मकी प्रकृतियोंसे आहारकट्टिकका स्यात् बन्ध करता है ऐसा कहना चाहिए। यह प्रकृतिबन्धका निर्देश है। प्रकृतिबन्धमें निर्दिष्ट की गई इन्हीं प्रकृतियोंकी सत्कर्मरूप स्थितिसे नीचे संख्यातगुणो हीन अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थितिका बन्ध करता है। यह स्थितिबन्धका निर्देश है। उन्हीं बन्धप्रकृतियोंमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनन्तगुणा हीन द्विस्थानीय अनुभागबन्ध होता है। और प्रशस्त प्रकृतियोंका अनन्तगुणा चतुःस्थानीय अनुभागबन्ध होता है। तथा उन्हीं प्रकृतियोंका अजघन्यानुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है। इतनी विशेषता है कि निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, आहारकट्टिक, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त

§ २४. 'कदि आवलियं पविसंति' चि विहासाए उवसामगभंगो । 'कदिण्हं वा पवैसगो' चि विहासा मूलपयडीणं सव्वासिं पवैसगो । उत्तरपयडीणं च पंचणाणा-वरणीय-चउदंसणावरणीय-सम्मत्त-मणुस्साउ-मणुसगदि-पंचिंदियजादि-ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर-ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअध-धिराधिर-सुभामुभ-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं णियमा पवैसगो । सादासादाणमण्णदरस्स पवैसगो । चदुण्हं कसायाणं तिण्ह वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरस्स पवैसगो । भय-दुगुंछाणं सिया पवैसगो । छण्हं संटाणाणं छण्हं संघडणाणमण्णदरस्स पवैसगो । दो-विहायगइ-सुभगदुभग-सुस्सरदुस्सर-आदेज्जअणादेज्ज-जसगिचिअजसगिचिणमण्णदरस्स पवैसगो । णवरि संजदासंजद-संजदेसु सुभगादेज्जजसकित्तीणं चैव पवैसगो ।

§ २५. संपहि तदियगाहाए किंचि विसेसपरूवणं कस्सामो । तं जहा—'के अंसे झीयदे पुव्वं बंधेण उदएण वा' चि विहासा । तत्थ पयडिबंधे जाओ पयडीओ

विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और तीर्थकर इन प्रकृतियोंका म्यात् उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है । इस प्रकार बन्धमार्गाणा समाप्त हुई ।

विशेषार्थ—ध्यायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके सन्मुख हुआ जीव नियमसे कर्म-भूमिज संज्ञी पर्याप्त मनुष्य होता है, इसलिए एक तो इसके मनुष्यगतिके साथ मनुष्यगत्या-नुपूर्वी, औदारिक शरीर और औदारिक आंगोपांगका बन्ध नहीं होता । दूसरे यह विशुद्धि युक्त परिणामवाला होता है, इसलिए इसके असातावेदनीय अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिका बन्ध नहीं होता । इस अवस्थामें आयुबन्धके योग्य परिणाम नहीं होते, इसलिए मनुष्यायु और देवायुका भी बन्ध नहीं होता । इस प्रकार असंयत सम्यग्दृष्टिके बन्ध योग्य ७७ प्रकृतियोंमेंसे १२ प्रकृतियोंके कम हो जानेपर यहाँ कुल ६५ प्रकृतियोंका बन्ध होता है । शेष कथन सुगम है ।

§ २४. 'कितनी प्रकृतियाँ उदयाबलिमें प्रवेश करती हैं' इसकी विभाषाका भंग उपशा-मकके समान है । 'कितनी प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है' इसकी विभाषा । मूल प्रकृतियोंका सबका प्रवेशक होता है । उत्तर प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सम्यक्त्व, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कर्मणशरीर, औदा-रिकशरीर आंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघुचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे प्रवेशक होता है । माता और असाता-वेदनीय इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक होता है । चार कषाय, तीन, वेद और दो युगल प्रत्येक इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक होता है । भय और जुगुप्साका स्यात् प्रवेशक होता है । छह संस्थान और छह संहनन प्रत्येक इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक होता है । दो विहायोगति, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय तथा यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इनमेंसे अन्यतर एक-एकका प्रवेशक होता है । इतनी विशेषता है कि संयतासंयत और संयतोंमें सुभग, आदेय और यशःकीर्तिका ही प्रवेशक होता है ।

§ २५. अब तीसरी सूत्रगाथाका कुछ विशेष कथन करेंगे । यथा—'उक्त जीवके बन्ध

उद्दिष्टाओ तचो अण्णासिं पयडीणं बंधो पुव्वमेव वोच्छिण्णो त्ति वत्तव्वं । तहा जासिं पयडीणं पवेसगो ताओ भोत्तुण सेसाणं पयडीणमुदयो वोच्छिण्णो त्ति वत्तव्वं द्विदि-अणुभागपदेसाणं पि बंधोदयवोच्छेदविचारो एदेणेव गयत्थो त्ति ण पुणो परूविज्जवे । 'अंतरं वा कहिं किच्चा के के खवगो कहिं' ति विहासा । एत्थ अंतरकरणं णत्थि । खवगो च मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-सम्मत्ताणं पुरदो होहिदि ।

§ २६. 'किं ठिदियाणि कम्माणि अणुभागोसु केसु वा' एदिस्से चउत्थीए गाहाए अत्यविहासा उवसामगभंगेण कायव्वा । एवमेदासिं चउण्हं गाहाणमधा-पवत्तचरिमसमए विहासं कादूण तदो पयदपरूवणा अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि आढवेयव्वा त्ति पदुप्पायणडुमुत्तरसुत्तावयारो—

* एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियूण अपुव्वकरणपढमसमए आढवेयव्वो ।

और उदयकी अपेक्षा कौन-कौन कर्मांश क्षीण होते हैं' इसकी विभाषा । वहाँ प्रकृतिबन्धमें जिन प्रकृतियोंका निर्देश किया है उनके सिवाय अन्य प्रकृतियोंका बन्ध पहले ही व्युच्छिन्न हो जाता है ऐसा कहना चाहिए । तथा जिन प्रकृतियोंका प्रवेशक है उनके सिवाय शेष प्रकृतियोंकी उदयव्युच्छित्ति हो जाती है ऐसा कहना चाहिए । स्थिति, अनुभाग और प्रदेश विषयक भी बन्ध और उदयव्युच्छित्तिका विचार उक्त कथनसे ही गतार्थ है, इसलिए इनका पुनः कथन नहीं करते हैं । उक्त जीव 'अन्तर कहाँपर करता है और कहाँ किन-किन कर्मोंका क्षपक होता है' इसकी विभाषा । यहाँ दर्शनमोहकी क्षपणामें अन्तरकरण नहीं होता तथा सिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्त्वका आगे क्षपक होगा ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहकी 'क्षपणा करनेवाला जीव वेदकसम्यग्दृष्टि होता है । इसके क्षायिक सम्यक्त्वके उत्पन्न होनेके प्रथम समयके पूर्व तक वेदकसम्यक्त्व बना रहता है और क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका क्षय होनेपर होती है, इसलिए दर्शनमोहकी क्षपणामें अन्तरकरणका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ २६. उक्त जीव 'किस स्थितिवाले कर्मोंका और किन अनुभागोंमें स्थित कर्मोंका अप-वर्तन करके किस स्थानको प्राप्त करता है ।' इस चौथी गाथाकी अर्थविभाषा उपशामकके समान करनी चाहिए । इस प्रकार इन चार गाथाओंकी अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विभाषा अर्थात् विशेष व्याख्यान करके तदनन्तर प्रकृत प्ररूपणाको अपूर्वकरणके प्रथम समय-से लेकर आरम्भ करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिये उत्तर सूत्रका अवतार करते हैं—

* इन चार सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रकृत प्ररूपणाका आरम्भ करना चाहिए ।

§ २७. एवमेदाओ अणंतरणिदिट्ठाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियुण तदो अपुण्वकरणपढमसमए पयदपरूवणापबंधो द्विदि-अणुभागघादादिलक्खणो आढवैयव्वो चि सुत्तत्थसंगहो । अधापवत्तकरणे चेव द्विदि-अणुभागघादादिलक्खणो पयदपरूवणा-पबंधो किण्णाढविज्जदि चि णासंक्कणिज्जं, अधापवत्तपरिणामाणं द्विदि-अणुभाग-खंडयघादणसत्तीए संभवाभावादो । संपहि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणट्टमुत्तरसुत्तमोहणं—

* अधापवत्तकरणे ताव णत्थि द्विदिघादो वा अणुभागघादो वा गुणसेढी वा गुणसंकमो वा ।

§ २८. गयत्थमेदं सुत्तं ।

* णवरि विस्सोहीए अणंतगुणाए वड्ढदि, सुहाणं कम्मंसाणमयांत-गुणवट्ठिबंधो, असुहायां कम्ममाणमयांतगुणहाणिबंधो, बंधे पुएणे पत्तिदो-वमस्स संखेज्जदिभागेण हायदि ।

§ २९. एतदुक्तं भवति—पडिसमयमणंतगुणाए विसोहीए वड्ढमाणो अधा-पवत्तकरणो सुभाणं कम्माणं सादादीणमणंतगुणवट्ठीए अणुभागबंधं कुणइ । असुभाणं

§ २७ इस प्रकार अनन्तर पूर्व कही गई इन चार सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करके तदनन्तर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिघात और अनुभागघात-आदि लक्षणवाले प्रकृत प्ररूपणाप्रबन्धका आरम्भ करना चाहिए यह सूत्रार्थका संग्रह है ।

शंका—अधःप्रवृत्तकरणमें ही स्थितिघात और अनुभागघात आदि लक्षणवाले प्रकृत प्ररूपणाप्रबन्धका क्यों नहीं आरम्भ किया जाता ?

समाधान—ऐसी आज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधःप्रवृत्तकरण परिणामोंमें स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातरूप शक्तिका अभाव है ।

अब इसी अर्थके स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और गुणसंक्रम नहीं है ।

§ २८ यह सूत्र गतार्थ है ।

* इतनी विशेषता है कि वह प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता रहता है । शुभ कर्मोंका (अनुभागकी अपेक्षा) अनन्तगुण वृद्धिको लिये हुए बन्ध होता है, अशुभ कर्मोंका (अनुभागकी अपेक्षा) अनन्तगुणी हानिको लिये हुए बन्ध होता है तथा अन्तर्मुहूर्त काल तक होनेवाले एक-एकस्थितिबन्धके पूर्ण (समाप्त) होनेपर पण्योपमके संख्यातवें भाग कम स्थितिबन्ध करता है ।

§ २९. उक्त कथनका यह तात्पर्य है—प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ अधःप्रवृत्तकरणमें स्थित जीव सातावेदनीय आदि शुभ कर्मोंका अनन्तगुणी वृद्धि-

पञ्चकम्माणं पञ्चणाणावरणादीणमणंतगुणहाणीए अणुभागबंधमोवहुदि । अण्णं च द्विदिबंधे अंतोमुहुत्तकालपडिबद्धे पुण्णे अण्णं द्विदिबंधमाढवेमाणो पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण हाइदूण बंधइ, विसोहिपरिणामस्स ठिदि-बंधवुद्धिविरुद्धसहावत्तादो त्ति ।

§ २९. एवमेत्तिएण पबंधेण अधापवत्तकरणविसयं फलविसेसमुवसंदरिसिय संपहि तन्विसयपरूवणमुवसंहारेमाणो इदमाइ—

* एसा अधापवत्तकरणे परूवणा ।

§ ३०. एसा अणंतरणिदिट्ठा परूवणा अधापवत्तकरणविसये परूविदा त्ति भणिदं होइ । एवमेदमुवमंहरिय संपहि अपुञ्जकरणविसयं परूवणापबंधमाढवेमाणो इदमाइ—

* अपुञ्जकरणस्स पढमसमए दोएहं जीवायां ठिदिसंतकम्मादो ठिदिसंतकम्मं तुल्लं वा विसेसाहियं वा संखेज्जगुणं वा । द्विदिखंडयादो वि द्विदिखंडयं दोएहं जीवाणं तुल्लं वा विसेसाहियं वा संखेज्जगुणं वा ।

को लिये हुए अनुभागबन्ध करता है । पाँच ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मोंका अनन्तगुणी हानिरूपसे अनुभागबन्धका अपवर्तन करता है । तथा अन्य अन्तर्मुहूर्त कालसम्बन्धी स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्धका आरम्भ करता हुआ पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको घटाकर बाँधता है, क्योंकि त्रिशुद्धिरूप परिणाम स्थितिवन्धकी वृद्धिके विरुद्ध स्वभाववाला होता है ।

विशेषार्थ—अधःप्रवृत्तकरणमें यद्यपि स्थितिकाण्डकषात, अनुभागकाण्डकषात, गुणश्रेणिरचना और गुणसंक्रमस्वरूप कार्य विशेष नहीं होते तथापि वहाँ परिणामोंमें प्रत्येक समय अनन्तगुणी विशुद्धि होनेसे सातादि शुभ कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धिस्वरूप और ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी हानिस्वरूप अनुभागबन्ध करता है । तथा अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवें भागप्रमाण प्रथम अन्तर्मुहूर्तमें प्रति समय जितना स्थितिवन्ध करता है, दूसरे अन्तर्मुहूर्तमें उसकी अपेक्षा पल्योपमका संख्यातवाँ भागकम स्थितिवन्ध करता है । इस प्रकार यह क्रिया अधःप्रवृत्तकरणमें बराबर चालू रहती है ।

§ २९ इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा अधःप्रवृत्तकरणविषयक फलविशेषको दिखलाकर अब तद्विषयक प्ररूपणाका उपसंहार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* यह अधःप्रवृत्तकरणविषयक प्ररूपणा है ।

§ ३०. यह अनन्तर कही गई प्ररूपणा अधःप्रवृत्तकरणविषयक कही गई है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस प्रकार इसका उपसंहार कर अब अपूर्वकरणविषयक प्ररूपणाप्रबन्धका आरम्भ करते हुए यह सूत्र कहते हैं—

* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें दो जीवोंमें से किसी एकके स्थितिसत्कर्मसे दूसरे जीवका स्थितिसत्कर्म तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भी होता है और संख्यातगुणा भी होता है । इसी प्रकार दो जीवोंमेंसे किसी एकके स्थितिकाण्डकसे दूसरे जीवका

§ ३१. तं जहा—दो जीवा कदासेसपरिकरा होदूण जुगवं दंसणमोहक्खवणा-
माढविय अथापवत्तरणद्धं बोलेयूणापुव्वकरणपढमसमए वट्टमाणा इह णिरुद्धा कायव्वा ।
तेसिमेवं णिरुद्धाणं दोण्हं जीवाणं मज्जे अण्णदरस्स ठिदिसंतकम्मादो इदरस्स ठिदि-
संतकम्मं सरिसं पि होदूण लब्भइ, विसरिसं पि । विसरिसभावे च संखेज्जासंखेज्ज-
भागवट्टीए विसेसाहियं पि होदूण लब्भइ, संखेज्जगुणाहियं च । एवं ट्टिदिखांडयस्स
वि वत्तव्वं, ट्टिदिसंतकम्माणुसारेणेव तच्चिसयाणं ट्टिदिखांडयाणं पि पतुत्तीए णाह्य-
त्तादो । ट्टिदिसंतकम्मे सरिसे संजादे तच्चिसयाणि ठिदिखांडयाणि वि-सरिसाणि चेव
भवन्ति । विसेसाहियठिदिसंतकम्मविसये विसेसाहियाणि चेव हवन्ति । संखेज्जगुणे
ट्टिदिसंतकम्मे संखेज्जगुणाणि चेव होंति त्ति भावत्थो ।

§ ३२. कथं ताव दोण्हं ठिदिसंतकम्माणं सरिसत्तमिदि चे ? बुच्चदे—दो जीवा
जुगवमेव पढमसम्मत्तं घेत्तूण पुणो समकालमेवाणंताणुबंधिणो विसंजोएदूण दंसण-
मोहक्खवणाए अब्भट्टिदा अपुव्वकरणपढमसमये जुगवमेव दिट्ठा, तेसि दोण्हं पि
ट्टिदिसंतकम्मणोण्णेण सरिसं, ट्टिदिखांडयाणि वि सरिसाणि चेव भवन्ति, तत्थ
विसरिसत्ते कारणानुवलंमादो । संपहि विसेसाहियत्तस्स कारणं बुच्चदे । तं जहा—

स्थितिकाण्डक तुल्य भी होता है, विशेष अधिक भी होता है और संख्यातगुणा भी
होता है ।

§ ३१. यथा—जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली है ऐसे दो जीव एक साथ दर्शनमोहकी
क्षपणाका आरम्भ कर अधःप्रवृत्तकरणके कालको बिताकर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें वर्त-
मानरूपसे यहाँ विवक्षित करने चाहिए। इस प्रकार विवक्षित किये गये उन दोनों जीवोंमेंसे
किसी एकके स्थितिसत्कर्मसे दूसरे जीवका स्थितिसत्कर्म सदृश होकर भी प्राप्त होता है
तथा विसदृश होकर भी प्राप्त होता है। विसदृश होनेपर संख्यात भागवृद्धिरूपसे या असंख्यात
भागवृद्धिरूपसे विशेष अधिक होकर भी प्राप्त होता है तथा संख्यातगुणा अधिक होकर भी
प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्थितिकाण्डकके विषयमें भी कथन करना चाहिए, क्योंकि स्थिति-
सत्कर्मके अनुसार ही तद्विषयक स्थितिकाण्डकोंकी भी प्रवृत्ति होना न्यायप्राप्त है। स्थिति
सत्कर्मके सदृश होनेपर तद्विषयक स्थितिकाण्डक भी सदृश ही होते हैं। विशेष अधिक स्थिति-
सत्कर्मके होनेपर स्थितिकाण्डक भी विशेष अधिक ही होते हैं। तथा संख्यातगुणे स्थिति-
सत्कर्मके होनेपर स्थितिकाण्डक भी संख्यातगुणे ही होते हैं यह उक्त कथनका भावार्थ है।

§ ३२. शंका—दो स्थितिसत्कर्मोंका सदृशपना कैसे बन सकता है ?

समाधान—कहते हैं, एक साथ ही प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण कर पुनः एक समय ही
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकर दर्शनमोहकी क्षपणाके लिये उद्यत हुए दो जीव अपूर्वकरणके
प्रथम समयमें दिखाई दिये, उन दोनोंका स्थितिमत्कर्म परस्पर सदृश होता है। तथा स्थिति-
काण्डक भी सदृश ही होते हैं, क्योंकि उनके विसदृश होनेका कारण नहीं पाया जाता।

दोसु णिरुद्धजीवेसु एगो वेच्छावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय दंसणमोहकखणणाए अब्भुट्टिदो । अण्णेगो वेछावट्टिमपरिभमिय दंसणमोहकखणणाए अब्भुट्टिदो । एवमब्भु-
ट्टिदाणं मपुण्यकरणपढमसमए ट्टिदिसंतकम्माणि विसरिसाणि होति ठिदिरांडयाणि च,
भमिदवेच्छावट्टिसागरोवमस्स ठिदिसंतकम्मादो ह्यरस्स ट्टिदिसंतकम्मस्स वेच्छावट्टि-
सागरोवममेत्तणिसेएहिं समहियत्तदंसणादो । एसा उकस्सपक्खेण विसेसाहियभाव-
परुवणा कदा । अण्णहा पुण समयुत्तरादिकमेण सव्ववियप्पा वेछावट्टिपज्जंता लब्भंति
त्ति वत्तव्वं । एवं ट्टिदिरांडयस्स वि तदणुसारेण विसेसाहियत्तमणुगतत्त्वं ।

§ ३३. अथवा दोण्हं जीवाणमेगो उवसमसेहिं चट्टिय हेट्ठा ओसरियूणंतोमुहुत्त-
मच्छिदो । पुणो अण्णेगो पच्छा उवसमसेहिं चट्टिय हेट्ठा ओदिण्णो । एवमोदरिय
दो वि समकालमेव दंसणमोहकखणमाढविय अपुण्यकरणपढमसमये समवट्टिदा । एव-
मवट्टिदाणं पुण्विल्लस्स ट्टिदिसंतकम्मादो पच्छिल्लस्स ट्टिदिसंतकम्मं विसेसाहियं भवदि ।
किं कारणं ? पुण्विल्लट्टिदिसंतकम्ममधट्टिदोए अंतोमुहुत्तकालं गलिटं । पच्छिल्लस्स
पुण ण गलिटमिदि । एवं ठिदिरांडयादो वि ट्टिदिरांडयस्स तद्वाभावो जोजेयव्वो ।

अब विशेष अधिकपनेके कारणका कथन करते हैं । यथा—दो विवक्षित जीवोंमेंसे एक जीव दो छयासठ सागरोपम काल तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहकी क्षणणाके लिये उद्यत हुआ तथा दूसरा एक दो छयासठ सागरोपम काल तक परिभ्रमण किये बिना दर्शनमोहकी क्षणणाके लिये उद्यत हुआ । इस प्रकार उद्यत हुए उन दोनों जीवोंके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्कर्म विसदृश होते हैं और स्थितिकाण्डक भी विसदृश होते हैं, क्योंकि दो छयासठ सागरोपम काल तक भ्रमण करनेवाले जीवके स्थितिसत्कर्मसे दूसरे जीवका स्थिति-
सत्कर्म दो छयासठ सागरोपमकालके समय प्रमाण निपेकोंकी अपेक्षा विशेष अधिक देखा जाता है । यह उत्कृष्ट पक्षकी अपेक्षा विशेषाधिकपनेकी प्ररूपणा की है । अन्यथा एक समय अधिक आविसे लेकर दो छयासठ सागरोपम कालके जितने समय होते हैं उतने सब विकल्प प्राप्त होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए । इसी प्रकार तदनुसार स्थितिकाण्डकका भी विशेष अधिकपना जान लेना चाहिए ।

§ ३३. अथवा दो जीवोंमेंसे एक जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर तथा नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्त कालतक ठहरा रहा । पुनः अन्य एक जीव वादमें उपशमश्रेणिपर चढ़कर नीचे उतरा । इसप्रकार उतरकर ये दोनों जीव एक कालमें ही दर्शनमोहकी क्षणणाका आरम्भ कर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अवस्थित हुए । इस प्रकार अवस्थित हुए इन दोनोंमेंसे पहले जीवके स्थितिसत्कर्मसे पिछले जीवका स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक होता है, क्योंकि पहले जीवके स्थितिसत्कर्मकी अधःस्थिति अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण अधिक गल गई है । इसी प्रकार एक जीवके स्थितिकाण्डकसे दूसरे जीवके स्थितिकाण्डककी भी उसी प्रकार योजना कर लेनी चाहिये ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहकी क्षणणा करनेवाले जो दो जीव एक साथ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रवेश करते हैं उन दोनोंके परस्पर स्थितिसत्कर्म समान या असमान कैसे होते हैं

१. ता०प्रती एगो वेछावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय दंसणमोहकखणणाए अब्भुट्टिदो । एवमब्भुट्टिदाण-
न्ति पाठः ।

§ ३४. संपहि सखेज्जुणस्स ट्टिदिसंतकम्मस्स ट्टिदिखंडयस्स च संभवविसय-
प्पदंसणट्टुमुवरिमं सुत्तपबंधमाह—

तं जहा ।

§ ३५. मरिसट्टिदिसंतकम्मं विसेसाहियं ट्टिदिसंतकम्मं च सुगममिदि तमुल्लं-
घियूण मंखेज्जुणट्टिदिसंतकम्मट्टिदिखंडयविसयमेवेदं पुच्छासुत्तमुवइट्ठं दट्ठव्वं ।

दोणहं जीवाणमेक्को कसाए उवसामेयूण खीणदंसणमोहणीयो जादो ।
एक्को कसाए अणुवसामेयूण खीणदंसणमोहणीओ जादो । जो अणुवसामेयूण
खीणदंसणमोहणीओ जादो तस्स ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जुणं ।

इस तथ्यका यहाँ विचार करते हुए सदृशपनेका और विसदृश होकर भी विशेषाधिकपनेका
सयुक्तिक विचार किया गया है। सदृशपनेका विचार करते हुए जो कुछ बतलाया है उसका
आशय यह है कि ऐसे दो जीव जो जिन्होंने एक साथ प्रथमोपशम सन्यक्त्वको प्राप्तकर
अनन्तर एक साथ ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसयोजना की है। समझो, पुनः वे ही दोनों
जीव एक साथ दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत होकर क्रमसे एक साथ ही अपूर्वकरणमे
प्रवेश करते हैं तो उन दोनोंके स्थितिसत्कर्म सदृश ही होते हैं। विसदृशपनेका स्पष्टीकरण
करते हुए जो कुछ बतलाया है उसका एक प्रकार तो यह है कि ऐसे दो जीव जो जिन्होंने
दर्शनमोहकी क्षपणासे पूर्व अन्य सब कार्य तो कालभेदसे किये हैं, किन्तु दर्शनमोहकी
क्षपणाका प्रारम्भ करनेमे यदि समय भेद नहीं हुआ तो उनके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें
एक साथ प्रवेश करनेपर भी स्थितिसत्कर्ममे असमानता बन जाती है। इसे स्पष्ट करते हुए
जयधवलामें बतलाया है कि एक जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर उतरा तथा ठहरा रहा। पुनः
दूसरा जीव अन्तर्मुहूर्त बाद उपशमश्रेणिपर चढ़कर उतरा। इसके बाद इन दोनोंने दर्शन-
मोहकी क्षपणाका प्रारम्भकर एक साथ अपूर्वकरणमें प्रवेश किया तो उनके स्थितिसत्कर्ममें
नियमसे विसदृशता होगी। इन दोनों जीवोंमें समान क्रिया करनेमें जितने कालका बीचमें
अन्तर हुआ, पहले जीवका स्थितिसत्कर्म दूसरे जीवकी अपेक्षा उतना ही अधिक होगा। यह
एक प्रकार है। दूसरा प्रकार दो लघासठ सागरोपम काल तक एक जीवके परिभ्रमण करने
और दूसरे जीवके परिभ्रमण न करनेकी अपेक्षा बतलाया गया है। इस प्रकार नाना जीवोंके
स्थितिकर्ममें विसदृशता बन जानेसे दर्शनमोहके क्षपणके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें भी
विसदृशता बन जाती है, भले ही उन्होंने एक साथ अपूर्वकरणमें प्रवेश किया हो।

§ ३४ अब संख्यातगुणा स्थितिसत्कर्म और स्थितिकाण्डक सम्भव है इसका विषयको
विखलानेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* वह जैसे ।

§ ३५ सदृश स्थितिसत्कर्म और विशेष अधिक स्थितिसत्कर्म सुगम हैं, इसलिए उनका
उल्लंघनकर संख्यातगुणे स्थितिसत्कर्म और स्थितिकाण्डक विषयक ही यह पृच्छासूत्र कहा
गया जानना चाहिए ।

* दो जीवोंमेंसे एक जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर और कषायोंका उपशमनकर
दर्शनमोहकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ। दूसरा जीव कषायोंका उपशम किये बिना

§ ३६. एत्थ खीणदंसणमोहणीयभाविणो अपुव्वकरणस्सेव खीणदंसणमोहववएसो त्ति कादूण सुत्तत्थपरूवणा एवमणुगंतव्वा । तं जहा—दोण्हं जीवाणं मज्जे एक्को उवसमसेट्ठि चडिय अपुव्वाणियट्ठिकरणेहिं ट्ठिदीए संखेज्जे भागे घादेदूण संखेज्जदि-भागं परिसेसिय तदो कमेण कसाये उवसामेयूण हेट्ठा परिवडिय अंतोमुहुत्तेण विसोहिं पूरेदूण दंसणमोहक्खवणं पट्टविय खीणदंसणमोहणीयभाविओ अपुव्वकरणो जादो । अण्णेणो कसाए अणुवसामेयूण दंसणमोहक्खवणमाढविय खीणदंसणमोहभाविओ अपुव्वकरणो जादो । एवमेदिसिमपुव्वकरणपटमसमण वट्टमाणणं मज्जे जो कसाए अणुवसामेयूण खीणदंसणमोहपज्जायाहिमुट्ठो जादो तस्स ट्ठिदिसंतकम्ममियरस्स ट्ठिदिसंतकम्मं पेक्खिखूण संखेज्जगुणं होइ । किं कारणं ? उवसमसेटीए अपुव्वकरणादि-परिणामेहिं पुव्वमपत्तघादत्तादो । एवं ट्ठिदिखंडयस्स त्ति संखेज्जगुणत्तं वत्तव्व । एवमेदं परूविय संपहि एत्थुद्देसे अण्णं पि विचारं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

जो पुट्ठवं दंसणमोहणीयं खवेदूण पच्छा कसाए उवसामेदि जो वा दंसणमोहणीयमक्खवेदूण कसाए उवसामेइ तेसिं दोएहं पि जीवाणं दर्शनमोहकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ । इनमेंसे जो जीव कषायोंका उपशम किये बिना क्षीण दर्शनमोहनीय हुआ है उसका स्थितिसत्कर्म प्रथम जीवकी अपेक्षा संख्यात-गुणा अधिक होता है ।

§ ३६. यहाँपर जिसका भविष्यमें दर्शनमोहनीय क्षीण होगा ऐसे अपूर्वकरण जीवकी हो 'क्षीणदर्शनमोह' संज्ञा है ऐसा समझकर सूत्रके अर्थको प्ररूपणा इस प्रकार जाननी चाहिए । यथा—दो जीवोंमेंसे एक जीव उपशमश्रेणिपर चढ़कर, अपूर्वकरण और अनिवृत्ति-करण परिणामोंके द्वारा स्थितिके संख्यात बहुभागका घात कर और संख्यातवे भागको शेष रखकर अनन्तर क्रमसे कषायोंका उपशमकर तथा नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा विमुद्धि को पूरकर तथा दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भकर भविष्यमें जिसका दर्शनमोहनीय क्षीण होगा ऐसा अपूर्वकरण परिणामवाला हो गया । तथा अन्य एक जीव कषायोंका उपशम किये बिना दर्शनमोहकी क्षपणाका आरम्भकर जिसका अन्तर्मुहूर्तमें दर्शनमोहनीयका क्षय होगा ऐसा अपूर्वकरण परिणामवाला हो गया । इस प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विद्यमान इन दोनोंमेंसे जो कषायोंका उपशम किये बिना दर्शनमोहके क्षयसे उत्पन्न हुई पर्यायके अभि-मुख हुआ है उसका स्थितिसत्कर्म दूसरेके स्थितिसत्कर्मको देखते हुए संख्यातगुणा पाया जाता है, क्योंकि उपशमश्रेणिमें अपूर्वकरण आदि परिणामोंके द्वारा पूर्वमें उसकी स्थितिका घात नहीं हुआ है । इसी प्रकार उसके स्थितिकाण्डक भी संख्यातगुणा कहना चाहिए । इस प्रकार इसका कथनकर इस स्थलपर अन्य तथ्यका भी विचार करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* जो जीव पहले दर्शनमोहनीयका क्षय करके बादमें कषायोंका उपशम करता है अथवा जो जीव दर्शनमोहनीयका क्षय किये बिना कषायोंका उपशम करता है उन

कसायेसु उवसंतेसु तुल्लकाले समधिच्छिवे तुल्लं ठिदिसंतकम्मं ।

§ ३७. एदेसि दोण्हमणंतरणिरुद्धजीवाणं कसाएसु उवसंतेसु तुल्ले च विस्समण-
काले अधट्टिदिगालणवावारेण समइकंते संते सरिसं चैव ट्टिदिसंतकम्मं होइ, ण
विसरिसमिदि वुत्तं होइ । किं कारणं ? जो पुव्वं वंसणमोहणीयं खवेमाणो जीवो सो
जइ वि अप्पणो ठिदिसंतकम्मस्स संखेज्जे भागे हणइ तो वि सो तेण धादिज्जमाणो
ठिदिविसेसो चरित्तमोहोवसामगेण धादिज्जमाणट्टिदिविसेसस्स अंतो चैव णिवददि तत्तो
बहिब्भूदस्स तस्साणुवलंभाशे । खविददंसणमोहणीओ कसाये उवसामेमाणो सेसोव-
सामगेण धादिदावसेसट्टिदिसंतकम्मादो हेट्टदो पेन्नियूण किण्ण धादेदि त्ति चे ? ण,
तत्तो हेट्टा तस्स धादणसत्तीए असंभवादो । कुदो एवं णव्वदे ? एदम्हादो चैव
सुत्तादो । तदो दोण्हं पि अप्पणो विधाणेणागतूण कसायोवसामणाए अब्भट्टिदाण-
मणियट्टिपटमट्टिदिखडये णिवदिदे तदो प्पहुडि सव्वत्थेव ट्टिदिसंतकम्मं सरिसं चैव
होइ त्ति सिद्धं ।

दोनों ही जीवोंके कषायोंके उपशान्त होकर समान काल व्यतीत होनेपर समान स्थितिसत्कर्म होता है ।

§ ३७ अनन्तर विवक्षित हुए इन दोनों जीवोंके कषायोंके उपशान्त होनेपर और
अधःस्थितिगालनरूप व्यापारके द्वारा समान विश्रामकालके व्यतीत होनेपर स्थितिसत्कर्म
समान ही होता है, विसदृश नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि जो पहले
दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाला जीव है वह यद्यपि अपने स्थितिसत्कर्मके संख्यातबहुभागका
घात करता है तो भी उसके द्वारा घाता जानेवाला वह स्थितिविशेष चारित्रमोहनीयके उप-
शामक द्वारा घाते जानेवाले स्थितिविशेषके भीतर ही पतित होता है, उससे अधिक वह नहीं
पाया जाता ।

शंका—जिमने दर्शनमोहनीयका क्षय किया है ऐसा जाँव कषायोंका उपशम करता
हुआ दूसरे उपशामकके द्वारा घात करनेसे शेष रहे स्थितिसत्कर्मसे नीचे अपकर्षणकर क्यों
नहीं घातता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उससे नीचे उसके घात करनेकी शक्तिका पाया जाना
असम्भव है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

ममाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

इसलिये अपनी-अपनी विधिसे आकर कषायोंकी उपशमना करनेके लिये उद्यत हुए
दोनों ही जीवोंके अनिवृत्तिकरणके प्रथम स्थितिकाण्डकके पतित होनेपर वहाँसे लेकर सर्वत्र ही
स्थितिसत्कर्म सदृश ही होता है यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बतलाया है कि चाहे दर्शनमोहनीयका क्षयकर कषायोंका उप-

§ ३८. संपहि एगो जीवो कसाये उवसामेयूण पच्छा दंसणमोहणीयस्स खवगो जादो । अण्णेगो पुञ्जमेव दंसणमोहणीयं खवेदूण पच्छा कसायोवसामणाए वावदो । एदेसिं दोण्हं जीवाणं णिट्ठिदकिरियाणं समाणसमये वड्डमाणाणं ट्ठिदि-संतकम्माणि किं सरिसाणि होति, आहो विसरिसाणि त्ति एवंविहासकाए णिरारेगीकरणड्डुत्तर-सुत्तमाह—

जो पुञ्जं कसाये उवसामेयूण पच्छा दंसणमोहणीय खवेह, अण्णेगो पुञ्जं दंसणमोहणीयं खवेयूण पच्छा कसाए उवसामेह एदेसिं दोण्हं पि खीणदंसणमोहणीयायां खवणकरणेसु उवसमकरणेसु च णिट्ठिवेसु तुल्ले काले विदिकंते जेण पच्छा दंसणमोहणीयं खविदं तस्स ट्ठिदिसंतकम्मं थोवं । जेण पुञ्जं दंसणमोहणीयं खवेयूण पच्छा कसाया उवसामिदा तस्स ट्ठिदिसंतकम्मं संवेज्जगुणं ।

§ ३९. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—दोण्हमेदेसिं जीवाणं खीण-दंसणमोहणीयाणं खवणाकरणेसु उवसामणाकरणेसु च अधापवत्तभेदमिण्णेसु जहा-णिद्धारिदेण कमेण णिट्ठेसु तुल्ले च विस्समणकाले विदिकंते जेण पच्छा दंसण-

शम करनेवाला जीव हो, चाहे दर्शनमोहनीयका क्षय किये बिना कषायोंका उपशम करनेवाला जीव हो। इन दोनोंके अनिवृत्तिकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकका पतन होनेपर जो स्थिति शेष रहती है वह समान ही होती है। प्रथम जीवके दूसरे जीवकी अपेक्षा अनिवृत्तिकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकके पतनके बाद और कम स्थिति नहीं हो सकती। उक्त शंका—समाधानका भी यही तात्पर्य है।

§ ३८ अब एक जीव कषायोंका उपशम करके बादमें दर्शनमोहनीयका क्षयक हुआ। तथा अन्य एक जीव पहले ही दर्शनमोहनीयका क्षय करके बादमें कषायोंकी उपशमनामें व्यापृत हुआ। अपनी क्रियाको समाप्तकर समान समयमें वर्तमान इन दोनों जीवोंके स्थिति-सत्कर्म क्या सदृश होते हैं या विसदृश होते हैं ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* जो पहले कषायोंको उपशमाकर बादमें दर्शनमोहनीयका क्षय करता है और अन्य जीव पहले दर्शनमोहनीयका क्षय कर बाद में कषायोंको उपशमाता है, दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाले इन दोनों ही जीवोंके क्षणकरण और उपशमनाकरणके समाप्त होकर तुल्यकालके व्यतीत होनेपर जिसने बादमें दर्शनमोहनीयका क्षय किया है उसका स्थितिसत्कर्म थोड़ा होता है। जिसने पहले दर्शनमोहनीयका क्षय कर बादमें कषायोंको उपशमाया है उसका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा होता है।

§ ३९. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। यथा—जिन्होंने दर्शनमोहनीयका क्षय किया है ऐसे इन दोनों जीवोंके अधःप्रवृत्तभेदसे भेदको प्राप्त हुए क्षणकरणों और उपशमनाकरणोंके यथानिर्धारित क्रमसे सम्पन्न होनेपर तथा समान विश्रामकालके व्यतीत हो जानेपर जिसने

मोहणीयं खविदं तस्स द्विदिमंतकम्ममियरट्टिदिसंतकम्मादो थोवयरं होइ । किं कारणं ? कसायोवसामणापरिणामेहिं पत्तधादस्स तस्स पुणो वि दंसणमोहकखवगपरिणामेहिं घाददंसणादो । जेण पुण पुव्वं दंसणमोहणीयं खवेदूण पच्छा कसाया उवसामिदा तस्स द्विदिसंतकम्मं पुव्विल्लादो संखेज्जगुणं होदि । किं कारणं ? दंसणमोह-
कखवणाणिबंधणट्टिदिघादजणिदविसेसस्स पुणरुत्तभावेण तत्थाणुवलंभादो । तं पि कुदो ? कसायोवसामणेण घादिज्जमाणट्टिदिविसए चैव तस्स पवुत्तिदंसणादो । णेदमसिद्धं, अकखविददंसणमोहणीयसियरस्स च कसायोवसामणाए वावदस्स घादिदावसेसट्टिदि-
संतकम्माणं सरिसभावब्भुवगमेण सिद्धत्तादो । एदं सव्वं पसगागद विचारिदं, दंसणमोहकखवगापुव्वकरणपटमसमये सव्वस्सेदस्सत्थविचारस्स संभवाणुवलंभादो । एत्थ पुण पयदोवजोगियमेत्थियं चैव—कसाये उवसामेयूण पच्छा खीणदंसणमोहभाविणो अपुव्वकरणस्स पटमसमए द्विदिसंतकम्मं द्विदिखंडय च अणुवसामिदकसायस्स खीण-
दंसणमोहभाविणो अपुव्वकरणस्स पटमसमए द्विदिसंतकम्मादो द्विदिखंडयादो च संखेज्जगुणहीणमिदि । संपहि अपुव्वकरणपटमसमयादो आठविय द्विदिखंडयादि-
परूवणं परिवाडीए कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

वादमें दर्शनमोहनीयका क्षय किया है उसका स्थितिसत्कर्म दूसरेके स्थितिमत्कर्मसे बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि कषायोंको उपशमानेवाले परिणामोंसे घातको प्राप्त हुई स्थितिका फिर भी दर्शनमोहकी क्षपणा करनेवाले परिणामोंके द्वारा घात देखा जाता है । परन्तु जिमने पहले दर्शनमोहनीयका क्षयकर बादमें कषायोंको उपशमाया है उसका स्थितिसत्कर्म पूर्वमें कहे गये उक्त जीवके स्थितिसत्कर्मसे संख्यातगुणा होता है, क्योंकि दर्शनमोहकी क्षपणाके निमित्तसे होनेवाले स्थितिघातसे उत्पन्न हुआ विशंप पुनरुक्तरूपसे वहाँ नहीं पाया जाता ।

शंका—वह भी कैसे ?

समाधान—कषायोंको उपशमानेवालेके द्वारा घाती जानेवाली स्थितिमें ही उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है । यह अमिद्ध भी नहीं है, क्योंकि जो जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणा किये बिना कषायोंके उपशमानेमें व्यापृत होता है और जो जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाकर कषायोंके उपशमानेमें व्यापृत होता है उन दोनोंका घात करनेसे शेष बचा स्थिति मत्कर्म सदृशरूपसे स्वीकार किया गया है, इससे उक्त कथन सिद्ध है ।

प्रसंग प्राप्त इस सबका विचार किया, क्योंकि दर्शनमोहके क्षपकके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें इस सब अर्थके विचारकी आवश्यकता नहीं है । परन्तु यहाँपर प्रकृतमें उपयोगी इतना ही है कि कषायोंको उपशमाकर बादमें दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्राप्त स्थिति सत्कर्म और स्थितिकाण्डक जिसने कषायोंको नहीं उपशमाया है ऐसे दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्राप्त स्थितिसत्कर्म और स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणा हीन होता है । अब अपूर्वकरणके प्रथम समयसे आरम्भकर स्थितिकाण्डक आदिका कथन परिपाटीक्रमसे करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं—

* अपुव्वकरणस्स पढमसमए जहणणेण कम्मणेण उवट्ठिदस्स ट्ठिदि-
खंडंगं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सेण उवट्ठिदस्स सागरो-
वमपुधत्तं ।

§ ४०. जो जीवो जहण्णट्ठिदिसंतकम्मणागंतूण दंसणमोहक्खवणाए पडुवगो
जादो तस्सापुव्वकरणपढमसमए वट्टमाणस्स आउअवज्जाणं कम्माणं जहणणयं ट्ठिदि-
खंडयं होइ । त पुण किंपमाणमिदि आसंकाए पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो त्ति
तप्पमाणणिहेसो कदो । एदेण पलिदोवमस्सासंखेज्जभागादिवियप्पाणं पडिसेहो कओ
दट्टुव्वो । एदं च जहणणयं ट्ठिदिखंडयं जहण्णट्ठिदिसंतकम्मपडिबद्धं कस्स होदि त्ति
पुच्छिदे जेण कसाया पुव्वसुव्वसामिदा तस्से त्ति भणामो, तदण्णत्थ पयदविसयट्ठिदि-
संतकम्मस्स सव्वजहण्णत्ताणुवलंभादो । उक्कस्सट्ठिदिसंतकम्मं पुण जेण कसाया पुव्व-
मणुव्वसामिदा तस्स दट्टुव्वं, पुत्तिव्वल्लादो एदस्स ट्ठिदिसंतकम्मस्स संखेज्जगुणत्तसिद्धीए
अणंतरमेव समत्थियत्तादो तस्सेवुक्कस्सयं ट्ठिदिखंडयं होइ । तस्स च पमाणं सागरोवम-
पुधत्तमिदि णिच्छेयव्वं ।

* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ उपस्थित हुए
जीवका स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४०. जो जीव जघन्य स्थिति सत्कर्मके साथ आकर दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक
हुआ है, अपूर्वकरणके प्रथम समयमें विद्यमान उसके आयुर्कर्मके अतिरिक्त शेष कर्मोंका
जघन्य स्थितिकाण्डक हांता है । परन्तु कितने प्रमाणवाला होता है ऐसी आज्ञा होनेपर
वह पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है इस प्रकार उसके प्रमाणका निर्देश किया ।
इस वचनके द्वारा पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण आदि विकल्पोंका प्रतिषेध किया गया
जानना चाहिए । जघन्य स्थितिसे सम्बन्ध रखनेवाला यह जघन्य स्थितिकाण्डक किसके
होता है ऐसी पृच्छा हांनेपर जिसने पहले कथायांको उपशमाया है उसके होता है ऐसा हम
कहते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य जीवके प्रकृतमें विवक्षित स्थितिसत्कर्म सबसे जघन्य
नहीं उपलब्ध होता । परन्तु उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म जिसने पहले कथायांको उपशमाया नहीं
है उसके जानना चाहिए, क्योंकि पूर्वमें कहे गये उक्त जीवकी अपेक्षा इसका स्थितिसत्कर्म
संख्यातगुणा होता है इसका समर्थन अनन्तर पूर्व ही कर आये हैं । उसीके उत्कृष्ट स्थिति-
काण्डक होता है । और वह सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण है ऐसा निश्चय करना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँपर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक किसके होता
है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक किसके होता है और उनका प्रमाण कितना है इन सब बातोंका
सुलासा करते हुए बतलाया है कि जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरकर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा
करता है उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिसत्कर्म होनेसे जघन्य स्थिति-
काण्डक होता है, जिसका प्रमाण पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण है । तथा जो जीव
कथायांको उपशमाये बिना दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसके अपूर्वकरणके प्रथम

§ ४१. संपहि तत्थेव द्विदिबंधोसरणस्स पमाणविसेसावहारणडुमिदमाह—

* द्विदिबंधादो जाओ ओसरिदाओ द्विदीओ ताओ पल्लिदोवमस्स संवेज्जदिभागो ।

§ ४२. अधापवत्तकरणचरिमसमयभाविओ तप्पाओग्गतोकोडाकोडिमेत्तद्विदि-
बंधादो जाओ द्विदीओ एण्हमोसारिदाओ तासिं पमाणं पल्लिदोवमस्स संखज्जदिभागो
चेवेत्ति णिच्छेयव्वं । संपहि तत्थेवाणुभागखंडयपमाणावहारणडुमिदमाह—

* अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडयपमाणमणुभागकयाणमणंता
भागा आगाइदा ।

§ ४३. पुव्वमोवद्विदाणमणुभागफद्धयाणमणंता भागा आउगवज्जाणं अप्प-
सत्थाणं कम्माणं अणुभागखंडयत्थमागाइदा । पसत्थाणं कम्माणमाउअस्स च विसोहीए
अणुभागखंडयथादाभावादो । एत्थाणुभागखंडयमाहप्पजाणावणडुमप्पावहुअं पुव्वं व
कायव्वं । संपहि एत्थेवाउगवज्जाणं सव्वकम्माणं गुणसेट्ठिणिक्खेवो वि पारद्धो त्ति
पदुप्पायणडुमिदमाह—

समयमें पूर्वके स्थितिसत्कर्मसे संख्यातगुणा उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म होनेसे सागरोपम पृथक्त्व-
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक होता है ।

§ ४१. अब वहीपर स्थितिबन्धापसरणके प्रमाणविशेषका अवधारण करनेके लिए
इस सूत्रको कहते हैं—

* पिछले स्थितिबन्धसे यहाँपर जिन स्थितियोंका अपसरण किया है वे पल्यो-
पमके संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ४२. अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होनेवाले तत्प्रायोग्य अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण
स्थितिबन्धसे जिन प्रकृतियोंका यहाँपर अपसरण किया है उनका प्रमाण पल्योपमके संख्यातवे
भागप्रमाण ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए । अब वहीपर अनुभागकाण्डकके प्रमाणका
निश्चय करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं—

* अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकाण्डकका प्रमाण अनुभागस्पद्धकोंका अनन्त
बहुभाग ग्रहण किया ।

§ ४३. पहले अपवर्तित किये गये अनुभाग स्पर्धकोंमेंसे अनन्त बहुभागप्रमाण स्पर्धक
आयुर्कर्मके अतिरिक्त अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागकाण्डकके लिए ग्रहण किये, क्योंकि प्रशस्त
कर्मोंका और आयुर्कर्मका अनुभागकाण्डकघात नहीं होता । यहाँपर अनुभागकाण्डकके
माहात्म्यको जाननेके लिए अल्पबहुत्व पहलेके समान करना चाहिए । अब यहीपर आयुर्कर्मके
अतिरिक्त सब कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप भी प्रारम्भ किया इस बातके कथन करनेके लिए
आगेका सूत्र कहते हैं—

१. ता०प्रती एत्थाणुभागखंडयमाहप्पजाणावणट्ठमिदमाह इति पाठ. ।

* गुणसेदी उदयावलियबाहिरा ।

§ ४४. अपूर्वकरणपदमसमए चेव गुणसेदी आढत्ता । सा गुण एत्थ उदया-
वलियबाहिरा ददुव्वा, उदयादिगुणसेदिणिक्खेवस्स एदम्मि विसये संभवाभावादो ।
तिस्से पुण आयामो एत्थतणापुव्वणिपट्टिकरणद्वाहितो विसेसाहियमेत्तो होइ । एत्थेव
मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं गुणसंकमो वि पारदो ति वक्खाणेयव्वं । सुत्ते तहा परूषणा
किण्ण कया ? ण, वक्खाणादो चेव तहाविहविसेससिद्धी होदि ति सुत्ते तदपरूषणादो ।

* उदयावलिके बाहर गुणश्रेणिकी रचना की ।

§ ४४ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ही गुणश्रेणिकी रचना की । किन्तु उल्लेख यहाँपर
उदयावलिके बाहर जानना चाहिए, क्योंकि यहाँपर उदयादि गुणश्रेणिका निक्षेप सम्भव नहीं
है । परन्तु उसका आयाम यहाँके अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक
प्रमाण है । तथा यहाँपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका गुणसंकम भी प्रारम्भ किया ऐसा
व्याख्यान करना चाहिए ।

शंका—सूत्रमें उस प्रकारकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ?

समाधान—नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे ही उस प्रकारके विशेषकी सिद्धि होती है,
अतः सूत्रमें उस प्रकारकी प्ररूपणा नहीं की ।

विशेषार्थ—यहाँ अधःप्रवृत्तकरणसे अपूर्वकरणमें उसके प्रथम समयसे लेकर जिन
विशेष कार्योंका प्रारम्भ हो जाता है उनका उल्लेख करते हुए बतलाया है कि अपूर्वकरणके
प्रथम समयसे स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात, गुणश्रेणिरचना और गुणसंकम
ये चार विशेष कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं । काण्डक एक पर्व (पोर) या हिस्सेका नाम है ।
आयुर्कर्मको छोड़कर शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके कर्मोंकी क्रमसे उपरितन एक-एक काण्डक-
प्रमाण स्थितिका फालिक्रमसे एक-एक अन्तर्मुहूर्तमें घातकर अभाव करना स्थितिकाण्डकघात
कहलाता है । जैसे लकड़ीके किसी कुन्देके करवतके द्वारा चीरकर अनेक फलक बना लिये
जाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक काण्डकप्रमाण स्थितिके तत्प्रायोग्य अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण फालि
(फलक) बनाकर एक-एक समय द्वारा एक-एक फालिका अभाव करना यह एक स्थितिकाण्डकघात
कहलाता है । अपनी-अपनी सत्त्वस्थितिके अनुसार यहाँपर जघन्य स्थितिकाण्डक पर्योपमके
संख्यातवर्गे भागप्रमाण है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण है । इसी
प्रकार अनुभागकाण्डकघात समझना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अनुभागकाण्डकघात
अप्रशस्त कर्मोंका ही होता है, प्रशस्त कर्मोंका नहीं, क्योंकि वहाँ प्राप्त विशुद्धिके कारण आयु-
कर्मके साथ प्रशस्त कर्मोंके अनुभागका घात नहीं होता । तथा अप्रशस्त कर्मोंका जितना
अनुभाग सत्तामें होता है उसके अनन्त बहुभाग प्रमाण अनुभागका प्रथम अनुभागकाण्डक
होकर उसका भी फालिक्रमसे अभाव होता है । इसी प्रकार द्वितीयादि अनुभागकाण्डकोंके
विषयमें भी समझ लेना चाहिए । विवक्षित कालप्रमाण नियेकोंमें उपरितन स्थितियोंके द्रव्यको
अपकर्षण करके गुणित क्रमसे वेना गुणश्रेणिनिक्षेप है । यहाँ उदयादि गुणश्रेणि रचना न
होकर उदयावलिके बाहर उपरितन प्रथम स्थितिके लेकर अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण निषेकोंमें
उसकी रचना होती है । प्रकृतमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणका जितना काल है उससे
उक्त अन्तर्मुहूर्त कुछ बढ़ा है । प्रत्येक समयमें तत्प्रायोग्य काल तक विवक्षित कर्मपरमाणुओंका

§ ४५. एवमपुव्वकरणपढमसमए समगमाढत्ताणं द्विदि-अणुभागखंडय-तव्वंधो-सरणाणं गुणसेटिणिकखेवस्स च विदियादिसमएसु कथं पवुत्ती, किमण्णारिसी आहो तारिसी चेवे त्ति एदस्स णिण्णयविहाणइमुत्तरसुत्तारंभो—

* विदिसमए तं चेव द्विदिविखंडयं, तं चेव अणुभागखंडयं, सो चेव द्विदिविबंधो, गुणसेटी अण्णा ।

§ ४६. विदियसमए ताव द्विदि-अणुभागखंडय^१-द्विदिवंधोसरणेसु णत्थि णाणत्तं, पढमसमयमाढत्ताणं चेव तेसिमंतोमुहुत्तकालमवद्विदभावेण पवुत्तिदंसणादो । गुणसेटी पुण अण्णारिसी होइ । किं कारणं ? पढमसमयोक्त्तददव्वादो असंखेज्जगुणं दव्व-मोक्त्तियूण उदयावलियवाहिरे गल्लिदसेसायामेण तण्णिकखेवं करेदि त्ति । तम्हा गुण-सेटिणिकखेवे चेव थोवयरो विसेसो ।

गुणितक्रमसे अन्य सजातीय प्रकृतियोंमें संक्रमित होना गुणसंक्रम कहलाता है। यहाँ मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियोंका गुणसंक्रम प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर ये चार कार्यविशेष प्रारम्भ हो जाते हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिए।

§ ४५. इस प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयमें एक साथ आरम्भ किये गये स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक, स्थितिवन्धापररण, अनुभागबन्धापररण और गुणश्रेणिनिक्षेपकी द्वितीयादि समयोंमें किस प्रकार प्रवृत्ति होती है, क्या अन्य प्रकारकी होती है या उसी प्रकारकी होती है इस प्रकार इसके निर्णयका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका आरम्भ है—

* दूसरे समयमें वही स्थितिकाण्डक है, वही अनुभागकाण्डक है, वही स्थितिवन्ध है, किन्तु गुणश्रेणि अन्य होती है।

§ ४६. दूसरे समयमें भी स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थितिवन्धापररणमें भेद नहीं है, क्योंकि प्रथम समयमें आरम्भ किये गये उन्हींकी अन्तर्मुहूर्त काल तक अवस्थित रूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है। परन्तु गुणश्रेणि अन्य प्रकारकी होती है, क्योंकि प्रथम समयमें जितने द्रव्यका अपकर्षण हुआ है उससे असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षणकर उदयावलिके बाहर गलित शेष आयामरूपसे उसका निक्षेप करता है। इसलिए गुणश्रेणिनिक्षेपमें ही थोड़ी विशेषता है।

विश्लेषार्थ—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि गुणश्रेणि आयाम अपूर्वकरण और अनिष्टित्करणके कालसे कुछ अधिक कालप्रमाण है। यतः यह गलितत्वशेष गुणश्रेणि है, अतः दूसरे समय उसके आयाममें एक समयकी कमी हो जाती है। इसी प्रकार आगे भी उसके आयाममें एक-एक समयकी कमी तब तक जानना चाहिए जब तक उसकी रचना होती रहती है। साथ ही प्रथम समयमें गुणश्रेणि आयाममें जितने द्रव्यका निक्षेप होता है उससे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप उसमें दूसरे समयमें होता है। इसी प्रकार आगे भी प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप गुणश्रेणि रचनाके अन्तिम समय तक जानना चाहिए।

१. ता० प्रती ताव अणुभागखंडय- इति पाठः ।

* एवमंतोमुहुत्तं जाव अणुभागखंडयं पुण्णं ।

§ ४७. एवमेदीए विदियसमयपरूवणाए अणूणाहियाए षेद्व्वं जाव अंतोमुहुत्त-
मुवरिं गंतूण पढमाणुभागखंडयं णिट्ठिदमिदि^१ । तम्मि णिट्ठिदे किंचि णाणचमत्थि ।
तं जहा—तं चैव ट्ठिदिखंडयं, सो चैव ट्ठिदिबंधो, सा चैव पोरणिगया उदयावलय-
बाहिरे गलिदसेसा गुणसेढी । अणुभागखंडयं षुण अण्णमाढविज्जइ, पढमाणुभाग-
खंडयुक्कीरणद्दाए तत्थ परिसमचीदो ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । पढमट्ठिदि-
खंडगद्दा पुण णाज्ज वि समप्पदि, तिस्से संखेज्जदिभागस्सेव गयचादो ।

* एवमणुभागखंडयसहस्सेसु पुण्णेसु अण्णं ट्ठिदिखंडयं ट्ठिविबंध-
मणुभागखंडयं च पट्टवेइ ।

§ ४८. एवमेदीए परूवणाए संखेज्जसहस्समेत्तेसु अणुभागखंडएसु पुण्णेसु
ताषे पढमट्ठिदिखंडयं पढमो ट्ठिदिबंधो तदित्थमणुभागखंडयं च जुगवं परिसमत्ताणि ।
तकाले चैव अण्णं ट्ठिदिखंडयमणो ट्ठिदिबंधो अण्णं च अणुभागखंडयमाढवेदि ति
एसो एत्थ सुत्तत्थणिच्छओ । संपहि पढमट्ठिदिखंडयायामादो विदियादिट्ठिदिखंड-

* इस प्रकार एक अनुभागकाण्डकके पूर्ण अर्थात् व्यतीत होनेके अन्तर्मुहूर्त
काल तक जानना चाहिए ।

§ ४७ इसप्रकार दूसरे समयकी न्यूनाधिकतासे रहित इस प्ररूपणाको अन्तर्मुहूर्त काल
ऊपर जाकर प्रथम अनुभागकाण्डकके समाप्त होनेतक ले जाना चाहिए । उसके समाप्त
होनेपर कुछ भेद है । यथा—वही स्थितिकाण्डक है, वही स्थितिवन्ध है, वही पुरानी
उदयावलिके बाहर गलितावशेष गुणश्रेणि है । परन्तु यहाँसे अन्य अनुभागकाण्डकका आरम्भ
करता है, क्योंकि प्रथम अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल वहाँ समाप्त हो जाता है यह इस
सूत्रका भावार्थ है । परन्तु प्रथम स्थितिकाण्डक काल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि
अभी उसका संख्यातवर्षा भाग ही व्यतीत हुआ है ।

* इसप्रकार हजारों अनुभागकाण्डकोंके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिकाण्डक,
अन्य स्थितिवन्ध और अन्य अनुभागकाण्डकको आरम्भ करता है ।

§ ४८. इसप्रकार इस प्ररूपणाके अनुसार संख्यात हजार अनुभागकाण्डकोंके समाप्त
होनेपर उस समय प्रथम स्थितिकाण्डक, प्रथम स्थितिवन्ध और उस कालमें प्रवृत्त अनुभाग-
काण्डक एक साथ समाप्त होते हैं । तथा उसी समय अन्य स्थितिकाण्डक, अन्य स्थितिवन्ध
और अन्य अनुभागकाण्डकको आरम्भ करता है इसप्रकार यह यहाँपर इस सूत्रके अर्थका
निश्चय है । अब प्रथम स्थितिकाण्डकके आयामसे दूसरे स्थितिकाण्डकका आयाम सदृश

यायामो सरिसो विसरिसो वा चि आसंक्रिय ततो तस्स विसेसहीणत्तसाहण्ड-
मप्पाबहुअपवंधमाह—

* पढमं द्विदिखंडयं बहुअं, विदियं द्विदिखंडयं विसेसहीणं
तवियं द्विदिखंडयं विसेसहीणं ।

§ ४९. एवमेदेसिं द्विदिखंडयाणमणंतराणंतरं पेक्खियूण विसेसहीणभावेण पनुत्तं
होइ । एत्थ विसेसहाणिभागहारो संखेज्जरूवमेत्तो चि घेत्तव्यो । एवं विसेसहाणिकमेण
गच्छमाप्पेसु द्विदिखंडएसु अपुव्वकरणद्वाए केत्तियं पि अद्दाणं गंतूण पढमद्विदि-
खंडयादो संखेज्जगुणहीणं पि द्विदिखंडयमत्थि चि जाणावणट्टमिदमाह—

* एवं पढमापो द्विदिखंडयापो अंतो अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जगुणहीण
पि अत्थि ।

§ ५०. एत्थ अंतो अपुव्वकरणद्वाए चि वुत्ते अपुव्वकरणचरिमसमयमपावेयूण
हेहा वेय तकालम्भंतरे पढमद्विदिखंडयादो संखेज्जगुणहीणं ठिदिखंडयमुवलम्भइ चि
वेत्तव्वं, अपुव्वकरणद्वाए संखेज्जाणं द्विदिखंडयगुणहाणीणमुवलंभादो । एवमेदेण
विहाणेण संखेज्जसहस्समेत्तेसु द्विदिबधसमाणकालपारंभपज्जवसाणेसु पादेक्कमणुभाग-

होता है या विसवृश होता है ऐसी आशंका करके उससे उसकी विशेषहीनताकी सिद्धि
करनेके लिये अपुव्वकरणप्रबन्धको कहते हैं—

* प्रथम स्थितिकाण्डक बहुत है, उससे दूसरा स्थितिकाण्डक विशेष हीन है,
उससे तीसरा स्थितिकाण्डक विशेष हीन है ।

§ ४९. इसप्रकार इन स्थितिकाण्डकोंकी अनन्तरपूर्व अनन्तरपूर्व स्थितिकाण्डकों देखते
हुए विशेष हीनरूपसे प्रवृत्ति होती है । यहाँपर विशेष हानि लानेके लिये भागहार संख्यात अंक
प्रमाण ग्रहण करना चाहिए । इसप्रकार उत्तरोत्तर विशेष हानिके क्रमसे स्थितिकाण्डकोंके
व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणके कितने ही भागको वितारकर प्रथम स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणा
हीन भी स्थितिकाण्डक होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* इसप्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकसे अपूर्वकरण कालके भीतर संख्यातगुणा
हीन भी स्थितिकाण्डक होता है ।

§ ५०. यहाँपर 'अपूर्वकरणकालके भीतर' ऐसा कहनेपर अपूर्वकरणके अन्तिम
संबन्धको न प्राप्तकर पहले ही उसके कालके भीतर प्रथम स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणाहीन
स्थितिकाण्डक उपलब्ध होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अपूर्वकरणके कालमें
संख्यात स्थितिकाण्डक गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं । इसप्रकार इस विधानसे जिनका प्रारम्भ
और समाप्ति स्थितिवन्धके कालके समान है और जिनमेंसे प्रत्येक हजारों अनुभागकाण्डकोंका

खंडयसहस्साविणाभावीसु गदेसु तदो अपुव्वकरणद्वाचरिमसमयमेसो पावदि चि पदुप्पायणडुमुत्तरसुत्तावयारो—

* एवेण कमेण द्विदिखंडयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमयं पत्तो ।

§ ५१. गयत्यमेदं सुत्तं ।

* तत्थ अणुभागखंडयउत्कीरणकालो द्विदिखंडयउत्कीरणकालो द्विदिबंधकालो च समगं समत्तो ।

§ ५२. गयत्यमेदं पि सुत्तं ।

§ ५३. एवमपुव्वकरणे द्विदिखंडयादिपूरुवणं समाणिय संपहि तत्थेव द्विदि-

अविनाभावी है ऐसे हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर तदनन्तर अपूर्वकरणकालके अन्तिम समयको यह जीव प्राप्त करता है इस बातके कथनके लिये आगेके सूत्रका अवतार है—

* इस क्रमसे अनेक हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणके कालके अन्तिम समयको प्राप्त होता है ।

§ ५१ यह सूत्र गतार्थ है ।

* वहाँ अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल, स्थितिकाण्डकका उत्कीरण काल और स्थितिबन्धकाल एक साथ समाप्त होते हैं ।

§ ५२ यह सूत्र भी गतार्थ है ।

विशेषार्थ—यहाँ उक्त सब कथनका तात्पर्य यह है कि अपूर्वकरणके प्रथम स्थितिकाण्डकका जितना आयाम है, उससे दूसरेका विशेषहीन है, दूसरेसे तीसरेका विशेषहीन है । यह क्रम अपूर्वकरणके अन्तिम स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक जानना चाहिए । किन्तु इसप्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकके आयामकी अपेक्षा आगेके स्थितिकाण्डकोंके आयामको देखा जाय तो अपूर्वकरणके कालके भीतर ही मध्यके स्थितिकाण्डकका आयाम प्रथम स्थितिकाण्डकके आयामसे संख्यातगुणा हीन हो जाता है और इसप्रकार अपूर्वकरणके समस्त कालके भीतर संख्यात स्थितिकाण्डक गुणहानियाँ प्राप्त हो जाती हैं । यह तो एक विशेषता हुई । दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ सर्वत्र प्रत्येक स्थितिकाण्डकका काल और स्थितिबन्धकाल समान होता है । इसका तात्पर्य यह है कि अपूर्वकरणमें जितने स्थितिकाण्डकघात होते हैं, उतने ही स्थितिबन्धापसरण भी होते हैं, क्योंकि दोनोंका काल समान है । तीसरी विशेषता यह है कि एक-एक स्थितिकाण्डकघातके कालमें हजारों अनुभागकाण्डकघात होते हैं । चौथी विशेषता यह है कि अपूर्वकरणके कालके समाप्त होनेके साथ वहाँ प्राप्त अनुभागकाण्डक उत्कीरणकाल, स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल और स्थितिबन्धकाल ये तीनों एक साथ समाप्त होते हैं ।

§ ५३. इसप्रकार अपूर्वकरणमें स्थितिकाण्डक आविष्की प्ररूपणा समाप्त करके अब

संतकम्मगयविसेसपरूवणहुमिदमाह—

* चरिमसमयअपुव्वकरणे द्विविसंतकम्मं थोबं ।

§ ५४. कुदो ? संखेज्जसहस्सेहिं द्विदिखंडएहिं घादिदावसेसपमाणत्तादो ।

* पढमसमय-अपुव्वकरणे द्विविसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ ५५. कुदो ? अपुव्वकरणपरिणामेहिं अपत्तघादत्तादो । णवरि णाणावरणादीण-मपुव्वकरणचरिमसमए द्विविसंतकम्ममंतोकोडाकोडिमत्तं चैव होह, दंसण-मोहणीयस्स पुण विसेसघादवसेण सागरोवमलक्खपुभत्तमेत्तमंतोकोडाकोडीए होह चि घेत्तव्वं । द्विदिबंधो वि णाणावरणादिकम्मविसयो एदेणेवप्पाबहुअविहिणा अपुव्व-करणपढमसमयभाविओ होदि त्ति पदुप्पायणफलस्युत्तरसुत्तं—

* द्विदिबंधो वि पढमसमयअपुव्वकरणे बहुगो चरिमसमयअपुव्व-करणे संखेज्जगुणहीणो ।

§ ५६. द्विदिबंधोसरणवसेण तेसिं तहाभावसिद्धीए बाहाणुव्वंभादो । एव-मपुव्वकरणपरूवणा समत्ता ।

* पढमसमयअणियट्टिकरणपविट्टस्स अपुव्वं द्विदिखंडयमपुव्वमणु-भागसंखंडयमपुव्वो द्विदिबंधो, तहा चैव गुणसेदी ।

वहीपर स्थितिसत्कर्मगत विशेषताका कथन करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें स्थितिसत्कर्म थोड़ा है ।

§ ५४ क्योंकि संख्यात हजारों स्थितिकाण्डकोंका घात होकर वक्तप्रमाण स्थिति-सत्त्व शेष रहा है ।

* उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ ५५ क्योंकि अपूर्वकरणरूप परिणामोंके द्वारा अभी उसका घात नहीं हुआ है । इवनी विशेषता है कि अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें ज्ञानावरणादि कर्मोंका स्थितिसत्कर्म अन्तः-कोडाकोडीप्रमाण ही है, परन्तु विशेष घातके कारण दर्शनमोहनीय कर्मका अन्तःकोडाकोडीके भीतर लक्षपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ज्ञानावरणादि कर्मविषयक स्थितिबन्ध भी इसी अल्पबहुत्व विधिके अनुसार होता है इस विषयका कथन करना उत्तर सूत्रका प्रयोजन है—

* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिबन्ध भी बहुत होता है तथा अपूर्व-करणके अन्तिम समयमें संख्यातगुणा हीन होता है ।

§ ५६. क्योंकि स्थितिबन्धापसरण होनेके कारण स्थितिबन्धके उक्त प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई बाधा नहीं पाई जाती । इस प्रकार अपूर्वकरण-प्ररूपणा समाप्त हुई ।

* अनिशुचित्करणके प्रथम समयमें प्रविष्ट हुए जीवके अपूर्व स्थितिकाण्डक होता

§ ५७. एत्तो पडुट्ठि अणियट्टिकरणविसया परूषणा दडुव्वा । तत्थ ताव पढमसमयअणियट्टिकरणस्स अपुव्वकरणचरिमट्टिदिखंडयादो विसेसहीणमण्णं ट्टिदिखंडयं होइ । तं पुण जहण्णेण ट्टिदिसंतकम्मणेण उवट्टिदस्स जहण्णं होइ । उक्कस्सेण उवट्टिदस्स उक्कस्सं । जहण्णादो उक्कस्सं संखेज्जभागुत्तरं होइ । विदियादिट्टिदिखंडयाणि पुण सब्बेसिं जीवाणं सरिसाणि चेव, तत्थ विसगिसत्ते कारणाणुवल्लदीदो । एदं दंसणमोहणीयं पडुच्च परूविदं, सेसाणं कम्माणं जाणिय वत्तव्वं । तत्थेवाणियट्टिकरणपढमसमए अणमणुभागखंडयं, चरिमसमयापुव्वकरणेण घादिदसेसाणुभागसंतकम्मस्साणंता भागपमाणमागाइदं । ट्टिदिबंधो वि अपुव्वो, अणंतरहेट्टिमादो पलिदोवमस्स संखेज्जभागेण परिहीणो तत्थेवाटत्तो । गुणसेहो पुण तहा चेव गलिदसेसायामेण उदयावलिपवाहिरे णिक्खित्ता असंखेज्जगुणा च । मिच्छत्त-सम्मामिच्छताण गुणसंकमो वि तहा चेव पयट्टदि त्ति वत्तव्वं, सुत्तणिदेसाभावे वि तस्स अत्थावत्तिगम्मस्स वक्खाणे विरोहाभावादो ।

है, अपूर्व अनुभागकाण्डक होता है, अपूर्व स्थितिबन्ध होता है तथा गुणश्रेणि पूर्वोक्त प्रकारकी ही होती है ।

§ ५७ यहाँसे आगे अनिवृत्तिकरणविषयक प्ररूपणा जाननी चाहिए । उसमें अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अपूर्वकरणके अन्तिम स्थितिकाण्डकसे विशेष हीन अन्य स्थितिकाण्डक होता है । किन्तु वह जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ उपस्थित हुए जीवके जघन्य होता है और उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मके साथ उपस्थित हुए जीवके उत्कृष्ट होता है । तथा जघन्यसे उत्कृष्ट संख्यातवाँ भाग अधिक होता है । परन्तु द्वितीयादि स्थितिकाण्डक सभी जीवोंके सदृश होते हैं, क्योंकि वहाँ उनके विसदृश होनेका कारण नहीं पाया जाता । यह दर्शन-मोहनीयकी अपेक्षा कहा है, शेष कर्मोंका जानकर कहना चाहिए । वहीं अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें अन्य अनुभागकाण्डक होता है, क्योंकि अपूर्वकरण परिणामके द्वारा अन्तिम समयमें घात करनेसे शेष रहे अनुभागसत्कर्मका अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभाग अनुभागकाण्डक रूपसे प्रहण किया । स्थितिबन्ध भी अपूर्व होता है, क्योंकि अनन्तर अधस्तन स्थितिबन्धसे पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन स्थितिबन्ध वहाँपर प्रहण किया । परन्तु गुणश्रेणि पहलेके समान ही गलित शेष आयामवाली उदयावलिसे बाहर निक्षिप्त की, जो कि पिछले समयकी अपेक्षा असंख्यातगुणे परिमाणको लिए हुए निक्षिप्त की । मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वका गुणसंक्रम भी उसी प्रकार प्रवृत्त रहता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए, सूत्रमें इसका निर्देश नहीं होनेपर भी अर्थापत्तिगम्य उसका व्याख्यान करनेमें विरोधका अभाव है ।

विश्लेषार्थ—अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें जो स्थितिकाण्डक आदि प्रवृत्त थे वे वहीं समाप्त हो जाते हैं और अनिवृत्तिकरणमें नया स्थितिकाण्डक, नया अनुभागकाण्डक और नया स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है । मात्र गुणश्रेणिका क्रम पहलेके समान ही चालू रहता है । जैसे पहले अपूर्वकरणमें गलित शेष आयामरूपसे उदयावलिसे बाहर गुणश्रेणिका द्रव्य निक्षिप्त होता था वैसे अब भी निक्षिप्त होता है और जैसे पहले पिछले समयसे अगले समयमें

* अणियट्टिकरणस्स पढमसमये दंसणमोहणीयमपसत्थमुब-
सामणाए अणुवंसंतं, सेसाणि कम्माणि उवसंताणि च अणुवसंताणि च ।

§ ५८. एदेण सुत्तेण अणियट्टिकरणपविट्टुपढमसमए चेव मिच्छत्त-सम्मत्त-
सम्माभिच्छत्ताणमपसत्थोयसामणाकरणस्स हेट्ठा सव्वत्थेव अप्पट्टिहयपसरस्स
विणासो परूविदो । का अप्पसत्थउवसामणा णाम ? कम्मपरमाणूणं बज्झंतरंगकारण-
वसेण केत्तियाणं पि उदीरणावसेण उदयाणागमपहण्णा अप्पसत्थउवसामणा त्ति
भण्णदे । एवंविहा पहण्णा इदाणि विणट्ठा, सव्वासिं ठिदीणं सच्चे चेव परमाणू ओकट्टि-
गूणुदीरेदुं सकण्णिज्जा संजादा त्ति भावत्थो । ण केवलमपसत्थोवसामणा चेव थक्का,
किंतु निधत्त-णिक्काचिदकरणाणि वि दंसणमोहतियस्स णट्ठाणि त्ति वत्तव्वं, तेसिं पि
अप्पसत्थोवसामणाभेदत्तादो । सेसकम्माणि अप्पसत्थोवसामणाए उवसंताणि च
अणुवसंताणि च दट्ठव्वाणि, तेसिमेत्थ पुव्वपहण्णापरिच्चागेणेवावट्ठाणादो ।

गुणश्रेणिमें असंख्यातगुणे परमाणुओंका निक्षेप होता था, वही क्रम यहाँ भी चालू रहता है ।
तथा मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका गुणसंक्रम भी पहलेके समान ही होता रहता है ।

* अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयकर्म अप्रशस्त उपशामनारूपसे
अनुपशान्त हो जाता है, शेष कर्म उपशान्त और अनुपशान्त दोनों प्रकारके रहते हैं ।

§ ५८. मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जो अप्रशस्त उपशामनाकरण
पहले सर्वत्र ही अप्रतिहत प्रसारवाला था उसका इस सूत्र द्वारा अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट
होनेके प्रथम समयमें ही विनाश कहा गया है ।

शंका—अप्रशस्तोपशामना किसे कहते हैं ?

समाधान—कितने ही कर्म परमाणुओंका बहिरंग-अन्तरंग कारणवश उदीरणा द्वारा
उदयमें अनागमनरूप प्रतिज्ञाको अप्रशस्तोपशामना कहते हैं ।

इस प्रकारकी प्रतिज्ञा इस समय नष्ट हो गई, क्योंकि सभी स्थितियोंके सभी परमाणु
अपकर्षण द्वारा उदीरणा करनेके लिए समर्थ हो गये हैं यह उक्त कथनका भावार्थ है । उक्त
तीनों प्रकृतियोंकी केवल अप्रशस्त उपशामना ही विच्छिन्न नहीं हुई, किन्तु दर्शनमोहत्रिकके
निधित्तिकरण और निकाचित्तकरण भी नष्ट हो गये ऐसा यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि वे भी
अप्रशस्त उपशामनाके भेद हैं । शेष कर्मोंकी अप्रशस्त उपशामना उपशान्त और अनुपशान्त
दोनों प्रकारकी जाननी चाहिए, क्योंकि उनका यहाँपर पूर्व प्रतिज्ञाके त्याग बिना ही अव-
स्थान बना रहता है ।

विश्लेषार्थ—दर्शनमोहनीयकी क्षण करतें समय अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके
पूर्वतक सर्वत्र मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके कितने ही परमाणुओंके यथास्थान
यथासम्भव अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तिकरण और निकाचित्तकरण चालू रहते हैं ।
इसका यह तात्पर्य है कि उक्त करणमें प्रवेश करनेके पूर्वतक सर्वत्र दर्शनमोहनीयत्रिकके कुछ
ऐसे भी परमाणु होते हैं जो उदीरणा रूपसे उदयके अयोग्य होते हैं, कुछ ऐसे भी परमाणु

* अणियट्टिकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंतो कोडीए' । सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं कोडिसदसहस्सपुधत्तमंतो कोडाकोडीए ।

§ ५९. एदेण सुत्तेणाणियट्टिकरणपढमसमए सव्वेसिं कम्माणमाउगवज्जाणं द्विदिसंतकम्मपरुवणावहारणं कीरदे । तत्थ ताव दंसणमोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तमंतो कोडीए' होदुणं द्विदं, तस्स विसेसघादवसेण तहाभावोववचीदो । सेसाणं सव्वकम्माणं णाणावरणादीणं द्विदिसंतकम्मं कोडिसदसहस्सपुधत्तमंतोकोडाकोडीए संजादं, तेसिमेत्थ विसेसघादामावादो ।

* तयो द्विदिसंखंडयसहस्सेहिं अणियट्टिअद्दाए संव्वेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिट्टिखिंधेण दंसणमोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं समगं ।

होते हैं जो उद्दीरणारूपसे उदयके अयोग्य और संक्रमके अयोग्य होते हैं और कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो इन दोनोंके साथ उपकर्षण और अपकर्षणके भी अयोग्य होते हैं। किन्तु क्षपक जीवके अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें ही ये तीनों करण नष्ट हो जाते हैं। यहाँ सूत्रमें केवल अप्रशस्त उपशामना करणके नष्ट होनेका निर्देश किया है और टोकामें इसके साथ निधत्तिकरण और निकाचितकरणके नष्ट होनेका भा निर्देश किया है। प्रश्न यह है कि चूर्णिसूत्रमें ही उक्त तीनों करणोंके नष्ट होनेका निर्देश क्यों नहीं किया ? इसका जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि निधत्ति और निकाचितकरणका अप्रशस्त उपशामनाके भेद स्वीकार करनेसे उनका भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि व्यापक दृष्टिसे विचार करनेपर उक्त दोनों करणोंका भी अप्रशस्त उपशामनामें ही अन्तर्भाव हो जाता है।

* अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म एक कोटिके भीतर शतसहस्रपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण होता है और शेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म कोडाकोडीके भीतर कोटिशतसहस्रपृथक्त्वप्रमाण होता है ।

§ ५९. इस सूत्र द्वारा अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें आयुकर्मके अतिरिक्त सब कर्मोंके स्थितिसत्कर्मका निश्चय किया गया है। उनमेंसे दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म तो एक कोटिके भीतर शतसहस्रपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण हांकर स्थित होता है, क्योंकि विशेष घात बश उसकी उस प्रकारकी व्यवस्था बन जाती है। परन्तु शेष ज्ञानावरणादि सब कर्मोंका स्थितिसत्कर्म कोडाकोडीके भीतर कोटिशतसहस्रपृथक्त्वप्रमाण हो जाता है, क्योंकि उनके यहाँ विशेष घातका अभाव है।

विशेषार्थ—तात्पर्य यह है कि दर्शनमोह क्षपक अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म लक्षपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण होता है और आयुकर्मके अतिरिक्त शेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म कोटिपृथक्त्वसागरोपमप्रमाण होता है।

* उसके बाद हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात

१. तावपन्नप्रते: संशोधने 'कोडाकोडीए' इति पाठः समायातः ।

§ ६०. तदो पढमट्टिदिखंडयादो विसेसहीणसरूवेण ट्टिदिखंडयसहस्सेहिं बहुहिं ट्टिदिसंतकम्ममोवट्टेमाणस्स अणियट्टिअद्दाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु संखेज्जदिमाणो च सेसे तम्मि उदेसे दंसणमोहणीयस्स ट्टिदिसंतकम्मं सागरोवमसदसहस्सपुधत्तादो कमेण परिहाइदूण असपिण्णिट्टिदिवंधेण संपुण्णसागरोवमसहस्समेत्तेण समगं जादमिदि एसो सुत्तथसमुच्चओ । सेसकम्माणं ट्टिदिवंधो ट्टिदिसंतकम्मं च अणियट्टिकरणद्दाए सव्वत्थेव अंतोकोडाकोडीए चैव वट्टदि ति भेत्तव्वं ।

* तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण चउरिंदियबंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं ।

* तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण तीइंदियबंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं ।

* तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण बीइंदियबंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं ।

* तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण एइंदियबंधेण ट्टिदिसंतकम्मं समगं ।

§ ६१. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । णवरि सव्वत्थ ट्टिदिखंडयपुधत्तपिहेसस्स वहपुस्सलवाचित्तेण वक्खणं कायव्वं, ट्टिदिखंडयपुधत्तवहुत्तेण विणा गिरुद्धचउरिंदियादि-

बहुभाग व्यतीत होनेपर दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म असंज्ञी पञ्चेन्द्रियके स्थिति-
बन्धके समान हो जाता है ।

§ ६० तत्पश्चान् प्रथम स्थितिकाण्डकसे लेकर विशेष हीनरूपसे बहुत हजार स्थिति-
काण्डकोंके द्वारा स्थितिसत्कर्मका अपवर्तन करनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात-
बहुभाग व्यतीत होनेपर और संख्यातवाँ भाग शेष रहनेपर उस जगह दर्शनमोहनीयका
स्थितिसत्कर्म लक्षपृथक्त्वप्रमाण सागरोपमसे क्रमशः घटकर पूरा एक हजार सागरोपमप्रमाण
असंज्ञीके स्थितिबन्धके समान हो जाता है यह इस सूत्रका समुच्चयाथ है । शेष कर्मोंका स्थिति
बन्ध और स्थितिसत्कर्म अनिवृत्तिकरणके कालमें सर्वत्र ही अन्तःकोडाकोडी सागरोपमप्रमाण
ही रहता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

* उसके बाद स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके सम्पन्न होनेपर चतुरिन्द्रिय जीवोंके
बन्धके समान दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म हो जाता है ।

* उसके बाद स्थितिकाण्डक पृथक्त्वके सम्पन्न होनेपर त्रीन्द्रिय जीवोंके बन्धके
समान दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म हो जाता है ।

* उसके बाद स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके सम्पन्न होनेपर द्वीन्द्रियके जीवोंके
बन्धके समान दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म हो जाता है ।

* उसके बाद स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके सम्पन्न होनेपर एकेन्द्रिय जीवोंके
समान दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म हो जाता है ।

§ ६१. ये सूत्र सुगम हैं । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके निर्देश-
का विपुलतावाचीरूपसे व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके बिना

ट्टिदिबंघेहिं सरिससंतकम्माणुप्पचीदो । एत्थ हेट्टिमोवरिमट्टिदिबंघाणमण्णोण्णेण विसेसं कादूण ट्टिदिखंडयपुधत्ताणं बहुत्तसंखाविसेसिदाणमियत्तावहारणं दरिसेयत्वं । संपहि एत्तो वि ट्टिदिसंतकम्मस्स ओघट्टणाकमो सुत्ताणुसारेणाणुमग्गिज्जदे ।

* तदो ट्टिदिखंडयपुधत्तेण पलिदोवमट्टिविगं जादं दंसणमोहणीय-ट्टिदिसंतकम्मं ।

§ ६२. सुगममेदं सुत्तं ।

* जाव पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मं ताव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ट्टिदिखंडयं । पलिदोवमे ओलुत्ते^१ तदो पलिदोवमस्स सखेज्जा भागा आगाइया ।

विवक्षित चतुरिन्द्रिय आदि जीवोंके स्थितिवन्धोंके समान सत्कर्म नहीं हो सकता । यहाँपर नीचे और ऊपरके स्थितिवन्धोंका परस्पर अन्तर निकालकर बहुत संख्याविशिष्ट स्थितिकाण्डकपृथक्त्वोंकी इयत्ताका परिमाण दिखलाना चाहिए । अब इससे आगे भी स्थितिसत्कर्म अपवर्तनाक्रमसे सूत्रके अनुसार जान लेना चाहिए ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयके तीनों भेदोंका स्थितिसत्कर्म स्थितिकाण्डकघातोंके द्वारा उत्तरोत्तर किस प्रकार घटता जाता है यह यहाँ पर सूत्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है । पहले अपूर्वकरणके प्रथम समयमें वह अन्तःकोडाकोड़ी सागरोपमप्रमाण था । फिर हजारों स्थितिकाण्डकघात होकर अनिष्टुत्तिकरणके प्रथम समयमें वह लक्षपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण रह गया । उसके बाद भी उक्त विधिसे वह घटता हुआ असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान एक हजार सागरोपमप्रमाण रह गया । पुनः उक्त विधिसे घटता हुआ क्रमसे चतुरिन्द्रिय जीवोंके सौ सागरोपमप्रमाण, त्रीन्द्रिय जीवोंके पचास सागरोपमप्रमाण, द्वीन्द्रिय जीवोंके पच्चीस सागरोपमप्रमाण और एकेन्द्रियजीवोंके एक सागरोपमप्रमाण रह जाता है । यहाँ सर्वत्र स्थितिकाण्डकोंका प्रमाण (संख्या) सर्वत्र पूर्वके और बादके इस प्रकार दो स्थितिवन्धोंके बीचके अन्तरको निकालकर उसके अनुसार जान लेना चाहिए । उदाहरणार्थ असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धोंमें नौ सौ सागरोपमोंका अन्तर है, अतः एक हजार सागरोपमसे सौ सागरोपमप्रमाण स्थितिसत्त्वके होनेमें जितने स्थितिकाण्डकोंकी संख्या होगी आगे वह सौ सागरोपमप्रमाण स्थिति सत्त्वसे त्रीन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान पचास सागरोपमप्रमाण स्थितिसत्त्वके होनेमें स्थितिकाण्डकोंकी संख्या कम होगी । इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए ।

* इसके बाद स्थितिकाण्डकपृथक्त्वके द्वारा दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म पण्योपमप्रमाण स्थितिवाला हो जाता है ।

§ ६२. यह सूत्र सुगम है ।

* जबतक पण्योपमसे अधिक स्थितिकत्कर्म रहता है तबतक पण्योपमके

§ ६३. पल्लिदोवमट्टिदिसंतकम्मदो पुब्बं सञ्चत्थेवापुब्बकरणपट्टमसमयप्पहुडि पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो चेव ट्टिदिखंडयायामो होइ । एण्हि पुण पल्लिदोवमे ओलुत्ते पल्लिदोवममेत्ते ट्टिदिसंतकम्मे अवसिद्धे ट्टिदिकंडयपमाणं तस्स संखेज्जा भागा-यामं होइ । कुदो एवं चे ? सहावदो चेव तत्थ तहाभावेण ट्टिदिखंडयघादपवुत्तीए सुत्तबलेण सुणिच्छिदत्तादो । एत्तो उवर्रि पि सञ्चत्थेव सेसस्स संखेज्जे भागे घेत्तूण ट्टिदिखंडयं णिच्चत्तेदि जाव णिप्पच्छिमो पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो परिसिद्धो चि । संपहि एदस्सेवात्थस्स विसेसपरूवणट्टमिदमाह—

* तदो सेसस्स संखेज्जा भागा आगाइवा ।

§ ६४. गपत्थमेदं सुत्तं ।

* एवं ट्टिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु दूरावकिट्ठी पल्लिदोवमस्स संखेज्जे भागे ट्टिदिसंतकम्मे सेसे तदो सेसस्स असंखेज्जा भागा आगाइवा ।

§ ६५. एवं पल्लिदोवमट्टिदिसंतकम्मप्पहुडि सेस-सेसस्स संखेज्जे भागे घेत्तूण

संख्यातवें भागप्रमाण प्रत्येक स्थितिकाण्डक होता है । तथा पल्ल्योपमप्रमाण स्थिति-सच्चके अवशिष्ट रहने पर आगे स्थितिकाण्डकके लिए पल्ल्योपमके संख्यात बहुभागको ग्रहण किया ।

§ ६३ पल्ल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्म रहनेसे पूर्व सर्वत्र ही अपूर्वकरणके प्रथम समय-से लेकर स्थितिकाण्डकका आयाम पल्ल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण ही होता है । परन्तु यहाँपर 'पल्लिदोवमे ओलुत्ते' अर्थात् दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म पल्ल्योपमप्रमाण अवशिष्ट रहने पर उसका आयाम पल्ल्योपमके संख्यात बहुभागप्रमाण होता है ।

शंका—ऐसा किस कारणसे होता है ?

समाधान—इस सूत्रके बलसे निश्चित होता है कि वहाँपर उस प्रकारसे स्थिति-काण्डकघातकी प्रवृत्ति स्वभावसे ही होती है । तथा इसके आगे भी पल्ल्योपमका अन्तिम संख्यातवाँ भाग शेष रहने तक सर्वत्र ही जो स्थिति सत्कर्म शेष रहे उसके संख्यात बहुभाग-को ग्रहण कर स्थितिकाण्डक बनता है । अब इसी अर्थकी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उसके बाद जो स्थितिसत्कर्म शेष रहे उसके संख्यात बहुभागको स्थितिकाण्डक के लिये ग्रहण किया ।

§ ६४. यह सूत्र गतार्थ है ।

* इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर तथा पल्ल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मके शेष रहनेपर दूरापकृष्टि होती है । उसके बाद शेष स्थितिसत्कर्मके असंख्यात बहुभागको स्थितिकाण्डकके लिए ग्रहण किया ।

§ ६५ इस प्रकार पल्ल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर उत्तरोत्तर शेष रहनेवाले

ट्टिदिखंडयघादं क्खणमाणस्स संखेज्जसहस्समेत्थेसु ठिदिखंडएसु गदेसु तदो हेट्ठा दूर-
यरमोहणस्स दूरावकिट्टिसण्णिदं सव्वपच्छिमं पलिदोवमस्स संखेज्जभागपमाणं
ट्टिदिसंतकम्ममवसिट्ठं होइ । पुणो तत्तो प्पहुडि सेसस्स असंखेज्जे भागे आगाएंतो
ट्टिदिखंडयघादमाढवेइ, तदवत्थाए जीवस्स तथा घादनसत्तीए बज्झंतरंगकारणसण्णि-
हाणवसेण समुप्पणत्तादो । का दूरावकिट्टी णाम ? वुच्चदे—जत्तो ट्टिदिसंतकम्मा-
वसेसादो संखेज्जे भागे घेत्तण ठिदिखंडए घादिज्जमाणे घादिदसेसं णियमा पलिदो-
वमस्स असंखेज्जदिभागपमाणं होदूण चिट्ठिदि तं सव्वपच्छिमं पलिदोवमस्स संखेज्जदि-
भागपमाणं ट्टिदिसंतकम्मं दूरावकिट्टि चि भण्णदे । किं कारणमेदस्स ट्टिदिविसेसस्स
दूरावकिट्टिसण्णा जादा त्ति चे ? पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मादो सुट्ठु दूरयरमोसासिय
सव्वजहणपलिदोवमसंखेज्जभागसरूवेणावट्ठाणादो । पल्लोपमस्थितिकर्मणोऽधस्ताद्दूर-
तरमपकृष्टत्वादातिकृशत्वाच्च दूरापकृष्टिरेषा स्थितिरित्युक्तं भवति । अथवा दूरतरमप-
कृष्यतेऽस्याः स्थितिकरंडकमिति दूरापकृष्टिः । इतः प्रभृत्यसंख्येयान् भागान् गृहीत्वा
स्थितिकाण्डकघातमाचरतीत्यतो दूरापकृष्टिरिति यावत् । किमेसा दूरावकिट्टी एगवियप्पा

स्थितिसत्कर्मके संख्यात बहुभागको ग्रहण कर स्थितिकाण्डकघात करनेवाले जीवके संख्यात
हजार स्थितिकाण्डकोंके जानेपर उससे नीचे बहुत दूर गये हुए जीवके दूरापकृष्टि संज्ञावाला
सबसे अन्तिम पल्लोपमके संख्यातवे भागप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहता है । पुनः उससे
आगे शेषके असंख्यात बहुभागको ग्रहण करता हुआ स्थितिकाण्डकघात करता है, क्योंकि
उस अवस्थामें जीवके बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंका सन्निधान होनेसे उस प्रकारके घात
करनेकी शक्ति पाई जाती है ।

शंका—दूरापकृष्टि किसे कहते हैं ?

समाधान—कहते हैं—जिस अवशिष्ट मत्कर्ममेंसे संख्यात बहुभागको ग्रहण कर
स्थितिकाण्डकका घात करने पर घात करनेसे शेष बचा स्थितिसत्कर्म नियमसे पल्लोपमके
असंख्यातवें भागप्रमाण होकर अवशिष्ट रहता है उस सबसे अन्तिम पल्लोपमके संख्यातवे
भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मको दूरापकृष्टि कहते हैं ।

शंका—इस स्थितिविशेषकी दूरापकृष्टि संज्ञा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि पल्लोपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे अत्यन्त दूर उत्तर कर सबसे
जघन्य पल्लोपमके संख्यातवें भागरूपसे इसका अवस्थान है । पल्लोपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे
नीचे अत्यन्त दूर तक अपकर्षित की गई होनेसे और अत्यन्त कृश-अल्प होनेसे यह स्थिति
दूरापकृष्टि है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अथवा इसका स्थितिकाण्डक अत्यन्त दूरतक
अपकर्षित किया जाता है, इसलिये इसका नाम दूरापकृष्टि है । यहाँसे लेकर असंख्यात
बहुभागोंको ग्रहण कर स्थितिकाण्डकघात किया जाता है, अतः यह दूरापकृष्टि कहलाती है यह
उक्त कथनका तात्पर्य है ।

आहो अणेयवियप्पा त्ति । के वि भणंति एयवियप्पा एसा, णिव्वियप्पपल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागविप्पडिबद्धत्तादो । सो च णिव्वियप्पो पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो पल्लिदोवमं जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडिय तत्थ रूवाहियएयखंडमेत्तो । एत्तो एकस्स वि द्विदिविसेसस्स परिहाणीए पल्लिदोवमासंखेज्जभागवियप्पुप्पत्तीओ त्ति । वयं तु भणामो अणेयवियप्पा एसा त्ति । किं कारणं ? पल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तद्विदिसंतुप्पत्तिणिवधणाणं पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागद्विदिवियप्पाणमसंखेज्जपल्लिदोवमपटमवग्गमूलमेत्ताणमुवलंभादो । तं जहा—उकस्ससंखेज्जं विरलेयूण पल्लिदोवमं समखंड करिय दिण्णे एकेकस्स रूवस्स असंखेज्जाणि पल्लिदोवमपटमवग्गमूलाणि पावेंति । तत्थेयरूवधरिदपमाणं सन्वजहण्णयं पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो त्ति भण्णदे । संपहि एदस्सभंभंतरे जह एगरूवं परिहायदि तो वि पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चेव । दोसु रूवेसु परिहीणेसु वि पल्लिदोवस्स संखेज्जदिभागो चेव । एयमेगुत्तरवट्टीए रूवेसु परिहीयमाणेसु जदि सुट्ठु बहुगं परिहायदि तो एदमेगरूवधरिदं पुणो जहण्णपरित्तासंखेज्जेण खंडेयूणेयखंडमेत्तं जाव ण परिहीणं ताव पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तमेदस्स ण फिट्ठदि । संपुण्णेगखंडपरिहीणे विणा जहण्णपरित्तासंखेज्जेण

शंका—क्या यह दूरापकृष्टि एक विकल्पवाली है या अनेक विकल्पवाली है ?

समाधान—कितने ही आचार्य कहते हैं कि वह एक विकल्पवाली है, क्योंकि वह पल्योपमके निर्विकल्प अर्थान् सबसे जघन्य प्रमाणरूप संख्यातव्य भागसे प्रतिबद्ध है । और वह निर्विकल्प पल्योपमका संख्यातव्य भाग, पल्योपमको जघन्य परीतासंख्यातसे भाजितकर वहाँ जो एक अधिक एक भाग प्राप्त हो, तत्प्रमाण है । क्योंकि इसमेंसे एक भी स्थिति विशेषकी हानि होनेपर पल्योपमके असंख्यातव्य भागप्रमाण विकल्पकी उत्पत्ति होती है । किन्तु हम कहते हैं कि वह अनेक विकल्पवाली है, क्योंकि पल्योपमके असंख्यातव्य भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मकी उत्पत्तिके कारणभूत पल्योपमके संख्यातव्य भागप्रमाण स्थितिके विकल्प पल्योपमके असंख्यात प्रथम बर्गमूलप्रमाण उपलब्ध होते हैं । यथा—उत्कृष्ट संख्यातका विरलनकर विरलन अंकोंके प्रत्येक एकके प्रति पल्योपमके समान खण्ड करके देयरूपसे देनेपर विरलनके एक-एक अंकके प्रति पल्योपमके असंख्यात प्रथम बर्गमूल प्राप्त होते हैं । वहाँ विरलनके एक अंकके प्रति प्राप्त राशिका प्रमाण पल्योपमका सबसे जघन्य संख्यातव्य भाग कहा जाता है । अब इसमेंसे यदि एक अंककी हानि होती है तो भी पल्योपमका संख्यातव्य भाग ही शेष रहता है । दो अंकोंकी हानि होनेपर भी पल्योपमका संख्यातव्य भाग ही शेष रहता है । इसप्रकार एक-एक अंकको बढ़ाकर अंकोंके कम होनेपर यदि बहुत-बहुत अंकोंकी हानि होती है तो विरलनके एक अंकके प्रति प्राप्त इन द्रव्यको पुनः जघन्य परीतासंख्यातसे भाजितकर जो एक भाग प्राप्त हो उतना जब तक हीन नहीं होता तब तक इसका पल्योपमका संख्यातव्य भागपना नहीं फेटता, क्योंकि सम्पूर्ण एक भागके हीन हुए बिना पल्योपममें जघन्य परीतासंख्यातका भाग

खंडिदपलिदोवममेचड्डिसंतवियप्पाणुप्पत्तीदो । तम्हा दूरावकिट्टी असंखेज्जपलिदो-
वमपटमवग्गामूलमेतवियप्पसहिदा त्ति सिद्धं । णिदरिसणमेत्तं चेदं परूविदं । एदीए
दिसाए अण्णे वि दूरावकिट्टिवियप्पा सभुप्पाएयव्वा, जहण्णपरित्तासखेज्जस्स अट्ठ-
चउन्मागादिरूदेहि मि पलिदोवमे खडिदे दूरावकिट्टिवियप्पुप्पत्तीए पडिसेहाभावादो ।
एदेसु वियप्पेसु जिणदिट्ठभावण्णदरवियप्पपडिबद्धा दूरावकिट्टी एयवियप्पा इह
गहेयव्वा, अणियट्टिकरणपरिणामेहिं घादिदावसिद्धाए तिस्से अणेयवियप्पत्तविरोहादो ।

देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण स्थितिसत्कर्मरूप विकल्पकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए दूरापकृष्टि पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण विकल्पवाली है यह सिद्ध हुआ । यह उदाहरणमात्र कहा है । इसी दिशासे अन्य भी दूरापकृष्टिरूप विकल्प उत्पन्न कर लेने चाहिए, क्योंकि जघन्य परीतासंख्यातके अधभाग और चतुर्थभाग आदिके द्वारा भी पल्योपमके भाजित करनेपर दूरापकृष्टिरूप विकल्पोंकी उत्पत्तिका निषेध नहीं है । इन भेदोंमेंसे जिनेन्द्रदेवने उसे जिसरूपमें जाना हो एसी किसी अन्यतर भेदसे सम्बन्धित एक भेदवाली दूरापकृष्टि यहाँपर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि अनिष्टत्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा घात करनेसे अवशिष्ट रही उसके अनेक भेदवाली होनेका विरोध है ।

विशेषार्थ—जब स्थिति काण्डकघात होते-होते सत्कर्मस्थिति पल्योपमप्रमाण शेष रह जाती है तब स्थितिकाण्डकका जो प्रमाण पहले था वह बदलकर अवशिष्ट स्थितिसत्कर्मका संख्यात बहुभाग हो जाता है । और इसप्रकार उत्तरोत्तर उक्त विधिसेस्थितिकाण्डक घात होते होते जब सबसे जघन्य पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण स्थिति शेष रह जाती है तब वह दूरापकृष्टि इस नामसे पुकारी जाती है । यह घटते-घटते अति अल्प रह गई है, इसलिए इसे दूरापकृष्टि कहते हैं । अथवा शेष रही इस स्थितिसे आगे उत्तरोत्तर अवशिष्ट स्थितिके असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिको ग्रहणकर स्थितिकाण्डकघात होता है, इसलिए इसे दूरापकृष्टि कहते हैं । अब प्रश्न यह है कि यह दूरापकृष्टि एक विकल्पवाली है या बहुत विकल्पवाली है । इस विषयमें दूसरे आचार्योंके अभिप्रायसे तो टीकाकारने उसे एक भेदवाली बतलाया है । उनका कहना है कि पल्योपममें जघन्य परीतासंख्यातका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उसमें एक अंकके मिलानेपर जो संख्या प्राप्त हो, दूरापकृष्टिका प्रमाण उतना ही है, क्योंकि इसमें एक भी अंककी हानि होनेपर पल्योपमके असंख्यातवर्गे भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मसम्बन्धी भेदकी उत्पत्ति होती है । किन्तु टीकाकार स्वयं उस दूरापकृष्टिको अनेक भेदवाली स्वीकार करते हैं । उन्होंने इसका स्पष्टीकरण करते हुए जो कुछ बतलाया है उसका तात्पर्य यह है कि पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्ममें उच्छ्रेष्ठ संख्यातका भाग देनेपर जो स्थितिविकल्प प्राप्त हो वहाँसे लेकर एक-एक स्थितिविकल्प कम करता जाय और इसप्रकार पल्योपममें जघन्यपरीतासंख्यातका भाग देनेपर जो स्थितिसत्कर्मविकल्प प्राप्त हो उससे पूर्वतक कम करे । इसप्रकार मध्यमें जितने स्थितिसत्कर्मविकल्प प्राप्त हुए वे सब पल्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण होनेसे दूरापकृष्टि उतने विकल्पवाली सिद्ध होती है । टीकाकारने यहाँ दूरापकृष्टिको जो पल्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण कहा है वह इसी कारणसे कहा है ।

§ ६६. संपहि एवविहदूरावकिट्टिसण्णिदडिदिसंतकम्मे सेसे एत्तो प्पहुडि सेसस्स असंखेजे भागे ट्टिदिखडयसरूवेणागाएदि चि एदमत्थविसेसं जाणाविय एत्तो एदीए पर्ववणाए असंखेज्जगुणहीणट्टिदिखंडएसु बहुसु णिवदमाणेसु केत्तिय अद्धान्णुवरि गंतूण तत्थुदेसे विसेसतरसंभवपदुप्पायणट्टुप्पुत्तरसुत्तमोइण्णं—

* एवं पखिदोवमस्स असंखेज्जदिभागिगेसु बहुएसु ट्टिदिखंडय-सहस्सेसु गवेसु तदो सम्भत्तस्स अगंखेज्जाणं समयपबद्धान्णमुदीरणा ।

§ ६७. दूरावकिट्टीदां हेड्डा संखेज्जसहस्समेत्ताणि असंखेज्जगुणहाणिट्टिदि-खंडयाणि ओसरियूण भिच्छत्तचरिमट्टिदिखंडय च संखेज्जसहस्सट्टिदिखंडएहि^१ ण

उदाहरण	पल्लोपमका	प्रमाण	उत्कृष्ट संख्यात	जघन्य परीतासंख्यात
	२००००		४	५
२०००० ÷ ४ = ५०००	पल्लोपमका	संख्यातवाँ	भाग,	प्रथम भेदरूप दूरापकृष्टि
५००० - १ = ४९९९	"	"	"	दूसरे " "
४९९९ - १ = ४९९८	"	"	"	तीसरे " "

इसप्रकार उत्तरोत्तर एक-एक स्थितिसत्कर्म विकल्प कम करता हुआ—

२०००० ÷ ५ = ४०००० पल्लोपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिसत्कर्म विकल्पके प्राप्त होनेके पूर्व ४००१ स्थितिसत्कर्म विकल्पके प्राप्त होने तक कम करे । यहाँ ५००० प्रमाण प्रथम स्थितिसत्कर्म विकल्पसे लेकर ४००१ प्रमाण अन्तिम स्थितिसत्कर्मविकल्प तक वे १००० स्थितिमन्कर्मविकल्प पल्लोपमके संख्यातवें भागप्रमाण होनेसे दूरापकृष्टिके भेद भी उतने ही प्राप्त होते हैं ऐसा टीकाकारका अभिप्राय है ।

इनमेंसे कोई एक विकल्परूप दूरापकृष्टि अनिवृत्तिकरणमें ली गई है । वह कौनसी ली गई है ? इसका समाधान करते हुए उन्होंने बतलाया है कि इनमेंसे जिम भेदरूप जिनेन्द्र-देवने देखी है वह ली गई है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६६ अब इस प्रकारके दूरापकृष्टिसङ्गक स्थितिसत्कर्मके शेष रहनेपर यहाँसे लेकर शेषके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिमन्कर्मको स्थितिकाण्डकरूपसे ग्रहण करता है । इसप्रकार इस अर्थविशेषका ज्ञान करा कर आगे इस प्ररूपाके अनुसार बहुतसे असंख्यात गुणहीन स्थितिकाण्डकोंके पतित होनेपर कितना ही अध्वान ऊपर जाकर उस स्थानपर विशेष अन्तर सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* इस प्रकार पल्लोपमके असंख्यातवें भागप्रमाणवाले बहुत हजार स्थिति-काण्डकोंके व्यतीत होनेपर वहाँसे लेकर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदी-रणा होती है ।

§ ६७. दूरापकृष्टिसे नीचे संख्यात हजार असंख्यात गुणहानिवाले स्थितिकाण्डकोंका अपसरण कर संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके द्वारा मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकों

^१ ता० प्रती लडए हि (एण्हि) इति पाठ ।

पावदि चि एदम्मि अंतराले सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्धान्मुदीरणा पारद्दा चि सुत्तथणिच्छओ । एत्तो पुब्बं व सव्वत्थेव असंखेज्जलोगपडिभागेण सव्वकम्माण-
मुदीरणा । एण्हि पुण सम्मत्तस्स पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागपडिभागेणुदीरणा
पयद्दा चि जं वुत्तं होइ । ओकद्विदसयलदव्वस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडि-
भागियं दव्वमुदयावलियवाहिरे गुणसेढीए णिक्खिवदि । गुणसेढिदव्वस्स वि असंखेज्ज-
भागमेत्तं दव्वमसंखेज्जसमयपवद्दपमाणपडिवद्दमेण्हिमुदीरेदि चि एदेण सुत्तेण
जाणाविदं । एत्तो प्पहुडि सव्वत्थेव उदीरणाकमो एसो चैव सम्मत्तस्स दट्ठव्वो ।

* तदो बहुसु ट्टिदिखांडएसु गवेसु मिच्छतस्स आवलियवाहिरं सव्व-
मागाइद । समत्त-सम्भामिच्छत्ताणं पलिदोवमस्स असंखेज्जादिभागो सेसो ।

§ ६८. एवमसंखेज्जसमयपवद्दे उदीरेमाणस्स पुणो वि संखेज्जसहस्समेत्तेसु

हे इस अन्तरालमें सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ होती है यह इस सूत्रके अर्थका निश्चय है । यहाँसे पहले सर्वत्र ही असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार सब कर्मोंकी उदीरणा हांती रही । परन्तु यहाँपर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण प्रतिभागके अनुसार सम्यक्त्वका उदीरणा प्रवृत्त हुई यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अपकर्षित होनेवाले सकल द्रव्यमें पल्योपमके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने द्रव्यका उद्यावलिके बाहर गुणश्रेणिमें निश्चित करता है । गुणश्रेणिके भी असंख्यातवे भाग-
मात्र द्रव्यको, जो कि असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण है, इस समय उदीरित करता है इसप्रकार इस बातका इस सूत्र द्वारा ज्ञान कराया गया है । इससे आगे सर्वत्र ही सम्यक्त्वकी उदीरणा-
का क्रम यही जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—दूरापकृष्टिके बाद कितने स्थितिकाण्डकोंके घाते जानेपर मिथ्यात्वका कितना स्थितिसत्कर्म शेष रहते हुए सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा प्रारम्भ होती है इस तथ्यको यहाँपर स्पष्ट किया गया है । यहाँसे पूर्व सब कर्मोंकी उदीरणा असंख्यात लोकके प्रतिभागके अनुसार होती थी । किन्तु यहाँसे सम्यक्त्वकी उदीरणाका क्रम बदल जाता है । अब यहाँसे आगे सम्यक्त्वके द्रव्यमें पल्योपमके असंख्यातवें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने द्रव्यकी उदीरणा होने लगी है । इसी बातको स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि समस्त द्रव्यमें पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने द्रव्यको उद्यावलिके बाहर निश्चित करता है तथा गुणश्रेणिके द्रव्यका असंख्यातवें भाग जो कि असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होता है उसे उदीरित करता है । आगे सर्वत्र उदीरणाका यही क्रम चलता रहता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

* तदनन्तर बहुत स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वके उद्यावलिसे बाहरके सब द्रव्यको ग्रहण किया । उस समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्य शेष रखा, शेष सब द्रव्य घात करनेके लिये ग्रहण किया ।

§ ६८. इसप्रकार असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा करनेवाले जीवके फिर भी जो

असंखेज्जगुणहाणिट्टिदिखंडएसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभावीसु गदेसु तदो मिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडयमागाएतेण उदयावलियवाहिरं मच्चमेव मिच्छत्तट्टिदि-संतकम्ममागाइदं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पुण हेट्ठा पल्लोवमस्स असंखेज्जदि-भागमेत्तं मोत्तूणं सेसा असंखेज्जा भागा आगाइदाणि त्ति अणिदं होइ ? एत्तियमेत्त-कालं तिण्हं कम्माणं सरिसमेव ट्टिदिखंडयघादं कुणमाणो एत्थुइसे किमट्टमेवं विसरिसभावेण ट्टिदिखंडयमागाएदि त्ति णामंकाणिज्जं, पुव्वमेव विणस्संतस्स मिच्छत्त-कम्मस्स एत्थुइसे विसेसघादसंभवं पट्टि विरोहाभावादो । एवं मिच्छत्तस्स चरिम-ट्टिदिखंडयमागाएदूंतोमूहुत्तेण णिट्टुवेमाणो मिच्छत्तचरिमफालिं किं सम्मामिच्छत्त-स्सुवरिं सच्छुहदि आहो सम्मत्तस्से त्ति पुच्छिदे णियमा सम्मामिच्छत्तस्सुवरिं सच्छुहदि त्ति णिच्छओ कायव्वो ।

प्रत्येक स्थितिकाण्डक हजारों अनुभागकाण्डकोंका अविनाभावी हैं ऐसे संख्यात हजार असख्यात गुणहानिस्वरूप स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अनन्तर मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करते हुए इस जीवने मिथ्यात्वके उदयावलि के बाहरके ममस्त ही स्थितिसत्कर्मको ग्रहण किया । परन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके, नीचे पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण, द्रव्यको छोड़कर शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यको ग्रहण किया यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—इतने काल तक तीनों कर्मोंके सदृश ही स्थितिकाण्डकघात करनेवाला जीव इस स्थान पर इस प्रकार विसदृशरूपसे स्थितिकाण्डकघातको किसलिये ग्रहण करता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों कर्मोंमें सबसे पहले ही विनाशको प्राप्त होनेवाले मिथ्यात्वकर्मका इस स्थान पर विशेष घात सम्भव है इसमें कोई विरोध नहीं है ।

इस प्रकार मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण कर अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा उसका घात करता हुआ मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको क्या सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करता है या सम्यक्त्वके ऊपर ऐसी पृच्छा होनेपर नियमसे सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करता है ऐसा निश्चय करना चाहिए ।

विश्लेषार्थ—जिस समय यह जीव मिथ्यात्व कर्मकी क्षपणाके लिये मिथ्यात्वके उदयावलि बाह्य समस्त द्रव्यको अन्तिम काण्डकके रूपमें ग्रहण करता है उस समय वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण द्रव्यको छोड़कर शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यको घात करनेके लिये ग्रहण करता है । इस पर यह शंका उठती गई है कि यहाँसे पूर्व तीनों कर्मोंके सदृश ही स्थितिकाण्डकघात होते रहे, यहाँ इस विषयताका क्या कारण है ? इसका यहाँ जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि मिथ्यात्व कर्मका सबसे पहले घात होता है, इसलिए यहाँपर उसका शेष दो कर्मोंको अपेक्षा विशेष घात होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

* तदो द्विदिसंखण्डे णिहायमाणे णिद्विदे मिच्छत्तस्स जहण्णओ द्विदिसंकमो, उक्कस्सओ पदेससंकमो । ताधे सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सगं पदेससंतकम्मं ।

§ ६९. तम्हि मिच्छत्तस्स चरिमद्विदिसंखण्डे कमेण णिट्टविज्जमाणे णिद्विदे तक्काले चैव मिच्छत्तस्स जहण्णगो द्विदिसंकमो होइ । एत्तो अण्णस्स मिच्छत्तद्विदिसंकमस्स जहण्णस्साणुवलंभादो । ताधे चैव मिच्छत्तस्स उक्कस्सगो पदेससंकमो, मिच्छत्तद्वस्स सव्वस्सेव सव्वसंकमेण संकममाणस्स तहाभावोववत्तीदो । णवरि जइ एसो गुणिदकम्मंसियणेरहयपच्छायदो समयविरोहेण सव्वलहुमागतूण दंसण-मोहक्खवणाए अब्भुट्ठिदो तो उक्कस्सओ मिच्छत्तस्स पदेससंकमो होइ । अण्णहा वुण अजहण्णाणुकस्सओ पदेससंकमो त्ति वत्तव्वं । सुत्ते पुण गुणिदकम्मंसिय-विवक्खाए उक्कस्सओ पदेससंकमो णिद्विदो त्ति ण किं चि विरुद्धं । ताधे चैव सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्ममुवजायदे, मिच्छत्तद्वस्स सव्वस्सेव किंचूणदिवड्डु-गुणहाणिमेत्तसमयपवद्धपमाणस्स तस्सरूवेण परिणदत्तादो । तदो मिच्छत्तजहण्ण-द्विदिसंकमसहगदुकस्सपदेससंकमपडिग्गहवसेण सम्मामिच्छत्तस्सुकस्सपदेससंतकम्मं तक्कालपडिबद्धमुप्पज्जदि त्ति सिद्धं ।

* इस प्रकार मिथ्यात्वके समाप्त होनेवाले अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है तथा उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है ।

§ ६९. वहाँपर मिथ्यात्वके क्रमसे समाप्त होने योग्य अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर उसी समय मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम होता है, क्योंकि मिथ्यात्वका इससे जघन्य अन्य स्थितिसंक्रम नहीं पाया जाता । तथा उसी समय मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, क्योंकि मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यका सर्वसंक्रमसे संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकी व्यवस्था धन जाती है । इतनी विशेषता है कि गुणितकर्मांशिक नारक भवसे पीछे आकर मनुष्य पर्यायको ग्रहण करनेवाला यह जीव आगममें बतलाई हुई विधिके अनुसार अति शीघ्र आकर वर्जानमोहनीयकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ, तब उसके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । अन्यथा अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ऐसा कहना चाहिए । यद्यपि सूत्रमें गुणितकर्मांशिककी विवक्षासे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका निर्देश किया है तो भी कुछ विरुद्ध नहीं है । तथा उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि मिथ्यात्वका कुछ कम डेढ़ गुणानिगुणित समयप्रवद्धप्रमाण समस्त द्रव्य उस रूपसे परिणम जाता है । इसलिए मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिसंक्रमके साथ प्राप्त हुए उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके प्रतिग्रहवश उसी कालसे सम्बन्ध रखनेवाला सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है यह सिद्ध हुआ ।

§ ७०. एतो दुसमयूणावलयमेत्तकाले' गंतूण मिच्छत्तस्स जहणणयं द्विदिसंतकम्मं होदि त्ति जाणावणफलमुत्तरसुत्तं—

* तदो आवलियाए दुसमयूणाए गदाए मिच्छत्तस्स जहणणयं द्विदिसंतकम्मं' ।

§ ७१. दुसमयूणावलयमेत्तमिच्छत्तद्विदोओ कमेण गालिय जाधे एयद्विदी दुसमयमेत्तकालावट्ठाणा परिसिट्ठा ताधे मिच्छत्तस्स जहणणयं द्विदिसंतकम्मं होइ. एतो अणस्स सव्वजहणमिच्छत्तद्विदिसंतकम्मस्साणुवलंभादो । से काले किण्ण लब्भदे ? ण, तत्थ णिल्लेविज्जमाणस्स मिच्छत्तस्स पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेससंतकम्माणं णिस्संतभावुवलंभादो ।

विशेषार्थ—जिस समय दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला यह जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका सर्वसंक्रमके द्वारा पतन करता है उस समय मिथ्यात्वका सबसे जघन्य स्थितिसंक्रम होता है, क्योंकि अनिवृत्तिरूप परिणामोके द्वारा दूरापकृष्टिरूपसे घातित करनेके बाद शेष बची हुई स्थितिके जघन्य होनेमें विरोधका अभाव है। इससे अल्प स्थितिसंक्रम अन्यत्र सम्भव नहीं है। यदि यह गुणितकर्माशिक होनेके साथ अति शीघ्र नारक भवसे आकर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है तो इसके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, क्योंकि इस समय मिथ्यात्वके डेढ़ गुणहानि-गुणित समयप्रवृद्धप्रमाण समस्त द्रव्यका सर्वसंक्रम देखा जाता है और यतः इस अन्तिम-फालिका पतन सम्यग्मिथ्यात्वमें होता है, अतः उसी समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्म होता है। इसप्रकार इन तीन विशेषताओंका उल्लेख इस सूत्रमें किया गया है। शेष कथन सुगम है।

§ ७० अब इससे आगे दो समय कम एक आवलिमात्र काल जाकर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिस्त्कर्म होता है इसका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* तदनन्तर दो समय कम एक आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्कर्म होता है ।

§ ७१ मिथ्यात्वकी दो समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियोंको क्रमसे गलाकर जिस समय दो समयमात्र कालवाली एक स्थिति शेष रहती है उस समय मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसत्कर्म होता है, क्योंकि मिथ्यात्वका इससे अन्य सबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म नहीं उपलब्ध होता है।

शंका—तदनन्तर समयमें क्यों नहीं प्राप्त होता ?

समाधान—नहीं क्योंकि जिस समय मिथ्यात्वकी दो समय स्थिति शेष रहती है उस समय वह स्तिवुकर्मक्रमके द्वारा सजातीय प्रकृतिमें संक्रमित हो जाती है, इसलिए तद-

१. ता०प्रती—मेत्तं काल इति पाठ । २. ता०प्रती जहण्णद्विदिसंतकम्मं इति पाठ ।

• मिच्छत्ते पढमसमयसंकते सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमसंखेज्जा भागा आगाइदा ।

§ ७२. मिच्छत्ते सन्वमकमेण संकते तप्पढमसमए चैव सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताण-मण्णं ठिदिखंडयमागाएतेण घादिदसेसट्टिदिसंतकम्मस्स असंखेज्जा भागा आगाइदा त्ति वुत्तं होइ । एवमेदेण कमेण सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं ट्टिदिखंडयघादं कुणमाणो तप्पाओग्गसंखेज्जसहस्समेत्तेहिं ट्टिदिखंडएहिं सम्भामिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडय पावेइ । तमागाएतो उदयावलयिवाहिरं सन्वमागाएदि त्ति पदुप्पायणफलमुत्तरसुत्तं—

• एवं संखेज्जेहिं ट्टिदिखंडएहिं गवेहिं सम्भामिच्छत्तमावलयि-वाहिरं सन्वमागाइदं ।

§ ७३. गयत्थमेदं सुत्तं । ताघे पुण सम्मत्तस्स उव्वराविज्जमाणट्टिदिविसेस-पमाणावहारणट्टमुत्तरो सुत्तपबंधो—

नन्तर समयमें मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रकृतिसत्कर्म, स्थितिसत्कर्म अनुभागसत्कर्म और प्रवेश-सत्कर्म निःसत्त्वपनेको प्राप्त हो जाते हैं ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व प्रकृतिका मिथ्यात्व गुणस्थानमें ही उदय पाया जाता है और उसका क्षय चौथेसे लेकर चार गुणस्थानोंमें होता है, अतः जो प्रकृतियाँ परोदयसे भ्रयको प्राप्त होती हैं, उदय कालके एक समय पूर्व प्रत्येक समयमें स्तिवुकसंक्रमके द्वारा उन प्रकृतियों-का उदयमें आनेवाली सजातीय प्रकृतियोंमें संक्रम होता रहता है । यही कारण है कि अन्तमें मिथ्यात्वका दो समय स्थितिवाला एक निषेक शेष रहता है जिसका उसी समय सम्यक्त्वप्रकृतिमें स्तिवुक संक्रम द्वारा संक्रम हो जानेके कारण अगले समयमें उसका सर्वथा अभाव रहता है ।

• मिथ्यात्वके संक्रम होनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यात बहुभागको ग्रहण किया ।

§ ७२. सर्वसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वके संक्रान्त होनेपर उसके प्रथम समयमें ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्य स्थितिकाण्डकको ग्रहण करनेवाले जीवने घात करनेसे शेष बचे स्थितिसत्कर्मके असंख्यात बहुभागको ग्रहण किया यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इसप्रकार इस क्रमसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका स्थितिकाण्डकघात करता हुआ तत्प्रायोग्य संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके बाद सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है और उसे ग्रहण करता हुआ उदयावलिके बाहरके समस्त द्रव्यको ग्रहण करता है इस बातके कथनके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

• इसप्रकार संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर सम्यग्मिथ्यात्वके उदयावलिके बाहर स्थित समस्त द्रव्यको ग्रहण किया ।

§ ७३. यह सूत्र गतार्थ है । परन्तु उस समय सम्यक्त्वके शेष रहे स्थितिविशेषके

* ताघे सम्मत्तस्स दोण्णि उचदेसा । के वि भणंति—संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि द्विदाणि त्ति । पवाइज्जंतेण उचदेसेण अट्टवस्साणि समम्मत्तस्स सेसाणि, सेसाओ द्विदीओ आगाइदाओ त्ति ।

§ ७४. ताघे तदवत्थाए सम्मत्तस्स आगाइदसेसद्धिदिसंतकम्मपमाणपटुप्पायणे दोण्णि उवएसा, पुव्वाइरियाणमेत्थाहिप्पायभेददंसणादो । तत्थ एको पवाइज्जंतो अण्णो च अपवाइज्जंतो । दोण्हमेदेसिमत्थो पुब्बं व वत्तव्वो । एत्थापवाइज्जमाण-मुवएसमवल्लवमाणो के वि आइरिया भणंति—संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि सम्मत्तस्स तकाले द्विदाणि, सेसाओ सव्वाओ द्विदीओ आगाइदाओ त्ति । एदस्स संपदायस्स अपवाइज्जमाणत्तं कत्तो णव्वदे ? एदम्हादो चेव चुण्णिमुत्तादो । पवाइज्जंतेण पुण उवएसेण सव्वाइरियसम्मदेण अज्जमंखु-णागहत्थिमहावाचयमुहकमलविणिग्गएण सम्मत्तस्स अट्टवस्साणि सेसाणि, सेसासेसद्धिदीओ आगाइदाओ त्ति घेत्तव्वं । ण चेदस्स पवाइज्जमाणत्तमसिद्धं, एदम्हादो चेव जइवसहोवएमादो तस्स तहाभावणिच्छयादो । एदेत्ति दोण्हमुवएमाणं थप्पभावावल्लवणेण वक्ख्खाणं कायव्वं, अण्णदरपरिग्गहे प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* उस समय सम्यक्त्वप्रकृतिके सम्बन्धमें दो उपदेश उपलब्ध होते हैं—कितने ही आचार्य कहते हैं कि संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थिति शेष रहती है । किन्तु प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण स्थिति शेष रहती है, शेष सब स्थितियाँ ग्रहण की जा चुकी हैं । अर्थात् स्थितिकाण्डकरूपसे घातको प्राप्त हो चुकी है ।

§ ७४ 'ताघे' अर्थात् उस अवस्थामे सम्यक्त्वके ग्रहण करनेसे शेष स्थितिमत्कर्मके प्रमाणके कथन करनेमे दो उपदेश उपलब्ध होते हैं, क्योंकि पूर्वाचार्योंका इस विषयमे अभि-प्रायभेद देखा जाता है । उनमेसे एक उपदेश प्रवाह्यमान है और दूसरा उपदेश अप्रवाह्यमान है । इन दोनोंका अर्थ पहलके समान कहना चाहिए । यहाँपर अप्रवाह्यमान उपदेशका अव-लम्बन करनेवाले कितने ही आचार्य कहते हैं कि उस समय सम्यक्त्व प्रकृतिकी संख्यात हजार वर्ष स्थिति शेष रहती है, शेष सब स्थितियाँ काण्डकघातरूपसे ग्रहण की जा चुकी है ।

शंका—इस सम्प्रदायका अप्रवाह्यमानपना किस कारणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है ।

किन्तु सर्व आचार्य सम्मत ऐसे आर्यमंशु और नागहस्ति महावाचकोंके मुख कमलों-से निकले हुए प्रवाह्यमान उपदेशके अनुसार सम्यक्त्वकी आठ वर्ष स्थिति शेष रहती है, शेष समस्त स्थितियोंका काण्डकघात हो गया है ऐसा जानना चाहिए । और इसका प्रवाह्यमान-पना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी यतिशुपभके उपदेशसे उसके प्रवाह्यमानपनेका निश्चय

संपहियकाले विसिद्धोवएसभावो । एवं ताव सम्मामिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडय-
ग्गहणकाले सम्मत्तस्स आगाइदसेसट्टिदीए पमाणणिणययुवएसमेदमस्सियूण
पदुप्पाइय संपहि सम्मामिच्छत्तस्स चरिमट्टिदिखंडए सम्मत्तस्सुवरि सच्चसंकमेण
संकममाणे जो अत्यविसेसो तप्पदुप्पायणट्टमुत्तरसुत्तावयारो—

* एदम्मि ट्टिदिखंडए णिट्ठिदे ताधे जहणणगो सम्मामिच्छत्तस्स
ट्टिदिसंकमो, उक्कस्सओ पदेससंकमो, सम्मत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

§ ७५. एदम्मि सम्मामिच्छत्तचरिमट्टिदिखंडए चरिमफालिसरूवेण सम्मत्तस्सुवरि
सच्चसंकमेण संकमियूण णिट्ठिदे तकाले सम्मामिच्छत्तस्स जहणणओ ट्टिदिसंकमो होइ ।
अणियट्टिपरिणामेहिं दूरावकिट्टिसरूवेण घादिदावसेसम्म जहणणभावे विरोहाभावो ।
पदेससंकमो पुण ताधे समामिच्छत्तस्स उक्कस्सो होइ, गुणितकम्मंसियविवक्खाए
तदविरोहादो । ताधे चेव सम्मत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं होइ, सम्मामिच्छ-
त्तुक्कस्ससंकमपडिग्गहवसेण तदुवलदीदो । एत्तो दुसमयूणावलिआए गलिदाए
सम्मामिच्छत्तस्स जहणणयं ट्टिदिसंतकम्ममेयट्टिदी दुसमयकालमेत्तं होइ त्ति अणुत्तं

होता है । अब इन दोनों उपदेशोंको संग्रह योग्य समझकर व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि
वर्तमान कालमें किमका परिग्रह किया जाय इसप्रकारका विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता ।
इसप्रकार सर्वप्रथम सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकके ग्रहणके समय सम्यक्त्व
काण्डकघातरूपसे जितनी स्थिति ग्रहण की जा चुकी है उनसे अतिरिक्त शेष स्थितिके प्रमाण-
के निर्णयका उपदेशभेदके आश्रयसे कथनकर अब सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकके
सम्यक्त्वके ऊपर सर्वसंक्रमद्वारा सक्रमित होनेपर जो अर्थ विशेष प्राप्त होता है उसका कथन
करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* सम्यग्मिध्यात्वके इस स्थितिकाण्डकके घाते जानेपर उस समय सम्य-
ग्मिध्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है तथा सम्यक्त्वका
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है ।

§ ७५. सम्यग्मिध्यात्वके इस अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम फालिरूपसे सम्यक्त्वके
ऊपर सर्वसंक्रम द्वारा संक्रमितकर सम्पन्न होनेपर उसी समय सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य
स्थितिसंक्रम होता है, क्योंकि अनिष्टस्वरूप परिणामोंके द्वारा दूरापकृष्टिरूपसे घातित
करनेके बाद शेष बची स्थितिके जघन्य होनेमें विरोधका अभाव है । परन्तु उस समय
सम्यग्मिध्यात्वका प्रदेशसंक्रम उत्कृष्ट होता है, क्योंकि गुणितकर्मांशिक जीवकी विवक्षामे
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होनेमें विरोधका अभाव है । तथा उसी समय सम्यक्त्वका उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्म होता है, क्योंकि सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका प्रतिग्रह होनेसे उसकी
उपलब्धि होती है । इसके बाद दो समय कम उद्यावलिंके गालत होनेपर सम्यग्मिध्यात्वका

हि जाणिञ्जदे, मिच्छत्तपरूवणाए चैव गयत्थत्तादो ।

* अट्टवस्सउवदेसेण परूविज्झिहिदि ।

§ ७६. पुव्वुत्ताणं दोण्हमुवएसणं मज्जे अट्टवस्सोवएसमेव पहाणभावेणावलंबिय-
एत्तो उवरिमपरूवण वत्तइस्सामो त्ति भणिदं होदि । कुदो एदं चे ?' पवाइज्जमाणत्तेण
तस्सेव पहाणभावोवलंभादो । तम्हा अट्टवस्सट्टिदिसंतकम्मं घेत्तूण तच्चिसयं ट्टिदि-
खंडयादिपरूवणं विसेसिगूण परूवेमाणो पवधविच्छेदभएण आदीदो प्पहुहि पुव्वुत्त-
ट्टिदिखलपबंधेणाणुसधाण कुणमाणो इदमाह—

* तं जहा ।

§ ७७. सुगममेदमुवरिमपरूवणापबंधावयारविसय पुच्छावकं ।

* अपुव्वकरणस्स पढमसमए पलिदोवमस्स संखेज्जभागिगं ट्टिदिखलडयं
ताव जाव पलिदोवमट्टिदिसंतकम्मं जादं । पलिदोवमे ओलुत्ते पलिदोवमस्स
संखेज्जा भागा आगाइदा । तम्हि गदे सेसस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । एव
जघन्य ग्थितिसत्कर्म वो समय कालप्रमाण एक स्थितिरूप होता है यह बिना कहे ही जाना
जाता है, क्योंकि मिथ्यात्वकी प्ररूपणासे ही उसका हान हो जाता है ।

* अब आठ वर्षके उपदेशके अनुसार प्ररूपणा करेंगे ।

§ ७६ पूर्वोक्त दो उपदेशोंमेंसे सम्यक्त्वके आठ वर्षप्रमाण स्थितिका निरूपण करने-
वाले उपदेशका ही प्रधानरूपसे अवलम्बनकर आगे आगेकी प्ररूपणाको बतलावेंगे यह उक्त
कथनका तात्पर्य है ।

शंका—इसीको क्यों बतलावेंगे ?

समाधान—क्योंकि प्रवाह्यमानपनेके कारण उसीकी प्रधानता पाई जाती है । इस-
लिये आठ वर्षप्रमाण स्थितिमन्कर्मका ग्रहणकर तद्विषयक स्थितिकाण्डक आदिकी प्ररूपणाको
विशेषरूपसे कथन करते हुए प्रबन्ध-विच्छेदके भयवश प्रारम्भसे लेकर पूर्वोक्त स्थितिकाण्डक-
सम्बन्धी प्रबन्धके द्वारा अनुसन्धान करते हुए यह कहते हैं—

* वह जैसे ।

§ ७७ उपरिम प्ररूपणासम्बन्धी प्रबन्धके अवतारको विषय करनेवाला यह पुच्छा-
वाक्य सुगम है ।

* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें पन्योपमके सख्यातर्वे भागप्रमाण स्थिति-
काण्डक प्रारम्भ होता है । पन्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके प्राप्त होने तक उक्त

संखेज्जाणि द्विदिव्खंडयस्साणि गदाणि । तदो दूरावकिट्ठी पखिदोवमस्स संखेज्जादि-
भागे संतकम्भे सेसे । तदो द्विदिव्खंडयं सेसस्स असंखेज्जा भागा । एवं
ताव सेसस्स असंखेज्जा भागा जाव मिच्छत्तं खविदं ति । सम्मामिच्छत्तं
पि खवेतस्स सेसस्स असंखेज्जा भागा जाव सम्मामिच्छत्तं पि खविज्जमाणं
खविदं, संखुब्भमाणं संखुद्धं । ताधे चेव सम्मतस्स संतकम्भमद्ववस्स-
द्विदिगं जावं ।

§ ७८. सुगममेदं पुव्युत्तयोवसंहारसुत्तं । णवरि एत्थ 'सम्मामिच्छत्तं खविज्ज-
माणं खविदमिदि' वुत्ते तस्स द्विदि-अणुभागा घादिज्जमाणा णिरवसेसं घादिदा
त्ति अत्थो घेतव्वो । संखुब्भमाणयं संगुद्धं इदि वुत्ते परपयडिसंकमेण संखुब्भमाणं
सम्मामिच्छत्तपदेसगं सव्वसंकमेणुदयावलियवज्जं सव्वमेव सम्मतस्सुवरि संखुद्धमिदि
अपुणरुत्तभावेण अत्थो वक्खाण्येव्वो ।

प्रमाणवाले ही स्थितिकाण्डक चालू रहते हैं । पन्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके
अवशिष्ट रहने पर पन्योपमके संख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिसत्कर्म घातके लिये
ग्रहण किया । उसके व्यतीत होनेपर शेष रही स्थितिसत्कर्मका संख्यात बहुभाग
घातके लिये ग्रहण किया । इसप्रकार संख्यात हजार स्थितिकाण्डक व्यतीत हुए ।
इसके बाद पन्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिसत्कर्मके शेष रहनेपर द्राघकृष्टि
संज्ञावाली स्थिति प्राप्त हुई । पुनः वहाँसे स्थितिकाण्डकका प्रमाण शेष रहे स्थिति-
सत्कर्मके असंख्यात बहुभागप्रमाण प्राप्त हुआ । इसप्रकार मिध्यात्वके क्षय होने
तक उत्तरोत्तर शेष रहे स्थितिसत्कर्मके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिकाण्डक प्राप्त
हुआ । सम्यग्मिध्यात्वका भी क्षय करते हुए उत्तरोत्तर जो स्थितिसत्कर्म शेष रहा उसके
असंख्यात बहुभागको स्थितिकाण्डकरूपसे घातके लिए तब तक ग्रहण किया जब
जाकर क्षयको प्राप्त होनेवाले सम्यग्मिध्यात्वका भी क्षय कर दिया और संक्रमित
होनेवाले उसका संक्रमण कर दिया । तभी सम्यक्त्वका स्थितिसत्कर्म आठ वर्षप्रमाण
हो गया ।

§ ७८. पूर्वोक्त अथका उपसंहार करनेवाला यह सूत्र सुगम है । इतनी विशेषता है
कि इस सूत्रमें 'सम्मामिच्छत्तं खविज्जमाणं खविदं' ऐसा कहनेपर सम्यग्मिध्यात्वके घाते
जानेवाले स्थिति और अनुभाग पूरी तरहसे घातित किये गये ऐसा अर्थ यहाँ ग्रहण करना
चाहिए । 'संखुब्भमाणयं संखुद्धं' ऐसा कहनेपर परप्रकृतिसंक्रमरूपसे संक्रमित होनेवाले सम्यग्-
मिध्यात्वके प्रदेशपुंजको सर्वसंक्रमके द्वारा उदयावलि के सिवाय समग्र ही सम्यक्त्वके ऊपर
संक्रमित किया इसप्रकार अपुनरुत्तरूपसे अर्थका व्याख्यान करना चाहिए ।

ताधे खेव दंसणमोहणीयक्खवणो त्ति भण्णइ ।

§ ७९. एवं मणंतस्स सुत्तयारस्सायमहिप्पायो—पुव्व पि मिच्छत्तक्खवणपारंभ-
पढमसमयप्पहुडि सव्वत्थेव दंसणमोहक्खवणववणसो ण विरुद्धो, किंतु एत्तो प्पहुडि
णिच्छएणेव दंसणमोहक्खवणववणसो एदस्स दट्ठव्वो, भरेण सम्मत्तक्खवणाए पयट्ठत्तादो
त्ति । अधवा मिच्छत्त-सम्माभिच्छत्ताणं खवणावत्थाए दंसणमोहक्खवणववणसो
अविप्पडिवत्तिसिद्धो त्ति ण तत्थ संदेहो, तेसिं सम्मत्तसणिणदजीवगुणपडिबंधीणं
दंसणमोहववणससिद्धीए मंदबुद्धीणं पि विसंवादाभावादो । किंतु ण सम्मत्तकम्मं
दंसणमोहणीयं, सम्मत्तगुणसहचरिदोदयत्तादो । तम्हा ण एद खवेमाणो दंसणमोह-
क्खवणो त्ति एवंविहाए विप्पडिवत्तीए पच्चवच्चिट्टिमाणस्स तहाविहविप्पडिवत्ति-
णिरायरणदुवारेण तक्खवणावत्थाए वि दंसणमोहक्खवणववणससमत्थणट्ठमेद भणिद-
मिदि गहेयव्वं । कथ पुण सम्मत्तपरिणामाविरोहेण एदस्स दंसणमोहववणसो त्ति चे ?
ण, संपुण्णिम्मलणिच्चलपरमावगाढलक्खणसइयसम्मत्तपडिवत्तिणे तस्म तव्ववणसो-

विशेषार्थ—अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणमें सम्यक्त्वके आठ
वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके प्राप्त होने तक जिन कार्यविशेषोंका पहले निर्देश कर आये है उन्हीं
कार्यविशेषोंका इस उपसंहार सूत्र द्वारा निर्देश किया गया है । अन्य विशेषताओंके साथ
पूरे अर्थका विशेष स्पष्टीकरण पहले ही कर आये है ।

इसी समय वह दर्शनमोहनीय-क्षपक कहलाता है ।

§ ७९ इसप्रकार कहनेवाले सूत्रकारका यह अभिप्राय है—पहले भी मिथ्यात्वकी
क्षपणाका प्रारम्भ करनेके प्रथम समयसे लेकर सर्वत्र ही दर्शनमोहक्षपक संज्ञा विरुद्ध नहीं है ।
किन्तु यहाँसे लेकर निश्चयसे ही इसके दर्शनमोहक्षपक संज्ञा जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँसे
लेकर वेगसे सम्यक्त्वकी क्षपणाके लिये प्रवृत्त हुआ है । अथवा मिथ्यात्व और सम्यग्मि-
थ्यात्वकी क्षपणावस्थाके समय दर्शनमोहक्षपक संज्ञा बिना विवादके सिद्ध है, इसलिये
उसमें सन्देह नहीं है, क्योंकि वे सम्यक्त्व संज्ञावाले जीवगुणको प्रतिबन्धक है, इसलिये
उनकी दर्शनमोह संज्ञा सिद्ध होनेसे मन्दबुद्धिजनोंको भी उसमें विसंवाद नहीं है । किन्तु
सम्यक्त्वकर्म दर्शनमोहनीय नहीं है, क्योंकि वेदकसम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्व गुणके साथ
उसका उदय होता है । इसलिये इसका क्षय करनेवाला जीव दर्शनमोहका क्षपक नहीं
है इसप्रकारकी शंकासे प्रसित जीवकी उसप्रकारकी शंकाके निराकरण द्वारा उसकी
क्षपणावस्थामें दर्शनमोहक्षपक संज्ञाके समर्थनके लिये यह कहा है ऐसा यहाँ ग्रहण
करना चाहिए ।

शंका—सम्यक्त्व परिणामके साथ विरोध नहीं होनेसे इसकी दर्शनमोह संज्ञा
कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पूरी तरहसे निर्मल और निश्चल परमावगाढ़ लक्षणवाले

ववचीए । एदेण 'मिच्छत्तवेदणीये कम्मे०' इषेदिस्से गाहाए अणुसरिदो दडुव्वो ।

§ ८०. एवमेत्पुद्देसे दंसणमोहक्खवयववएसमेदस्स द्ढीकरिय संपहि अट्टवस्स-ट्टिदिसंतप्पहुडि सम्मत्तं खवेमाणस्स तदवत्थाए कीरमाणेकअभेदपुप्पायणडुम्भवरिं सुत्तपबंधमाटवेह—

* एत्तो पाए अंतोमुहुत्तियं ट्टिदिखंडयं ।

§ ८१. अट्टवस्समेत्तट्टिदिसंतकम्मावसेसप्पहुडि एत्तो उवरि सच्चत्थ ट्टिदिखंडय-मागाएत्तो अंतोमुहुत्तपमाणमागाएदि, पलिदोवमासंखेज्जभागादिवियप्पाणभेदम्मि विसये

क्षायिकसम्यक्त्वके प्रतिबन्धकपनेकी अपेक्षा इसकी उक्त संज्ञा बन जाती है ।

इस कथन द्वारा 'मिच्छत्तवेदणीए कम्मे०' इत्यादिरूपसे इस गाथाके अर्थका अनुसरण किया गया है ऐसा जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहनीयके दो प्रकृतियाँ मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके क्षय होनेके बाद जब यह जीव सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करनेका प्रारम्भ करता है तब यहाँ इसे दर्शनमोहक्षपक कहा गया है । इसीपर यह प्रश्न उठा है कि यह जीव दर्शनमोहनीयका क्षय तो पहलेसे ही करता आ रहा है ऐसी अवस्थामें यहाँसे लेकर इसे दर्शनमोहनीयका क्षपक क्यों कहा ? इस प्रश्नका जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दो प्रकृतियाँ तो जीवके सम्यक्त्व गुणको प्रतिबन्धक हैं ही, इसलिए जब यह जीव इन दोनों प्रकृतियोंका क्षय करनेमें प्रवृत्त रहता है तब तो बिना कहे ही इसको दर्शनमोहक्षपक संज्ञा है । इसमें कोई विवाद नहीं । किन्तु सम्यक्त्वप्रकृति सम्यक्त्व गुणकी घातक नहीं है, क्योंकि वेदक सम्यग्दृष्टिके उसका उदय रहते हुए भी सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिये सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षय करनेवाले जीवको दर्शनमोहक्षपक कहना योग्य नहीं है ऐसी जिसके चित्तमें अज्ञा है उसकी उस अज्ञाका परिहार करनेके लिये यहाँ सम्यक्त्वप्रकृतिकी क्षपणा करनेवाले जीवको दर्शनमोहक्षपक कहा है, क्योंकि अति-निर्मल और निश्चल परमावगाढलक्षण ध्यायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय होनेपर ही होती है ।

§ ८० इसप्रकार इस स्थलपर इस जीवकी दर्शनमोहक्षपक इस संज्ञाको दृढ़ करके अब आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर सम्यक्त्वका क्षय करनेवाले जीवके उस अवस्थामें किये जानेवाले कार्यभेदका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

* इससे आगे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितिकाण्डक होता है ।

§ ८१. शेष रहे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर इससे आगे सर्वत्र घातके लिये स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है, क्योंकि

संभाणुबलभादो ति भणिदं होदि । एवं पुच्चिन्लड्डिदिसंडएहितो एत्थतणोड्डिदि-
खंडयस्स विलक्खणभावं पटुप्पाइय संपहि पुच्चिहल्लगुणसेटिणिक्खेवादो वि सपहियगुण-
सेटिणिक्खेवस्स विलक्खणभावं पटुप्पाएमाणो पुच्चिन्लस्सेव दाव अपुच्चवरणादिगुण-
सेटिणिक्खेवस्स सरूवाणुवादं कुणह—

* अपुच्चकरणस्स पढमसमयादो पाए जाव चारिमं पलिदोवमस्स
असंखेज्जभागाट्टिविखंडयं ति एदम्मि काले जं पदेसग्गमोकड्डुमाणो सच्च-
रहस्साए आवलियबाहिरट्टिदीए पदेसग्गं देदि तं धोवं । समयुत्तराए
ट्टिदीए जं पदेसग्गं देदि तमसंखेज्जगुणं । एवं जाव गुणसेटिसीसय ताव
असंखेज्जगुणं । तदो गुणसेटिसीसयादो उवरिमाणंतरट्टिदीए पदेसग्ग-
मसंखेज्जगुणहीणं, तदो विसेसहीणं । सेसासु वि ट्टिदीसु विसेसहीणं चेव,
णत्थि गुणगारपरावत्ती ।

§ ८२. एदस्स सुत्तस्सत्थां वुच्चदे । तं जहा—अपुच्चकरणपढमसमयादो आहत्ता
जाव सम्मामिच्छत्तचरिमट्टिदिसंडयदुचरिमफालि ति ताव एदम्मि अंतराले पडि-
समयमसंखेज्जगुणाए सेटीए पदेसग्गमोकड्डुगुण गुणसेटिविण्णासं करमाणो अपुच्च-

इस स्थलपर पल्योपमके असंख्यातव भाग आदि विकल्प सम्भव नहीं है यह उक्त कथनका
तात्पर्य है । इसप्रकार पहलेके स्थितिकाण्डकोसे इस स्थलके स्थितिकाण्डककी विलक्षणताका
कथन कर अब पहलेके गुणश्रेणिनिक्षेपसे भी साम्प्रतिक गुणश्रेणिनिक्षेपकी विलक्षणताका
कथन करते हुए सर्वप्रथम पहलेके ही अपूर्वकरण आदिके गुणश्रेणिनिक्षेपके स्वरूपका अनु-
वाद करते हैं—

* अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम पल्योपमके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने तक इस कालमें जिम प्रदेशपुञ्जका अपकर्षण
करता हुआ सबसे इस्व उदयावलि-बाह्य स्थितिमें जिम प्रदेशपुञ्जको देता है वह
स्तोक है । इससे एक समय अधिक स्थितिमें जिस प्रदेशपुञ्जको देता है वह उससे
असंख्यातगुणा है । इसप्रकार गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक
स्थितिमें असंख्यातगुणा प्रदेशपुञ्ज देता है । तदनन्तर गुणश्रेणिशीर्षसे ऊपरिम अनन्तर
स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुञ्जको देता है । उससे आगेकी स्थितिमें विशेष
हीन प्रदेशपुञ्जको देता है । आगे भी शेष सब स्थितियोंमें विशेष हीन विशेष हीन ही
प्रदेशपुञ्ज देता है, गुणकार परिवर्तन नहीं है ।

§ ८२. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर सम्य-
न्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी द्विचरम फालिके प्राप्त होनेतक इस अन्तरालमें प्रत्येक
समयमें असंख्यातगुणे श्रेणिरूपसे प्रदेशपुञ्जका अपकर्षण कर गुणश्रेणिकी रचना करता हुआ

करणपढमसमये ताव सव्वरहस्साए उदयावलियवाहिराणंतरट्टिदीए जं पदेसग्गं णिक्खिवदि तं थोवं होइ । होतं पि असंखेज्जसमयपवद्धपमाणमिदि धेत्तवं, सव्वजहण्णे वि गुणसेट्ठिगोवुच्छपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्ताणं पंच्चिदियसमयपवद्धाणमुवलंभादो । एत्तो समयुत्तराए ट्टिदीए जं पदेसग्गं णिसिंचदि तमसंखेज्जगुणं । को गुणगतो ? तप्पाओग्गो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । एवं जाव गुणसेट्ठिसीसयं पावेइ ताव असंखेज्जगुणं चेव देदि । तदो गुणसेट्ठिसीसयादो उवरिमाणतराए ट्टिदीए असंखेज्जगुणहीणं पदेसग्गं देदि । किं कारणं ? तत्कालोकट्टिदसयलदव्वं तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तभागहारेण खंडिदेयखंडमसंखेज्जभागूणं गुणसेट्ठिसीसये णिक्खिविय पुणो सेसवहुभागे दिवहुगुणहाणीहिं खंडिदेयखंडमणंतरोवरिमाए ट्टिदीए णिक्खिवदि त्ति एदेण कारणेण तत्थ दिज्जमाणं पदेसग्गमेयसमयपवद्धासंखेज्जदिभागपमाणं होदुणासंखेज्जगुणहीणं जादं । तदो विसेसहीणं देदि । केत्तियमेत्तेण ? दोगुणहाणिपडिभागिएण गोवुच्छविसेसेण । एवमुवरिमासु वि ट्टिदीसु वि विसेसहीणं चेव देदि जाव अप्पप्पणो ओकट्टिदट्टिदिमइच्छावणावलयमेत्तणापत्तो त्ति । एसा दिज्जमाणपरूवणा । एवं चेव दिस्समाणस्स वि परूवणा कायव्वा, विसेसाभावादो । एवं चेव विदियादिसमएसु वि कायव्वं जाव पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्तचरिमट्टिदिखंडयं

सर्वप्रथम अपूर्वकरणके प्रथम समयमें उद्यावलि बाह्य सबसे ह्रस्व अनन्तर स्थितिमें जिस प्रदेशपुञ्जको निक्षिप्त करता है वह स्तोक होता है । स्तोक होता हुआ भी असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सबसे जघन्य होने पर भी गुणश्रेणिगोपुच्छमें पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध पाये जाते हैं । इससे एक समय आगेकी स्थितिमें जिम् प्रदेशपुञ्जको निक्षिप्त करता है वह उससे असंख्यातगुणा होता है । गुणकार क्या है ? तत्प्रायोग्य पल्योपमका असंख्यातवाँ भागप्रमाण गुणकार है । इस प्रकार गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें असंख्यातगुणा देता है । तदनन्तर गुणश्रेणिशीर्षसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन प्रदेशपुञ्ज देता है, क्योंकि उस समय अपकर्षित समस्त द्रव्यको तत्प्रायोग्य पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण भागहारसे भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे असंख्यातवाँ भाग कम उसे गुणश्रेणिशीर्षमें निक्षिप्त कर पुनः शेष बहुभागको डेढ गुणहानिसे भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अनन्तर उपरिम स्थितिमें निक्षिप्त करता है । इसप्रकार इस कारणसे वहाँ दिया जानेवाला प्रदेशपुञ्ज एक समयप्रबद्धका असंख्यातवे भागप्रमाण होकर असंख्यातगुणा हीन हो गया । तदनन्तर उपरिम स्थितिमें विशेष हीन देता है । कितना विशेषहीन देता है ? दो गुणहानियोंके प्रतिभागसे प्राप्त गोपुच्छविशेषसे हीन देता है । इसप्रकार उपरिम स्थितियोंमें भी, अपनी-अपनी अपकर्षित स्थितिकी अतिस्थापनावलिके प्राप्त होनेके पूर्वतक, विशेषहीन-विशेषहीन देता है । यह दीयमान प्रदेशपुञ्जकी प्ररूपणा है । वृद्धयमान प्रदेशपुञ्जकी प्ररूपणा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं है । इसी प्रकार पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डकके

चरिमसमयमणुक्किणं ति, उदयावलियबाहिरे गलिदसेसगुणसेडिणिकखेव पडि सच्चर्य मेदाणुवलंभादो । एदं च सच्चर्यविसेस मणम्मि काट्टण 'णत्थि गुणगारपरावत्ती' इदि वुत्तं । एदम्मि णिरुद्धकाले दिज्जमाणस्स दिस्समाणस्स वा पदेसगस्स अणंतर-परुविदो चैव गुणगारकमो, णत्थि तत्थ अण्णरिसेण कमेण गुणगारपवुत्ति ति जं वुत्तं होइ । गुणगारो णाम किरियामेदो । सो णत्थि ति वा जाणावणद्धं 'णत्थि गुणगारपरावत्ती' इदि सुत्ते णिदिद्धं ।

§ ८३. एव ताव हेट्टिमद्धाने गुणसेडिणिकखेवादिविसओ किरियामेदो णत्थि ति पटुप्पाइय संपहि एत्तो प्पहुट्ठि ट्ठिदि-अणुभागखंडएसु गुणसेडिणिकखेवे च किरियामेदो अत्थि ति जाणावणट्टुसुवरिमं पबंधमाइ—

* जाये अट्टवासट्टिदिगं संतकम्मं सम्मत्तस्स ताये पाए सम्मत्तस्स अणुभागस्स अणुसमय-ओवहणा । एसो ताव एक्को किरियापरिवत्तो ।

अन्तिम समयके अनुत्कीर्ण होने तक द्वितीयादि समयोंमें भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उदयावलि के बाहर गलित श्रेण गुणश्रेणिनिक्षेपके प्रति सर्वत्र भेद नहीं उपलब्ध होता । इस सब अर्थविशेषको मनमें करके 'णत्थि गुणगारपरावत्ती' यह वचन कहा है । इस विवक्षित कालमें दायमान और दृश्यमान प्रदेशपुञ्जका अनन्तर कहा गया ही गुणकारक है, वहाँ अन्य प्रकारसे गुणकारको प्रवृत्ति नहीं होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । गुणकार क्रियाभेदको कहते हैं । वह नहीं है, अथवा इस बातका ज्ञान करानेके लिये 'णत्थि गुणगारपरावत्ती' यह वचन सूत्रमें कहा है ।

विशेषार्थ—यहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणमें सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डको द्विचरमफालिका जिस समय पतन होता है उस समय तक प्रत्येक समयमें गुणश्रेणि और उससे यथासम्भव उपरिम स्थितियोंमें अपकल्पित द्रव्यका किस प्रकार निक्षेप होता है इस तथ्यका स्पष्टरूपसे खुलासा किया गया है । विशेष स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है । यहाँ यह तथ्य ध्यानमें रखना चाहिए कि उपरितन जिस स्थितिमेंसे प्रदेशपुञ्जका अपकर्षण विवक्षित हो उस स्थितिसे नीचे अतिस्थापनावलिको छोड़कर उदयावलिसे उपरितन प्रथम स्थितिसे लेकर अतिस्थापनावलिसे पूर्वतक अन्य सब स्थितियोंमें उसका यथायोग्य निक्षेप होता है ।

§ ८३. इस प्रकार सर्व प्रथम नीचेके अश्वानमें गुणश्रेणिनिक्षेपादिविषयक क्रियाभेद नहीं है इसका कथन कर अब इससे आगे स्थितिकाण्डकों, अनुभागकाण्डकों और गुणश्रेणिनिक्षेपमें क्रियाभेद है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* जिस समय सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म होता है उस समयसे लेकर सम्यक्त्वके अनुभागका प्रत्येक समयमें अपवर्तन होता है । सर्वप्रथम यह एक क्रियापरावर्तन है ।

५ ८४. जं सम्मत्ताणुभागस्स पुब्बं विट्ठाणियसरूवस्स एण्हिमेगट्ठाणियसरूवेणाणु-समयोवट्ठणा पारद्धा ति । पुब्बमंतोमुहुत्तेण कालेणाणुभागखंडयं णिव्वत्तेदि । इदाणिं पुण खंडयघादमुवसंहरियूण समए समए सम्मत्तस्स अणुभागमणंतगुणहाणीए ओवट्ठेदि ति वुत्तं होइ । तं पुण अणुसमयोवट्ठणमेवमणुगंतव्वं—अणंतरहेट्ठिम-समयाणुभागसंतकम्मादो संपहियसमये अणुभागसंतकम्ममुदयावलियवाहिरमणंतगुणहीणं एण्हिमुदयावलियवाहिराणु भागसंतकम्मादो उदयावलियव्भंतरमणुपपविसमाणमणंत-गुणहीणं तत्तो वि उदयसमयं पविसमाणमणंतगुणहीणं । एवं समये समये जाव समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहो ति । तत्तो परमावलियमेत्तकालमुदयं पविस-माणाणुभागस्स अणुसमयोवट्ठणा ति ।

अंतोमुहुत्तिगं चरिमट्ठिदिखंडयं ।

५ ८४. पहले जो सम्यक्त्वका अनुभाग द्विस्थानीयस्वरूप रहा है उसकी अब एक स्थानीय रूपसे प्रतिसमय अपवर्तना प्रारम्भ हुई। पहले अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा अनुभागकाण्डककी रचना करता था अब पूर्वके काण्डकघातका उपसंहारकर प्रत्येक समयमें सम्यक्त्वके अनु-भागकी अनन्तगुणी हानिरूपसे अपवर्तना करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। पुनः प्रत्येक समयमें होनेवाली अपवर्तनाको इसप्रकार जानना चाहिए—अनन्तर पूर्व समयके अनुभागसत्कर्मसे वर्तमान समयमें अनुभागसत्कर्म उदयावलिसे बाहर अनन्तगुणा हीन है। उदयावलिके बाहर स्थित इस अनुभागसत्कर्मसे उदयावलिके भीतर अनुप्रविशमान अनुभाग-सत्कर्म अनन्तगुणा हीन है। इसप्रकार दर्शनमोहनीयके क्षय होनेके एक समय अधिक एक आवलिपूर्व तक प्रत्येक समयमें इसीप्रकार जानना चाहिए। उसके बाद एक आवलिप्रमाण कालतक उदयमें प्रविशमान अनुभागकी प्रतिसमय अपवर्तना पाई जाती है।

विशेषार्थ—सम्यक्त्वप्रकृतिका स्थितिसत्कर्म आठ वर्षप्रमाण रह जानेपर क्या-क्या क्रियाविशेष होते हैं इस तथ्यका स्पष्टीकरण करते हुए सर्वप्रथम अनुभाग-सम्बन्धी क्रिया-विशेषका निर्देश करते हुए बतलाया है कि इससे पूर्व सम्यक्त्वसम्बन्धी एक-एक अनुभाग-काण्डकका अन्तर्मुहूर्त-अन्तर्मुहूर्त कालमें घात करता था। अब प्रत्येक समयमें सम्यक्त्वके अनुभागका अनन्तगुणी हानिरूपसे अपवर्तन करता है। उसमें भी पहले जो द्विस्थानीय अनुभाग था उसका प्रत्येक समयमें एक स्थानीयरूपसे अपवर्तन करने लगता है। उसी तथ्यको यहाँ स्पष्टरूपसे समझाते हुए बतलाया है कि अनन्तर पूर्व समयमें जो अनुभाग-सत्कर्म था उससे वर्तमान समयमें उदयावलिके बाहर स्थित अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है। तथा इस उदयावलिके बाहर स्थित अनुभागसत्कर्मसे उदयावलिमें अनुप्रविश-मान अनुभागसत्कर्म अनन्तगुणा हीन होता है। इसप्रकार इस क्रमको दर्शनमोहनीयके क्षय होनेमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक जानना चाहिए। उसके बाद आवलिमात्र काल तक उदयमें प्रविशमान अनुभागकी अनुसमय अपवर्तना है।

अन्तर्मुहूर्तस्थितिवाला अन्तिम स्थितिकाण्डक होता है ।

१. ता०प्रवी 'जं सम्मत्ताणुभागं' इत्यतः 'पारद्धा ति' इति यावत् सूत्राश्रुणेण निर्विष्टम् ।

§ ८५. पुब्बं पल्लिदोवमासंखेज्जदिमागिगं द्विदिखंडयं द्वावकिट्ठीदो पडुडि जाव एद्दं ताव जादं । एण्हं पुण संखेज्जावलिपयायामंतोमुहुत्तियं द्विदिखंडयपमाणं जापदि त्ति एसो विदियो किरियापरिवत्तो ।

* ताथे पाए ओवट्टिज्जमाणासु द्विदीसु उदये थोवं पदेसगं दिज्जे । से काले असंखेज्जगुणं जाव गुणसंदिहीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो उवरिमाणंतरिठ्ठीए वि असंखेज्जगुणं देदि । तदो विसेसहीणं ।

§ ८६. एत्थ ताव सम्मामिच्छत्तस्स चरिमफालीए सह सम्मत्तस्स अपच्छिमं पल्लिदोवमस्स असंखेज्जमागिगं द्विदिखंडयमोवट्टियूण अट्टवस्समेत्तं सम्मत्तस्स द्विदिसंतकम्मं ट्टवेमाणस्स गुणगारपरावत्ति वत्तऽस्सामो । तं जहा—तत्कालभाविसगचरिमफालिदव्वेण सह सम्मामिच्छत्तचरिमफालिं धेत्तूण अट्टवस्समेत्तसम्मत्तद्विदिसंतकम्मस्सुवरि णिसिंचमाणो उदये थोवं पदेसगं देदि । से काले असंखेज्जगुणं देदि ।

§ ८५ दूरापकृष्टि प्रमाण स्थितिसे लेकर इतने दूर अर्थात् आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके प्राप्त होने तक पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण स्थितिकाण्ड कहाँता आया । अब यहाँसे लेकर वह स्थितिकाण्डक संख्यात आवलि आयामवाला अन्तर्मुहूर्तप्रमाण हो जाता है इसप्रकार यह दूसरा क्रियापरावर्तन है ।

विशेषार्थ—जब सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहता है वहाँसे लेकर एक-एक स्थितिकाण्डकका आयाम पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण न होकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है यह इम सूत्रका आशय है । इसे अन्तिम स्थितिकाण्डक कहनेका आशय यह है कि आगे प्रत्येक स्थितिकाण्डकका आयाम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही रहता है, इससे कम नहीं होता और वह प्रत्येक अन्तर्मुहूर्त भी संख्यात आवलिप्रमाण होता है । इसे यह दूसरा क्रियापरिवर्तन कहा, क्योंकि सम्यक्त्वका आठवर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहनेपर वहाँसे लेकर स्थितिकाण्डकका प्रमाण बदल जाता है ।

* उस समयसे लेकर अपवर्तन होनेवाली स्थितियोंमेंसे उदयमें अन्य प्रदेशपुञ्जको देता है । उससे अनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है । इसप्रकार गुणश्रेणिशीर्ष तककी प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है । उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें भी असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है । उससे आगे विशेष हीन देता है ।

§ ८६. यहाँपर सर्व प्रथम सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालिके साथ पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डकका अपवर्तन कर आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मको धरनेवाले सम्यक्त्वके गुणकारपरावर्तनको बतलाते हैं । यथा—उस समय होनेवाली अपनी अन्तिम फालिके द्रव्यके साथ सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालिको ग्रहण कर सम्यक्त्वके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके ऊपर सिंचन करता हुआ उदयमें स्तोत्र प्रदेशपुञ्जको

एवं जाव गुणसेटिसीसयं पुब्बिन्लं ताव असंखेज्जगुणं देदि । तदो उवरिमाणंतराए ट्टिदीए असंखेज्जगुणं चेव देदि । किं कारणं ? सम्मामिच्छत्तचरिमफालिदव्वं किच्चूण-दिवट्टुगुणहाणिगुणिदसमयपवद्धमेत्तमोकङ्कणभागहारादो असंखेज्जगुणेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागोण खंडेदूण तत्थेयखंडमेत्तमेव दव्वं गुणसेटीए णिक्खिविय पुणो सेसवहुभागदव्वमंतोमुहुत्तूणट्टुवस्सेहिं खंडियेयखंडस्स णिरुद्धगोपुच्छायारेण णिक्खेव-दंसणादो । तम्हा एत्तो पहुडि सम्मत्तस्स उदयादिअवट्टिदगुणसेटिणिक्खेवो होइ चि वेत्तव्वो ।

§८७. एवं गुणसेटिसीसयादो अणतरोवरिमाए वि एकस्से ट्टिदीए असंखेज्जगुणं षडेसगं णिक्खिवियूण तदो उवरि सव्वत्थ अणतरोवणिधाए विसेसहीणं चेव देदि जाव अट्टवस्साणं चरिमणिसेओ च्ति । णवरि अट्टवस्समेत्तसव्वगोवुच्छाणमुवारि एण्हि

देता है । उससे उपरितन समयसम्बन्धी स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजको देता है । इस प्रकार पहलेके गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे प्रदेश-पुंजको देता है । उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुण प्रदेशपुंजको ही देता है, क्योंकि सम्यग्निश्चयात्त्वसम्बन्धी अन्तिम फालिके कुछ कम डेढ गुणहानिगुणित समयप्रवद्धप्रमाण द्रव्यका अपकर्षण भागहारसे असंख्यातगुण पल्योपमके असंख्यातवे भागके द्वारा खण्डित कर उसमेसे एक भागमात्र द्रव्यका गुणश्रेणिमें निक्षिप्त कर पुनः शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यको अन्तर्मुहूर्त कम आठ वर्षके द्वारा भाजित कर प्राप्त एक भागका विवक्षित गोपुच्छाकारसे निक्षेप देखा जाता है । इसलिये यहाँसे लेकर सम्यक्त्वका उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि-निक्षेप होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिस समय दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण सक्वस्थिति शेष रहती है उसके पूर्व जां उदयावलि बाह्य गलित शेष गुणश्रेणि-रचना होती रही वह अब उदयादि अवस्थितरूपसे होने लगती है । इसका आशय यह है कि पहले उदयावलिको छोड़ कर तदनन्तर समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उपरितन स्थितिमें गुणश्रेणिके द्रव्यका निक्षेप होता था । वह भी उत्तरोत्तर अधःस्थितिके एक एक समयके गलनेपर जितना गुणश्रेणिका काल शेष रहता था उतनेमें ही होता था । इसलिये इसके पूर्व तक इसकी उदयावलि बाह्य गलित शेष गुणश्रेणि संज्ञा थी । किन्तु यहाँसे लेकर गुणश्रेणिके द्रव्यका निक्षेप उदय समयसे लेकर होने लगता है और अधःस्थितिके एक-एक समयके गलनेपर ऊपर गुणश्रेणिके कालमें एक-एक समयका वृद्धि होती जाती है, इसलिये इसकी उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि संज्ञा है । जिस समय सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थिति-सत्कर्म शेष रहता है उस समयसे गुणश्रेणिका यह क्रम चालू हो जाता है । इसी तथ्यको यहाँ स्पष्ट करके बतलाया गया है ।

§ ८७ इस प्रकार गुणश्रेणिशीर्षसे अनन्तर उपरिम एक स्थितिमें भी असंख्यातगुणे प्रदेशपुंजका निक्षेपकर उससे ऊपर सर्वत्र अनन्तर उपनिधाके अनुसार आठ वर्षप्रमाण स्थितिके अन्तिम निषेकके प्राप्त होने तक विशेष हीन ही देता है । इतनी विशेषता है कि आठ

दिज्जमाणदव्वं ठिदिं पडि पुव्वावट्ठिददव्वादो असंखेअगुणं चेव होइ, चरिमफालि-
दव्वपाहम्मादो चि घेत्तव्वं । एवं दिण्णे उदयादो षहुडि जाव गुणसेट्ठिसीसयं ताव
दीसमाणदव्वमसंखेज्जगुणाए सेट्ठीए चिट्ठिदि । तदो उवरि सव्वत्थ अट्ठवस्समेत्तट्ठिदि-
संतकम्मस्सुवरि एयगोवुच्छायारेणावचिट्ठुदे । दिज्जमाणमिदि भणिदे सव्वत्थ तत्काल-
मोक्कट्ठियूण णिसिचमाणदव्वं घेत्तव्वं । दीसमाणमिदि भणिदे चिराणसंतकम्मेण सह
सव्वदव्वसमूहो घेत्तव्वो । एसो दिज्जमाण-दीसमाणामत्थो सव्वत्थ जोजेयव्वो ।
एवं सम्मामिच्छत्तचरिमफालिपदणावत्थाए दिज्जमाण-दिसमाणपरूवणा कया ।

§ ८८. पुणो से काले सम्मतस्स अंतोमुहुत्तमेत्तायामेण ट्ठिदिखंडयं घेत्तूण
गुणसेट्ठिं करेमाणस्स गुणगारपरावत्तिं वत्तइस्सामो । तं जहा—ताघे पाए अंतोमुहुत्त-
ट्ठिदिखंडयघादेणोवट्ठिअमाणानु सम्मतट्ठिदीसु जं पदेसगं तं ओक्कट्ठणभागहारपडि-
भागेण घेत्तूण उदयादिगुणसेट्ठिणिवस्सेवं करेमाणो उदये धोवं पदेसगं देदि । से
काले असंखेज्जगुणं देदि । एवमणेण कमेणासंखेज्जगुणं^१ णिसिचमाणो गच्छइ जाव

वर्षप्रमाण सब गोपुच्छोंके ऊपर इस समय दिया जानेवाला द्रव्य प्रत्येक स्थितिके प्रति पूर्वके
अवस्थित द्रव्यसे अन्तिम फालिके द्रव्यके माहात्म्यवश असंख्यातगुणा ही होता है ऐसा यहाँ
ग्रहण कर लेना चाहिए । इस प्रकार वेनेपर उदय समयसे लेकर गुणश्रेणिशीर्ष तक दृश्यमान
द्रव्य असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे अवस्थित होता है । उससे ऊपर सर्वत्र आठ वर्षप्रमाण
स्थितिसत्कर्मके ऊपर एक गोपुच्छाकाररूपसे अवस्थित होता है । दीयमान ऐसा कहनेपर
सर्वत्र तत्काल अपकर्षितकर सिंचित किये जानेवाले द्रव्यको ग्रहण करना चाहिए । तथा
दृश्यमान ऐसा कहनेपर चिरकालीन सत्कर्मके साथ सब द्रव्यसमूहको ग्रहण करना चाहिए ।
दीयमान और दृश्यमान पदोंके इस अर्थकी सर्वत्र योजना करनी चाहिए । इस प्रकार सम्य-
ग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालिके पतनकी अवस्थामें दीयमान और दृश्यमान द्रव्यकी प्ररूपणा की ।

विशेषार्थ—सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका और सम्य-
क्त्वके पत्न्योपमके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन
होकर जब सम्यक्त्वकी आठ वर्षप्रमाण सत्त्वस्थिति शेष रहती है उस समय उक्त स्थितिके
प्रत्येक नियेकमें तत्काल दीयमान और दृश्यमान द्रव्यका क्या प्रमाण रहता है यह यहाँ स्पष्ट
किया गया है । यहाँ दीयमान और दृश्यमान पदका स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है ।

§ ८८. पुनः तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्त आयामसे युक्त स्थितिकाण्डकको
ग्रहण कर गुणश्रेणि करनेवालेके गुणकारपरिवर्तनको बतलाते हैं । यथा—उस समयसे लेकर
अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितिकाण्डकघातके द्वारा अपवर्तित होनेवाली सम्यक्त्वकी स्थितियोंमें
जो प्रदेशपुंज होता है, अपकर्षणभागहारके प्रतिभागके हिसाबसे उसे ग्रहणकर उदयादि
गुणश्रेणिमें उसका निक्षेप करता हुआ उदयमें स्तोत्र प्रदेशपुंजको देता है । उससे अनन्तर
समयमें असंख्यातगुणा देता है । इसप्रकार इस क्रमसे गुणश्रेणिशीर्षके अधस्तन समयके

१. ता०प्रती कायव्वा इति पाठः ।

२. ता०प्रती कमेण संखेज्जगुण इति पाठः ।

हेट्ठिमसमयगुणसेटिसीसयं पत्तो त्ति । पुणो एदम्हादो उवरिमाणंतराए वि एकस्से ट्टिदीए पदेसगमसंखेज्जगुणं णिसिंचदि । किं कारणं ? अवट्टिदगुणसेटिणिकखेवे कयपइण्णत्तादो । एण्हमोकाट्टिददव्वस्स बहुभागे अंतोयुहुत्तणडुवस्सेहिं खंडिय तत्थेय-खंडमेत्तदव्वं विसेसाहियं कादूण संपहियगुणसेटिसीसये णिक्खिवदि त्ति वुत्तं होइ । एत्तो उवरि सव्वत्थ विसेसहीणं चेव णिसिंचदि जाव चरिमट्टिदिमहच्छावणावल्लिय-मेत्तेण अपत्तो त्ति । एवमट्टुवस्सट्टिदिसंतकम्मियस्स पढमसमए दिज्जमाणस्स परूवणा कया ।

§ ८९. संपहि तत्थेव दिस्समाणदव्वं कधमवचिडुदि त्ति एदस्स णिण्णयं वत्तइस्सामो । तं जहा—पुव्विन्ल्लगुणसेटिसीसयादो संपहियगुणसेटिसीसयमसंखेज्जगुणं ण होइ । किं काण्णमिदि ? भण्णदे—संपहि ओकट्टियूण गहिदसव्वदव्वं पि मिलियुण

प्राप्त होने तक असंख्यात गुणितक्रमसे सिंचन करता है। पुनः इससे उपरिम अनन्तर एक स्थितिमें भी असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जकः सिंचन करता है, क्योंकि यहाँ अवस्थित गुणश्रेणि निक्षेपकी प्रतिज्ञा की गई है। इस समय अपकर्षित हुए द्रव्यके बहुभागको अन्तर्मुहूर्तकम आठ वर्षोंके द्वारा भाजित कर वहाँ जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो, विशेष अधिक करके उसे इस समयके गुणश्रेणिशीर्षमें निक्षिप्त करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इससे ऊपर सर्वत्र अतिस्थापनाबलिमात्रसे अन्तिम स्थितिको नहीं प्राप्त होनेतक विशेषहीन-विशेष-हीन द्रव्यका सिंचन करता है। इसप्रकार आठ वर्षके स्थितिसत्कर्मवाले जीवके प्रथम समयमें दीयमान द्रव्यकी प्ररूपणा की।

विशेषार्थ—यहाँ जिस समय यह जीव सम्यक्त्वके स्थितिसत्कर्मको अपकर्षणकर आठ वर्षप्रमाण करता है उसके अनन्तर समयमे अपकर्षित द्रव्यका गुणश्रेणिमें और उससे ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप किस प्रकारसे होता है इस बातको स्पष्ट करके बतलाया गया है। इस विषयमें पहली बात तो यह है कि सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म रहनेके पूर्व स्थितिकाण्डक पत्योपमका असंख्यातर्वे भागप्रमाण था। किन्तु अब उसका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है। दूसरी बात यह है कि सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म रहनेके समयसे लेकर उदयाबलि बाह्य गलित शेष गुणश्रेणि न होकर उदयादि अवस्थित गुणश्रेणि चालू हो गई है, इसलिए प्रत्येक समयमें जहाँ एक समय प्रमाण अधःस्थितिका गलन होता है वहाँ ऊपर गुणश्रेणिमें एक समयका और योग होकर नया गुणश्रेणिशीर्ष स्थापित हो जाता है और इसप्रकार गुणश्रेणिके अधःस्तन समयसे लेकर ऊपर प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर जो असंख्यातगुणे-असंख्यातगुणे अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप होता है उसी क्रमसे वह द्रव्य इस तत्काल स्थापित नवीन गुणश्रेणिशीर्षको भी मिलता है। शेष सब कथन स्पष्ट ही है।

§ ८९. अब वही पर वृश्यमान द्रव्य किस प्रकार अवस्थित रहता है इसका निर्णय करेंगे। यथा—पहलेके गुणश्रेणिशीर्षसे इस समयका गुणश्रेणिशीर्ष असंख्यातगुणा नहीं होता है।

अद्वयस्सेगड्ढिदद्वं पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागेण खंडेदूणेगखंडमेत्तं चेव होदि, अद्वयस्सनेत्तणसेगणमोक्कड्ढणभागहारपडिभागियत्तादो । पुणो तस्म वि अमंखेज्जदि-भागमेत्तं चेव हेड्डा गुणसेट्ठिहि णिमिंचदि । मेसअसखेज्जे भागे मंपहियगुणसेट्ठि-सीसयप्पहुडि उवरिमगोवुच्छेसु ममयाविरोहेण णिमिंचदि त्ति । एदेण कारणेणा-संखेज्जगुणं ण जाद, किंतु विमेसाहियमेव दीममाणदद्वं होइ त्ति णिच्छेयच्चं । होतं पि अमंखेज्जभागुत्तरं चेव, पत्थि अण्णो वियप्पो ।

§ ९० संपहि एदस्मेवासंखेज्जभागाहियत्तस्स फुटीकरणद्वमेसा परूवणा कीरदे । तं जहा—हेट्ठिमसमयगुणसेट्ठिसीमयदद्वमिच्छामो त्ति दिवड्ढुगणहाणिगुणदिदमेगं ममय-पवद्धं ठविय तस्म अंतोमूहुत्तणद्ववस्समेत्तो भागहारो ठवेयच्चा । एवं ठविदं पुव्विन्ल-समयगुणमेट्ठिसीमयदद्वमागच्छह । यपहियगुणसेट्ठिसीमयदद्वे इच्छिज्जमाणे एदं चेव दद्वमेयगोवुच्छविसेमहीणं ठविय पुणो एण्हमांक्कड्ढिदद्ववस्म बहुभागे अद्वयस्सेहि अंतोमूहुत्तणेहिं खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेणेदं दद्वमव्महिय कादद्व । एदं च अहियदद्वं पुव्विज्जगुणसेट्ठिसीसयम्मि समहियगोवुच्छविसेसादा तत्थेव एण्ह पदिदासखेज्जममय-

शंका—इसका क्या कारण है ?

समाधान—कहते हैं—इम समय अपकर्षितकर प्रहण किया गया ममस्त द्रव्य भी मिलकर आठ वर्षमन्वन्धी एक स्थितिके द्रव्यको पल्यापमके असंख्यातवे भागसे भाजितकर जो एक भाग लब्ध आवे उतना होता है, क्योंकि आठ वर्षप्रमाण निपेकोमै अपकर्षण भाग-हारका भाग देनेपर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण है । पुनः उसके भी असंख्यातवे भागप्रमाण द्रव्यको हा नीचे गुणत्रिणिमें सिंचित करता है । शेष असंख्यात बहुभागको इम समयके गुणत्रिणिशीर्षसे उपरिम गोपुच्छांमे आगममें प्ररूपित विधिके अनुसार सिंचित करता है । इम कारणसे पहलेके गुणत्रिणिशीर्षसे इम समयका गुणत्रिणिशीर्ष असंख्यातगुणा नहीं हुआ, किन्तु दृश्यमान द्रव्य विशेषाधिक ही है ऐसा निश्चय करना चाहिए । विशेषाधिक होता हुआ भी असंख्यातर्षो भाग ही अधिक है, अन्य विकल्प नहीं है ।

§ ९० अब इसी असंख्यातवे भाग अधिकका स्पष्ट करनेके लिये यह परूवणा करते हैं । यथा—अधमत्त समयके गुणत्रिणिशीर्षका द्रव्य लाना चाहते हैं, इसलिये डेड गुणहानि-गुणित एक समयप्रवद्धको स्थापितकर उसका अन्तर्मुहूत कम आठ वर्षप्रमाण भागहार स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करनेपर पिछले समयके गुणत्रिणिशीर्षका द्रव्य आता है । इस समयके गुणत्रिणिशीर्षके द्रव्यके लानेकी इच्छा होनेपर एक गोपुच्छविशेषसे हीन इसी द्रव्यको स्थापितकर इस समय अपकर्षित द्रव्यके बहुभागको अन्तर्मुहूत कम आठ वर्षोंके द्वारा भाजितकर वहाँ प्राप्त एक भागमात्र द्रव्यसे इसे अधिक करना चाहिए । और यह अधिक द्रव्य, पिछले गुणत्रिणिशीर्षमे जो गोपुच्छविशेष अधिक है उससे तथा उसीमें अर्थात् पिछले गुणत्रिणिशीर्षमे इस समय प्राप्त हुआ जो असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण गुण-

पबद्धमेतद्गुणसेट्टिदव्वादो च असंखेज्जगुणं, तत्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्त-
 रूवाणमेत्थ गुणगारभावेण समुवल्लंभादो । तत्थतणसव्वदव्वं पेक्खियूण पुण असंखेज्ज-
 गुणहीणं, तम्मि सादरेग्गओकड्डुकड्डुणभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो ।
 तदो एत्तियमेत्तमहियदव्वमवणिय पुध दृवेयूण तत्थ हेट्टिमगुणसेट्टिसीसयम्मि समहिय-
 दव्वे एयगोवुच्छविसेसाहियतक्कालपदिदासंखेज्जसमयपबद्धमेत्ते अवणिदे अवणिदसेस-
 मेत्तेण पुव्विल्लगुणसेट्टिसीसयादो संपहियगुणसेट्टिसीसयदव्वमहियं होदि त्ति णिच्छओ
 कायव्वो । एवमुवरि वि समय पडि असंखेज्जगुणं दव्वमोक्कट्टियूण उदयादि-अवट्टिद-
 गुणसेट्टिणिक्खेवं कुणमाणस्स एसा चैव दिज्जमाण-दिस्समाणपरूवणा णिरवसेसमणु-
 गंतव्वा । णवरि अट्टवस्सट्टिदिसंतकम्मियस्स पढमट्टिदिखंडयप्पहुडि जाव दुचरिम-
 ट्टिदिखंडय' ति ताव एदेसि संखेज्जसहस्समेत्ताणं ट्टिदिखंडयाणं चरिमफालीयासु
 णिवदमाणियासु भेदो अत्थि, तत्थुद्देसे गुणसेट्टिसीसयम्मि णिवदमाणदव्वस्स पुव्विल्ल-
 तत्थतणसंचयगोवुच्छं पेक्खियूण संखेज्जदिभागव्महियत्तदसणादो । तस्सोवट्टुणासुहेण
 णिण्णयं वत्तइस्सामो । तं जहा—पुव्विल्लसंचयं तत्थतणमिच्छामो त्ति दिवट्टुगुणहाणि-
 गुणिदमेगं समयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स भागहारो अट्टवस्सायामो अंतोमूहुत्तणो
 ठवेयव्वो । संपहियपढमट्टिदिखंडयचरिमफालीए पदमाणाए खंडयदव्वमिच्छामो त्ति

श्रेणिमम्बन्धी द्रव्य है उससे असंख्यातगुणा है, क्योंकि पल्लयोपमके तत्प्रायोग्य असंख्यातवं
 भागप्रमाण अंक यहाँपर गुणकाररूपसे पाये जाते हैं । परन्तु वहाँके समस्त द्रव्यको देखते
 हुए वह असंख्यातगुणा हीन है, क्योंकि साधिक अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके द्वारा उसके
 खण्डित करनेपर वहाँ जो एक भाग प्राप्त हो वह तत्प्रमाण है, इसलिये इतनेमात्र अधिक
 द्रव्यको निकालकर और पृथक् रखकर वहाँ अधस्तन गुणश्रेणिशीर्षके एक गोपुच्छ विशेषसे
 अधिक तत्काल प्राप्त असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण समधिक द्रव्यके निकाल देनेपर निकालनेके
 बाद जितना शेष रहे उतना पहलेके गुणश्रेणिशीर्षसे वर्तमान गुणश्रेणि शीर्षसम्बन्धी द्रव्य
 अधिक होता है ऐसा निश्चय करना चाहिए । इस प्रकार आगे भी प्रत्येक समयमें असंख्यात-
 गुणे द्रव्यका अपकर्षण कर उदयादि अवस्थित गुणश्रेणिमें निक्षेप करनेवालेकी दीयमान और
 दृश्यमान द्रव्यकी पूरी प्ररूपणा इसी प्रकार करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आठ वर्ष-
 प्रमाण स्थितिसत्कर्मवाले जीवके प्रथम स्थितिकाण्डकसे लेकर द्विचरम स्थितिकाण्डक तक
 पतित होनेवाली इन संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंकी अन्तिम फालियोंमें भेद है, क्योंकि
 उनके पतनके समय गुणश्रेणिशीर्षमें पतित होनेवाला द्रव्य वहाँ सम्बन्धी पूर्वके संचयरूप
 गोपुच्छको देखते हुए संख्यातवर्षों भाग अधिक देखा जाता है । अब उसका अपवर्तनद्वारा
 निर्णय करके बतलाते हैं । यथा—वहाँ सम्बन्धी पूर्वके संचयको लाना चाहते हैं, इसलिये
 डेढ़ गुणहानिगुणित एक समयप्रबद्धको स्थापितकर पुनः अन्तर्मुहूर्तकम आठ वर्षप्रमाण इसका
 भागहार स्थापित करना चाहिए । अब प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होते

दिवङ्गुणहाणिगुणिसमयपवद्धस्म अंतोमुहुत्तोवट्टिदअट्टवस्मायाभो भागहारचेण ठवे-
यञ्चो । एवं ठविदे पढमट्टिदिसंखंडयचरिमफालिदव्वमागच्छह । पुणो एदस्सासंखेज्जदि-
भागमेत्तमेव हेट्ठा गुणसेटीए णिक्खिविय सेसवहुभागे अवट्टिदगुणसेटिसीसयप्यहुट्टि
अंतोमुहुत्तूणद्ववस्सेसु गोपुच्छायारेण णिसिंचदि त्ति अंतोमुहुत्तूणद्ववस्सेहि एदस्मि
खंडयदव्वे ओवट्टिदे णिरुद्धसमयम्मि अवट्टिदगुणसेटिसीसयम्मि णिवदमाणदव्वं
पुव्विल्लतत्थतणसंचयस्स समणंतरगुणसेटिहेट्टिमसीसयस्स च संखेज्जदिभागमेत्तभाग-
च्छदि । तदो सिद्धं तदवत्थाए दुचरिमगुणसेटिसीसयादो चरिमगुणसेटिसीसयदव्वं
संखेज्जभागुत्तरं होदूण दीसह त्ति । एवमुत्तरं वि सव्वन्थ णेयव्व जाव दुचरिमट्टिदि-
खंडयचरिमफालि त्ति, रूवूणट्टिदिसंखंडयुक्कीरणद्दामेत्तकालमसंखेज्जभागुत्तरं खंडयचरिम-
समए च संखेज्जभागुत्तरं गुणसेटिसीसयम्मि दीसमाणदव्वं होइ त्ति एदेण भेदाणुव-
लंभादो । संपहि दुचरिमट्टिदिसंखंडयचरिमफालिपज्जंतो चैव एसो परूवणापवंधो ।
उत्तरं चरिमट्टिदिसंखंडए आगाहदे पुध परूवणा होदि त्ति जाणावेमाणो उत्तरं सुत्ता-
वयवमाह—

* एवं जाव दुचरिमट्टिदिसंखंडयं ति ।

§ ९१. एवमेसा अणंतरपरूविदा गुणगारपरावची ताव पेदव्वा जाव दुचरिम-

समय काण्डक द्रव्यको लाना चाहते है, इसलिये डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रबद्धके अन्तर्मुहूर्तसे
भाजित आठ वर्षप्रमाण आयामको भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार
स्थापित करनेपर प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका द्रव्य आता है। पुनः इसके असं-
ख्यातवर्ष भागप्रमाण द्रव्यको ही नीचे गुणश्रेणिमें निक्षिप्तकर शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यको
अवस्थित गुणश्रेणिशीर्षसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कम आठ वर्षोंमें गोपुच्छाकाररूपसे सींचता
है, इसलिये अन्तर्मुहूर्तकम आठ वर्षोंके द्वारा इस काण्डकद्रव्यके भाजित करनेपर विवक्षित
समयके अवस्थित गुणश्रेणिशीर्षमें पतित होनेवाला द्रव्य वहाँ सव्वन्धी पूर्वक संचयके सम-
नन्तर अधस्तन गुणश्रेणिशीर्षके संख्यातवा भाग आता है। इसलिये सिद्ध हुआ कि उस
अवस्थामें द्विचरम गुणश्रेणिशीर्षसे अन्तिम गुणश्रेणिशीर्षका द्रव्य संख्यातवाँ भाग अधिक
होकर दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊपर भी सर्वत्र द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके
प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए, क्योंकि एक कम स्थितिकाण्डकके उत्कीरणाकालप्रमाण
कालतक असंख्यातवाँ भाग अधिक और काण्डकके अन्तिम समयमें संख्यातवाँ भाग अधिक
गुणश्रेणिशीर्षमें दृश्यमान द्रव्य होता है इस प्रकार इस कथनके साथ पूर्वोक्त कथनका कोई
भेद नहीं पाया जाता है। इस प्रकार द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिपर्यन्त ही यह
प्ररूपणाप्रबन्ध है। अब ऊपरके अन्तिम स्थितिकाण्डकके ग्रहण करनेपर भिन्न प्ररूपणा होती
है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रावयवको कहते हैं—

* इस प्रकार यह क्रम द्विचरम स्थितिकाण्डक तक जानना चाहिए ।

§ ९१ इसप्रकार यह अनन्तर कहा गया गुणकारपरावर्तन द्विचरमस्थितिकाण्डकके

द्विद्विखंडयचरिमसमओ त्ति । तत्तो पुण चरिमद्विद्विखंडए वट्टमाणस्स अण्णारिसी परूवणा होदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । एवमेत्तिएण पवंचेण हेट्ठिमपरूवण-
सुवसंहरिय संपहि चरिमद्विद्विखंडयविसयं परूवणं कुणमाणो तत्थ ताव चरिमद्विद्वि-
खंडयमाहप्पजाणावणह्ठसुवरिमप्पाबहुअपवंधमाह—

* सम्मत्तस्स चरिमद्विद्विखंडए णिट्ठिदे जाओ द्विदीओ सम्मत्तस्स
सेसाओ ताओ द्विदीओ थोवाओ ।

§ ९२. एदेण सम्मत्तस्स चरिमद्विद्विखंडयं गेण्हमाणो उदयावलियवाहिरं
सव्वमेव णो गेण्हइ, किंतु अंतोसुहुत्तमेत्तीओ द्विदीओ कदकरणिज्जकालावच्छिण्ण-
पमाणो हेट्ठा मोत्तूण पुणो उवरिमासेसद्विदीओ गेण्हदि त्ति जाणाविदं । एदाओ च
द्विदीओ उव्वराविज्जमाणो थोवाओ, उवरिमपदाणमेत्तो बहुत्तोवलंभादो ।

* दुचरिमद्विद्विखंडयं संखेज्जगुणं ।

§ ९३. दोण्हं पि अंतोसुहुत्तपमाणत्ते संते वि पुव्विन्लादो एदस्स संखेज्जगुणत्त-
मेदम्हादो चेव सुत्तादो णिच्छेयव्वं ।

* चरिमद्विद्विखंडयं संखेज्जगुणं ।

अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । परन्तु उससे ऊपर अन्तिम स्थितिकाण्डकमें विद्यमान
जीवके अन्य प्रकारकी प्ररूपणा होती है यह इस सूत्रका भावार्थ है । इसप्रकार इतने प्रबन्ध
द्वारा अधस्तन प्ररूपणाका उपसंहार कर अब अन्तिम स्थितिकाण्डकविषयक प्ररूपणाको
करते हुए वहाँ सर्वप्रथम अन्तिम स्थितिकाण्डकके माहात्म्यका ज्ञान करानेके लिये आगेके
अल्पबहुत्वप्रबन्धको कहते हैं—

* सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर सम्यक्त्वकी जो
स्थितियाँ शेष रहती हैं वे स्थितियाँ सबसे स्तोक हैं ।

§ ९२. सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ उदयावलि बाह्य
सबको ही ग्रहण नहीं करता है, किन्तु कृतकृत्यके कालप्रमाण अन्तमुहूर्तमात्र स्थितियोंको
नीचे छोड़कर पुनः उपरिम समस्त स्थितियोंको ग्रहण करता है इस बातका इस सूत्रद्वारा
ज्ञान कराया गया है । ये छोड़ी जा रही स्थितियाँ सबसे थोड़ी हैं, क्योंकि उपरिम पद इससे
बहुतरूपसे पाये जाते हैं ।

* उनसे द्विचरम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ ९३. इन दोनोंके अन्तमुहूर्तप्रमाण होनेपर भी पिछलेसे यह संख्यातगुणा है इस
बातका इसी सूत्रसे निश्चय करना चाहिए ।

* उससे अन्तिम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ ९४. एदं पि अंतोमूहुत्तपमाणं चैव होदणं चरिमट्टिदिखंडयामागदो संखेज्जगुणमिति घेतत्त्वं । पुच्चमट्टवस्सट्टिदिंसंतकम्मप्पहुडिं विसेयहीणकसेणंतोमूहुत्तिय-ट्टिदिखंडयाणि घादेदणं एण्हिं चरिमट्टिदिखंडयादो संखेज्जगुणापामेण चरिमट्टिदि-खंडयमागाएदिं ति एमो एदस्स भावन्थो । एवमेदेणप्पावहुएण चरिमट्टिदिखंडय-पमाणविसयं णिण्णयमुप्पाइय मपहिं मम्मत्तस्स चरिमट्टिदिखंडयमागाएतो एदेण विहिणा गेण्हदिं ति जाणावणट्टमिदमाह—

* चरिमट्टिदिखंडयमागाएतो गुणसेहीए संखेज्जे भागे आगाएदि, अण्णाओ च उवरि संखेज्जगुणाओ ट्टिदीओ ।

§ ९५. एतदुक्तं भवति—सम्मत्तस्स चरिमट्टिदिखंडयमागाएतो गुणसेट्ठि-अट्ठाणस्स एण्हिमुवल्लभमाणस्स संखेज्जदिभागं चरिमट्टिदिखंडयुकोणट्ठामहिपकद-करणिज्जट्ठामेत्तं मोत्तणं पुणो सेमसंखेज्जे भागे आगाएदिं ति । ण केवल्लभेदाओ चैव, किंतु अण्णाओ वि उवरि संखेज्जगुणाओ ट्टिदीओ अंतोमूहुत्तपमाणो आगाएदिं ति । एदेण चरिमट्टिदिखंडयपमाणं पुधमेव णिदगिसदं दइत्त्वं । तदो अवट्टिदगुणसेट्ठिमीसयादो उवरिममव्वगोचुल्लाओ पुणो अवट्टिदसरूवेण कद-सयलगुणसेट्ठिमीसयादो च मच्चमागाएदणं पुणो पट्टमसमयअपुव्वकरणेण अपुव्वा-

§ ९४ यह भी अन्तमुहूर्तप्रमाण ही है, तो भी द्विचरम स्थितिकाण्डकके आयामसे संख्यातगुणा है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । पहले आठ वषप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर विशेषहीनके क्रमसे अन्तमुहूर्त आयामवाले स्थितिकाण्डकोका घात कर यहाँ द्विचरम स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणे आयामरूपसे अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है यह इस सूत्रका भावार्थ है । इस प्रकार इस अल्पबहुत्वके द्वारा अन्तिम स्थितिकाण्डकका प्रमाण त्रिषयक निर्णय करके अब सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ इस विधिसे ग्रहण करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* चरम स्थितिकाण्डकको घातके लिये ग्रहण करता हुआ गुणश्रेणिके (उपरिम) संख्यात बहुभागको ग्रहण करता है और उपरिम अन्य संख्यातगुणी स्थितियोंको ग्रहण करता है ।

§ ९५ उक्त कथनका यह तात्पर्य है कि सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकको घातके लिये ग्रहण करता हुआ इस समय उपलब्ध होनेवाले गुणश्रेणिआयामके संख्यातवे भागको और अन्तिम स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालसहित कृतकरणाय कालको छोड़कर पुनः शेष संख्यात बहुभागको ग्रहण करता है । केवल इतनी ही स्थितियोंको नहीं ग्रहण करता है, किन्तु इनसे संख्यातगुणी उपरिम अन्तमुहूर्तप्रमाण अन्य स्थितियोंको भी ग्रहण करता है । इस सूत्र द्वारा अन्तिम स्थितिकाण्डकका प्रमाण पृथक् दिखलाया गया जानना चाहिए । इसलिये अबस्थित गणश्रेणियोंसे उपरिम सब गोपुच्छायै और अबस्थितस्वरूपसे क्रिया गया समस्त गुणश्रेणीशीर्षस्थान इन सबको ग्रहणकर तथा अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर

णियट्टिकरणद्वाहितो विसेसाहियभावेण णिसिक्खपोराणगुणसेटिसीसयस्स वि उवरिभे भागे अंतोमुहुत्तमेत्तट्टिदीओ वेत्तूण चरिमट्टिदिसिखंडयमागाएदि त्ति एसो एदस्स भावत्थो । अवट्टिदगुणसेटिअद्धाने वि केत्तियं पि उच्चराविय सेससंखेज्जे भागे आगाएदि त्ति वक्खाणिज्जमाणे को दोसो त्ति चे ? ण, कदकरणिज्जगोवुच्छाणं पल्लिदोवमासंखेज्जभागगुणगारोवएसेण सुत्तसिद्धेण तहाब्भुवगमस्स बाहियत्तादो । गल्लिदसेसगुणसेटिसीसयादो प्पहुट्ठि हेट्टिमभागं सव्वमेव कदकरणिज्जदासरूवेण ठवेदि त्ति किण्ण वक्खाणिज्जदे ? ण, तहाविहपुव्वाइरियसंपदायविसेसाभावादो ।

§ ९६. एवं चरिमट्टिदिसिखंडयमादविय अंतोमुहुत्तकालेण णिन्लेवेमाणस्स तत्कालभंतरे गुणसेटिणिक्खेवगयविसेसं परूवेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

*** सम्मत्तस्स चरिमट्टिदिसिखंडए पढमसमयमागाइये ओवट्टिज्जमाणान्हु**

अपूर्वकरण और अनिष्टुत्तिकरणके कालसे विशेष अधिकरूपसे रचित पुराने गुणश्रेणिशीर्षके उपरिम भागमे अन्तमुहूर्तप्रमाण स्थितियोंको ग्रहण कर अन्तिम स्थितिकाण्डकको घातके लिये ग्रहण करता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

शंका—अवस्थित गुणश्रेणि-अध्वानमें भी कितने ही भागको छोड़कर शेष संख्यात बहुभागको ग्रहण करता है ऐसा व्याख्यान करनेमें क्या दोष है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कदकरणीयकी गोपुच्छाओंका उक्त प्रकारसे स्वीकार पत्न्यो-पमके असंख्यातवें भागरूप सूत्रसिद्ध गुणकारके उपदेशसे बाह्य है ।

शंका—गलित शेष गुणश्रेणिशीर्षसे लेकर अधस्तन समस्त भागको कृतकरणीयके काळरूपसे स्थापित करता है ऐसा व्याख्यान क्यों नहीं किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस प्रकारका व्याख्यान करनेवाले पूर्वाचार्यसम्प्रदाय विशेषका अभाव है ।

विशेषार्थ—यहाँ सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका प्रमाण कितना है यह स्पष्ट करके बतलाया गया है कि पुराने गुणश्रेणिशीर्षकी उपरिम अन्तमुहूर्तप्रमाण स्थितियोंसे लेकर शेष सब उपरिम स्थितिको घातके लिए अन्तिम स्थितिकाण्डकरूपसे ग्रहण करता है यह उक्त कथन का तात्पर्य है ।

§ ९६. इस प्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डकका आरम्भ कर अन्तमुहूर्तप्रमाण कालद्वारा निर्लेपन करनेवाले जीवके उस काळके भीतर गुणश्रेणिनिक्षेपगत विशेषताका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

*** सम्यक्त्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकके प्रथम समयमें घातके लिए ग्रहण करने**
१०

ट्टिदीसु जं पदेसग्गमुदए दिज्जदि तं थोवं । से काले असंखेज्जगुणं ताव-
जाव' ट्टिदिखंडयस्स जहण्णिणाए ट्टिदीए चरिमसमय-अपत्तो' ति ।

§ ९७. एत्थ 'ओवट्टिज्जमाणासु ट्टिदीसु' ति वुत्ते जाओ ट्टिदीओ ट्टिदिखंडय-
सरूवेण अच्छिदाओ तासिं गहणं कायव्वं । अधवा सव्वासिमेव सम्मत्तस्स उदया-
वल्लियवाहिरट्टिदीणं गहणं कायव्वं । तदो तासु ट्टिदीसु जं पदेसग्गं तमोकट्टियूण
गुणसेट्ठिणिक्खेवं कुणमाणो उदए थोवं पदेसग्गं देदि । कुदो ? उदयादिगुणसेट्ठि-
पहण्णाए अट्टवस्सट्टिदिसंतकम्मप्पहुट्ठि पयट्टुमाणाए पडिघादाभावादो । तदणंत-
रोवरिमट्टिदीए असंखेज्जगुणं पदेसग्गं दिज्जदि । को गुणगारो ? तप्पाओग्गपल्लिदो-
वमासखेज्जभागमेत्तरूवाणि । एवं ताव असंखेज्जगुणं जाव ट्टिदिखंडयस्स जहण्णिणाए
ट्टिदीए चरिमसमय-अपत्तो' ति । एत्थ 'ट्टिदिखंडयस्स जहण्णिणा ट्टिदि' ति
भणिदे ट्टिदिखंडयस्स आदिट्टिदी घेत्तव्वा । तिस्से उदेसं 'चरिमसमय-अपत्तो' ति
वुत्ते तदणंतरहेट्टिमणिसेयट्टिदिं पज्जत्तं कादूण असंखेज्जगुणसेट्ठीए पदेसविण्णासं
करेदि ति घेत्तव्वं । अहवा ट्टिदिखंडयजहण्णट्टिदीए चरिमसमयमपत्तो ति वुत्ते

पर अपवर्तन की जानेवाली स्थितियोंमेंसे जो प्रदेशपुञ्ज उदयमें दिया जाता है वह
अल्प है । अनन्तर समयमें अर्थात् तदनन्तर उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेश-
पुञ्जको देता है । इसप्रकार तब तक देता है जब तक कि जघन्य स्थितिका अन्तिम
समय नहीं प्राप्त होता ।

§ ९७ इस सूत्रमें 'ओवट्टिज्जमाणासु ट्टिदीसु' ऐसा कहने पर जो स्थितियां स्थिति-
काण्डकरूपसे अवस्थित हैं उनका ग्रहण करना चाहिए । अथवा सम्यक्त्वकी उदयावलि
बाह्य सभी स्थितियोंका ग्रहण करना चाहिए । अतः उन स्थितियोंमें जो प्रदेशपुञ्ज है उसका
अपकर्षण कर गुणश्रेणिमें निक्षेप करता हुआ उदयमें अल्प प्रदेशपुञ्जको देता है, क्योंकि आठ
वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर उदयादि गुणश्रेणिकी प्रतिज्ञाके प्रवृत्तमान होनेमें कोई रुकावट
नहीं पाई जाती । पुन तदनन्तर उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जका देता है ।
गुणकार क्या है ? तत्प्रायोग्य पल्यापमके असंख्यातके भागप्रमाण अंक गुणकार है । इस
प्रकार तब तक असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है जब तक स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थिति
का अन्तिम समय नहीं प्राप्त होता । यहाँ सूत्रमें 'स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थिति' ऐसा
कहने पर स्थितिकाण्डककी आदि अर्थात् प्रथम स्थिति ग्रहण करनी चाहिए । उसके उद्देशसे
'चरिमसमय-अपत्तो' ऐसा कहने पर तदनन्तर अधस्तन निषेकस्थिति तक असंख्यातगुणित
श्रेणिरूपसे प्रदेशविन्यास करता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । अथवा 'ट्टिदिखंडयजहण्ण-

१. ता०प्रती ताव असंखेज्जगुणं जाव इति पाठः । २ ता०प्रती चरिमसमयमपत्तो इति पाठः ।

३. ता०प्रती अ (म) पत्तो इति पाठः ।

सा चेव द्विदिखंडयजहण्णट्टिदी अप्पणो चरिमसमयत्तेण वेत्तव्वा । किं कारणं ? तदवट्ठानकालस्स तत्थ पज्जवसाणदंसणादो । वट्ठमाणसमयउदयट्टिदी गिरुद्धट्टिदिखंडयजहण्णट्टिदीए पढमसमयो होइ । उदयादो विदियट्टिदी तिस्से चेव विदियसमयो होइ । एवं गंतूण सो चेव द्विदिखंडयजहण्णट्टिदी अप्पणो अवट्ठानकालस्स चरिमसमयो ति भण्णदे । तं जाव ण पत्तो ताव हेट्ठा सच्चत्थ असखेज्जगुणकमेण पदेसविण्णासं कुणदि त्ति एसो एत्थ भावत्थो । संपहि एसा चेव द्विदिखंडयपढमट्टिदीदो अणंतरहेट्टिमा ट्टिदी गुणसेट्ठिसीसयं होइ त्ति जाणावणट्टिमिदमाह—

* सा चेव ट्टिदी गुणसेट्ठिसीसयं जादं ।

§ ९८. तत्कालोकट्टिदसयलदव्वस्स असखेज्जे भागे वेत्तूण संपहि गिरुद्धट्टिदिपज्जवसाणं कादूण गुणसेट्ठिणिकखेवं करेदि त्ति एसा चेव ट्टिदी गुणसेट्ठिसीसयभावेण णिट्ठिदा । एत्तो हेट्ठा सच्चत्थ ओकट्टिददव्वस्स असखेज्जभागमेव गुणसेट्ठीए णिक्खिखदि, सेसबहुभागे उवरिमगोवुच्छासु समयाविरोहेण णिसिंचदि । एत्तो पाए ओकट्टिददव्वस्स असखेज्जे भागे गुणसेट्ठीए णिक्खिखिय सेसमसखेज्जभागमववरिमट्टिदीसु समयाविरोहेण णिसिंचदि त्ति वेत्तव्वं । अदो चेव एत्तो उवरिमाणंतरट्टिदिखंडयादिट्टिदीए असखेज्जगुणहीणं पदेसगं णिसिंचदि त्ति पदुप्पायणफलमूत्तरसुत्तं—

ट्टिदीए चरिमसमयमपत्तो' ऐसा कहने पर वही स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थिति अपने अन्तिम समयरूपसे ग्रहण की जानी चाहिए, क्योंकि उसके अवस्थानकालका वहाँ अन्त देखा जाता है । वर्तमान समयमें प्राप्त उदयस्थिति विवक्षित स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थितिका प्रथम समय है । उदयसे दूसरी स्थिति उसीका दूसरा समय है । इस प्रकार जाकर स्थितिकाण्डककी वही जघन्य स्थिति अपने अवस्थानकालका अन्तिम समय कहलाती है । उसे जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक नीचे सर्वत्र असंख्यात गुणितक्रमसे प्रदेशविन्यास करता है यह यह भावार्थ है । अब स्थितिकाण्डककी प्रथम स्थितिसे यही अनन्तर अधस्तन स्थिति गुणश्रेणिशीर्ष होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* वही स्थिति गुणश्रेणिशीर्ष हो गई है ।

§ ९८. तत्काल अपकर्षित किये गये समस्त द्रव्यके असंख्यात बहुभागको ग्रहणकर तत्काल विवक्षित स्थितिको अन्तिम करके गुणश्रेणिमें निक्षेप करता है, इसलिये यही स्थिति गुणश्रेणिशीर्षरूपसे निर्दिष्ट की गई है । इससे नीचे सर्वत्र अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यातवें भागको ही गुणश्रेणिमें निक्षिप्त करता है तथा शेष बहुभागको उपरिम गोपुच्छाओंमें समयके अविरोधपूर्वक सिंचित करता है । किन्तु यहाँसे लेकर अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यात बहुभागको गुणश्रेणिमें निक्षिप्त करके शेष असंख्यातवें भागको उपरिम स्थितियोंमें समयके अविरोधपूर्वक निक्षिप्त करता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इसीलिये इससे उपरिम अनन्तर स्थितिकाण्डककी आदि स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुञ्जको सिंचित करता है इस बातके प्रतिपादनके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

ता०प्रतो देदि इति पाठः ।

* जमिदाणिं गुणसेदिसीसयं तदो उवरिमाणंतराए द्विदीए असंसेज्ज-
गुणहीणं । तदो विसेसहीणं जाव पोरानगुणसेदिसीसयं ताव । तदो
उवरिमाणंतरद्विदीए असंसेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं । सेसामु वि
विसेसहीणं ।

§ ९९. एतदुक्तं भवति—ओकद्विददव्वस्स असंखेज्जे भागे द्विदिखंडयादो
हेट्ठा गुणसेदिआयारेण णिक्खिविय तदो जमिदाणिं गुणसेदिसीसयं द्विदिखंडय-
जहण्णद्विदीदो अणंतरहेट्ठिमं तत्तो अणंतरोवरिमाए द्विदिखंडयादिद्विदीए असंखेज्ज-
गुणहीणं पदेसग्गं देदि । किं कारणं ? ओवद्विज्जमाणामु द्विदिखंडयब्भंतरद्विदीसु
बहुअस्स पदेसग्गस्स विण्णासविरोहादो । तं कथं ? गुणसेदिं कादूणुव्वराविद-
असंखेज्जदिभागादो पुणो वि असंखेज्जभागं पुध द्दुविय तथतणवहुभागे द्विदिखंडय-
ब्भंतरम्मि पइद्वुगुणसेदिअद्वाणेणंतोमुहुत्तपमाणेण खंडियूणेयखंड विसेसाहियं कादूण
द्विदिखंडयादिद्विदीए णिसिंचदि । तदो विसेसहीणं कादूण णिक्खिवदि जाव पोगण-
गुणसेदिसीसयं पाविय एत्थतणवहुभागदव्वं पज्जवसिद । तदो पुध द्दुविदमसंखेज्जभाग-
मुवरिमसपलद्वाणेण हेट्ठिमद्वाणादो संखेज्जगुणेण खंडिदेपखंड विसेसाहियं कादूण

* जो इस समय गुणश्रेणिशीर्ष है उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणे
हीन प्रदेशपुञ्जको देता है । इसके बाद प्राचीन गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक
उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष हीन प्रदेशपुञ्जको देता है । उससे उपरिम अनन्तर
स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुञ्जको देता है । उससे उपरिम स्थितिमें विशेष हीन
देता है । इसी प्रकार शेष समस्त स्थितियोंमें उत्तरोत्तर विशेष हीन देता है ।

§ ९९. वक्त कथनका यह तात्पर्य है—अपकर्षित किये गये द्रव्यके असंख्यात बहुभागको
स्थितिकाण्डकसे नीचे गुणश्रेणिके आकारसे निम्निकर जो इस समय स्थितिकाण्डककी
जघन्य स्थितिसे अनन्तर अधस्तन गुणश्रेणिशीर्ष है उससे स्थितिकाण्डकको अनन्तर उपरिम
आदि स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुञ्जको देता है, क्योंकि स्थितिकाण्डककी अपवर्तित
होनेवाली भीतरी स्थितियोंमें बहुत प्रदेशपुञ्जके विन्यासका विरोध है ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि गुणश्रेणि करके शेष वचे असंख्यातवें भागमेंसे फिर भी असं-
ख्यातवें भागको पृथक् रखकर वहाँ प्राप्त बहुभागको स्थितिकाण्डकके भीतर प्राप्त हुए अन्त-
सुद्धतप्रमाण गुणश्रेणि-अध्वानसे भाजितकर वहाँ प्राप्त एक खण्डको विशेष-अधिककर स्थिति-
काण्डककी आदि स्थितिमें मींचता है । उसके बाद प्राचीन गुणश्रेणिशीर्षको प्राप्तकर यहाँके
बहुभागप्रमाण द्रव्यका अन्त होने तक उत्तरोत्तर विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । उसके
बाद पृथक् रखे हुए असंख्यातवचे भागप्रमाण द्रव्यको अधस्तन आयामसे संख्यातगुणे उपरिम

तदित्थगोवुच्छाए णिसिंचिय तत्तो उवरि सव्वत्थ विसेसहीणकमेण एयगोवुच्छा-
सेटीए णिक्खिवादि जाव द्विदिखंडयचरिमसमयमइच्छावणावलियमेत्तेणापत्तो' ति ।

§ १००. एवमेत्थ दिज्जमाणदव्वस्स तिण्णि सेटीओ जादाओ । दीसमाणं पुण जाव
संपहियगुणसेटिसीसयं ताव असंखेज्जगुणाए सेटीए दीसइ । तत्तो उवरिमाणंतराए
एक्किस्से ट्टिदीए असंखेज्जगुणहीणं होदूण तत्तो परं जाव गल्लिदसेसपोराणगुणसेटि-
सीसयमुल्लंधिय पढमवारमवट्टिदसरूवेण कदगुणसेटिसीसयं ति ताव असंखेज्जगुण-
सेटीए चेव दीसमाणं होइ । तत्तो प्पहुडि जाव चरिममवट्टिदगुणसेटिसीसयं ताव
विसेसाहियं चेव भवदि । किं कारणमिदि चे ? ट्टिदिखंडयजहण्णट्टिदीए असंखेज्ज-
गुणहीणं दादूण पुणो उवरि विसेसहीणं कादूण संपहि दिण्णदव्वस्स पुव्विन्ल-
संचयगोवुच्छेहितो असंखेज्जगुणहीणत्तेण दीसमाणं पडि पहाणत्ताभावादो । तदो
पुव्विन्लसंचयाणुसारेणेव तत्थ दीसमाणं होदि चि गहेयव्वं । तत्तो उवरिम सव्वत्थ
गोवुच्छासेटीए विसेसहीणमेव दीसमाणं होदि चि घेत्तव्वं, तत्थ पयारंतरासंभवादो ।

* विदियसमए जमुक्कीरदि पदेसग्गं तं पि एदेथेव कमेण-दिज्जदि ।

समस्त आयामसे भाजित कर जो एक भाग प्राप्त हो उसे विशेष अधिक करके वहाँकी
गोपुच्छामें सिंचितकर उससे ऊपर सर्वत्र स्थितिकाण्डकका अन्तिम समय अतिस्थापनाबलि-
मात्रसे नहीं प्राप्त हो वहाँ तक विशेष हीनक्रमसे एक गोपुच्छाश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है ।

§ १०० इस प्रकार यहाँ पर दीयमान द्रव्यकी तीन श्रेणियाँ हो गई हैं । परन्तु दृश्यमान
द्रव्य तो वर्तमान गुणश्रेणिके शीर्षके प्राप्त होने तक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे दिखलाई
देता है । उससे उपरिम अनन्तर एक स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन होकर उससे आगे गलित
शेष प्राचीन गुणश्रेणिशिर्षको उल्लंघन कर प्रथम बार अवस्थितरूपसे किये गये गुणश्रेणि
शीर्षके प्राप्त होने तक विशेष अधिक ही होता है ।

शंका—इसका कारण क्या है ?

समाधान—क्योंकि स्थितिकाण्डककी जघन्य स्थितिमें असंख्यातगुणा हीन देकर पुनः
ऊपर विशेष हीन करके इस समय दिया गया द्रव्य पूर्वमें संचयरूप गोपुच्छासे असंख्यातगुणा
हीन है, इसलिये उसकी दृश्यमान द्रव्यके प्रति प्रधानताका अभाव है । इसलिये पिछले संचयके
अनुसार ही वहाँपर दृश्यमान द्रव्य होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।

उससे ऊपर सर्वत्र गोपुच्छाश्रेणिमें विशेष हीन ही दृश्यमान द्रव्य होता है ऐसा ग्रहण
करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है ।

* दूसरे समयमें जो प्रदेशपुञ्ज उत्कीरित किया जाता है उसे भी इसी क्रमसे

एवं ताव, जाव द्विदिखंडयउक्कीरणद्वाए दुचरिमसमयो स्ति ।

§ १०१. सुगममेदं, एत्थुहेसे मव्वत्थ पढमसमयपरूवणाए णाणत्तेण विणा पयद्वाए परक्खिडमुवलंभादो । णवरि समयं पडि असंखेज्जगुणं दव्वमोकड्डियूण जहावुत्तण विण्णासेण णिक्खिवदि ति वत्तव्वं । गल्लिदसेसायामो च एण्ह उदयादिगुणसेट्ठिणक्खेवो स्ति वेत्तव्वं । संपडि चरिमद्विदिखंडयस्स चरिमफालीए पदमाणाए जो अत्थविसेसो तं सुत्ताणुसारेण वत्तइस्सामो । तं जहा—

* द्विदिखंडयस्स चरिमसमए ओकड्डुमाणो उदए पदेसग्गं थोवं देदि । से काले असंखेज्जगुणं देदि । एवं जाव गुणसेट्ठिसीसयं ताव असंखेज्जगुणं ।

§ १०२. एत्थोकड्डिज्जमाणदव्वपमाणं चरिमफालिपाहम्मेण किंचूणदिबहु-गुणहाणिगुणिदसमयपवद्धपमाणमिदि वेत्तव्वं, गुणमेटीए सव्वदव्वस्स चरिमफालिदव्वं पेक्खियूण असंखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो । एदं वेत्तण कदकरणिज्जदामेत्तहेट्ठिम-णिसेसु पदेसविण्णास कुणमाणो उदये थोवं पदेसग्गं देदि, असंखेज्जसमयपवद्धपमाणत्ते वि तस्स उवरिमणिसेसु णिसिंचमाणदव्वावेक्खाए थोवभावाविरोहादो । से काले असंखेज्जगुणं देदि । को गुणगारो ? तत्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तरूवाणि ।

देता है । इस प्रकार स्थितिकाण्डकके उत्कीरणकालके द्विचरम समय तक जानना चाहिए ।

§ १०१ यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इस स्थलपर सर्वत्र नानात्व अर्थात् भेदके विना प्रवृत्त प्रथम समयकी प्ररूपणा स्पष्ट उपलब्ध होती है । इतनी विशेषता है कि प्रति समय असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षणकर यथोक्त विन्यासके अनुसार निक्षेप करता है ऐसा कहना चाहिए । और गलित शेष आयाम इस समय उदयादि गुणश्रेणिनिक्षेप है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । अब अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतन होनेपर जो अर्थविशेष है उसे सूत्रके अनुसार बतलाते हैं । यथा—

* स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें अपकर्षण करता हुआ उदयमें अल्प प्रदेश-पुञ्जको देता है । तदनन्तर कालमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है । इस प्रकार गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है ।

§ १०२. यहाँपर अपकर्षित होनेवाले द्रव्यका प्रमाण अन्तिम फालिके माहात्म्यवश कुछ कम वेद गुणहानि गुणित समयप्रबद्धप्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुण-श्रेणिका समस्त द्रव्य अन्तिम फालिके द्रव्यको देखते हुए असंख्यातगुणा हीन देखा जाता है । इसको ग्रहणकर कुतकृत्यसम्बन्धके कालप्रमाण अधस्तन निषेकोंमें प्रदेशविन्यास करता हुआ उदयमें अल्प प्रदेशपुञ्जको देता है, क्योंकि यद्यपि वह असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण है तो भी उसके उपरिम निषेकोंमें सिंचित होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा अल्प होनेमें विरोधका अभाव है । तदनन्तर समयकी उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणा देता है । गुणकार क्या है ? तत्पायोग्य

एवं जाव दुचरिमणिसेगो चि । णवरि हेट्टिमाणंतरणिसेगगुणगारादो उवरिमा-
णंतरणिसेगगुणगारो असंखेज्जगुणवट्ठीए सव्वत्थ णेयव्वो । कुदो एदं णव्वदे ?
पुव्वाइरिपवक्खाणादो । तदो दुचरिमणिसेगादो गुणसेहिदीसए असंखेज्जगुणं
पदेसग्गं देदि । संपहि को एत्थ गुणगारो चि आसंकाए तण्णिणयकरणहं
सुत्तमुत्तरं भणइ—

* गुणगारो वि दुचरिमाए ट्टिदीए पदेसग्गादो चरिमाए ट्टिदीए
पदेसग्गस्स असंखेज्जाणि पल्लिवोवम [पढम] वग्गमूलाणि ।

§ १०२. दुचरिमाए ट्टिदीए णिसित्तपदेसग्गं पेक्खियूण चरिमाए गुणसेहि-
अर्गाट्टिदीए णिसिचमाणदव्वस्स जो गुणगारो सो पल्लिवोवमपढमवग्गमूलस्स असं-
खेज्जदिभागो वा अण्णो वा ण होदि, किंतु असंखेज्जपल्लिवोवमपढमवग्गमूलपमाणो
चि एदेण जाणाविदं । किं कारणमेम्महंतो गुणगारो एत्थ जादो चि णासंकाणिज्जं
हेट्टा णिसित्तासेसदव्वस्स चरिमफालिदव्वमसंखेज्जपल्लिवोवमपढमवग्गमूलेहिं खंडिये-
खडपमाणत्तब्भुवग्गादो । एदेण हेट्टिमासेसगुणगाराणं तप्पाओग्गपल्लिवोवमा-

पल्लयोपमके असंख्यातवै भागप्रमाण अंक गुणकार हैं । इस प्रकार द्विचरम निषेकके प्राप्त होने
तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अधस्तन अनन्तर निषेकके गुणकारसे उपरिम
अनन्तर निषेकका गुणकार सर्वत्र असंख्यातगुणी वृद्धिरूपसे ले जाना चाहिए ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—पूर्वाचार्योके व्याख्यानसे जाना जाता है ।

इसके बाद द्विचरमनिषेकसे गुणश्रेणिशीर्षमें असंख्यातगुणे प्रवेशपुञ्जको देता है ।
अब यहाँ पर गुणकार क्या है ऐसी आशंका होने पर उसका निर्णय करनेके लिये आगेके
सूत्रको कहते हैं—

* द्विचरम स्थितिके प्रदेशपुञ्जसे अन्तिम स्थितिके प्रदेशपुञ्जका गुणकार पन्यो-
पमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है ।

§ १०३. द्विचरम स्थितिमें जो प्रदेशपुञ्ज निक्षिप्त होता है उसे देखते हुए गुणश्रेणिको
अन्तिम अग्र स्थितिमें निक्षिप्त होनेवाले द्रव्यका जो गुणकार है वह न तो पल्लयोपमके प्रथम
वर्गमूलका असंख्यातवै भाग है और न अन्य ही है, किन्तु पल्लयोपमके असंख्यात प्रथम
वर्गमूल प्रमाण है यह इससे जनाया गया है ।

शंका—यहाँ पर इतना बड़ा गुणकार किस कारणसे हो गया है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे निक्षिप्त किया गया
द्रव्य अन्तिम फालिके द्रव्यको पल्लयोपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलसे भाजितकर जो एक
भाग ऋध आबे तत्प्रमाण स्वीकार किया गया है । इस कथन द्वारा अधस्तन समस्त गुण-

संखेज्जभागपमाणत्तं सूचिदं दट्ठव्वं, तेसु असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तेसु संसेसु कम्मट्ठिदिसंचयस्स अंगुलस्सासंखेज्जभागमेत्तसमयपवद्दपमाणत्ताहूपसंगादो । तम्हा चरिमगुणगारो चेवासंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तो, हेट्ठिमासेसगुणगारो तप्पा-ओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तो त्ति सिद्धं । एत्थतणो 'अवि'सदो हेट्ठिमगुणगाराणं पि असंखेज्जपलिदोवमपढमवग्गमूलत्तं सूचेदि त्ति कैसिं चि आसंका । ण सा समंजसा, जुत्तिसुत्तवाहिरत्तादो । जइ एवं, अणत्थओ एत्थतणो 'अवि'सदो त्ति णासंक्रियव्वं अणुत्तसमुच्चयट्ठस्स तस्स हेट्ठिमगुणगाराणमवट्ठिदभावणिरायरणदुवारेण अणंतरहेट्ठिमं पेक्खियुणाणंतरोवरिमगुण गारस्सासंखेज्जगुणत्तसुच्चयत्तेण साफलदंसणादो । अधवा अविस्सहेणेदेण समुच्चयट्ठेण चरिमट्ठिदिसंडयपढमफालिप्पट्ठुडि सव्वत्थेव दुचरिमसमय-गुणसेट्ठिगोवुच्छादो गुणसेट्ठिसीसयम्मि णिसिंचमाणदट्ठवस्स गुणगारो असंखेज्ज-पलिदोवमपढमवग्गमूलपमाणो त्ति वक्खाणेयव्वो, षरिप्फुडमेव तत्थ तद्दामावोव-लंभादो । एवं चरिमट्ठिदिसंडयपरूवणा समत्ता । एत्थेवाणियट्ठिकरणस्स वि परिसमची दट्ठवा, संकिलेसवि सोहीणमेत्तो परावत्तणदंसणादो । एत्तो उवरि करणापरिणामणिवंधणाणं ट्ठिरुंढयघादादिकज्जविसिंसाणमणुवलंभादो च । अदो

कारोंको पत्त्योपमके तत्प्रायोग्य असंख्यातव भागप्रमाण सूचित किया गया जानना चाहिए, क्योंकि उन गुणकारोंको पत्त्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण होनेपर कर्मस्थितिके भीतर संचित हुए द्रव्यके अंगुलके असंख्यातवे भाग समयप्रबद्धप्रमाण होनेका अतिप्रसंग प्राप्त होता है । इसलिये अन्तिम गुणकार ही पत्त्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, किन्तु अधस्तन समस्त गुणकार पत्त्योपमके तत्प्रायोग्य असंख्यातव्वं भागप्रमाण है यह सिद्ध हुआ । यहाँ सूत्रमें आया हुआ 'अपि' शब्द अधस्तन गुणकारोंके भी पत्त्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाणपनेको सूचित करता है ऐसी किन्हींकी आशंका है, किन्तु वह योग्य नहीं है, क्योंकि वह युक्ति और सूत्रबाह्य है ।

शंका—यदि ऐसा है तो इस सूत्रमें आया हुआ 'अपि' शब्द निष्फल है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनुक्तका समुच्चय करने-वाला वह अधस्तन गुणकारोंके अवस्थितभावके निराकरणद्वारा अनन्तर अधस्तन गुणकारको देखते हुए अनन्तर उपरिम गुणकारके असंख्यातगुणा होनेका सूचक है, इसलिए उसकी सफलता देखी जाती है । अथवा समुच्चयार्थक इस 'अपि' शब्दसे अन्तिम स्थितिकाण्डककी प्रथम फालिसे लेकर सर्वत्र ही द्विचरम समयकी गुणश्रेणियोंपुच्छासे गुणश्रेणियोंमें दिये जानेवाले द्रव्यका गुणकार पत्त्योपमके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण होता है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ उस प्रकारका गुणकार स्पष्टरूपसे पाया जाता है । इस प्रकार अन्तिम स्थितिकाण्डककी प्ररूपणा समाप्त हुई । यहीं पर अनिवृत्तिकरणकी भी समाप्ति जाननी चाहिए, क्योंकि इससे आगे संक्लेश और बिभुद्वियोंका परावर्तन देखा जाता है और इससे आगे करणपरिणामनिमित्तक स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यविशेष नहीं उपलब्ध

वेव एत्तो पाए णिट्ठिदकिरियस्सेदस्स कदकरणिज्जभावपदुप्पायणट्टमुत्तरसुत्तमोहणं ।

* चरिमे ट्ठिदिखंडए णिट्ठिदे कदकरणिज्जो त्ति भणणदे ।

§ १०४. कुदो ? कदासेसकरणिज्जत्तादो । ण च एत्तो उवरि दंसणमोह-
क्खवणविसयं किंचि करणिज्जमत्थि, तहाणुवलंभादो । तम्हा चरिमे ट्ठिदिखंडए णिट्ठिदे
तदो प्पहुडि जाव सम्मत्तस्स अंतोमुहुत्तमेत्तगुणसेट्ठिगोबुच्छाओ कमेण गालेइ ताव
कदकरणिज्जववएसारिहो एसो त्ति सिद्धं । एदस्स च सगकालम्भंतरे जो संभवंतओ
परूवणाविसेसो तण्णिणयकरणट्टमुत्तरो सुत्तपबंधो—

* ताथे मरणं णि होज्ज ।

§ १०५. 'तदद्वाए पढमसमयप्पहुडि जाव चरिमसमयो त्ति जत्थ वा तत्थ वा
वड्डमाणस्स भवक्खयवसेण मरणं पि सिया हवेज्ज, दंसणमोहक्खवगस्स अमरण-
पहण्णाए अणियट्ठिकरणचरिमसमयपज्जंतत्तादो ।

* लेस्सापरिणामं पि परिणामेज्ज ।

§ १०६. एसो कदकरणिज्जो पुव्वं व वड्डमाणसुहत्तिलेस्साणमण्णदराए लेस्साए
परिणदो होदूणागदो एण्हि लेस्संतरं पि परिणामेदुं लहदि त्ति भणिदं होदि ।

होते और इसीलिए यहाँसे आगे निष्ठितक्रियावाले इसके कृतकृत्यभावके कथन करनेके लिये
आगेका सूत्र आया है—

* अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर यह जीव कृतकृत्य कहा जाता है ।

§ १०४ क्योंकि इसने समस्त करणीय कर लिया है । इससे ऊपर दर्शनमोहनीयकी
क्षपणाविषयक कुछ भी करणीय नहीं है, क्योंकि बैसा कुछ करणीय पाया नहीं जाता । इस-
लिये अन्तिम स्थितिकाण्डकके समाप्त होनेपर वहाँसे लेकर सम्यक्त्वकी अन्तमुहूर्तप्रमाण
गुणश्रेणि-गोपुच्छाओंके क्रमसे गलानेके समय तक यह कृतकृत्य इस संज्ञाके योग्य है यह
सिद्ध हुआ और इसके अपने कालके भीतर जो परूवणाविशेष सम्भव है उसका निर्णय
करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध—

* उस कालमें मरण भी हो सकता है ।

§ १०५ उस कालके भीतर प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक जहाँ कहीं
विद्यमान जीवका भवके क्षयवश मरण भी स्यात् हो सकता है, क्योंकि दर्शनमोहके क्षपकके
नहीं मरनेकी प्रतिज्ञा अनिष्टितकरणके अन्तिम समय तक ही है ।

* लेश्यापरिणामको भी परिणामा सकता है ।

§ १०६ यह कृतकृत्य जीव पहलेसे वर्तमान शुभ तीन लेश्याओंमेंसे अन्यतर
लेश्यासे परिणत होकर आया है । किन्तु इस समय दूसरी लेश्याके परिणामको भी प्राप्त

१. ता० प्रती 'तदद्वाए पढमसमयप्पहुडि जाव चरिमग्रमओ त्ति' इत्यपि सूत्रत्वेन निर्दिष्टम् ।

कदकरणिज्जस्स पढमसमए चैव लेस्सापरावची होदि ति ण एवमेत्थ घेत्तव्वं । किंतु लेस्सापरावचीए एत्थ अहिमुहो होदूण पुणो अंतोमुहुत्तेण णिरुद्धलेस्सादो लेम्मंतरं परिणामेदि ति घेत्तव्वं । एदस्स च णिवंधणमुवरि चुण्णिमुत्तयारो सयमेव भणिहिदि । संपहि अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो होदूण लेम्मंतरमेसो परिणममाणो किमविसेसेण सव्वासु सुहासुहलेस्सासु परिणमइ, आहो अत्थि को विसेसो ति आसंकाए णिण्णयकरणद्वुत्तरसुत्तावयारो—

* काउ-तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणमण्णदरो ।

§ १०७. जहण्णकाउ-तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साणमण्णदराए पुव्वावट्टिदलेस्सापरि-
खागेणंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो परिणमदि ति भणिदं होइ । एदेण किण्ह-णील्लेस्साण-
मभंताभावो एत्थ पदुप्पाइदो दट्टव्वो, सुट्ठ वि संकिलिट्ठस्स कदकरणिज्जस्स
सगकालम्भंतरे जहण्णकाउलेस्साणइकमादो । संपहि एदस्स कदकरणिज्जस्स
ट्टिदिखंडयथादादिविरहियस्स सम्मत्ताणुभागमणुसमयमणंतगुणहाणीए पुव्वपओगे-
णोहट्टमाणस्स सगकालम्भंतरे उदीरणागयविसेसपदुप्पायणद्वुत्तरसुत्तारंभो—

* उदीरणा पुण संकिलिट्ठस्सदु वा विसुज्झदु वा तो वि असंखेज्ज-
समयपबद्धा असंखेज्जगुणाए सेटीए जाव समयाहिया आवलिया सेसा ति ।

करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । कृतकृत्य सम्यग्दृष्टि जीवके पहले समयमें ही लेश्या परिवर्तन होता है इस प्रकार यहाँ नहीं ग्रहण करना चाहिए । किन्तु यहाँपर लेश्यापरिवर्तनके अभिमुख होकर पुनः अन्तर्मुहूर्त कालद्वारा विचक्षित लेश्यासे दूसरी लेश्याको परिणमता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए और इसका कारण आगे चूर्णिसूत्रकार स्वयं ही कहेंगे । अब अन्तर्मुहूर्त काल तक कृतकृत्य होकर दूसरी लेश्याको परिणमता हुआ यह क्या अविशेष रूपसे सभी शुभाशुभ लेश्यारूप परिणमता है या कोई विशेषता है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल लेश्याओंमेंसे अन्यतर लेश्यापरिणाम होता है ।

§ १०७ अन्तर्मुहूर्तकालके बाद कृतकृत्य सम्यग्दृष्टि जीव पहलेका अवस्थित लेश्याका परित्यागकर जघन्य कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल इनमेंसे अन्यतर लेश्यारूपसे परिणमता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस वचन द्वारा कृष्ण और नीललेश्याका यहाँ अत्यन्त अभाव कहा गया जानना चाहिए, क्योंकि अत्यन्त संक्लिष्ट हुआ भी कृतकृत्य जीव अपने कालके भीतर जघन्य कापोत लेश्याका अतिक्रम नहीं करता । अब स्थितिकाण्डकघात आदिसे रहित तथा सम्यक्त्वके अनुभागका पूर्व प्रयोगवश प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी हानिरूपसे अपवर्तन करनेवाले इस कृतकृत्य जीवके अपने कालके भीतर उदीरणागत विशेषताका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* उक्त जीव चाहे संक्लेशको प्राप्त हो चाहे विशुद्धिको प्राप्त हो तो भी उसके

§ १०८. एदस्सत्थो—जहा गुणसेट्ठिणिक्खेवादीणं विसेसाणं कदकरणिज्ज-
कालम्भंतरे असंभवो, एवमसंखेज्जसमयपवद्द्वान्णुदीरणाए वि तत्थासंभवो चेवे त्ति
णासंक्रियञ्चं । किं तु एसो कदकरणिज्जो सगकालम्भंतरे संकिलिड्डस्सदु' वा विमुज्झदु
वा तो वि असंखेज्जसमयपवद्दमेत्ता उदीरणा पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेदीए
संक्खिलेसविसोहिणिरवेक्खा जाव समयाहियावलयिकदकरणिज्जो त्ति ताव पवत्तादि
वेव, ण पुणो पडिहम्मदि त्ति । कुदो एस णियमो चे ? सहावदो पुभवपओगादो
च । एसा वुण उदीरणा असंखेज्जसमयपवद्दमेत्ता सुट्ठु वि बहुगी जादा तत्कालभाविणो
उदयस्स असंखेज्जदिभागमेत्ती वेव, ण तत्तो बहुगी जायदि त्ति पट्टुप्पायणट्टुत्तर-
सुत्तावयारो—

* उदयस्स पुण असंखेज्जदिभागो उक्कस्सिया वि उदीरणा ।

§ १०९. सच्चुक्कस्सिया जा उदीरणा सा हि तत्कालभाविउदयस्स असंखेज्जदि-
भागमेत्ती चेव णाण्णारिसि त्ति णिच्छेयञ्चा । किं कारणं ? गुणसेट्ठिगोवुच्छामाहप्पादो ।

एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष रहने तक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे असं-
ख्यात समयप्रवद्धरूप उदीरणा होती है ।

§ १०८ इस सूत्रका अर्थ—कृतकृत्य जीवके कालके भीतर जिस प्रकार गुणश्च णि
निक्षेप आदि विशेष असम्भव है उसी प्रकार वहाँ असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा भी
असम्भव है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए । किन्तु यह कृतकृत्य जीव अपने कालके भीतर
संक्लेशको प्राप्त हो या विशुद्धिको प्राप्त हो तो भी संक्लेश-विशुद्धिनिरपेक्ष असंख्यात समय-
प्रवद्धप्रमाण उदीरणा प्रति समय असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे कृतकृत्यके कालमें एक समय
अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक प्रवृत्त होती ही है, प्रतिघातको नहीं प्राप्त होती ।

शंका—यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—यह नियम स्वभावसे और पूर्वप्रयोगसे है ।

परन्तु असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण यह उदीरणा अत्यन्त बहुत होकर भी उस समय
होनेवाले उदयके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण ही है, उससे अधिक नहीं होती है इस बातका कथन
करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* परन्तु उत्कृष्ट उदीरणा भी उदयके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण होती है ।

§ १०९. सबसे उत्कृष्ट जो उदीरणा है वह भी तत्काल होनेवाले उदयके असंख्यातवर्षे
भागप्रमाण ही है, अन्य प्रकारकी नहीं है ऐसा निश्चय करना चाहिए ।

शंका—इसका क्या कारण है ?

एवं ताव कदकरणिज्जकालमंतरे संभवंतमत्थविसेसं पदुप्पाइय संपहि हेट्ठिमपरूपणाविसयं किंचि अत्थविसेसं भण्णमाणो चुण्णिमुत्तयारो इदमाह—

* पल्लिवोवमस्स असंखेज्जदिभागियमपच्छिमं द्विदिखंडयं तस्स ठिदिखंडयस्स चरिमसमये गुणगारपरावत्ती । तदो आहत्ता ताव गुणगार-परावत्ती जाव चरिमस्स द्विदिखंडयस्स दुच्चरिमसमयो त्ति । सेसेसु समएसु णत्थि गुणगारपरावत्ती ।

§ ११०. एदेण सुत्तेण अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि जाव कदकरणिज्ज-चरिमसमयो त्ति ताव एदम्मि हेट्ठिमद्वाणे कम्मि गुणगारपरावत्ती अत्थि कम्मि वा णत्थि त्ति एसो अत्थविसेसो जाणाविदो । तं जहा—अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि जाव पल्लिवोवमासंखेज्जदिभागिगचरिमद्विदिखंडयदुच्चरिमफालि त्ति ताव णत्थि गुणगारपरावत्ती । किं कारणं ? उदयावलयवाहिराणंतरद्विदिप्पहुडि जाव गलिदसेस-गुणसेट्ठिसीसयं ताव असंखेज्जगुणसेटीए पदेसविण्णासं कादूण तत्तो अणतरोवरिमाए गोबुच्छाणमादिट्ठिटीए असंखेज्जगुणहीणं णिसिंचिय उवरि सव्वत्थेव विसेसहीणं णिसिंचिदि त्ति एदिस्से परूवणाए तत्थावट्ठिदभावेण पवुत्तिदंसणादो । तदो पल्लिवो-

समाधान — गुणश्रेणिगोपुच्छाका माहात्म्य इसका कारण है ।

इसप्रकार मर्बे प्रथम कृतकृत्यके कालके भीतर होनेवाले अर्थविशेषका कथन कर अब अधस्तन प्ररूपणाविषयक कुछ अर्थविशेषका कथन करते हुए चूर्णिमूत्रकार इस मूत्रको कहते हैं—

* पन्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण जो अन्तिम स्थितिकाण्डक है उस स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें गुणकारपरावृत्ति होती है । तथा वहाँसे लेकर अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समय तक यह गुणकारपरावृत्ति होती है । शेष समयोंमें गुणकारपरावृत्ति नहीं होती ।

§ ११०. इस मूत्र द्वारा अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर कृतकृत्य जीवके अन्तिम समय तक इस मूत्रमें किस अधस्तन स्थानमें गुणकारपरावृत्ति है अथवा कहाँ नहीं है इस अर्थ विशेषका ज्ञान कराया गया है । यथा—अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर पन्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डककी द्विचरम फालि तक गुणकारपरावृत्ति नहीं है, क्योंकि उदयावलि बाह्य अनन्तर स्थितिसे लेकर गलित शेष गुणश्रेणिशीर्षतक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे प्रदेशविन्यास करके उससे अनन्तर उपरिम गोबुच्छाकी आदि स्थितिमें असंख्यात-गुणे हीन प्रदेशपुञ्जका निक्षेपकर ऊपर सबंध ही विशेष हीन प्रदेशपुञ्जका निक्षेप करता है, इसलिए इस प्ररूपणाके अनुसार वहाँ अवस्थितरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है । इसलिए पन्यो-

१. ता०प्रती हेट्ठिमद्वाणे इहि पाठः ।

वमस्त असंखेज्जभागिणं जमपच्छिमं द्विदिखंडयं तस्स चरिमसमए गुणगारपरावची जायदे । किं कारणं ? गालिदसेसगुणसेटिसीसयादो उवरिमाणंतराए वि द्विदीए तत्थ असंखेज्जगुणपदेसणिक्खेवदंसणादो उदयादिअवट्टिदगुणसेटीए तत्थ पारंभादो च । तदो आहत्ता गुणगारपरावची ताव पसरइ जाव चरिमस्स द्विदिखंडयस्स दुचरिमसमयो त्ति । किं कारणं ? अवट्टिदगुणसेटिवसेण दुचरिमादिहेट्टिमट्टिदिखंडयविसये सब्बत्थेव पुब्बिन्ल्लगुणसेटिसीसयादो उवरि वि एगोगट्टिदीए असंखेज्जगुणपदेसविण्णासस्स णिष्वाहमुवलंभादो । चरिमट्टिदिखंडयन्मंतरे च अणवट्टिदगुणसेटिं कुणमाणो जाव गुणसेटिसीसयं ताव असंखेज्जगुणकमेण णिसिंचिय पुणो तदणंतरोवरिमट्टिदीए असंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं जाव पाराणगुणसेटिसीसयं । ततो पुणो वि असंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणमिच्चेदेण अणवट्टिदकमेण पदेसणिसेयदंसणादो । पुणो चरिमट्टिदिखंडयचरिमसमए णत्थि गुणगारपरावची, तत्थ उदयादि जाव गुणसेटिसीसयं ताव असंखेज्जगुणसेटीए पदेसविण्णासं कादूण गुणगारंतरेण विणा पज्वसाणदंसणादो । एदं च सब्बं मणम्मि कादूण सेसेसु समएसु णत्थि गुणगार-परावत्ति त्ति वुत्तं ।

पमका असंख्यातवौ भागप्रमाण जो अन्तिम स्थितिकाण्डक है उसके अन्तिम समयमें गुणकारपरावृत्ति चालू होती है, क्योंकि गलितशेष गुणश्रेणिके शीर्षसे उपरिम अनन्तर स्थितिमें भी वहाँ असंख्यातगुणे प्रदेशोंका निक्षेप देखा जाता है और वहाँसे उदयादि अवस्थित गुणश्रेणिका प्रारम्भ हो जाता है । वहाँसे लेकर अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समय तक गुणकारपरावृत्ति होती रहती है, क्योंकि अवस्थित गुणश्रेणिके कारण द्विचरम आदि अधस्तन स्थितिकाण्डकमें सर्वत्र ही पिछले गुणश्रेणिशीर्षसे भी ऊपर एक-एक स्थितिमें असंख्यातगुणे प्रदेशोंका विन्यास निर्बाधरूपसे उपलब्ध होता है । परन्तु अन्तिम स्थितिकाण्डकके भीतर अनवस्थित गुणश्रेणिको करनेवाला जीव गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक असंख्यातगुणित क्रमसे प्रदेशपुञ्जका सिंचनकर पुनः तदनन्तर उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुञ्जका सिंचन करता है । उसके बाद प्राचीन गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक विशेष हीन प्रदेशपुञ्जका सिंचन करता है । उससे ऊपरकी स्थितिमें भी असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुञ्जका सिंचन करता है । उसके बाद विशेष हीन प्रदेशपुञ्जका सिंचन करता है, इसप्रकार इस अनवस्थित क्रमसे प्रदेशोंका सिंचन देखा जाता है । पुनः अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें गुणकारपरावृत्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ उदयसे लेकर गुणश्रेणिशीर्ष तक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे प्रदेशविन्यास करके गुणकार परिवर्तनके बिना पर्यवसान देखा जाता है । इस सबको मनमें करके शेष समयोंमें गुणकारपरावृत्ति नहीं है यह कहा है ।

विशेषार्थ—दर्शनमोहकी क्षणगा करनेवाले जीवके भी दर्शनमोह आदिकी उपशमना आदि करनेवाले जीवोंके समान अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर स्थितिकाण्डकघात आवृत्ति प्रारम्भ होकर प्रत्येक समयमें अपकर्षित प्रदेशपुञ्जका गुणश्रेणियों और अपनी-अपनी अतिस्थापनावलिके पूर्व तक अन्य स्थितियोंमें निक्षेप होता रहता है । उक्त जीवके यद्यपि यह क्रम कृतकृत्य होनेके पूर्वतक होता है फिर भी सर्वत्र एक समान स्थितिकाण्डक न होकर

§ १११. एवं ताव गुणभारपरावत्तिपरूपणमुद्देण हेडुमासेसपरूवणायुवसंहरियं
संपहि कदकरणिज्जकालभंतरे मरण-लेस्सापरावत्तीओ पुवं सामण्णेत्थि चि
परूविदाओ पुणो विसेसियुण परूवेमाणो पवधमुत्तरं भणइ—

* पढमसमयकदकरणिज्जो जदि मरदि देवेसु उववज्जदि गियमा ।

उनके आयाममें उत्तरोत्तर स्थितिसत्कर्मके अनुसार अल्पता आती जाती है। यथा—अपूर्व-
करणके प्रथम समयसे लेकर अनिवृत्तिकरणमें मिथ्यात्वका पत्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके
शेष रहने तक जो हजारों स्थितिकण्डक होते हैं उनमेंसे प्रत्येकका आयाम पत्योपमके
संख्यातबं भागप्रमाण होता है। यहाँसे लेकर दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कर्मके शेष रहने तक
जो हजारों स्थितिकाण्डक होते हैं, प्रारम्भसे लेकर उत्तरोत्तर उनका आयाम शेष रहे स्थिति-
सत्कर्मके संख्यात बहुभागप्रमाण होता है। दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर प्रत्येक
स्थितिकाण्डकका आयाम शेष रहे स्थितिसत्कर्मका असंख्यात बहुभागप्रमाण होता है। यह
क्रम क्रमसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी क्षणता होकर सम्यक्त्वके आठ वर्षप्रमाण
स्थितिसत्कर्मके शेष रहने तक चालू रहता है। यहाँसे लेकर सर्वत्र इस जीवके कृतवृत्त्य
होनेतक प्रत्येक स्थितिकाण्डकका आयाम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है। यह कहाँ प्रत्येक स्थिति-
काण्डकका कितना आयाम होता है इसका विचार है। इस सम्बन्धमें यथास्थान गुणकारका
निर्देश करते हुए जो गुणकारपरावर्तनका उल्लेख किया गया है उसका आशय यह है कि
जबतक प्रत्येक समयमें गलितशेष गुणश्रेणिकी रचना होती रहती है तबतक तो गुणकार
परिवर्तन नहीं होता। किन्तु जिस समय इसका स्थान अवस्थित गुणश्रेणि लेती है तब उस
(अवस्थित गुणश्रेणि) की अन्तिम स्थितिमें गुणकार परिवर्तन होता है, क्योंकि नीचे एक
स्थितिके गलनेपर ऊपर (गुणश्रेणिशीर्षके ऊपर) एक स्थितिकी वृद्धि हो जाती है। अभी
तक उदयावलि बाह्य गलितशेष गुणश्रेणिकी रचना होती थी। किन्तु यहाँसे उदयादि अवस्थित
गुणश्रेणिका प्रारम्भ हो जाता है। यहाँसे इतनी विशेषता और समझनी चाहिए। आगे
यहाँसे लेकर अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयतक इसी कारण गुणकार परावर्तन
होता रहता है, क्योंकि यहाँतक प्रत्येक समयमें उदयरूपसे एक स्थितिके गलनेपर ऊपर
गुणश्रेणिशीर्षमें एक स्थितिकी वृद्धि होती रहती है। अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके समय
गुणश्रेणिका विन्यास अनवस्थितस्वरूपसे होनेके कारण इतनी विशेषता है कि उसे रचता
हुआ गुणश्रेणिशीर्षतक असंख्यातगुणित क्रमसे गुणश्रेणिकी रचना करता हुआ उसके ऊपरकी
स्थितिमें असंख्यात गुणहीन प्रवेशपुञ्जकी रचना करता है। तथा उससे ऊपर प्राचीन गुण-
श्रेणिशीर्षतक विशेषहीन द्रव्यका निक्षेप करता हुआ उससे उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे
ही प्रवेशपुञ्जका निक्षेपकर उससे ऊपर विशेषहीन द्रव्यका निक्षेप करता है। किन्तु यह
व्यवस्था द्विचरम समय तक ही जाननी चाहिए। अन्तिम समयमें तो इस प्रकार गुणकार
परावर्तन नहीं होता, क्योंकि उस समय गुणश्रेणिशीर्षतक असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे ही
प्रवेशपुञ्जका विन्यास करता है।

§ १११. अब कृतकृत्य जीवके कालके भीतर मरण और लेयापरिवर्तन पहले होता है
यह सामान्यसे कह आये हैं। किन्तु अब विशेषरूपसे कथन करते हुए आगेके प्रबन्धको
कहते हैं—

§ ११२. कदकरणिज्जादपट्टमसमए चैव जइ कालं करेइ तो णियमा देवगदीए चैव समुप्पज्जदि, णाण्णगदीसु त्ति भणिदं होदि । कुदो एस णियमो चे ? सेसगइसमु-
प्पत्तिणिवंधणलेस्सापरावत्तीए तत्थासंभवादो । एवं विदियादिसमयकदकरणिज्जस्स
वि देवेषु चेषुप्पादणियमो अणुगंतव्यो जाव तप्पाओग्गतोमुहुत्तकालचरिमसमओ त्ति ।
तत्तो उवरि कालं करेमाणो कदकरणिज्जो सेसगदीसु वि पुन्वाउगबंधवसेण उप्पत्ति-
पाओग्गो होदि त्ति जाणावणट्टमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

* जइ शेरइएसु वा निरिक्खजोणिएसु वा मणुसेसु वा उववज्जदि,
णियमा अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो ।

§ ११३. कुदो ? तत्थुपत्तिणिवंधणसंकिलेसाहिसंबंधस्स लेस्सापरावत्तीए च
तेत्तियमेत्तकालेण विणा संभवाभावादो ।

* कृतकृत्य जीव यदि प्रथम समयमें मरता है तो नियमसे देवोंमें उत्पन्न होता है ।

§ ११२. कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें ही यदि मरण करता है तो नियमसे देवगतिमें ही उत्पन्न होता है, अन्य गतियोंमें नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि वहाँपर शेष गतियोंमें उत्पत्तिका कारणभूत लेश्यापरिवर्तनका होना असम्भव है ।

इसी प्रकार कृतकृत्य जीवके तत्प्रायोग्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कालके अन्तिम समयतक द्वितीयादि समयोंमें भी देवोंमें ही उत्पत्तिका नियम जानना चाहिए । उसके बाद मरण करनेवाला कृतकृत्य जीव शेष गतियोंमें भी पहले बाँधी गई आयुके कारण उत्पत्तिके योग्य होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* यदि नारकियोंमें, तिर्यञ्चयोनियोंमें और मनुष्योंमें उत्पन्न होता है तो नियमसे कृतकृत्य होनेके अन्तर्मुहूर्तकाल बाद ही उत्पन्न होता है ।

§ ११३. क्योंकि उन गतियोंमें उत्पत्तिके कारणरूप संक्लेश और लेश्यापरिवर्तनकी वतना काल गये बिना उत्पत्ति नहीं पाई जाती ।

विश्लेषार्थ—यहाँ कृतकृत्यभावसे युक्त उक्त जीव मरकर कब किस गतिमें उत्पन्न हो इस प्रसंगसे जिन तथ्योंपर प्रकाश डाला गया है वे हृदयंगम करने लायक है । प्रश्न यह है कि कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें यदि मरता है तो देवोंमें ही क्यों उत्पन्न होता है ? इस प्रश्नका समाधान करते हुए देवायुके उदयका उल्लेख न कर वहाँ टीकामें बतलाया है कि उस समय मरकर यह जीव अन्य गतियोंमें उत्पन्न हो, उसके परिवर्तन होकर इस प्रकारकी लेश्या नहीं पाई जाती । इस समय उक्त जीवके देवायुका उदय नहीं

* जइ तेउ-पम्म-सुक्के वि, अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो ।

§ ११३. एवं मणत्तस्सामिप्पाओ अधापवत्तकरणम्मि विसोहिमावूरिय तेउ-पम्म-सुक्काणमण्णदराए वट्टमाणसुहलेस्साए दसणमोहकखण्णं पट्टविय पुणो जाव कदकरणिज्जो होइ ताव सा चेव पुव्वपाग्द्वलेस्सा वट्टमाणा होदूण पुणो वि जाव अंतोमुहुत्तं ण गदं ताव पारद्वलेस्सं मोत्तूणण्णलेस्सं ण परावत्तेदि त्ति । किं कारणं ? कदकरणिज्जमावं पडिबज्जमाणस्स पुव्वपाग्द्वलेस्साए उक्कस्संसो भवदि । पुणो तिस्से मज्झिमसयं गंतूणतोमुहुत्तमच्छिय जहण्णंसये वि जाव अंतोमुहुत्तकालं ण अच्छिदो ताव अण्णलेस्सापरावत्तीए संभवाणुववत्तीदो ।

होता ऐसा नहीं है । जिसका कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें मरण होता है उसके बध्यमान एकमात्र देवायु ही सत्स्वरूप होती है और उस समय उसका नियमसे उदय हो जाता है । परन्तु इस जीवने उस समय जो मनुष्य पर्याय छोड़कर देवपर्याय ग्रहण की है मुख्यरूपसे वह अपनी अन्तरंग योग्यताके कारण ही । देवायुके उदयके कारण उस समय वह देव हुआ इस कथनको मात्र इसीलिए उपचरित स्वीकार किया गया है । इसी प्रकारका उपादान-उपादेयसम्बन्ध और निमित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध मर्षत्र आगममें स्वीकार किया गया है ।

यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस जीवके कृतकृत्य होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तकालतक देवगतिको छोड़कर अन्य गतियोंमें उत्पन्न होने योग्य संकलेश परिणाम और लेश्यापरिवर्तन क्यों नहीं होता ? समाधान यह है कि अन्तर्मुहूर्त कालतक उक्त जीवमें स्वयं ही ऐसी पात्रता नहीं होती कि वह कृतकृत्य होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तकालतक देवगतिको छोड़कर मरकर अन्य गतियोंमें जाने योग्य संकलेश परिणामको उत्पन्न कर सके, और जब वह इस जातिका परिणाम ही उक्त कालके भीतर पैदा नहीं कर सकता तो बदलकर तदुत्तरूप लेश्याका होना तो और भी असम्भव है । इतने विवेचनसे दो बातोंका पता लगता है कि एक कालमें अन्तरंग और बहिरंग साधनोंका योग स्वयं होता है और जिस कार्यके वे सूचक होते हैं, उस कालमें वह कार्य भी द्रव्यके परिणमन-स्वभावके कारण स्वयं होता है । अविनाभावसम्बन्ध वश ही उनमें परस्पर कार्यकारण व्यवहार होनेका नियम है ।

* यदि वह तेज, पद्म और शुक्ललेश्यामेंसे किसी भी लेश्यामें अवस्थित है तो कृतकृत्य होनेके बाद भी अन्तर्मुहूर्त कालतक उक्त लेश्यामें ही अवस्थित रहता है ।

§ ११३ इसप्रकार कहनेवाले आचार्यका यह अभिप्राय है कि अधःप्रवृत्तकरणमें विशुद्धि-को पूर कर तेज, पद्म और शुक्ल इनमेंसे किसी एक शुभ लेश्यामें दर्शनमोहकी क्षयणाका प्रारम्भ कर पुनः जब जाकर यह जीव कृतकृत्य होता है तब तक उसके पूर्वमें प्रारम्भ की गई बही लेश्या पाई जाती है तथा पुनः उसके आगे भी जब तक अन्तर्मुहूर्तकाल नहीं गया तब तक प्रारम्भ उक्त लेश्याको छोड़कर अन्य लेश्यारूप परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि कृत्यकृत्य-भावको प्राप्त होनेवाले जीवके पूर्वमें प्रारम्भ हुई लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है । पुनः उसके मध्यम अंशको प्राप्त कर और अन्तर्मुहूर्त कालतक उस रूप रहकर जघन्य अंशमें भी जब अन्तर्मुहूर्त कालतक नहीं रह लेता तबतक अन्य लेश्यारूप परिवर्तनका होना सम्भव नहीं है ।

§ ११४. अहवा 'तेउ-पम्म-सुक्के वि अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो' एदस्स सुत्त-स्सत्थमेव मणंता वि अत्थि—जहा अधापवत्तकरणपारंमे पुव्वचविहाणेण तेउ-पम्म-सुक्काणमण्णदराए लेस्साए पारद्धकिरियस्स पुणो दंसणमोहकस्खवणकिरियापरिसमत्तीए कदकरणिज्जभावेण परिणममाणस्स णिच्छएण सुक्कलेस्सा चेव भवदि, विसोहीए परमकोडिमारूढस्स तदविरोहादो । पुणो तिस्से विणासेण जइ तेउपम्मलेस्साओ समया-विरोहेण परावत्तेदि तो जाव अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो ण जादो ताव ण परावत्तेदि चि ।

§ ११५. एवमेदेण सुत्तेण कदकरणिज्जस्स लेस्सापरावत्तिकमं परूविय संपहि पयदमत्थमुवसंहरमाणो सुत्तमुत्तरं भणह—

* एवं परिभासा समत्ता ।

§ ११६. एवमेसा सुत्तपरिभासा समत्ता चि पयदत्थोवसंहारवक्कमेदं सुगमं ।

§ ११४. अथवा 'तेउ-पम्म-सुक्के वि अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो' इस सूत्रका कुछ आचार्य इसप्रकार भी अर्थ करते हैं कि जिस प्रकार अथःप्रवृत्तकरणके प्रारम्भमें पूर्वोक्त विधिसे तेज, पद्म और शुक्ललेइयामेंसे अन्यतर लेइयाके साथ क्षपणक्रियाका प्रारम्भ करने-वाला जो जीव पुनः दर्शनमोहकी क्षपणारूप क्रियाकी समाप्ति होनेपर कृतकृत्यरूपसे परिणमन करता है उसके नियमसे शुक्ललेइया ही होती है, क्योंकि विशुद्धिके द्वारा उत्कृष्ट कोटिको प्राप्त हुए उक्त जीवके शुक्ललेइयाके होनेमें विरोध नहीं है । पुनः उसका विनाश होनेसे आगममें बतलाई गई विधिके अनुसार यदि तेज और पद्मलेइयारूपसे परिणत होता है तो कृतकृत्य होनेके बाद जब तक अन्तर्मुहूर्तकाल नहीं जाता तब तक वह उक्त लेइयारूपसे परिवर्तन नहीं करता ।

विश्लेषार्थ—ध्यायिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिके समय शुभ तीन लेइयाओंमेंसे कोई एक लेइया होती है। प्रश्न यह है कि कृतकृत्य सम्यग्दृष्टि होनेके पूरे काल तक वही एक लेइया बनी रहती है या वह बदल जाती है ? साथ ही दूसरा प्रश्न यह भी है कि कृतकृत्य होनेके बाद लेइयाकी क्या स्थिति बनती है ? इन दोनों प्रश्नोंका समाधान उक्त सूत्र द्वारा करते हुए कतिपय आचार्य उक्त सूत्रकी क्या व्याख्या करते हैं यह उसकी टीकामें बतलाया गया है । टीकाका आशय स्पष्ट होनेसे यहाँ हम उस पर विशेष प्रकाश डालनेकी आवश्यकता नहीं समझते ।

§ ११५. इस प्रकार इस सूत्रद्वारा कृतकृत्य सम्यग्दृष्टिके लेइयाके परावर्तनके क्रमका कथन कर अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकार परिभाषा समाप्त हुई ।

§ ११६. इस प्रकार यह सूत्र परिभाषा समाप्त हुई इस प्रकार प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाला यह सूत्रवाक्य सुगम है ।

विश्लेषार्थ—सूत्रमें जो अर्थ कहा गया हो या उसके द्वारा जो अर्थ सूचित होता हो उसके व्याख्यान करनेको विभाषा कहते हैं । तथा जो अर्थ सूत्रद्वारा कहा गया हो,

§ ११७. एवमेदमुवसंहरिय संपदि एत्थतणाणं पदविसेसाणं पदपडिवूरणं बीजपदावलंबणेणप्पावहुअं परूवेमाणो तच्चिसयमेव ताव पडण्णावकमाह—

* दंसणमोहणीयकखवगस्स पडमसमए अपुन्वकरणमार्दि कादूण जाव पडमसमयकवकरणिज्जो त्ति एदमिह अंतरे अणुभागखंडय-ट्टिदिखंडय-उत्कीरणकाणं जहण्णकस्सियाणं ट्टिदिखंडय-ट्टिदिबंध-ट्टिदिसंतकम्माणं जहण्णकस्सियाणं आवाहाणं च जहण्णकस्सियाणमण्णेसिं च पदाणमप्पावहुअं वत्तइस्सामो ।

§ ११८. सुगममेदं, दंसणमोहकखवयसंबधियाणमेदेसिं जहाणिट्टिवाण पदाणं जहण्णकस्सपदविसेसिदाणमप्पावहुअं कस्सामो त्ति पडण्णामेत्तवावदत्तादो ।

* तं जहा ।

§ ११९. सुगममेदं ।

प्रकरणसंगत होने पर भी जो अर्थ सूत्रद्वारा नहीं भी गहा गया हो और जो अर्थ देशामर्षक-रूपसे सूचित किया गया हो उस सबके व्याख्यान करनेको परिभाषा कहते हैं । इस प्रकार परिभाषाके इस लक्षणके अनुसार यहाँ पूर्वोक्त चूर्णिसूत्रद्वारा यह सूचित किया गया है कि दर्शनमोहकी क्षणवासम्बन्धी जो पाँच सूत्रगाथाएँ पूर्वमे निर्दिष्ट की गई हैं उनके उक्त-अनुक्त सभी प्रकारके विषयका यहाँ तक चूर्णिसूत्रों द्वारा विवेचन किया गया है । इतना अबश्य है कि इस अनुयोगद्वारसम्बन्धी पाँचवीं सूत्रगाथाका परिभाषा स्वयं चूर्णिसूत्रकारने आगे की है ।

§ ११७. इस प्रकार इसका उपसंहार करके अब बीजपदोंका अवलम्बन लेकर इस अनुयोगद्वारके पदविशेषसम्बन्धी पदोंकी पूर्ति करनेवाले अल्पबहुत्वका कथन करते हुए सर्वप्रथम तद्विषयक प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं—

* दर्शनमोहनीयकी क्षणता करनेवाले जीवके प्रथम समयमें अपूर्वकरणसे लेकर कृतकृत्य होनेके प्रथम समय तक इस अन्तरालमें जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक-उत्कीरणकाल तथा स्थितिकाण्डक उत्कीरणकालोंके; जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति-काण्डक, स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्मोंके; जघन्य और उत्कृष्ट आवाधाओंके तथा अन्य पदोंके अल्पबहुत्वको बतलावेंगे ।

§ ११८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि दर्शनमोहकी क्षणतासे सम्बन्ध रखनेवाले जघन्य और उत्कृष्ट पदविशिष्ट यथानिर्दिष्ट इन पदोंके अल्पबहुत्वको करेंगे इस प्रकारकी प्रतिज्ञा-मात्रमें इस सूत्रका व्यापार है ।

* वह जैसे ।

§ ११९. यह सूत्र सुगम है ।

* सच्चत्थोवा जहणिया अणुभागखंड्यउक्कीरणद्धा ।

§ १२०. सच्चत्थोवा, उवरि भणिस्समाणासेसपदेहिंतो थोवयरा त्ति वुत्तं होइ । का सा जहणिया अणुभागखंड्यउक्कीरणद्धा, कम्हि उदेसे एसा गहेयच्चा ? दंसणमोहणीयस्स ताव अट्ठवस्समेत्तट्ठिदिसंतकम्ममे चिट्ठमाणे जं पुच्च-मणुभागखंड्यं तस्स उक्कीरणद्धा सच्चजहणणा गहेयच्चा णाणावरणादिसेसकम्माणं पुण पढमसमयकदकरणिज्जे जायमाणे जं पुच्चिल्लमणुभागखंड्यं अणियट्ठिचरिमावत्थाए तदुक्कीरणद्धा सच्चजहणणा त्ति गहेयच्चा । तत्तो परं कदकरणिज्जकालम्मंतरे ट्ठिदि-अणुभागखंड्यथादादिकिरियाणमप्पवुत्तिदंसणादो । तदो सच्चुक्कस्सविसोहिणिबंधणा एसा सच्चत्थोवा त्ति सिद्धं १ ।

* उक्कस्सिया अणुभागखंड्यउक्कीरणद्धा विसेसाहिया ।

§ १२१. किं कारणं ? सच्चकम्माणं पि अपुच्चकरणपढमसमयादत्ताणुभागखंड्यु-क्कीरणद्धाए गहणादो । संखेज्जगुणा एसा किण्ण जादा त्ति णासंकणिजं, तहामाव-संभवासंकाए एदेणेव मुत्तेण णिसिद्धत्तादो २ ।

* अनुभागकाण्डकका जघन्य उत्कीरणकाल सबसे थोड़ा है ।

§ १२०. सबके स्तोकको सर्वस्तोक कहते हैं । ऊपर कहे जानेवाले समस्त पदोंसे स्तोकतर है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—अनुभागकाण्डकका वह जघन्य उत्कीरणकाल कौनसा है, यह किस स्थानका लेना चाहिए ?

समाधान—सर्वप्रथम दर्शनमोहनीयके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके रहनेपर जो पहलेका अनुभागकाण्डक है उसका उत्कीरणकाल सबसे जघन्य है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । परन्तु कृतकृत्य होनेके प्रथम समयमें ज्ञानावरणादि शेष कर्मोंका जो पहलेका अनुभागकाण्डक है, अतिवृत्तिकरणकी अन्तिम अवस्थामें उसका उत्कीरणकाल सबसे जघन्य है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे आगे कृतकृत्यकालके भीतर स्थितिकाण्डक-घात और अनुभागकाण्डकघात आदि क्रियाओंकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । अतः सबसे उत्कृष्ट बिशुद्धिनिमित्तक यह सबसे जघन्य है यह सिद्ध हुआ १ ।

* उससे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है ।

§ १२१. क्योंकि सभी कर्मोंके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्राप्त अनुभागकाण्डक-सम्बन्धी उत्कीरणकालका यहाँ ग्रहण किया गया है ।

शंका—यह संख्यातगुणा क्यों नहीं है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकारकी होनेवाली आशंकाका इसी सूत्रद्वारा निषेध कर दिया गया है २ ।

* टिदिवखंडयउकीरणद्वा ठिविबंधगद्वा च जहणियायाओ दो वि तुहलाओ संखेज्जगुणाओ ।

§ १२२. कुदो ? एगट्टिदिवखंडयतब्बन्धकालभंतरे संखेज्जसहस्समेत्ताणमणु-
भागखंडयाणभागमग्गमाणमुवलभादो । कत्थ पुण एदाओ जहणणद्वाओ घेतव्वाओ ?
सम्मत्तस्स चरिमट्टिदिवखंडयुकीरणद्वा तत्थेव सेसकम्माणं पि ठिदिवखंडयउकीरणकालो
ठिदिवधकालो च घेतव्वो ३ ।

* ताओ उक्कस्सियाओ दो वि तुहलाओ विसेसाहियाओ ।

§ १२३. किं कारणं ? सव्वेसिं पि' कम्माणमणुव्वकरणपढमसमयविसयाण-
मेदासिं सव्वुक्कस्सभावेण गहणादो । एत्थ संखेज्जगुणत्तासंकाए पुव्वं व पडिसेहो
कायव्वो । तदो विसेसाहियत्तमेवे त्ति सिद्धं ४ ।

* कदकरणियाज्जस्स अद्वा संखेज्जगुणा ।

§ १२४. कुदो ? कदकरणज्जकालभंतरे संखेज्जसहस्समेत्तठिदिवंधाणं संभव-
दंसणादो ५ ।

* उससे स्थितिकाण्डकका जघन्य उत्कीरणकाल और जघन्य स्थितिवन्धकाल
ये दोनों तुल्य होकर भी संख्यातगुणे हैं ।

§ १२२. क्योंकि एक स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धकालके भीतर
आगमसे जाने गये संख्यात हजार अनुभागकाण्डक उत्कीरणकाल उपलब्ध होते हैं ।

शंका—परन्तु ये दोनों जघन्य काल किस स्थानके लेने चाहिए ?

समाधान—सम्यक्त्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल तथा वहीपर शेष कर्मोंके
भी स्थितिकाण्डक-उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धकाल लेने चाहिए ३ ।

* उनसे, उत्कृष्ट ये दोनों परस्पर तुल्य होकर भी, विशेष अधिक हैं ।

§ १२३ क्योंकि सभी कर्मोंके अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी ये दोनों उत्कृष्ट-
रूपसे ग्रहण किये गये हैं । यहाँपर संख्यावरुणे होनेकी आशंकाके होनेपर पहलेके समान
निषेध करना चाहिए । इसलिये पूर्वके दोनों पदोंसे ये दोनों पद विशेष अधिक ही हैं यह
सिद्ध हुआ ४ ।

* उनसे कृतकृत्य सम्यग्दृष्टिका काल संख्यातगुणा है ।

§ १२४ क्योंकि कृतकृत्य सम्यग्दृष्टिके कालके भीतर संख्यात हजारप्रमाण स्थिति-
बन्धोंका सम्भव देखा जाता है ५ ।

* सम्मत्तक्खवणद्धा संखेज्जगुया ।

§ १२५. एवं भगिदे मिच्छत्तं सम्भामिच्छत्तं खविय पुणो अट्टवस्समेत्तद्विदि-
संतकम्मं खवेमाणस्स कालो गहेयव्वो । पुच्चिन्नादो एसो संखेज्जगुणो । कुदो
एदं णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो ६ ।

* अणियद्विअद्धा संखेज्जगुया ।

§ १२६. किं कारणं ? अणियद्विअद्धाए संखेज्जे भागे गंतूण संखेज्जभागे सेसे
सम्मत्तक्खवणद्धाए पारंभदंसणादो ७ ।

* अपुव्वकरणाद्धा संखेज्जगुया ।

§ १२७. कुदो ? सहावदो वेवाणियद्विकरणद्धादो अपुव्वकरणद्धाए सव्वत्थ
संखेज्जगुणसरूवेणेवावट्टाणणियमदंसणादो ८ ।

* गुयासेट्ठिणिकखेवो विसेसाहिओ ।

§ १२८. केत्तियमेत्तेण ? विसेसाहियअणियद्विकरणद्धामेत्तेण । कुदो ? पटम-
समयापुव्वकरणेण अपुव्वाणियद्विकरणद्धाहितो विसेसाहियभावेण णिक्खत्तगुणसेट्ठि-
आयामस्स विवक्खियत्तादो ९ ।

* उससे सम्यक्त्वप्रकृतिका क्षपणाकाल संख्यातगुणा है ।

§ १२५. ऐसा कहनेपर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्षय कर पुनः आठ वर्ष
प्रमाण स्थितिसत्कर्मका क्षय करनेवाले जीवके कालका ग्रहण करना चाहिए। पूर्वके कालसे
यह संख्यातगुणा है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ६ ।

* उससे अनिवृत्तिकरणका काल संख्यातगुणा है ।

§ १२६. क्योंकि अनिवृत्तिरणके संख्यात बहुभाग जाकर संख्यातर्षे भागप्रमाण शेष
रहनेपर सम्यक्त्वको क्षपणाके कालका प्रारम्भ देखा जाता है ७ ।

* उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है ।

§ १२७. क्योंकि स्वभावसे ही अनिवृत्तिकरणके कालसे अपूर्वकरणके कालका सर्वत्र
संख्यातगुणेरूपसे अवस्थान होनेका नियम देखा जाता है ८ ।

* उससे गुणश्रेणिनिक्षेप विशेष अधिक है ।

§ १२८. शंका—कितनामात्र अधिक है ?

समाधान—अनिवृत्तिकरणके कालसे कुछ अधिक है, क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम

* सम्मत्तस्स वुच्चरिमट्ठिदिव्खंडयं संखेज्जगुणं ।

§ १२९. एदं वि अतोमुहुत्तपमाणमेव होदुणं पुच्चिन्लादो संखेज्जगुणमिदि णिच्छेयव्वं १० ।

* तस्सेव चरिमट्ठिदिव्खंडयं संखेज्जगुणं ।

§ १३०. गयत्थमेदं मुत्तं, चरिमट्ठिदिव्खंडयमाहप्पस्स पुच्चमेव समत्थियत्तादो ११ ।

* अट्ठवस्सट्ठिदिगे संतकम्भे सेसे जं पढमं ट्ठिदिव्खंडयं तं संखेज्जगुणं ।

§ १३१. को गुणमारो ? संखेजा समय १२ ।

* जहण्णिणाया आवाहा संखेज्जगुणा ।

§ १३२. कदकरणिज्जपढमसमयविसयजहण्णावाहाए णाणावरणादिकम्मपडि-पवद्धाए एत्थ गहणं कायव्वं । एसा पुण पुच्चिन्लादो संखेज्जगुणा चि सुत्तसिद्धमेव गहेयव्वं १३ ।

* उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा ।

समयसे लेकर अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक गुणभ्रंशि-आयामका निक्षेप यहाँपर विवक्षित है ९ ।

* उससे सम्यक्त्वप्रकृतिका द्विचरम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ १२९ यह भी मात्र अन्तमुहूर्तप्रमाण होकर पिछले पदसे संख्यातगुणा है ऐसा निश्चय करना चाहिए १० ।

* उससे उसीका अन्तिम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ १३० यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि अन्तिम स्थितिकाण्डकके माहात्म्यका पहले ही सचर्चन कर आये है ११ ।

* उससे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मके श्रेय रहनेपर जो प्रथम स्थितिकाण्डक होता है वह संख्यातगुणा है ।

§ १३१. शंका— गुणकार क्या है ?

समाधान—संख्यात समय गुणकार है १२ ।

* उससे जघन्य आवाधा संख्यातगुणी है ।

§ १३२ कृतकृत्यसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें ज्ञानावरणादि कर्मसम्बन्धी जघन्य आवाधाका यहाँपर ग्रहण करना चाहिए । यह पिछले पदसे संख्यातगुणी है, इसप्रकार सूत्रसिद्ध ही इसका ग्रहण करना चाहिए १३ ।

* उससे उत्कृष्ट आवाधा संख्यातगुणी है ।

§ १३३. किं कारणं ? अपुञ्जकरणपदमसमयसंखेज्जगुणट्टिदिवंघपडिवद्वावाहाए
ग्रहणादो १४ ।

* पदमसमयअणुभागं अणुसमयोवट्टमाणगस्स अट्टवस्साणि ट्टिदि-
संतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १३४. किं कारणं ? अंतोमुहृत्तादो अट्टवस्मट्टिदिसंतकम्ममसंखेज्जगुणत्त-
सिद्धीए विसंवादाणुवलंभादो १५ ।

* सम्मत्तस्स असंखेज्जवस्सियं चरिमट्टिदिल्लंङ्गयं असंखेज्जगुणं ।

§ १३५. कुदो ? पल्लिदोवमासंखेज्जभागपमाणत्तादो १६ ।

* सम्मामिच्छुत्तस्स चरिममसंखेज्जवस्सियं ट्टिदिल्लंङ्गयं विसेसाहियं ।

§ १३६. केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवल्लियूणट्टवस्समेत्तो । कारणमेत्थ सुगमं १७ ।

* मिच्छुत्तो खविदे सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं पदमट्टिदिल्लंङ्गय-
मसंखेज्जगुणं ।

§ १३३. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले संख्यातगुणे स्थितिवन्धसे
सम्बन्ध रखनेवाली आवाधाका ग्रहण किया है १४ ।

* उससे प्रत्येक समयमें अनुभागकी अपवर्तना करनेवाले जीवके प्रथम समयमें
प्राप्त आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १३४. क्योंकि अन्तर्मुहूर्तसे आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा सिद्ध है,
इसमें किसी प्रकारका विसंबाद नहीं पाया जाता है १५ ।

* उससे सम्यक्त्वप्रकृतिका असंख्यात वर्षप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डक
असंख्यातगुणा है ।

§ १३५. क्योंकि वह पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है १६ ।

* उससे सम्यग्मिध्यात्वका असंख्यात वर्षप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डक
विशेष अधिक है ।

§ १३६. श्रंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक आबलिकम आठ वर्षप्रमाण है ।

यहाँ कारण सुगम है १७ ।

* उससे मिध्यात्वका क्षय होनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका प्रथम
स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है ।

§ १३७. किं कारणं ? सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तचग्मिद्विदिसिंहडयादो दुचरिम-द्विदिसिंहडयमसंखेजगुणं । एवं तिचरिम-चटुचरिमादिकमेण जाव संखेज्जसहस्समेध-द्विदिसिंहडयाणि हेट्ठा ओसरियुण भिच्छत्ते खविदे सम्मत्तसम्माभिच्छत्ताणं तदित्थ-पदमद्विदिसिंहडयं जादमिदि तेण कारणेणासंखेजगुणं^१ होदि १८ ।

* भिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं चरिमद्विदिसिंहडय-मसंखेजगुणां ।

§ १३८. भिच्छत्तसंतकम्मियविवक्खाए सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं^३ जं चरिम-द्विदिसिंहडयं पुविन्हादो अणंतरहेट्ठिमं तं तत्तो असंखेजगुणमिदि भणिदं होदि १९ ।

* भिच्छत्तस्स चरिमद्विदिसिंहडयं विसेसाहियं ।

§ १३९. किं कारणं भिच्छत्तस्स उदयावलियवाहिरं सब्बमागाइदं । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पुण तत्काले हेट्ठा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तीओ द्विदीओ मोत्तण उवरिमा बहुभागा आगाइदा त्ति, तेण कारणेण हेट्ठिमसंखेज्जदिभागमेत्तं पविसियुण विसेसाहियं जादं २० ।

§ १३७. क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकसे द्विचरम स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है । इस प्रकार त्रिचरम और चतुश्चरम आदि क्रमसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डक नीचे जाकर मिध्यात्वका क्षय होनेपर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका वहाँ सम्बन्धी प्रथम स्थितिकाण्डक हुआ है, इसलिए इस कारणसे उक्त स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा होता है १८ ।

* उससे मिध्यात्वसत्कर्मवालेके सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा ह ।

§ १३८. मिध्यात्वसत्कर्मवाले जीवकी विवक्षामें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका जो अन्तिम स्थितिकाण्डक होता है वह पूर्वके स्थितिकाण्डकसे अनन्तर अधस्तनवर्ती है, इसलिए वह उससे असंख्यातगुणा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है १९ ।

* उससे मिध्यात्वका अन्तिम स्थितिकाण्डक विशेष अधिक है ।

§ १३९. क्योंकि मिध्यात्वके उदयावलि बाह्य समस्त स्थितिसत्कर्मका ग्रहण किया है । परन्तु सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उस समय अधस्तन पर्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोंको छोड़कर उपरिम बहुभागप्रमाण स्थितियोंका ग्रहण किया है, इस कारण अधस्तन असंख्यातवें भागमात्रका प्रवेश होकर मिध्यात्वका अन्तिम स्थिति-काण्डक विशेष अधिक हो गया है २० ।

१. ता०प्रती हेट्ठो इति पाठः । २. ता०प्रती कारणेण संखेजगुणं इति पाठः ।

३. ता०प्रती सम्मत्तभिच्छत्ताणं इति पाठः ।

* असंखेज्जगुणहाणिट्ठिदिखांडयाणं पढमट्ठिदिखांडयं मिच्छत्तसम्मत्त-
सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणं ।

§ १४०. किं कारणं ? पुण्विन्हादो संखेज्जसहस्समेत्ताणि ठिदिखांडयाणि
असंखेज्जगुणकमेण हेट्ठा ओसरियूण द्रावकिट्ठिसण्णिइट्ठिदीए असंखेजे भागे वेत्तू-
णेदस्स ट्ठिदिखांडयस्स पवुत्तिदंसणादो २१ ।

* संखेज्जगुणहाणिट्ठिदिखांडयाणं चरिमट्ठिदिखांडयं जं तं संखेज्जगुणं ।

§ १४१. किं कारणं ? द्रावकिट्ठिमेत्तट्ठिदिसंतकम्मं मोत्तूण पुणो उवरिम-
संखेज्जे भागे वेत्तूणेदस्स ट्ठिदिखांडयस्स पवुत्तिदंसणादो २२ ।

* पत्तिदोवमट्ठिदिसंतकम्मदो विदियं ठिदिखांडयं संखेज्जगुणं ।

§ १४२. कुदो ? पुण्विन्हाट्ठिदिखांडयादो संखेज्जसहस्साणि ठिदिखांडयाणि
पच्छाणुपुव्वीए संखेज्जगुणवट्ठिदाणि हेट्ठा ओसरियूणेदस्स ट्ठिदिखांडयस्स लद्ध-
सरूवत्तादो २३ ।

* जम्हि ट्ठिदिखांडए अबगदे वंसणमोहणीयस्स पत्तिदोवममेत्तं ट्ठिदि-
संतकम्मं होइ तं ट्ठिदिखांडयं संखेज्जगुणं ।

* उससे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यात गुणहानिवाले
स्थितिकाण्डकोर्मैसे प्रथम स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है ।

§ १४०. क्योंकि पूर्वके स्थितिकाण्डकसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डक असंख्यात
गुणितक्रमसे नीचे सरककर दूरापवृष्टिसंज्ञक स्थितिके असंख्यात बहुभागको ग्रहणकर इस
स्थितिकाण्डककी प्रवृत्ति देखी जाती है २१ ।

* उससे संख्यात गुणहानिवाले स्थितिकाण्डकोर्मैसे जो अन्तिम स्थिति-
काण्डक है वह संख्यातगुणा है ।

§ १४१. क्योंकि दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कर्मको छोड़कर पुनः उपरिम संख्यात
बहुभागको ग्रहण कर इस स्थितिकाण्डककी प्रवृत्ति देखी जाती है २२ ।

* उससे पन्थोपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके रहते हुए दूसरा स्थितिकाण्डक
संख्यातगुणा है ।

§ १४२. क्योंकि पूर्वके स्थितिकाण्डकसे पश्चादानुपूर्विके अनुसार संख्यातगुणवृद्धिरूप
संख्यात हजार स्थितिकाण्डक पीछे सरककर इस स्थितिकाण्डकका स्वरूप उपलब्ध
होता है २३ ।

* उससे जिस स्थितिकाण्डकके नष्ट होनेपर दर्शनमोहनीयका पन्थोपमप्रमाण

§ १४३. एदं पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तं चैव, किंतु पुव्विन्लादो संखेज्जगुणत्तमेदस्स सुत्तसिद्धमेव गहेयव्व । गुणगारो च तप्पाओग्गसंखेज्जरूव-
मेत्तो २४ ।

* अपुव्वकरणे पढमट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं ।

§ १४४. किं कारणं ? अपुव्वकरणपढमसमयादत्तट्टिदिखंडयादो विसेमहीण-
कषेण संखेज्जसहस्समेत्तेसु ट्टिदिखंडएसु तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्तट्टिदिखंडयगुण-
हाणिगम्भेसु गदेसु पुव्विलट्टिदिखंडयस्स समुप्पणत्तादो । ण च तत्थ ट्टिदिखंडयं-
गुणहाणीणमत्थित्तमसिद्धं, पढमादो ट्टिदिखंडयादो अंतोअपुव्वकरणद्वाए संखेज्जगुण-
हीणं पि ट्टिदिखंडयमत्थि त्ति पुव्वं चुण्णिमुत्ते परूविदत्तादो । तदो सिद्धमेदस्स
संखेज्जगुणत्तं २५ ।

* पलिदोवममेत्ते ट्टिदिसंतकम्भे जादे तदो पढमं ट्टिदिखंडयं
संखेज्जगुणं ।

§ १४५. किं कारणं ? अपुव्वकरणद्वाए अणियत्तिकरणद्वाए च जाव पलिदो-
वममेत्तं ट्टिदिसंतकम्भं ण चिट्ठइ ताव पुव्विन्लसव्वट्टिदिखंडयाणि पलिदोवमस्स
संखेज्जदिभागमेत्तायामाणि चैव, इदं पुण ट्टिदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जे भागे
षेत्तूण णिव्वरिदमदो पुव्विन्लादो एदं संखेज्जगुणमिदि २६ ।

स्थितिसत्कर्म शेष रहता है वह स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ १४३. यह भी पत्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण ही है, किन्तु पूर्वके स्थितिकाण्डकसे
इसे सूत्रसिद्ध संख्यातगुणा ही ग्रहण करना चाहिए । गुणकार तत्प्रायोग्य संख्यात अंक-
प्रमाण है २४ ।

* उससे अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ १४४. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ग्रहण किये गये स्थितिकाण्डकसे विशेष
हीनकर्मसे तत्प्रायोग्य संख्यात अंकप्रमाण स्थितिकाण्डक-गुणहानिगर्भ संख्यात हजार स्थिति-
काण्डकोंके व्यतीत होनेपर पूर्वका स्थितिकाण्डक उत्पन्न हुआ है । और वहाँपर स्थितिकाण्डक-
गुणहानियोंका अस्तित्व असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अपूर्वकरणके भीतर प्रथम स्थितिकाण्डकसे
संख्यातगुणा हीन भी स्थितिकाण्डक होता है यह पहले ही चूणिमूत्रमें कह आये हैं, इसलिए
यह संख्यातगुणा है यह सिद्ध हुआ २५ ।

* उससे पत्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके होनेपर उसके बाद होनेवाला प्रथम
स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ १४५. क्योंकि जब तक पत्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्म नहीं प्राप्त होता तब तक
अपूर्वकरणके कालमें और अनिष्टिकरणके कालमें प्राप्त होनेवाले पहले सभी स्थितिकाण्डक
पत्योपमके संख्यातवे भागप्रमाण आयामवाले ही होते हैं । परन्तु यह स्थितिकाण्डक पत्यो-

* पल्लिवोधमट्टिविसंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४६. केतियमेत्तेण ? हेट्टिभावसेसिदसंखेज्जदिभागमेत्तेण २७ ।

* अपुच्चकरणे पढमस्स उक्कस्सगट्टिविखंडयस्स विसेसो संखेज्जगुणो ।

§ १४७. कुदो ? सागरोपमपुधत्तपमाणत्तादो २८ ।

* दंसणमोहणीयस्स अणियट्टिपढमसमयं पविट्टस्स ट्टिविसंतकम्मं संखेज्जगुणं २९ ।

§ १४८. कुदो ? सागरोवमसदसहस्सपुधत्तपमाणादो २९ ।

* दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जहण्णओ ट्टिविबन्धो संखेज्जगुणो ।

पमके संख्यात बहुभागको ग्रहणकर निष्पन्न हुआ है, अतः पूर्वके स्थितिकाण्डकसे यह संख्यातगुणा है २६ ।

* उससे पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४६ शंका—कितना अधिक है ?

समाधान—अधस्तन शेष संख्यातवाँ भाग अधिक है २७ ।

विशेषार्थ—एक पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मके शेष रहनेपर प्रथम स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यात बहुभागप्रमाण होता है । उसमें शेष एक भागके मिलानेपर पल्योपमप्रमाण स्थितिसत्कर्म प्राप्त होता है यह एक चूर्णिसूत्रका तात्पर्य है ।

* उससे अपूर्वकरणमें प्राप्त प्रथम उन्कृष्ट स्थितिकाण्डकका विशेष संख्यात-गुणा है ।

§ १४७ क्योंकि वह सागरोपमपुधक्त्वप्रमाण है २८ ।

विशेषार्थ—अपूर्वकरणमें सबसे जघन्य प्रथम स्थितिकाण्डक पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपुधक्त्वप्रमाण होता है । यही कारण है कि यहाँ इन दोनों स्थितिकाण्डकोंका अन्तर सागरोपमपुधक्त्वप्रमाण बतलाया गया है ।

* उससे अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें प्रवृष्ट हुए जीवके दर्शनमोहनीयका स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १४८. क्योंकि वह सागरोपम शतसहस्रपुधक्त्वप्रमाण है २९ ।

* उससे दर्शनमोहनीयके सिवाय शेष कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात-गुणा है ।

§ १४९. किं कारणं ? कदकरणिअपढमसमयट्टिदिवंधस्स अंतोकोडाकोडि-
पमाणस्स गहपादो ३० ।

* तेसिं चेष उक्कस्सओ ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो ।

§ १५०. किं कारणं ? अपुव्वकरणपढमसमयट्टिदिवंधस्स गहपादो ३१ ।

* दंसणमोहणीयवज्जाणं जहणयायं ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १५१. कुदो ? सम्माइहीणमुक्कस्सट्टिदिवंधादो वि जहणणट्टिदिसंतकम्मस्स
चारित्रमोहकखणपादो अणत्थ तहाभावेणावट्टाणणियमदंसणादो ३२ ।

* तेसिं चेष उक्कस्सयं ट्टिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १५२. किं कारणं ? अपुव्वकरणपढमसमयविसए सव्वेसिं कम्माणमंतो-
कोडाकोडिमेत्तुकस्सट्टिदिसंतकम्मस्स अपत्तघादस्स घादिदावसेसादो पुच्चिन्लजहण-
ट्टिदिसंतकम्मादो तहाभावसिद्धीए वाहाणुवलंभादो ३३ ।

§ १५३. एवमेदमप्पावहुअदंडयं समाणिय संपहि पुव्वं सरूवणिदेसमेत्तेणेव

§ १४९. क्योकि कृतकृत्यसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें होनेवाला स्थितिवन्ध अन्तःकोडा-
कोडीप्रमाण ग्रहण किया गया है ३० ।

* उससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ।

§ १५०. क्योकि इस सूत्रद्वारा अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिवन्धका
ग्रहण किया है ३१ ।

* उससे दर्शनमोहनीयके सिवाय शेष कर्मोंका जघन्य स्थितिसत्कर्म
संख्यातगुणा है ।

§ १५१. क्योकि चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके सिवाय अन्यत्र सम्यग्दृष्टियोंके उत्कृष्ट
स्थितिवन्धसे भी जघन्य स्थितिसत्कर्मके अवस्थानका नियम सूत्रोक्तप्रकारसे देखा
जाता है ३२ ।

* उससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १५२. क्योकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें सभी कर्मोंका जो अन्तकोडाकोडीप्रमाण
उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म होता है उसका अभी घात नहीं हुआ है, अतः घात होकर शेष बचे हुए
पूर्वके जघन्य स्थितिसत्कर्मसे इसके उक्त प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई बाधा नहीं पाई
जाती ३३ ।

§ १५३. इस प्रकार इस अल्पबहुत्ववण्डकको समाप्त करके अब पूर्वमें जिनके अर्थकी मात्र

परिभासिदत्थाणं गाहासुत्ताणं पुणो वि अवयवत्थपरामरसमुहेण' किंचि विवरणं कायव्वमिदि जाणावेमाणो चुण्णिसुत्तयारो इदमाह—

* एवमिह दंडए समत्ते सुत्तगाहाओ अणुसंबण्णेदव्वाओ ।

§ १५४. पुर्व्वं^१ गाहासुत्ताणि समुक्त्तियूण तदत्यविहासणमकादूण परिभासत्य-परुवणा चैव अप्पाबहुअदंडयपअवसाणा विहासिदा जादा । तदो तमिह परिभासत्य-परुवणाए विहासिय समत्ताए एण्ह सुत्तगाहाओ अवयवत्थपरामरसमुहेण अणु-संबण्णेदव्वाओ अणुभासिदव्वाओ चि भणिदं होइ । तत्थ चउण्हमाइन्लाणं गाहाणमणु-संबण्णणं सुगममिदि तम्लुन्लधियूण पंचमीए सुत्तगाहाए किंचि वित्थारत्थमुहेणाणु-संबण्णणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

* 'संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा' च्चि एदिस्से गाहाए अट्ट अणियोगद्दाराणि । तं जहा—संतपरुवणा दव्वपमायां कोसं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुअं च ।

§ १५५. एदीए गाहाए खीणदंसणमोहणीयाणं जीवाणं चदुगदिसंबण्णे

स्वरूपके निर्देश द्वारा ही परिभाषा की गई थी ऐसे गाथासूत्रोंका फिर भी अवयवार्थके परामर्शद्वारा कुछ विवरण करना चाहिए, इस बातका ज्ञान कराते हुए चूर्णिसूत्रकार इस सूत्रको कहते हैं—

* इस दण्डकके समाप्त होने पर सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करना चाहिए ।

§ १५४. पहले गाथासूत्रोंका समुत्कीर्तन करके उनके अर्थको विभाषा न करके परिभाषारूप अर्थकी प्ररूपणा ही अल्पबहुत्वदण्डकके अन्त तक विशेषरूपसे की । इसलिये वहाँ परिभाषारूप अर्थकी प्ररूपणाकी विभाषाके समाप्त होने पर अब सूत्रगाथाओंका अवयवार्थके परामर्शपूर्व्वक 'अणुसंबण्णेदव्वाओ' अर्थात् विशेष व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उनमेंसे प्रारम्भकी चार गाथाओंका विशेष व्याख्यान सुगम है, इसलिये उसे चल्छंघन कर पाँचवीं सूत्रगाथाका कुछ विस्तारपूर्व्वक विशेष व्याख्यान करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* 'संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा' इस पाँचवीं गाथाके अनुसार आठ अनुयोगद्वार हैं । यथा—सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्धन, काल, अन्तर, मागाभाग और अन्यबहुत्व ।

§ १५५. इस गाथामें जिनका दर्जनमोहनीय कर्म क्षीण हो गया है ऐसे जीवोंके चारों

द्व्यवमाणिहेसो कओ। एदं च देसामासयं तेण संतपरुवणादीहिं अट्ठाणिओग-
हारेहिं ओघादेसविसेसिदेहिं खइयसम्माइड्ढीणमेत्थ परुवणा वित्थरेण कायव्वा ।

गतियोंके सम्बन्धसे द्रव्यप्रमाणका निर्देश किया गया है। किन्तु यह कथन देशामर्षक है, इसलिये ओघ और आदेशके भेदसे विशेषताको प्राप्त हुए सत्परूपणा आदि आठ अनुयोग-
द्वारोंके आश्रयसे क्षायिक सम्यग्दृष्टियोंकी यहाँ विस्तारसे प्ररूपणा करनी चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ पर चूर्णिसूत्रमें आठ अनुयोगद्वारोंका उल्लेख किया है, अतः उनका आलम्बन लेकर 'क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका कुछ विवेचन करते हैं। यथा—(१) सत्परूपणा—सामान्यसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव हैं। आदेशसे प्रत्येक गतिकी अपेक्षा विचार करनेपर चारों गतियोंमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव पाये जाते हैं। सिद्ध जीव एकमात्र क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, किन्तु उनकी अपेक्षा यहाँ मीमांसा नहीं की जा रही है। (२) संख्या—सामान्यसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। आदेशसे मनुष्य गतिमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव संख्यात हजार हैं और शेष गतियोंमें असंख्यात हैं। यहाँ संख्यात हजार पदसे लक्षपृथक्त्वका और असंख्यात पदसे पल्योपमके असंख्यातवे भागका ग्रहण करना चाहिए। (३) क्षेत्र—सामान्यसे क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका क्षेत्र स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान और उपपादपदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। वेदना, कषाय, वैक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस और आहारक समुद्घातकी अपेक्षा भी क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही है। केवलिसमुद्घातकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण है। आदेशसे नरकगति, तिर्यञ्चगति और देवगतिमें यथासम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्यगतिमें केवलिसमुद्घातको छोड़कर शेष सब सम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है। मात्र केवलिसमुद्घातकी अपेक्षा क्षेत्र ओघके समान जानना चाहिए। (४) स्पर्शन—सामान्यसे क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंका स्वस्थानपदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण, विहारवत्स्वस्थानपद तथा वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग-
प्रमाण, तैजस और आहारकसमुद्घातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण तथा केवलिसमुद्घातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण और सबलोकप्रमाण स्पर्शन है। आदेशसे नरकगति और तिर्यञ्चगतिमें सम्भव पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। मनुष्यगतिमें केवलिसमुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन ओघके समान है तथा वहाँ सम्भव शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। देवगतिमें विहारवत्स्वस्थान तथा वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्घातकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भागप्रमाण है। तथा वहाँ सम्भव शेष पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। (५) काल—एक जीवकी अपेक्षा और नाना जीवोंकी अपेक्षाके भेदसे काल दो प्रकारका है। ओघसे एक जीवकी अपेक्षा कालका विचार करने पर जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव क्षायिक सम्यक्त्वको उत्पन्न कर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर मुक्त हो जाता है उसके संसारमें क्षायिक सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है। चल्कट काल आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक तेवीस सागरोपम है। इसका स्पष्टीकरण

§ १५६. तदो एवेसु अणिओगद्दारेसु सवित्थरं विहासिय समत्तेसु दंसण-
मोहक्खवयाहियारो सम्मप्पदि चि जाणावेमाणो उवसंहारवक्कमुत्तरं भणइ—

* एवं दंसणमोहक्खवणाए पंचण्हं सुत्तगाहाणमत्थविहासा समत्ता ।

सुगम है। आदेशसे नरकगतिमें जघन्य काल साधिक जघन्य आयुप्रमाण और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागरोपम है। तिर्यञ्चगतिमें जघन्य और उत्कृष्ट काल तीन पल्योपम हैं। मनुष्य-
गतिमें जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल एक पूर्वकोटिका कुछ कम एक त्रिभाग
अधिक तीन पल्योपम है। देवगतिमें जघन्य काल साधिक दो पल्योपम और उत्कृष्ट काल
तेतीस सागरोपम है। नाना जीवोंकी अपेक्षा ओघसे और आदेशसे चारों गतियोंमें क्षायिक
सम्यग्दृष्टियोंका काल सर्वदा है। (६) अन्तर—एक जीवकी अपेक्षा और नाना जीवोंकी
अपेक्षा अन्तरकाल दो प्रकार है। ओघसे एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकालका
विचार करने पर अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार आदेशसे चारों गतियोंमें भी समझना
चाहिए। (७) भागाभाग—ओघसे क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सब संसारी जीवोंके अनन्तर्वे
भागप्रमाण हैं। आदेशसे चारों गतियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। अर्थात् प्रत्येक गतिमें
क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सब संसारी जीवोंके अनन्तर्वे भागप्रमाण हैं। (८) अल्पबहुत्व—
क्षायिक सम्यक्त्व एक पद होनेके कारण स्वस्थानकी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं है।

§ १५६. अतः इन अनुयोगद्वारोंके विस्तारसे व्याख्यान करके समाप्त होने पर दर्शन-
मोहक्षपक अधिकार समाप्त होता है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके उपसंहार सूत्रको
कहते हैं—

* इन अनुयोगद्वारोंका कथन करने पर दर्शनमोहक्षपणा इस नामका अनुयोग-
द्वार समाप्त होता है।

इस प्रकार दर्शनमोहक्षपणा अनुयोगद्वारमें
पाँच सूत्रगाथाओंकी अर्थविभाषा समाप्त हुई।



सिरि-जइवसहाइरियविरइय-जुण्णिमुत्तसमण्णिदं
सिरि-भगवंतगुणहरभडारश्रोवइट्ठं

कसायपाहुडं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

जयधवला

तत्थ

संजमासंजमे त्ति अणियोगहारं

—:ॐ:—

वारसमो अत्थाहियारो

उवणेउ मंगलं वो भवियजणा जिणवरस्स कमकमलजुअं ।

इस-इलिस-कलस-सत्थिय-ससंक-संस-इसादिलक्खणभरियं ॥ १ ॥

* देसविरदे त्ति अणियोगहारं एया सुत्तगाहा ।

§ १. देसविरदे त्ति जमणिजोगहारं कसायपाहुडस्स पणहारसण्हमत्थाहियारणं

जो मङ्गली, वज्र, कलश, स्वस्तिक, चन्द्रमा, शंख और कुश आदि लक्षण चिन्होंसे युक्त हैं वे जिनदेवके चरणकमलयुगल हम भव्यजनोंको मंगलके कर्ता हों ॥ १ ॥

* देशविरति इस अनुयोगद्वारमें एक छत्रगाथा है ।

§ १. संवमासंयमलब्धिकी प्ररूपणाके कारण देशविरत यह संज्ञा प्राप्त करनेवाला जो

मञ्जे बारसमं संजमासंजमलद्धिपरूवणादो पडिलद्धतव्ववएमं, तत्थ पडिवद्धा एका
चेव सुत्तगाथा तमिदाणि विहासयिस्सामो त्ति भणिदं होदि । संपहि का सा एका गाथा
त्ति आसंकाए पुच्छवक्कमाह—

* तं जहा ।

§ २. सुगममेदं पुच्छवक्कं । एव च पुच्छाविसईकयस्स गाहासुत्तस्स सरूव-
णिहेसो कीरदे—

(६२) लद्धी य संजमासंजमस्स लद्धी तहा चरित्तस्स ।

वड्ढावट्ठी उवसामणा य तह पुच्चवद्धाणं ॥११५॥

§ ३. एसा गाथा दोसु अत्थाहियारेसु पडिवद्धा, संजमासंजमलद्धीए मंजम-
लद्धीए च परिष्फुडमेदिस्से णिवद्धत्तदंसणादो दोसु वि एका गाथा त्ति संबंधगाठा-
वयवेण तहोवड्ढत्तादो च । एवं च संते देसविरदि त्ति अणियोगहारे एसा गाथा
पडिवद्धा त्ति कधमेदं षड्दे ? दोसु पडिवद्धाए एगत्थ पांडवदुत्तविगेहादो त्ति ?
सच्चमेदं, किंतु दोण्हमक्कमेण परूवणोवायाभावादो देसविगदं त्ति अणियोगहारे
पडिवद्धभागमस्सियूण ताव परूवणं कस्सामो त्ति जाणावणट्ठमेव भणिदं ।

कपायप्राभृतके पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य देशविरति नामका बारहवों अर्थाधिकार है, उसकी
प्ररूपणामें एक ही सूत्रगाथा आई है । उसका इस समय व्याख्यान करेंगे यह उक्त कथनका
तात्पर्य है । अब वह एक गाथा कौनसी है ऐसी आशंका होने पर पृच्छावाक्यको कहते हैं—

* वह जैसे ।

§ २. यह पृच्छावाक्य सुगम है । इस प्रकार पृच्छाके विषयभावको प्राप्त गाथासूत्रके
स्वरूपका निर्देश करते हैं—

संयमासंयमकी लब्धि चारित्र अर्थात् सकलसंयमकी लब्धि उत्तरोत्तर वृद्धि
अथवा वृद्धि-हानि और पूर्ववद् कर्मोंकी उपशामना प्रकृतमें जानने योग्य हैं ॥११५॥

§ ३. यह सूत्रगाथा दो अर्थाधिकारोंमें प्रतिबद्ध है, क्योंकि संयमासंयमलब्धि और
संयमलब्धि अर्थाधिकारोंमें यह निबद्धरूपसे देखी जाती है और दोनों ही अर्थाधिकारोंमें
एक ही सूत्रगाथा सम्बन्ध गाथावयव होनेसे उस प्रकारसे उपदिष्ट की गई है ।

शंका—ऐसा होने पर देशविरति इस अनुयोगद्वारमें यह गाथा प्रतिबद्ध है यह कथन
कैसे बन सकता है, क्योंकि जो दो अर्थाधिकारोंमें प्रतिबद्ध है उसका एक अर्थाधिकारमें
प्रतिबद्धपनेका विरोध है ।

समाधान—यह कहना सत्य है, किन्तु दोनों अर्थाधिकारोंके युगपत् प्ररूपण करनेका
कोई उपाय नहीं है, इसलिये देशविरति इस अनुयोगद्वारमें जो भाग प्रतिबद्ध है उसका
आश्रयकर सर्वप्रथम कथन करेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस प्रकार कहा है ।

§ ४. संपदि एवमवहारिदसंबंधस्स एदस्स गाहासुत्तस्स अवयवत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा—‘लद्धी य संजमासंजमस्स’ एवं भणिदे संजमासंजमलद्धी गहेयव्वा । का संजमासंजमलद्धी णाम ? हिसादिदोसाणमेयवेसविरइलवखणाणि अणुव्वयाणि देसचारित्तघादीणमपच्चक्खणकसायाणमुदयाभावेण पडिवज्जमाणस्स जीवस्स जो विसुद्धिपरिणामो सो संजमासंजमलद्धि त्ति भण्णदे । ‘लद्धी तथा चरित्तस्स’ एवं भणिदे संजमलद्धी गहेयव्वा । का संजमलद्धी णाम ? पंचमहव्वय-पंचसमिदि-तिगुत्तीओ सयलसावज्जविरइलक्खणाओ पडिवज्जमाणस्स जो विसोहि-परिणामो सो संजमलद्धि त्ति विण्णायदे, खओवसमियचरित्तलद्धीए संजमलद्धि-ववएसावलंबणादो । आवसमिय-खइयसंजमलद्धीओ एत्थ किण्ण गहिदाओ ? ण, चारित्तमोहोवसामणाए तक्खवणाए च तासिं पवंचेण परुवणोवलंभादो । तदो

विशेषार्थ—शंका यह है कि जब ‘लद्धी य संजमासंजमस्स’ इत्यादि सूत्रगाथा दो अर्थाधिकारोंमें आई है तो फिर यहाँ एक अर्थाधिकारमें ही उसका निर्देश क्यों किया गया है ? समाधान यह है कि यद्यपि उक्त गाथा दो अर्थाधिकारोंमें आई है, परन्तु दोनों अर्थाधिकारोंका एक साथ कथन नहीं किया जा सकता, अतः जिस अर्थाधिकारका गुणस्थान व्यवस्थानुसार पहले निर्देश किया गया है उसके प्रारम्भमें उक्त गाथाका उल्लेख कर दिया है, अतः वह दोनों अर्थाधिकारों पर लागू हो जाती है ।

§ ४. अब जिसके सम्बन्धका इस प्रकार निश्चय किया है उस गाथासूत्रके अवयवार्थका विवरण करेंगे । यथा—‘लद्धी य संजमासंजमस्स’ ऐसा कहने पर संयमासंयमलब्धिको ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—संयमासंयमलब्धि किसे कहते हैं ?

समाधान—देशचारित्रका घात करनेवाले अप्रत्याख्यानावरण कपायोंके उदयाभावसे हिसादि दोषोंके एकदेश विरतिलक्षण अणुव्रतोंको प्राप्त होनेवाले जीवके जो विशुद्ध परिणाम होता है उसे संयमासंयमलब्धि कहते हैं ।

‘लद्धी तथा चरित्तस्स’ ऐसा कहने पर संयमलब्धिका ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—संयमलब्धि किसे कहते हैं ?

समाधान—सकल सावद्यकी विरतिलक्षण पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुणियोंको प्राप्त होनेवाले जीवका जो विशुद्धिरूप परिणाम होता है उसे संयमलब्धि जाननी चाहिए, क्योंकि क्षायोपशमिक चारित्रलब्धिकी संयमलब्धि संज्ञा स्वीकार की गई है ।

शंका—यहाँ पर औपशमिक संयमलब्धि और क्षायिक संयमलब्धि इन दोनोंको क्यों ग्रहण नहीं किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चारित्रमोहोपशमना और चारित्रमोहक्षपणाकी उनके स्वतन्त्र

खजोवसमियसंजमळ्दी एदम्मि बीजपदे णिवद्धा त्ति सुसंबद्धं । 'वट्ठावट्ठी' एवं भणिदे तासु चैव संजमासंजम-संजमळ्दीसु अलद्धपुण्वासु पडिलद्धासु तल्लामपढम-समयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालभंतरे पडिसमयमणंतगुणाए सेटीए परिणामवट्ठी गह्येव्वा उवरुवरि परिणामवट्ठीए वट्ठावट्ठीववएसवलंबणादो ।

§ ५. 'उवसामणा य तह पुव्ववट्ठाणं' एवं भणिदे ताओ चैव संजमासंजम-संजमळ्दीओ पडिवज्जमाणस्स पुव्ववट्ठाणं कम्माणं चारित्तपडिवंधीणमणुदयलक्खणा उवसामणा वेत्तव्वा । तदो केसि कम्माणं पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसमेयभिण्णाण-मणुदयोवसामणाए देससंजमं सयलसंजमं वा एसो पडिवज्जइ त्ति एवंविहा परूवणा एदम्मि बीजपदे णिलीणा त्ति दट्ठव्वा । सा च पुव्ववट्ठाणमुवसामणा चउच्चिहा, पयडि-ट्टिदि-अणुभाग-पदेसविसयत्तेण भिण्णत्तादो । तत्थ पयडिउवसामणा णाम अणंताणुबंधिचउक्क-अपच्चक्खणावावरणीयकसायाणं उदयाभावो संजमासंजमं पडिवज्ज-

प्रबन्धोंद्वारा उपलब्धि होती है, इसलिये क्षायोपशमिक संयमलब्धि इस बीजपदमें निबद्ध है यह कथन सुसम्बद्ध है ।

'वट्ठावट्ठी' ऐसा कहने पर अलम्बपूर्व उन्हीं संयमासंयम और संयमलब्धियोंके प्राप्त होने पर उनके लाभके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कालके भीतर प्रत्येक समयमें होनेवाली अनन्तगुणी श्रेणिरूपसे परिणामवृद्धिको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उत्तरोत्तर ऊपर-ऊपर होनेवाली परिणामवृद्धिकी 'वट्ठावट्ठी' संज्ञाका अवलम्बन लिया गया है ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार गृहीत मिथ्यात्वके त्याग करनेके बाद जिनोपदिष्ट जीवादि नौ पदार्थोंको हृदयंगम कर आत्मसन्मुख परिणामोंके होने पर परमार्थभूत सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है उसी प्रकार वेदकालके भीतर मिथ्यादृष्टि जीवके या सम्यग्दृष्टि जीवके हिंसादि पाँच पापोंका एकदेश और सर्वदेश त्यागपूर्वक तदनुरूप अन्य प्रवृत्तिके साथ प्रगाद-रूपसे स्वरूपरमणताके होने पर क्रमसे भावरूपसे देशसंयम और सकलसंयमकी प्राप्ति होती है । इस प्रकार जब यह जीव देशसंयम और सकलसंयमको प्राप्त करता है तब उसके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक प्रति समय विंशुद्धिमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी वृद्धि होती रहती है । इसी तथ्यको पूर्वोक्त सूत्रगाथामें 'वट्ठावट्ठी' पदद्वारा स्पष्ट किया गया है ।

§ ५ 'उवसामणा य तह पुव्ववट्ठाणं' ऐसा कहने पर उन्हीं संयमासंयम और संयम लब्धियोंको प्राप्त होनेवाले जीवके चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाले पूर्ववद्ध कर्मोंकी अनुदय लक्षणस्वरूप उपशमना लेनी चाहिए । इसलिये प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशभेदसे भेदको प्राप्त हुए किन कर्मोंके अनुदयरूप उपशमना होनेसे यह जीव देशसंयम अथवा सकलसंयमको प्राप्त होता है इस प्रकारकी प्ररूपणा इस बीजपदमें लीन है यह जानना चाहिए । पूर्ववद्ध कर्मोंकी वह उपशमना चार प्रकारकी है, क्योंकि प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश उसके विषय होनेसे वह चार प्रकारकी हो जाती है । उनमेंसे संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्क और अपत्याख्यानावरणीय कषायोंके उदयाभावरूप प्रकृति-

भाष्यस्त वत्तव्वो, तेसिमुदयाभावलक्षणोवसमे संते पयदलद्धीए समुप्पत्तिदंसणादो । तत्थ पच्चक्खाण-चदुसंजलण-णवणोकसायाणमुदए दिअमाणे संते कधम्वसमो वोपुं सक्किअइ त्ति णासंकणिअं, तेसिमुदयस्स सव्वघादिचाभावेण देसोवसमस्स तत्थ वि संभवे विरोहाभावादो । पच्चक्खाणावरणीयोदयो सव्वघादी चेवे त्ति चे ? ण, देससंजमविसये तस्स वावाराभावादो । संजमलद्धी पुण वारसकसायाणमणुदयोव-समेण चदुसंजलण-णवणोकसायाणं देसोवसमेण च समुप्पज्जदि त्ति वत्तव्वं ।

§ ६. तेसिं चैव पुव्वुत्ताणं पयडीणमणुदयिन्लाणं द्विदिउदयाभावो द्विदि-उवसामणा णाम । अधवा सव्वसिं कम्माणमंतोकोडाकोडीदो उवरिमद्विदीणमुदया-भावो द्विदिउवसामणा त्ति घेत्तव्व्वा । अणुभागुवसामणा णाम पुव्वुत्ताणं कसाय-पयडीणं विट्ठाण-तिट्ठाण-चउट्ठाणाणुभागस्स उदयाभावो, उदयिन्लाणं पि कसायाणं सव्वघादिफदयाणमुदयाभावो अणुभागोवसामणा त्ति घेत्तव्वं, तेसिं देसघादिविट्ठाणाणु-भागोदयणियमदंसणादो । णाणावरणादिकम्माणं पि तिट्ठाण-चउट्ठाणपरिचारेण विट्ठाणियाणुभागपडिल्लो अणुभागोवसामणा त्ति एत्थ वत्तव्वं, विरोहाभावादो ।

उपशमना कहनी चाहिए, क्योंकि उनके उदयाभावलक्षण उपशमके होने पर प्रकृत लब्धिकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

शंका—वहाँ प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार सव्वलन और नौ नोकघायोंको उदयमें देनेपर उपशम कहना कैसे शक्य है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके उदयमें सर्वघातिपनेका अभाव होनेसे देशोपशमके वहाँ भी सम्भव होनेमें विरोधका अभाव है ।

शंका—प्रत्याख्यानावरणीयका उदय सर्वघाति ही है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि देशसंयमके विषयमें उसका व्यापार नहीं होता ।

परन्तु संयमलब्धि वारह कषायोंके अनुदयरूप उपशमसे तथा चार सव्वलन और नौ नोकघायोंके देशोपशमसे उत्पन्न होती है ऐसा कहना चाहिए ।

§ ६. अनुदयवाली उन्हीं पूर्वोक्त प्रकृतियोंके स्थिति-उदयका अभाव स्थिति-उपशमना है । अधवा सभी कर्मोंकी अन्तःकोडाकोडीसे उपरिम स्थितियोंके उदयका अभाव स्थिति-उपशमना है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । पूर्वोक्त कषायप्रकृतियोंके द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुःस्थान अनुभागका उदयाभाव अनुभाग-उपशमना है तथा उदयवाले कषायोंके भी सर्वघाति स्वर्षकोंका उदयाभाव अनुभाग उपशमना है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके देशघाति द्विस्थानीय अनुभागके उदयका नियम देखा जाता है । ज्ञानावरणादि कर्मोंके भी त्रिस्थान और चतुःस्थान अनुभागके परित्यागसे द्विस्थानीय अनुभागकी प्राप्ति अनुभाग-उपशमना है ऐसा यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि इसमें विरोधका अभाव है । अनुदय-

तासिं चैव पुष्पुत्ताणमणुदइन्लाणमपच्चक्खाणादिकसायपयडीणं पदेसुदयाभावो पदेसोवसामणा ति वत्तव्वं । एवंविहा पुष्पवद्धाणमुवसामणा एदम्मि वीजपदे णिवद्धा ति धेत्तव्वं ।

रूप उन्ही पूर्वोक्त अप्रत्याख्यानादि कषाय प्रकृतियोंके प्रवेशका उदयाभाव प्रदेशापशामना है ऐसा यहाँ कहना चाहिए । इस प्रकारकी पूर्ववद्ध कर्मोंकी उपशामना इम बांजपदमें निबद्ध है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

विश्लेषार्थ—संयमासयमलब्धि और संयमलब्धि ये दोनों क्षायांपशमिक भाव है । यहाँ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके भेदसे चार भागोंमें विभक्त किन प्रकृतियोंके अनुदयसे ये भाव प्रकट होते हैं इस तथ्यको ध्यानमें रखकर इन दाना लब्धियोंका अपने प्रतिपक्ष कर्मोंके अनुदयमें होनेसे अनुदय-उपशामनाम्बरूप कहा गया है । उनमेंसे संयमासंयमलब्धि अनन्तानुबन्धीचतुष्क और अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उदयाभावरूप उपशामनासे होती है ऐसा यहाँ बतलाया गया है । इसका आशय यह है कि जिम प्रकार सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिमें अनन्तानुबन्धीचतुष्क उदयाभाव प्रयोजनीय है उमी प्रकार सम्यक्चारित्रकी प्राप्तिमें भी उसका उदयाभाव प्रयोजनीय है । वस्तुतः अनन्तानुबन्धीचतुष्क चारित्रमोहनीयका ही एक भेद है, क्योंकि (१) बन्धकालमें दर्शनमोहनीयको जो द्रव्य मिलता है उसमेंसे एक परमाणु भी अनन्तानुबन्धीको नहीं मिलता (२) दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं, उनका यथास्थान जिस प्रकार परस्पर संक्रम होता है उस प्रकार उसके द्रव्यका न तो अनन्तानुबन्धीचतुष्कमें संक्रम होता है और न ही अनन्तानुबन्धीचतुष्कका दर्शनमोहनीयके किसी भी भेदमें संक्रम होता है, (३) अनन्तानुबन्धीचतुष्कका यथायोग्य चारित्रमोहनीयके अवान्तर भेदोंमें संक्रम होता है और चारित्रमोहनीयके अवान्तर भेदोंका यथायोग्य अनन्तानुबन्धीचतुष्कमें संक्रम होता है, (४) जिस प्रकार अप्रत्याख्यानावरण आदिके क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार भेद हैं उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी भी क्रोधादि चार भागोंमें विभक्त है । यत ये क्रोधादि भाव कषायपरिणाम हैं और कषायोंका अन्तर्भाव विभाव चारित्रमें ही होता है, मिथ्यात्वरूप विभावभावमें नहीं, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्कको चारित्रमोहनीयम्बरूप ही जानना चाहिए । और यही कारण है कि यहाँ अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके उदयाभावरूप उपशमके साथ अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उदयाभावरूप उपशामनाको संयमासंयमकी प्राप्तिमें हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है । इस पर यहाँ यह शंका होती है कि यदि ऐसा है तो परमाणुमें तीन दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धीचतुष्क इन सातके उपशम आदिसे सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिका निर्देश न कर केवल दर्शनमोहनीयके उपशम आदिसे ही उसकी उत्पत्ति क्यों नहीं कही गई ? समाधान यह है कि जीवके भाव दो प्रकारके हैं—स्वप्रत्यय और स्वपरप्रत्यय । उनमेंसे जितने भी सम्यग्दर्शनादि स्वभाव भाव होते हैं वे सब स्व-परप्रत्यय न होकर केवल स्वप्रत्यय ही होते हैं । इसका आशय यह है कि जब यह जीव अपने उपयोगपरिणाममें परके अबलम्बनसे मुक्त होकर मात्र स्वभावके निर्णयपूर्वक उसके सन्मुख होता है तभी स्वभावभावकी प्राप्ति होती है, अन्य प्रकारसे नहीं । इसका विशेष स्पष्टीकरण यह है कि बुद्धिपूर्वक स्वभावभावकी प्राप्तिमें जीवका अपने उपयोग परिणामके द्वारा ज्ञान-दर्शनस्वरूप आत्मसन्मुख होना परमावश्यक है । इससे स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शनादि स्वभावभावकी प्राप्तिके समय जीवका उपयोग अन्य अशेष विषयोंसे हटकर एकमात्र स्वभावभूत आत्मामें ही युक्त रहता है । इन सब

§ ७. अथवा 'लद्धी य संजमासंजमस्से' ति वुत्ते संजमासंजमलद्धी अण्येय-
मेयभिण्णा घेत्तव्वा । तं जहा, तिविहाणि संजमासंजमलद्धिद्वाणाणि — पडिवाद-
द्वाणाणि पडिवज्जमाणद्वाणाणि अपडिवादअपडिवज्जमाणद्वाणाणि वेदि । एवं संजम-
लद्धीए वि तिविहत्तं वत्तव्वं । तदो गाहापुव्वद्धे संजमासंजम-संजमलद्धिद्वाणाणं'
परूवणा णिवद्दा ति घेत्तव्वं । 'वट्ठावट्ठी' इत्थेदस्स बीजपदस्स अत्थो पुव्वं व
वत्तव्वो । अहवा 'वट्ठि' ति वुत्ते संजमासंजमं संजमं च पडिवज्जमाणस्स एयंतापु-
व्वट्ठिपरिणामं पुव्वं व घेत्तूण तदो 'अवट्ठि' ति एदेण ओवट्ठी^३ गहेयव्या । का ओवट्ठी^३
णाम ? संजमासंजम-संजमलद्धीहिंतो हेट्ठा पडिवदमाणयस्स संकिलेसवसेण पडिसमय-

सम्यग्दर्शनादि स्वभावभावोको स्वप्रत्यय कहनेका यही कारण है । यतः सम्यग्दर्शनादिकी प्राप्तिके समय आत्माका उपयोग अपने स्वरूपमें ही युक्त रहता है अतः मानना पड़ता है कि एक सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय उसके साथ अशरूपमें सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी भी प्राप्ति होती है । यतः उस समय आत्माका उपयोग अपने स्वरूपको ही वेदता है, अतः जब भी सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती है तब वह स्वानुभूतिके साथ ही होती है । स्वानुभूतिको सम्यग्दर्शनका लक्षण स्वीकार करनेका भी यही कारण है और यह स्वानुभूति स्वोपयुक्त रत्न-त्रय परिणाम या तत्परिणत आत्मा है, अतः ऐसे जीवके दर्शनमोहनीयत्रिकके उदयाभावरूप करणोपशम आदिके साथ अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी अनुदयरूप उपशम आदि स्वीकार किया गया है । जिस चारित्रकी संज्ञा संयमासंयम और संयम है उसकी प्राप्ति भले ही मात्र अनन्तानुबन्धीके उदयाभावमें न हो, पर उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि दर्शनमोहनीयत्रिकके उपशम होनेके साथ अनन्तानुबन्धीका उदयाभाव होने पर स्वरूपरमणतारूप आत्मपरिणामकी प्राप्ति नियमसे होती है । यही कारण है कि सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय जिस प्रकार दर्शनमोहनीयत्रिकका उदयाभाव नियमसे होता है उसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी उदयाभाव अवश्य होता है । अतः विवक्षावश अनन्तानुबन्धीचतुष्कको सम्यग्दर्शनका प्रतिबन्धक भी कहा गया है पर है वह चारित्रमोहनीयका अवान्तर भेद ही ।

§ ७ अथवा 'लद्धी य संजमासंजमस्स' ऐसा कहनेपर संयमासंयम लब्धिको अनेक प्रकारकी ग्रहण करनी चाहिए । यथा—संयमासंयमलब्धिस्थान तीन प्रकारके है—प्रतिपात-स्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान । इसीप्रकार संयमलब्धिके भी तीन प्रकारके स्थान कहने चाहिए । इसलिए गाथाके पूर्वाधर्ममें संयमासंयम और संयम लब्धिस्थानोंकी प्ररूपणा निबद्ध है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 'वट्ठावट्ठी' इस बीजपदका अर्थ पहलेके समान कहना चाहिए । अथवा 'वट्ठि' ऐसा कहनेपर संयमासंयम और संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके एकान्तानुवृद्धिपरिणामका पहलेके समान ग्रहणकर उसके बाद 'अवट्ठि' इस पदद्वारा 'ओवट्ठी' अर्थात् उत्तरोत्तर परिणामहानि ग्रहण करनी चाहिए ।

शंका—'अवट्ठि' किसे कहते है ?

१ ता०प्रती संजमासंजमलद्धिद्वाणाणं इति पाठः । २. ता०प्रती 'अवट्ठि' इति पाठः ।

३ ता०प्रती ओवट्ठि इति पाठः ।

मणंतगुणहाणिपरिणामो ओवट्टिं ति भण्णदे । तदो एदासिं दोण्हं पि परूवणा सुत्तणिबद्धां ति सिद्धं ।

§ ८. 'उवसामणा य तह पुव्वबद्धाणं' इदि एयस्स बीजपदस्स अणंतरपरूविदो चैव अत्थो घेत्तव्वो । अहवा पुव्वबद्धाणमुवसामणापुव्वं व भणियुण तदो 'तहा' सहेण जहा पढमसम्मत्तमुपाएमाणस्स दंसणमोहणीयोवसामणं परूविदं एवमेत्थ वि उवसामसम्मत्तेण सह संजमासंजम-संजमलद्धीओ पडिवजमाणस्स तदुवसामणविहाणं परूवेयव्वं, तत्थ णाणत्ताभावादो ति एसो अत्थो संगहेयव्वो । एवमेदेसु दोसु अणिओगहारेसु पडिवद्धा एसा मूलगाहा । एत्थ ताव संजमासंजमलद्धिमहिकरिय विहासिज्जदि ति सुत्तत्थसमुच्चओ । संपहि एदिस्से गाहाए परिभासत्थं विहासिट्ठु-कामो सुत्तपबंधमुत्तरं भणह—

समाधान—संयमासंयम और संयमलच्चिसे नीचे गिरनेवाले जीवके संकलेशश प्रति समय होनेवाले अनन्तगुणहानिरूप परिणामको अववृद्धि कहते है ।

इसलिए इन दोनोंकी भी प्ररूपणा सूत्रनिबद्ध है यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—मूल सूत्रगाथामें 'वड्ढावड्ढी' पाठ है । उसका एक अर्थ तो उत्तरोत्तर वृद्धि होता है । जब यह जीव संयमासंयम या संयमभावको प्राप्त होता है तब अन्तर्मुहूर्त काल तक ऐसे जीवके उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धिको लिये हुए परिणाम होते हैं । इनकी एकान्तानुवृद्धि संज्ञा है । एक तो 'वड्ढावड्ढी' पदका यह अर्थ है । दूसरे इस पदको 'वट्टि' और 'ओवट्टि' इसप्रकार दो पदोंका समासितरूप स्वीकार कर 'वट्टि' पदका तो पूर्वोक्त अर्थ ही लेना चाहिए । तथा 'ओवट्टि' पदसे ऐसे जीवोंके प्रति समय अनन्त गुणहानिरूप परिणामोंका ग्रहण करना चाहिए जो संयमासंयम और संयमलच्चिसे ज्युत होनेके सन्मुख है ।

§ ८. 'उवसामणा य तह पुव्वबद्धाणं' इसप्रकार इस बीजपदका अनन्तर कहा गया अर्थ ही लेना चाहिए । अथवा पूर्वबद्ध कर्मोंकी उपशामनाका पहलेके समान कथन करके गाथासूत्रमें आये हुए 'तहा' शब्दके द्वारा जिसप्रकार प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके दर्शनमोहनीयकी उपशामनाका कथन किया है उसीप्रकार यहाँ भी उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयम और संयमलच्चिको प्राप्त होनेवाले जीवके उनके उपशमानेकी विधिका कथन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ नानात्वका अभाव है इसप्रकार इस अर्थका संग्रह करना चाहिए । इसप्रकार इन दोनों अनुयोगद्वारोंमें प्रतिबद्ध यह मूल गाथा है । यहाँ सर्व-प्रथम संयमासंयमलच्चिको अधिकृतकर विशेष व्याख्या करते है यह उक्त सूत्रके साथ अर्थका समुच्चय है । अब इस गाथाके परिभाषारूप अर्थकी विशेष व्याख्या करनेकी इच्छासे आगेके सूत्रप्रबंधको कहते हैं—

१. ता०प्रती ओवट्टि इति पाठः ।

२. ता०प्रती सुत्तणिबंधा इति पाठः ।

३. ता०प्रती विदमेत्थ वि इति पाठः ।

* एवस्स अणिओगहारस्स पुब्बं गमणिज्जा परिभासा ।

§ ९. एदस्स पयदाणिओगहारस्स परिभासा ताव पुब्बमणुमंतव्वा त्ति भणिदं होइ । का परिभासा णाम ? सुत्तद्वचिदत्थस्स सुत्तणिबद्धस्साणिवद्धस्स च परूवणा परिभासा णाम । गाहासुत्तस्स अवयवत्थपरूवणमुज्जियूण सुत्तद्वचिदासेसत्थस्स वित्थरपरूवणा सुत्तपरिभासा त्ति वुत्तं होइ । तमिदाणि वत्तइस्सामो त्ति पइण्णाय तव्विसयमेव पुच्छावकमाह—

* तं जहा ।

§ १०. सुगमं ।

* एत्थ अधापवत्तकरणद्धा अपुब्बकरणद्धा च अत्थि, अणियट्ठिकरणं णत्थि ।

§ ११. एतदुक्तं भवति—उवसमसम्मत्तेण सह संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स तिण्हं पि करणाणं संभवो अत्थि । सो वुण एत्थ णाहिकओ, तस्स सम्मत्तुप्पत्तीए चेव अंतन्भावादो । तदो तं मोत्तूण वेदयसम्माइट्ठिस्स वेदगपाओग्गमिच्छाइट्ठिस्स वा संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स परूवणं वत्तइस्सामो । तत्थ दोण्णिण चेव करणाणि

* इस अनुयोगद्वारकी सर्व प्रथम परिभाषा जाननी चाहिए ।

§ ९. इस प्रकृत अनुयोगद्वारकी सर्वप्रथम परिभाषा जाननी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—परिभाषा किसका नाम है ?

समाधान—सूत्रके द्वारा सूचित हुए अर्थकी तथा सूत्रमें निबद्ध हुए या निबद्ध नहीं हुए अर्थकी प्ररूपणा करना परिभाषा है । गाथासूत्रके अवयवार्थकी प्ररूपणाको छोड़कर सूत्र द्वारा सूचित हुए अशेष अर्थको विस्तारसे प्ररूपणा करना सूत्र-परिभाषा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

उसे इस समय बतलाते हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके तद्विषयक ही प्रच्छावाक्य को कहते हैं—

* वह जैसे ।

§ १०. वह सूत्र सुगम है ।

* इस अनुयोगद्वारमें अधःप्रवृत्तकरणकाल और अपूर्वकरणकाल है, अनिष्टुत्ति-करण नहीं है ।

§ ११. उक्त कथनका यह तात्पर्य है—उपज्ञमसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके तीनों ही करण सम्भव है । परन्तु वह यहाँ पर अधिकृत नहीं है, क्योंकि उसका सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । इसलिये उसे छोड़कर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले वेदकसम्यग्दृष्टिकी अथवा वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टि जीवकी प्ररूपणाको

अधापवत्तापुण्वसण्णिदाणि संभवति, ण तद्दज्जमणियट्ठिकरणमत्थि, दोहिं चैव करणेहि एत्थ पयदत्थसिद्धीए । जत्थ कम्माणं सव्वोवसामणा णिम्मूलक्खओ वा कीरेदे तत्थेवाणियट्ठिकरणस्साववारो । ण देसोवसामणासाहण्णिजे संजमासंजमपडिलंभे । तदो दोण्हमेव करणाणमेत्थ संभवो, णाणियट्ठिकरणस्से ति ।

§ १२. संपहि दोण्हमेदेसिं करणाणं जहागममणुगमं कुणमाणो तत्थ ताव अधापवत्तकरणादो हेट्ठा चैव अंतोमूहुत्तपडिवद्धाए सत्याणविसोहीए ट्ठिदि-अणुभागाण-मोवट्ठणमेवं होइ ति पटुप्पायणट्ठुत्तरसुत्तमोइण्णं—

* संजमासंजममंतोमहुत्तेण लभिहिदि ति तवो प्पट्ठुडि सव्वो जीवो आउगवज्जाणं कम्माणं ट्ठिदिबंधं ट्ठिदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि, सुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च चटुट्ठाणियं करेदि, अस्तुभाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च तुट्ठाणियं करेदि ।

बतलावेंगे । वहाँ अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण ये दो ही करण होते हैं, तीसरा अनिष्ट-करण नहीं होता, क्योंकि दो ही करणोंसे यहाँ पर प्रकृत अर्थकी सिद्धि हो जाती है । जहाँ पर कर्मोंकी सर्वोपशमना की जाती है या निर्मूल क्षय किया जाता है वहीं पर अनिष्टिकरणका अवतार होता है, देशोपशमनासाध्य संयमासंयमकी प्राप्तिमें नहीं । इसलिए यहाँ पर दो ही करण सम्भव हैं, अनिष्टिकरण नहीं ।

विश्लेषार्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ जो जीव संयमासंयमको प्राप्त करते हैं वहाँ अवश्य अधःप्रवृत्तकरण आदि तीन करण होते हैं, किन्तु जो वेदक सम्यग्दृष्टि जीव संयमासंयमको प्राप्त करते हैं या वेदक कालके भीतर अवस्थित मिथ्यादृष्टि जीव वेदक सम्यक्त्वके साथ संयमासंयमको प्राप्त करते हैं उनके अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण ये दो ही प्रकारके कारण परिणाम होते हैं । जब यह जीव दर्शनमोहनीयकी करणोपशमना, चारित्रमोहनीयकी करणपूर्वक सर्वोपशमना तथा दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करता है तब अनिष्टिकरण परिणाम होता है । यहाँ चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना भी ले लेनी चाहिए ।

§ १२. अब इन दोनों करणोंका आगमके अनुसार अनुगम करते हुए वहाँ सर्व प्रथम अधःप्रवृत्तकरणसे पूर्व ही अन्तर्मुहूर्त काल तक होनेवाली स्वस्थान विशुद्धिके द्वारा स्थिति और अनुभागका इस प्रकार अपवर्तन होता है इस बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* संयमासंयमको अन्तर्मुहूर्त कालद्वारा प्राप्त करेगा, इसलिये वहाँसे लेकर सब जीव आयुर्कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्मको अन्तःकोडा-कोडीके भीतर करते हैं, शुभ कर्मोंके अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्मको चतुःस्थानीय करते हैं तथा अशुभ कर्मोंके अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्मको द्विस्थानीय करते हैं ।

§ १३. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे—वेदगपाओग्गमिच्छाइड्ढी ताव संजमासंजमं पडिबज्जमाणो पुव्वमेव अंतोमुहुत्तमत्थि चि सत्थाणपाओग्गाए विसोहीए पडिसमयमणंतगुणाए विसुज्जमाणो आउगवजाणं सव्वेसिमेव कम्माणं द्विदिबंधं द्विदिसंतकम्मं च अंतोकोडाकोडीए करेदि । कुदो ? तक्कालभाविविसोहिपरिणामाणं तत्तो उवरिमद्विदिबंधं-द्विदिसंतकम्मेहि विरुद्धसहावत्तादो, तेसिं तद्दामावेण विणा संजमासंजमगुणग्गहणाणुववत्तीदो च । एदं ताव एकं पयदविसोहिणिबंधणं फलं । अण्णं च सुहाणं कम्माणं सादादीणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च चटुट्टाणियं करेदि, तदणुभागस्स सुहपरिणामणिबंधणत्तादो । असुभाणं पुण कम्माणं पंचणाणावरणादीणं अणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च णियमा विट्टाणियं करेदि, विसोहिपरिणामेहिंतो तेसिमणुभागस्स तत्तो उवरिमस्स घादोववत्तीदो । तदो सिद्धमंतोमुहुत्तपबद्दाए सत्थाणविसोहीए विसुज्जमाणो वेदगपाओग्गमिच्छाइड्ढी संजमासंजमाहिम्भो सव्वो सव्वेसिं कम्माणमाउगवजाणं द्विदिबंधं-द्विदिसंतकम्माणि अंतोकोडाकोडीए ठविय पसत्थापसत्थपयडीणमणुभागबंध-संतकम्माणि च चउट्टाण-विट्टाणसरूवाणि कादण तदो संजमासंजमलद्धीए अहिम्भुहीभावं पडिबज्जह, णाण्णहा चि । एवं वेदगसम्माइट्टिस्स वि असंजदस्स संजमासंजमं पडिबज्जमाणस्स अंतोमुहुत्तपडिबद्धो विसोहिपरिणामो अणुगंतव्वो ।

§ १३. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—संयमसंयमको प्राप्त होनेवाला वेदकप्रायोग्य मिथ्या-दृष्टि जीव पहले ही अन्तर्मुहूर्त काल रहने पर स्वस्थानके योग्य प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा विशुद्धिको प्राप्त हुआ आयुकर्मको छोड़कर सभी कर्मोंके स्थितिवन्ध और स्थितिसत्कर्मको अन्तःकोडाकोडीके भीतर करता है, क्योंकि उस कालमें होनेवाले विशुद्धिरूप परिणाम उससे उपरिम स्थितिवन्ध और स्थितिसत्कर्मके विरुद्ध स्वभाववाले होते हैं और उनके उस प्रकारके हुए बिना संयमासंयमगुणकी प्राप्ति नहीं बन सकती । प्रकृत विशुद्धिके निमित्तसे होनेवाला यह एक फल है । दूसरा फल यह है कि साता आदि शुभ कर्मोंके अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्मको चतुःस्थानीय करता है, क्योंकि उनका अनुभाग शुभ परिणामनिमित्तक होता है । परन्तु पाँच ज्ञानावरणादि अशुभ कर्मोंके अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्मको नियमसे द्विस्थानीय करता है, क्योंकि विशुद्धिरूप परिणामोंके निमित्तसे उन कर्मोंके उससे ऊपरके अनुभागका घात हो जाता है । इसलिये सिद्ध हुआ कि अन्तर्मुहूर्त काल सम्बन्धी स्वस्थान विशुद्धिके द्वारा विशुद्ध होता हुआ संयमासंयमके अभिसुख हुआ सब वेदक प्रायोग्य मिथ्यादृष्टि जीव आयुकर्मको छोड़कर सभी कर्मोंके स्थितिवन्ध और स्थितिसत्कर्मको अन्तःकोडाकोडीके भीतर स्थापित कर प्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्मको चतुःस्थानस्वरूप करके और अप्रशस्त प्रकृतियोंके अनुभागबन्ध और अनुभागसत्कर्मको द्विस्थानस्वरूप करके तदनन्तर संयमासंयमलब्धिके अभिसुखपनेको प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले वेदकसम्यग्दृष्टि असंयत जीवके भी अन्तर्मुहूर्त काल तक होनेवाला विशुद्धिपरिणाम जानना चाहिए ।

§ १४. संपदि एदं विसोहिकालमेवंविहेण वावागविसेसेणाणुपालिय तदो हेह्मिभिसोहिविसयं वोलोणस्स उवरिमो करणणिबंधणो विसोहिपरिणामो केरिसो होइ चि आसंकाए सुत्तपबंधमाह—

* तदो अधापवत्तकरणं णाम अणंतगुणाए विसोहीए विसुज्झदि, एत्थि द्विविखंडयं वा अणुभागखडयं वा । केवलं द्विविबंधे पुण्णे पलियो-वमस्स संखेज्जभागहीणेण द्विदि बंधदि । जे सुभा कम्मंसा ते अणुभागोहि बंधदि अणंतगुणेहिं जे अमुहकम्मंसा ते अणंतगुणाहीयोहिं बंधदि ।

§ १५. एदेसिं सुत्तपदानमधापवत्तकरणवद्धानमत्थो जहा दंसणमोहोवसामणाए बुत्तो तथा एत्थ वि परूवेयव्वो, विसेसाभावादो । संपदि एत्थ अधापवत्तकरण-

विशेषार्थ—वेदकप्रायोग्य कालके भीतर जो मिथ्यादृष्टि जीव वेदकसम्यक्त्वके साथ संयमासंयमभावको युगपत् प्राप्त होता है उसके अनिवृत्तिकरण तो होता नहीं, केवल अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण परिणाम होते हैं। उसमें भी अधःप्रवृत्तकरण होनेके पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल तक स्वभाव सन्मुख हुए परिणामोंके द्वारा प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होनेवाले उक्त जीवके जो कार्यविशेष होते हैं उनको यहाँ स्पष्ट किया गया है। जो वेदकसम्यग्दृष्टि जीव संयमासंयमको प्राप्त होता है उसके भी संयमासंयमभावके सन्मुख होनेके अन्तर्मुहूर्त काल पूर्व स्वभावसन्मुख हुए परिणामोंके कारण प्रति समय उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होकर नियमसे उक्त कार्य विशेष होते हैं। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जो चरणानुयोगकी विधिके अनुसार द्रव्य संयमासंयमको स्वीकार कर उमका निरतिचार पालन करता है वही जीव उक्त प्रकारकी विशुद्धिको प्राप्तकर स्वभावसन्मुख होकर भाव संयमासंयमको प्राप्त करता है। आत्माके स्वभावप्राप्तिका यही एक मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं जो संयमासंयमी जीव, मन्द संकलेशवश गिरकर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर पुनः संयमासंयमको प्राप्त करता है उसका यहाँ चर्चा नहीं।

§ १४ अब इस प्रकारके विशुद्धिकालको इस प्रकारके व्यापारविशेषके द्वारा पालन कर तदनन्तर अधस्तन विशुद्धिस्थानको वितानेवाले जीवक उपरिम करणनिबन्धन विशुद्धिपरिणाम किस प्रकारका होता है ऐसी आशंका होनेपर सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* तत्पश्चात् अधःप्रवृत्तकरण नामवाली अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता है। यहाँ पर न तो स्थितिकाण्डक होता है और न अनुभागकाण्डक होता है। केवल स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर पन्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण हीन स्थितिको बाँधता है। जो शुभ कर्म प्रकृतियाँ हैं उन्हें उत्तरोत्तर अनन्तगुणे अनुभागोंके साथ बाँधता है और जो अशुभ कर्म हैं उन्हें प्रति समय अनन्तगुणे हीन अनुभागोंके साथ बाँधता है।

§ १५. अधःप्रवृत्तकरणसे सम्बन्ध रखनेवाले इन सूत्रपदोंके अर्थका कथन जिस-प्रकार दर्शनमोहकी उपशामना अनुयोगद्वारमें किया है उसीप्रकार यहाँ भी करना

विसोहीणमणुक्कड्डिल्लक्खणाणं तिब्ब-मंददाए किंचि अणुगमं कुणमाणो सुत्तकलाव-
सुत्तरं मणइ—

* विसोहीए तिब्ब-मंदं वत्तइस्सामो ।

§ १६. सुगममेदं पयदपरूवणाविसयं पइण्णावक्कं ।

* अधापवत्तकरणस्स जदो पहुडि विमुद्धो तस्स पढमसमए जह-
णियाया विसोही थोवा ।

§ १७. किं कारणं ? अधापवत्तकरणपढमसमयपाओग्गाणमसंखेज्जलोगमेत्त-
परिणामाणं छवट्ठीए समवट्ठिदाणं सव्वजहण्णपरिणामट्ठानस्सेह विवक्खियत्तादो ।

* विदियसमए जहणियाया विसोही अणंतगुणा ।

§ १८. कुदो ? पढमसमयजहण्णपरिणामादो असंखेज्जलोगमेत्तछट्ठाणि गंतूणे-
दिस्से विसोहीए समवट्ठानदंसणादो ।

* तदियसमए जहणियाया विसोही अणंतगुणा ।

§ १९. एत्थ वि कारणमणंतरपरूविदमेव ।

* एवमंतोमुहुत्तां जहणिया च्चेव विसोही अणंतगुणेण गच्छइ ।

चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं है । अब अधःप्रवृत्तकरणकी अनुकृष्टि लक्षण-
वाली विशुद्धियोंकी तीव्र-मन्दताका कुछ अनुगम करते हुए आगेके सूत्रकलापको कहते हैं—

* अब विशुद्धिके तीव्र-मन्दभावको बतलावेंगे ।

§ १६ प्रकृत प्ररूपणाको विषय करनेवाला यह प्रतिज्ञावाक्य सुगम है ।

* अधःप्रवृत्तकरण जीव जहाँसे लेकर विशुद्ध हुआ है उसके प्रथम समयमें
जघन्य विशुद्धि स्तोक है ।

§ १७. क्योंकि अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयके योग्य छह वृद्धिरूपसे अवस्थित
असंख्यात लोकप्रमाण परिणामोंमेंसे सबसे जघन्य परिणामस्थान यहाँ पर विवक्षित है ।

* उससे दूसरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है ।

§ १८. क्योंकि प्रथम समयके जघन्य परिणामसे असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान
आकर इस विशुद्धिका अवस्थान देखा जाता है ।

* उससे तीसरे समयमें जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है ।

§ १९. यहाँपर भी अनन्तर पूर्वका कहा हुआ ही कारण है ।

* इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तकाल तक जघन्य विशुद्धि ही प्रति समय अनन्त-
गुणी अनन्तगुणी बढ़ती जाती है ।

§ २०. किं कारणं ? अधापवत्तकरणद्वाए संखेज्जभागमेत्तणिव्वग्गणकंडय-
म्मंतरे जहण्णविसोहीणं चैव अणंतगुणकमेण पवुत्तीए णिव्वाहमुवलंभादो ।

* तदो पढमसमए उक्कस्सिआ विसोही अणंतगुणा ।

§ २१. तदो णिव्वग्गणकंडयमेत्तमुवरि गंतूण द्विजहण्णविसोहीदो एदिस्से
पढमसमधुक्कस्सविसोहीए असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि समुल्लघिय समुत्पत्तिदंसणादो ।

* सेसअधापवत्तकरणविसोही जहा दंसणमोहउवसामगस्स अधा-
पवत्तकरणविसोही तथा चैव कायव्वा ।

§ २२. संपहि एदीए अप्पणाए सूचिदत्थस्स फुडीकरणं कस्सामो । तं जहा—
पढमसमये उक्कस्सियादो विसोहीदो जम्हि जहण्णिया विसोही णिट्ठिदा, तदो उवरिम-
समए जहण्णिया विसोही अणंतगुणा, विदियसमए उक्कस्सिया विसोही अणंत-
गुणा । एवं जेद्वं जाव विदियणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयजहण्णविसोही पढम-
णिव्वग्गणकंडयचरिमसमयउक्कस्सविसोहीदो अणंतगुणा जादा त्ति । तदो विदिय-
णिव्वग्गणकंडयपढमसमयउक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एव जहण्णुक्कस्सविसोहीओ
दोएदूण जेद्वं जाव तदियणिव्वग्गणकंडयचरिमसमयजहण्णविसोही विदियणिव्वग्गण-

§ २० क्योंकि अधःप्रवृत्तकरणके कालके संख्यातवे भागप्रमाण निर्वर्गणाकाण्डकके
भीतर जघन्य विशुद्धियाँकी ही अनन्तगुणितक्रमसे प्रवृत्ति निर्वाध पाई जाती है ।

* उससे प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है ।

§ २१ तदो अर्थात् निर्वर्गणाकाण्डकमात्र ऊपर जाकर वहाँ स्थित जघन्य विशुद्धिसे
इस प्रथम समयसम्बन्धी उत्कृष्ट विशुद्धिकी असंख्यात लोकप्रमाण पटस्थानोंको उल्लंघनकर
समुत्पत्ति देखी है ।

* जिस प्रकार दर्शनमोह-उपशामकके अधःप्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियाँ
होती हैं उसीप्रकार यहाँ शेष अधःप्रवृत्तकरणसम्बन्धी विशुद्धियाँ करनी चाहिए ।

§ २२. अब इसकी अर्पणाके द्वारा सूचित हुए अर्थाका स्पष्टीकरण करेंगे । यथा—
प्रथम समयमें प्राप्त उत्कृष्ट विशुद्धिसे जिस स्थानमें जघन्य विशुद्धि समाप्त हुई है
उससे उपरिम समयमें प्राप्त जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी है । उससे दूसरे समयमें प्राप्त
उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है । इसी प्रकार दूसरे निर्वर्गणा काण्डकके अन्तिम समयकी
जघन्य विशुद्धि प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे अनन्तगुणी
प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । उससे अर्थान् द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम
समयकी जघन्य विशुद्धिसे द्वितीय निर्वर्गणाकाण्डकके प्रथम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धि
अनन्तगुणी है । इस प्रकार जघन्य और उत्कृष्ट विशुद्धियोंको ग्रहण कर द्वितीय निर्वर्गणा-
काण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट विशुद्धिसे तृतीय निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी

कंडयचरिमसमयउक्कस्सविसोहीदो अणंतगुणा जादा त्ति । एवं जिव्वग्गणकंडयमंतो-
मुहुत्तं धुवं कादूण जहण्णुक्कस्सविसोहीणभेगंतरिदसरूवेणप्पावहुअमणुगंतव्वं जाव
अधापवत्करणचरिमसमए जहण्णविसोही अंतोमुहुत्तं हेट्ठा ओसरिदूण द्विदुचरिम-
जिव्वग्गणकंडयचरियसमयउक्कस्सविसोहीदो अणंतगुणा जादा त्ति । तदो उवरिमसमए
उक्कस्सिया विसोही अणंतगुणा । एवमुक्कस्सिया विसोही णेदव्वा जाव अधापवत्त-
करणचरिमसमओ त्ति । एदं अधापवत्तकरणस्म लक्खणं ।

§ २३. संपहि चरिमसमयअधापवत्तकरणे चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियव्वाओ ।
तं जहा—संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स परिणामो केरिसो भवे १, काणि वा पुव्व-
वद्दाणि २, के अंसे झीयदे पुव्वं ३, किंदिदियाणि कम्माणि ४ । एदासिं च विहासा
सुगमा त्ति सुत्तयारेण णाटत्ता । तदो एदासिं चउण्हं सुत्तगाहाणमत्थविहासा
सवित्थरमेत्थ कायव्वा ।

§ २४. तदो अधापवत्तकरणे समत्ते अपुव्वकरणविसयं परूवणापबंधमादवेमाणो
इदमाह—

जघन्य विमुद्धि अनन्तगुणी प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार निर्वर्गणाकाण्डक-
प्रमाण अन्तमुहूर्तको ध्रुव करके जघन्य और उत्कृष्ट विमुद्धियोंका एक निर्वर्गणाकाण्डकके
अन्तरालसे अल्पबहुत्व तब तक ले जाना चाहिए जब जाकर अधःप्रवृत्त करणके कालसे
अन्तमुहूर्त नीचे उतर कर स्थित हुए द्विचरम निर्वर्गणाकाण्डकके अन्तिम समयकी उत्कृष्ट
विमुद्धिसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें प्राप्त जघन्य विमुद्धि अनन्तगुणी हो जाती है ।
उससे उपरिम समयकी उत्कृष्ट विमुद्धि अनन्तगुणी है । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम
समयके प्राप्त होने तक उत्कृष्ट विमुद्धि ले जानी चाहिए । यह अधःप्रवृत्तकरणका लक्षण है ।

विशेषार्थ—अधःप्रवृत्तकरणमें विमुद्धिकी तीव्र मन्दा किस प्रकार होती है इसका
विवेचन यहाँ किया गया है । इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण पुस्तक १२ में (पृ० २४५ से
लेकर पृ० २५२ तक) कर आये हैं, इसलिये इसे वहाँसे जान लेना चाहिए ।

§ २३. अब अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें चार सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान
करना चाहिए । यथा—संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स परिणामो केरिसो भवे । १. । काणि वा
पुव्ववद्दाणि । २. । के अंसे झीयदे पुव्वं । ३. । किं दिदियाणि कम्माणि । ४. । ये चार सूत्र
गाथाएँ हैं । इनका विशेष व्याख्यान सुगम है, इसलिए सूत्रकारने इनका व्याख्यान नहीं
किया । अतः इन चारों सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान विस्तारके साथ यहाँपर
करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिस प्रकार दर्शनमोहके उपशामकके और दर्शनमोह क्षपकके यथास्थान
इन चार गाथाओंके अनुसार यथायोग्य व्याख्यान कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ संयमा-
संबन्धकी प्राप्ति होनेवाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें उक्त चार गाथाओंके
अनुसार विशेष व्याख्यान करना चाहिए ।

§ २४. इसके बाद अधःप्रवृत्तकरणके समाप्त होनेपर अपूर्वकरणविषयक प्ररूपणा-
प्रबन्धका आरम्भ करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* अपूर्वकरणस्स पढमसमए द्विदिव्खंडयं जहणायं पखिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । उक्कस्सयं द्विदिव्खंडयं सागरोवमपुघत्तं ।

§ २५. एत्थ ताव पुव्वमेवापुव्वकरणस्स लक्खणमणुगंतव्वं । तं च दंसणमोहोव-
सामणाए पवंचिदमिदि ण पुणो पवंचिज्जदे । णवरि तत्थतणपरिणामेहिंतो एत्थतण-
परिणामाणमणंतगुणत्तं देसचारित्तलद्धिपाहम्मेषाणुगंतव्वं । तदो पढमसमयापुव्वकरणे
द्विदिव्खंडयपमाणावहारणट्टमिदं सुत्तमोइणं—‘तत्थ जहणायं द्विदिव्खंडयं पखिदोवमस्स
संखेज्जदिभागो’, तप्पाओग्गजहणद्विदिसंतकम्मेषुवट्टिदम्मिं तदुवलंभादो ‘उक्कस्सयं
पुण सागरोवमपुघत्तमेत्तं’ तप्पाओग्गद्विदिसंतबुट्ठिं कादूण उक्कस्सभावाविरोहेणापुव्व-
करणपढमसमए वट्टमाणम्मि तदुवलंभादो ।

§ २६. एवमपुव्वकरणपढमसमयविसयाणं जहणुक्कस्सद्विदिव्खंडयाणं पमाणा-
विणिण्णयं कादूण संपहि तत्थेवाणुभागखंडयपमाणावहारणट्टमिदमाह—

* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जघन्य स्थितिकाण्डक पत्त्योपमके संख्यातवें
भागप्रमाण होता है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होता है ।

§ २५. सर्व प्रथम यहाँपर अपूर्वकरणका लक्षण जान लेना चाहिए और उसका दर्शन-
मोहोपशामना अनुयोगद्वारमें विस्तारसे कथन कर आये है, इसलिये पुनः कथन नहीं
करते । इतनी विशेषता है कि देशचारित्रलब्धिकी प्रधानतासे वहाँके परिणामोंसे यहाँके
परिणाम अनन्तरगुणे जानने चाहिए । इसलिये अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डकके
प्रमाणका निश्चय करनेके लिये यह सूत्र आया है—‘वहाँ जघन्य स्थितिकाण्डक पत्त्योपमके
संख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ उपस्थित हुए
जीवके उसकी उपलब्धि होती है । परन्तु उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्व प्रमाण
है, क्योंकि तत्प्रायोग्य स्थितिसत्कर्मकी वृद्धि करके उत्कृष्टभावके अविरोधके साथ अपूर्व-
करणके प्रथम समयमें उपस्थित होनेपर उसकी उपलब्धि होती है ।

विश्लेषार्थ—जीव दो प्रकारके होते हैं—एक क्षपितकर्मांशिक जीव और दूसरे गुणित-
कर्मांशिक जीव । यदि क्षपितकर्मांशिक जीव अपूर्वकरणके प्रथम समयको प्राप्त हुआ है
तो उसके स्थितिकाण्डक नियमसे जघन्य होगा और वह पत्त्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण
होगा । और यदि गुणितकर्मांशिक जीव अपूर्वकरणके प्रथम समयको प्राप्त हुआ है तो उसके
स्थितिकाण्डक नियमसे उत्कृष्ट होगा और वह सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होगा । मध्यमें वह
अनेक प्रकारका होगा ।

§ २६. इस प्रकार अपूर्वकरणके प्रथम समयसंबन्धी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति-
काण्डकोंके प्रमाणका निर्णय कर अब वहाँपर अनुभागकाण्डकके प्रमाणका निश्चय करनेके
लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* अणुभागस्वच्छयमस्तुहाणं कम्माणमणुभागस्स अणंता भागा आगा-
इवा । सुभाणं कम्माणमणुभागघादो णत्थि ।

§ २७. एदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि । संपहि दंसणमोहोवसामणाए
तक्खवणाए च जहा गुणसेट्ठिणिक्खेवसंभवो तहा किमेत्थ वि संभवो आहो णत्थि चि
आसंकाए णिरारेगीकरणट्टमुत्तरं पडिसेहवकमाह—

* गुणसेटी च णत्थि ।

§ २८. किं कारणं ? ण ताव सम्मत्तुप्पत्तिणिबंधणगुणसेटीए एत्थ संभवो, पढम-
सम्मत्तगहणादो अप्पणत्थ तदणब्धुवगमादो । ण संजमासंजमपरिणामणिबंधणगुणसेटीए
वि अत्थि संभवो, अलद्धप्पसरूवस्स संजमासंजमगुणस्स गुणसेट्ठिणज्जराए वावारविरो-
हादो । जो वुण उवसमसम्मत्तेण सह संजमासंजमं पडिवज्जइ तस्स गुणसेट्ठिणिक्खेवो
संभवह । णवरि सो एत्थ ण विवक्खिओ । तम्हा 'गुणसेटी च णत्थि' चि सुणिरूविदं ।
संपहि एत्थेव हि बंधोसरणकमपदसणट्टमुत्तरसुत्तारंमो—

* ट्ठिदिबंधो पल्लिवोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो ।

§ २९. गयत्थमेदं सुत्तं ।

* अनुभागकाण्डक अणुम कर्मोंके अनुभागका अनन्त बहुभाग ग्रहण किया ।
शुम कर्मोंका अनुभागघात नहीं होता ।

§ २७. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । अब दर्शनमोहोपशमना और उसकी क्षयणामें जिस
प्रकार गुणश्रेणिनिक्षेप सम्भव है उस प्रकार क्या यहाँपर भी सम्भव है या सम्भव नहीं है
ऐसी आशंका होनेपर निःशंक करनेके लिये आगेके प्रतिषेधरूप सूत्रवचनको कहते हैं—

* और गुणश्रेणि नहीं होती ।

§ २८. क्योंकि सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी कारणरूप गुणश्रेणि तो यहाँपर सम्भव है नहीं,
क्योंकि प्रथम सम्यक्त्वके ग्रहणसे अन्यत्र वह स्वीकार नहीं की गई है । संयमासंयम परिणाम-
निमित्तक गुणश्रेणि भी सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वस्वरूप प्राप्त करनेके पूर्व संयमासंयम-
गुणका गुणश्रेणिनिर्जरायें व्यापार होता है इसमें विरोध है । परन्तु जो उपशमसम्यक्त्वके
साथ संयमासंयमको प्राप्त होता है उसके गुणश्रेणिनिक्षेप सम्भव है । परन्तु वह यहाँपर
बिबक्षित नहीं है, इसलिए ठीक कहा है । अब यहाँपर बन्धापसरण क्रमके विखलानेके लिये
आगेके सूत्रका आरम्भ है—

* स्थितिबन्ध पिछले समयके स्थितिबन्धकी अपेक्षा पण्योपमका संख्यातवाँ
भाग हीन होता है ।

§ २९. यह सूत्र गतार्थ है ।

* अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु द्विद्विखंडयउक्कीरणकालो द्विद्वि-
बंधकालो च अणुो च अणुभागखंडयउक्कीरणकालो समगं समत्ता भवति ।

§ ३०. संखेजसहस्सेमेत्तेसु अणुभागखंडयसु गदेसु तदित्याणुभागखंडयुक्कीरण-
कालो पढमद्विद्विखंडयतन्बंधगद्दाओ च जुगवमेव परिसमत्ताओ चि भणिदं होदि ।

* तदो अणुं द्विद्विखंडयं पल्लियोवमस्स संखेज्जभागिगं अणुं द्विद्विबंध-
मणुमणुभागखंडयं च पट्टवेह ।

§ ३१. अपुव्वकरणपढमसमयादत्तद्विद्विखंडयद्विद्विबंधेसु अणुभागखंडयसहस्स-
गम्भिणेसु णिद्विदेसु संतेसु तदो विदियद्विद्विखंडयद्विद्विबंधेहि सह अणुमणुभागखंडयं
तदित्यमादवेदि चि भणिदं होह ।

* एवं द्विद्विखंडयसहस्सेसु गदेसु अपुव्वकरणद्दा समत्ता भवदि ।

§ ३२. एवमेदेण कमेण द्विद्विखंडयसहस्सेसु अणुोणुं पेक्खियुण विसेसहीणा-
यामेसु अणंतराणंतरादो विसेसहीणुक्कीरणद्दापडिचद्वेसु द्विद्विबंधोसरणसहस्ससहगदेसु
पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभावीसु गदेसु अपुव्वकरणद्दाए पज्जवसाणमेसो पत्तो
चि भणिदं होदि ।

* हजारों अनुभागकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिकाण्डक-उत्कीरणकाल,
स्थितिवन्धकाल और अन्य अनुभागकाण्डक उत्कीरणकाल ये तीनों एक साथ समाप्त
होते हैं ।

§ ३० संख्यात हजार अनुभागकाण्डकोंके व्यतीत होने पर वहाँ सम्बन्धी अनुभाग
काण्डक-उत्कीरणकाल तथा प्रथम स्थितिकाण्डक और स्थितिवन्धकाल एकसाथ ही समाप्त
होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तत्पश्चात् पन्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण अन्य स्थितिकाण्डकको,
अन्य स्थितिवन्धको और अनुभागकाण्डकको प्रारम्भ करता है ।

§ ३१. अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्रारम्भ किये गये हजारों अनुभागकाण्डकके
अविनाभावी स्थितिकाण्डक और स्थितिवन्धके समाप्त होने पर तदनन्तर दूसरे स्थितिकाण्डक
और स्थितिवन्धके साथ वहाँ सम्बन्धी अन्य अनुभागकाण्डकको आरम्भ करता है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है ।

* इस प्रकार हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होने पर अपूर्वकरणका काल
समाप्त होता है ।

§ ३२. इस प्रकार इस क्रमसे एक-दूसरेको देखते हुए विशेष हीन आयामवाले और
उत्तरोत्तर विशेषहीन उत्कीरण कालसे प्रतिबद्ध तथा प्रत्येक हजारों अनुभागकाण्डकोंके
अविनाभावी ऐसे हजारों स्थितिकाण्डकोंके और हजारों स्थितिवन्धापसरणोंके जाने पर यह
जीव अपूर्वकरणके अन्तको प्राप्त हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ३३. संपदि एवंविहमपुव्वकरणद्धं बोलेयुण से काले सव्वविसुद्धो संज्ञमासंज्ञमं पडिवज्जदि चि पदुप्पाएमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

* तद्यो से काले पढमसमयसंज्ञदासंज्ञदो जादो ।

§ ३४. पुव्विन्लमसंज्ञमपजायं छंडियुण देससंज्ञमपजाएण एसो जीवो करणादि-लद्धिवसेण परिणदो चि भणिदं होइ । एवं संज्ञदासंज्ञदभावं पडिवज्जिय तप्पढमसमय-प्पहुद्धि पुणो वि पडिसमयमणंतगुणाए संज्ञमासंज्ञमविसोहीए वहुमाणस्स तदवत्थाए

विशेषार्थ—यहाँ प्रथमोपशम समयक्त्वके साथ जो जीव संयमासंयमको ग्रहण करता है उसकी चर्चा नहीं है। वेदकसम्यग्दृष्टि या वेदक प्रायोग्य कालके भीतर स्थित जो मिथ्यादृष्टि जीव संयमासंयमको प्राप्त करता है उसकी चर्चा है। ऐसा जीव अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण इन दो करणोंका करके तदनन्तर नियमसे संयतासंयत हो जाता है ऐसे जीवके अपूर्वकरणमें कितने कार्य विशेष होते हैं यह यहाँ पर बतलाते हुए कहा गया है कि जैसे प्रथमोपशम समयक्त्वकी प्राप्तिके समय अपूर्वकरणकालके भीतर हजारों स्थितिकाण्डकघात और हजारों स्थितिवन्ध तथा प्रत्येक स्थितिकाण्डक कालके भीतर हजारों अनु-भागकाण्डकघात होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए। एक-एक स्थितिकाण्डकका काल अन्तर्मुहूर्त है पर उत्तरोत्तर यह कम होता गया है। स्थितिवन्धका काल स्थितिकाण्डकके कालके ही समान है। अतः जिस समय एक स्थितिकाण्डकका घात पूरा होता है उसी समय एक स्थितिवन्धका काल भी सम्पन्न हो जाता है। यहाँ जघन्य स्थितिकाण्डकका प्रमाण पल्योपमके संख्यातवर्गे भागप्रमाण है और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकका प्रमाण सागरोपमपृथक्त्व-प्रमाण है। जो अन्तर्मुहूर्त काल तक एक समान स्थितिवन्ध होता रहता है उससे पिछले स्थितिवन्धका काल समाप्त होने पर अगला स्थितिवन्ध पल्योपमका संख्यातवर्गे भाग न्यून होता है। अनुभागकाण्डकघात अप्रशस्त कर्मोंका ही होता है, प्रशस्त कर्मोंका नहीं। उसमें भी यह जीव एक अनुभागकाण्डक कालके भीतर अनन्त बहुभागप्रमाण अनुभागका घात कर लेता है। ऐसे हजारों अनुभागकाण्डकघात एक स्थितिकाण्डककालके भीतर सम्पन्न हो लेते हैं। नया स्थितिकाण्डकघात प्रारम्भ होनेके समय नया स्थितिवन्ध और नया अनुभाग काण्डकघात प्रारम्भ होता है। यहाँ अपूर्वकरणमें गुणश्रेणिरचना नहीं होती। जो संयमा-संयमसम्बन्धी उदयावलिबाह्य अवस्थित गुणश्रेणि रचना होती है वह संयमासंयमके प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयसे ही प्रारम्भ होती है। इस प्रकार इतनी विशेषताओंके साथ अपूर्वकरण सम्पन्न होता है।

§ ३३. अब इस प्रकारके अपूर्वकरणसम्बन्धी कालको व्यतीत कर तदनन्तर समयमें सर्वविशुद्ध होकर संयमासंयमको प्राप्त करता है इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* इसके बाद तदनन्तर समयमें वह प्रथम समयवर्ती संयतासंयत हो जाता है ।

§ ३४. पहलेकी असंयम पर्यायको छोड़कर यह जीव करण आदि लब्धियोंके कारण संयमासंयमरूप पर्यायसे परिणत होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार संयमा-संयमभावको प्राप्त कर उसके प्रथम समयसे लेकर फिर भी प्रति समय अनन्तगुणी संयमा-

कीरमाणकजमेदपदुप्यायणदुमुत्तरो सुत्तपवंधो—

* ताधे अपुठ्ठं द्विदिलंडयमपुठ्ठमणुभागखंडयमपुठ्ठं द्विदिवंधं च पडुबेदि ।

§ ३५. कुदो वुण करणपरिणामेसु उवसंहरिदेसु द्विदिलंडयादीणमेत्थ संभयो त्ति णासंका कायव्वा, करणपरिणामाभावे वि एयंताणुवद्विदसंजमासंजमपरिणाम-पाहम्मेण ठिदिघादाणमेत्थ पवुत्तीए विरोहाभावादो ।

§ ३६. संजमासंजमगुणमाहप्पेण गुणसेट्ठिणिजरा वि एत्थ पारद्धा त्ति पदुप्या-यणफल्लुत्तरसुत्तं—

* असंखेज्जे समयपबद्धे^१ ओकड्डियूण गुणसेटीए उदयावलिब्याहारे रत्थेदि ।

§ ३७. तं जहा—संजमासंजमगुणं पडिवण्णपटमसमए चेव उवरिमठिदिदव्व-

संयमसम्बन्धी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले जीवके उस अवस्थामें किये जानेवाले कार्योंके भेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

* उस समय वह अपूर्व स्थितिकाण्डक, अपूर्व अनुभागकाण्डक और अपूर्व स्थितिबन्धका प्रारम्भ करता है ।

§ ३५. शंका—करणपरिणामोंका अपसंहार हो जाने पर स्थितिकाण्डक आदि यहाँ पर कैसे सम्भव हैं ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करण परिणामोंका अभाव होने पर भी एकान्तानुवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुए संयमासंयमके परिणामोंकी प्रधानतावश स्थितिघात आदिकी यहाँ पर प्रवृत्ति होनेमें विरोधका अभाव है ।

विशेषार्थ—उक्त विधिसे संयमासंयमको प्राप्त करनेवाले जीवके परिणाम अन्तर्मुहूर्त काल तक नियमसे उत्तरोत्तर अनन्तगुणो विशुद्धिको लिये हुए होते हैं, इसलिए इन एकान्तानु-वृद्धिरूप परिणामोंके कालके भीतर स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात और स्थिति-बन्धापसरणरूप कार्यविशेष पूर्ववत् प्रथम समयसे ही प्रारम्भ होकर उक्त कालके भीतर नियमसे होते रहते हैं यह पूर्वोक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ३६. संयमासंयम गुणके माहात्म्यवश गुणश्रेणिनिर्जरा भी यहाँ पर प्रारम्भ हो जाती है इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* तथा असंख्यात समयप्रबद्धोंका अपकपण कर उदयावलि-बाह्य गुणश्रेणिकी रचना करता है ।

§ ३७. यथा—संयमासंयमगुणको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही उपरिम स्थितियोंके

भोकङ्कियूण गुणसेट्ठिणिकखेवं कुणमाणो उदयावलियञ्चमंतरे असंखेज्जलोगपडिमागियं दव्वं गोबुच्छायारेण णिकखवियूण तदो उदयावलियवाहिराणंतरट्ठिदीए असंखेजे समय-पबद्धे णिसिंचदि । तत्तो उवरिमाणंतरट्ठिदीए असंखेज्जगुणं णिसिंचदि । एवमसंखेज्ज-गुणाए सेट्ठीए णिसिंचमाणो गच्छह जाव अंतोमुहुत्तमुवरिं गंतूण गुणसेट्ठिसीसयं जादं ति । तदो असंखेज्जगुणहीणं । तत्तो विसेसहीणं जाव चरिमट्ठिदिमइच्छावणावलयियमेत्तेण अपत्तो ति । तदो एवंविहो गुणसेट्ठिणिकखेवो एत्थ पारद्धो ति सुत्तत्थणिच्छओ ।

* से काले तं चेव ट्ठिदिखांडयं, तं चेव अणुभागखांडयं, सो चेव ट्ठिदिबंधो, गुणसेट्ठी असंखेज्जगुणा ।

§ ३८. ट्ठिदि-अणुभागखांडयट्ठिदिबंधेषु ताव णत्थि णाणत्तं, पढमसमयादत्ताण-मेव तेसिमंतोमुहुत्तमेत्तसगुकीरणकालञ्चमंतरे अवट्ठिदभावेण पवुत्तिदंसणादो । गुणसेट्ठी पुण अण्णारिसी होइ, पढमसमयोक्तट्ठिदसमयपबद्धेहितो असंखेज्जगुणेण समयपबद्धे भोकङ्कियूण विदियसमए गुणसेट्ठीए णिकखेवदंसणादो । संपहि एत्थ गुणसेट्ठिणिकखेवो किं गल्लिदसेसायामो आहो अवट्ठिदो ति एदस्स णिण्णयकरणड्ढुत्तरसुत्तं—

* गुणसेट्ठिणिकखेवो अवट्ठिदगुणसेट्ठी तत्तिगो चेव ।

द्रव्यका अपकर्षण कर गुणश्रेणिनिक्षेप करता हुआ उदयावलिके भीतर असंख्यात लोकका भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उतने द्रव्यको गोपुच्छाकारसे निक्षिप्त कर उसके बाद उदयावलिके बाहर अनन्तर स्थितिमें असंख्यात समयप्रबद्धोंका सिंचन करता है । पुनः उससे उपरिम अनन्तर स्थितिमें असंख्यातगुणे द्रव्यका सिंचन करता है । इस प्रकार अन्त-मुहूर्त ऊपर जाकर गुणश्रेणिशीर्षके प्राप्त होने तक असंख्यात गुणित श्रेणिरूपसे सिंचन करता हुआ जाता है । तदनन्तर उपरिम स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका सिंचन करता है । इसके बाद अतिस्थापनावलिसे पूर्व अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर विशेषहीन द्रव्यका सिंचन करता है । इस तरह इस प्रकारका गुणश्रेणिनिक्षेप यहाँ पर प्रारम्भ किया यह सूत्रके अर्थका निश्चय है ।

* तदनन्तर समयमें वही स्थितिकाण्डक, वही अनुभागकाण्डक और वही स्थितिवन्ध होता है । मात्र गुणश्रेणि असंख्यातगुणी होती है ।

§ ३८. यहाँ स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थितिवन्धमें तो भेद नहीं है, क्योंकि प्रथम समयमें आरम्भ किये गये छन्ही सबकी अन्तमुहूर्तप्रमाण उत्कीरण कालके भीतर अवस्थितरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है । परन्तु गुणश्रेणि अन्य प्रकारकी होती है, क्योंकि प्रथम समयमें अपकर्षित किये गये समयप्रबद्धोंसे असंख्यातगुणे समयप्रबद्धोंका अपकर्षण कर दूसरे समयमें गुणश्रेणिमें निक्षेप देखा जाता है । अब यहाँ पर गुणश्रेणिनिक्षेप क्या गल्लि शेष आयामवाला होता है या अवस्थित होता है इस प्रकार इस बातका निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* गुणश्रेणिनिक्षेप अवस्थित गुणश्रेणि होनेसे उतना ही होता है ।

§ ३९. जदो एत्थ अवट्टिदगुणसेदी तदो तत्तिओ चव गुणसेटिणिक्खेवो होइ त्ति सुत्तथो । पढमसमयगुणसेटिणिक्खेवादो हेट्ठा एगट्टिदीए उदयावलिपग्भंतरं पविट्ठाए पुणो उवरि अण्णेगं ट्टिदिमग्भहियं कादूण गुणसेटिविण्णासमेसो करेदि त्ति एसो एदस्स मावत्थो ।

* एवं ट्टिदिखांडएसु बहुएसु गदेसु तदो अधापवत्तसंजदासंजधो जायदे ।

§ ४०. एतदुक्तं भवति—संजमासंजमगहणपढमसमयप्पहुडि जाव अंतमुहुत्तचरिम-समयो त्ति ताव पडिसमयमणतगुणाए विसोहीए वट्ठमाणो ट्टिदि-अणुभागखंडयट्टिदि-बंधोसरणसहस्साणि कुणमाणो तदवत्थाए एयंताणुवट्ठिसंजदासंजदो त्ति मण्णदे । एण्हं पुण त्कालपरिसमत्तीए सत्थाणविसोहीए पदिदो अधापवत्तसंजदासंजदववएसारिहो

§ ३९. यतः यहाँ पर अवस्थित गुणश्रेणि है अतः उतना ही गुणश्रेणिनिक्षेप होता है यह इस सूत्रका अर्थ है । प्रथम समयके गुणश्रेणिनिक्षेपमेंसे नीचे एक स्थितिके उदयाबलिके भीतर प्रविष्ट होने पर पुनः ऊपर अन्य एक स्थितिको अधिक करके यह जीव गुणश्रेणि विन्यास करता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—यहाँ संयमासंयमभावको प्राप्त हुए जीवके संयमासंयमरूप परिणामोंके साथ एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके निमित्तसे जो गुणश्रेणि रचना प्रारम्भ होती है वह एक तो उदयाबलिके बाहर उपरितन समयसे प्रारम्भ होती है । दूसरे वह अवस्थितस्वरूप होती है, इसलिए प्रत्येक समयमें अधस्तन स्थितिके गलनेसे जैसे-जैसे उदयाबलिसे उपरितन एक-एक स्थिति उदयाबलिमें प्रवेश करती है वैसे-वैसे प्रत्येक समयके गुणश्रेणिशीर्षसे उपरिम प्रत्येक स्थिति गुणश्रेणिविन्यासको प्राप्त होती रहती है । जैसे अन्यत्र गुणश्रेणि आयाम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए । इतना अवश्य है कि यह गुणश्रेणि-आयाम अवस्थितस्वरूप है । यद्यपि संयमासंयम गुणका माहात्म्य ही ऐसा है कि इस गुणके प्राप्त होने पर नियमसे अवस्थित गुणश्रेणिका प्रारम्भ हो जाता है । परन्तु यहाँ पर एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके कालमें होनेवाला गुणश्रेणिनिक्षेप पूर्व-पूर्व समयकी अपेक्षा उत्तर-उत्तर समयमें नियमसे असंख्यातगुणित समयप्रबद्धस्वरूप होता है । यह तो पिछले समयकी अपेक्षा अगले समयकी बात हुई । एक ही समयमें अधस्तन स्थितिसे गुणश्रेणि-शीर्षके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर उपरितन-उपरितन स्थितिमें असंख्यात गुणितक्रमसे द्रव्यका निक्षेप होता है । शेष कथन सुगम है

* इस प्रकार बहुत स्थितिकाण्डकोंके जाने पर तत्पश्चात् यह जीव अधःप्रवृत्त संयतासंयत हो जाता है ।

§ ४०. उक्त कथनका यह तात्पर्य है—संयमासंयमके प्रहणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तिम समय तक तो प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता हुआ हजारों स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक और स्थितिबन्धापसरणोंको करता हुआ उस अवस्थामें एकान्तानुवृद्धि संयतासंयत कहलाता है । परन्तु अब उस कालकी समाप्ति होने

झादो चि अधापवत्तसंज्ञदासंज्ञदो चि वा सत्थाणसंज्ञदासंज्ञदो चि वा एय्हो । तदो एत्तो पाए सत्थाणपाओग्गाओ संकिलेस-विसोहीओ समयविरोहेण परावत्तेदुमेसो ल्हदि चि वेत्तव्वं । तदो चेव एत्तो प्पहुडि द्विदि-अणुभागघादाणं च पवुत्ती णत्थि चि जाणावणट्टमुत्तरं सुत्तमवहण्णं—

अधापवत्तसंज्ञदासंज्ञदस्स ठिदिघादो वा अणुभागघादो वा णत्थि ।

§ ४१. करणविसोहिजणिदो जो पयत्तविसेसो एयंताणुवट्टिचरिमसमए विणट्टो । तदो एत्तो प्पहुडि द्विदि-अणुभागघादा ण पवत्ति चि भणिदं होदि ।

§ ४२. संपहि सत्थाणसंज्ञदासंज्ञदस्स द्विदि-अणुभागघादपडिसेहावसरे पत्ताव-सरमण्णं पि अत्थविसेसं पट्टुप्पाएमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

जदि संज्ञमासंज्ञमादो परिणामपच्चएण णिग्गदो, पुणो वि परिणाम-

पर स्वस्थान विभुद्धिको प्राप्त कर अधःप्रवृत्त संयतासंयत संज्ञाके योग्य हो जाता है। इसे चाहे अधःप्रवृत्तसंयतासंयत कहो या स्वस्थानसंयतासंयत कहो दोनोंका अर्थ एक ही है। इसलिये यहाँसे लेकर स्वस्थानके योग्य सकलेश और और विभुद्धिके परावर्तनको यह जीव आगमोक्त विधिसे प्राप्त करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। और इसीलिए यहाँसे लेकर स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातकी प्रवृत्ति नहीं होती इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

अधःप्रवृत्तसंयतके स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता ।

§ ४१. क्योंकि करणसम्बन्धी विभुद्धिके निमित्तसे हुआ प्रयत्नविशेष एकान्तानुवृद्धि विभुद्धिके अन्तिम समयमें नष्ट हो गया है, इसलिये यहाँसे लेकर स्थितिघात और अनुभागघात प्रवृत्त नहीं होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

विश्लेषार्थ—करणजन्य विभुद्धिको निमित्तकर जो प्रयत्न विशेष होता है वह एकान्तानुवृद्धिरूप विभुद्धिके काल तक ही पाया जाता है, इसलिए स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातरूप कार्यविशेष उसी काल तक पाये जाते हैं। इसके आगे संयतासंयतके परिणाम होते हैं वे एकान्तानुवृद्धिरूप विभुद्धिको लिये हुए न होकर अधःप्रवृत्तरूप ही होते हैं। अधःप्रवृत्तका अर्थ है संयतासंयतके योग्य कभी संकलेशरूप और कभी विभुद्धिरूप परिणामोंका होना। इन परिणामोंका प्राप्त संयतासंयत जीवकी दो संज्ञाएँ हैं—अधःप्रवृत्तसंयतासंयत और स्वस्थानसंयतासंयत। इन परिणामोंमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि इनको निमित्त कर यह जीव स्थितिकाण्डकघात आदि कार्यविशेष करे। पर ऐसे जीवके गुणश्रेणिनिर्जराका निषेध नहीं है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए ।

§ ४२. अब स्वस्थान संयतासंयतके स्थितिघात और अनुभागघातके प्रतिषेधके अवसर पर जिसका अवसर प्राप्त है ऐसा अन्य जो भी कार्यविशेष है उसका कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

यदि वह परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमसे गिर गया और फिर भी

पञ्चएण अंतोमुहुत्तेण आणीदो संजमासंजमं पडिवज्जइ, तस्स वि णत्थि
ट्टिदिघादो वा अणुभागघादो वा ।

§ ४३. जो जीवो संजदासंजदो होदूण केत्तियं पि कालमवट्ठिदो । पुणो
परिणामपच्चएण असंजदो होदूण ट्टिदि-अणुभागवट्ठिमकादूण पुणो वि सब्वलडु-
मंतोमुहुत्तकालम्भंतरे चैव परिणामपञ्चयवसेण संजमासंजमं पडिवज्जदि तस्स वि
सत्थाणसंजदासंजदस्सेव ट्टिदि-अणुभागघादा णत्थि, ट्टिदि-अणुभागवट्ठीए विणा
संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स तप्पाओग्गविमोहिसंबंधं मोत्तूण करणपरिणामासंभवादो ।
एत्थ परिणामपच्चएणे त्ति धुत्ते तिच्चविराहणाणिबंधणवज्जडुसण्णिहाणेण विणा
अंतरंगपच्चएण तप्पाओग्गसंकिलेसाणुविद्धेण जीवादिपयत्थे अदूसिय हेट्ठिमगुण-
ट्ठाणं गंतूण पुणो वि वज्जकारणणिरवेक्खेण तप्पाओग्गविसुद्धिसहगयं मंदसंवेग-
परिणामेणेव संजमासंजममाणीदो त्ति धेत्तव्वं ।

परिणामोंके निमित्तसे अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा वापिस लाया गया संयमासंयमको प्राप्त
होता है तो उसके भी स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता ।

§ ४३. जो जीव संयतासंयत होकर कुछ ही काल तक रहा । पुन परिणामोंके निमित्तसे
असंयत होकर स्थिति और अनुभागमें वृद्धि न कर फिर भी अतिशीघ्र अन्तर्मुहूर्त कालके
भीतर ही परिणाम प्रत्ययवश संयमासंयमको प्राप्त होता है उसके भी स्वस्थानसंयतासंयतके
समान स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता, क्योंकि स्थितिवृद्धि और अनुभागवृद्धिके
बिना संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके तत्प्रायोग्य विशुद्धिके सम्बन्ध बिना करण परि-
णामोंका होना असम्भव है । यहाँ पर 'परिणामपञ्चएण' ऐसा कहने पर जो तीव्र विराधनाका
कारण है ऐसे बाह्य पदार्थका सम्पर्क हुए बिना तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोंसे युक्त अन्तरंग
कारणके द्वारा जीवादि पदार्थोंको दूषित न कर अधस्तन गुणस्थानमें जाकर फिर भी बाह्य
कारणनिरपेक्ष तत्प्रायोग्य विशुद्धिके साथ मन्द संवेगरूप परिणामके द्वारा ही संयमासंयमको
प्राप्त कराया गया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो जीव अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणपूर्वक संयतासंयत हो कर
तीव्र विराधनाको कारणभूत बाह्य सामग्रीका सन्निधान हुए बिना केवल तत्प्रायोग्य संक्लेश
परिणामके कारण अधस्तन गणस्थानको प्राप्त हुआ, फिर भी न तो उसको जीवादि पदार्थोंमें
दोष दिखानेकी प्रवृत्ति ही हुई और न ही उसे तीव्र विशुद्धिके बाह्य कारणोंका समागम ही प्राप्त
हुआ, मात्र उसका अतिशीघ्र लघु अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर बिना बाह्य कारणके सहज ही
ऐसा मन्दसंवेगरूप परिणाम हुआ जिससे वह पुनः संयमासंयम गुणको प्राप्त हो गया तो ऐसे
जीवके भी स्वस्थान संयतासंयतके समान स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातरूप
कार्यविशेष नहीं होते । यहाँ जो मन्द संवेगरूप परिणाम होनेका निर्देश किया है और उसे
बाह्य कारण निरपेक्ष कहा है । इससे यह अर्थ सुतरां फलित होता है कि सभी कार्य बाह्य
कारणसापेक्ष ही होते हैं ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है ।

§ ४४. संपहि सत्थाणविसोहीए पदिदस्स संजदासंजदस्स जहा द्विदि-अणुभाग-घादा णत्थि, किमेवं गुणसेदिणिज्जराए वि णत्थि संबवो आहो अत्थि ति पुच्छिदे तणिण्णयकरणद्दुत्तरसुत्तं भणइ—

* जाव संजदासंजदो ताव गुणसेदिं समए समए करेदि ।

§ ४५. जाव संजदासंजदो होदूण चिद्धदि ताव समए समए असंखेज्जे समयपवद्धे ओकड्डियूण गुणसेदिणिज्जरं करेदि, ण तत्थ पडिसेहो अत्थि चि वुत्तं होइ । किं कारणमेवं होदि ति चे ? ण, संजमासंजमगुणसेदिणिगंधणाए गुणसेदि-णिज्जराए जाव सो गुणो ण फिद्धदि ताव पवुत्तीए बाहाणुवलंभादो । तदो संजदा-संजदगुणसेदिणिज्जराकालो जहण्णेणंतोमुहुत्तमेत्तो, उक्कस्सेण देहणपुव्वकोडिमेत्तो च्चि घेत्तज्जो । किं पुण एदम्मि काले गुणसेदिणिज्जरं कुणमाणो संकिलेस-विसोहिअद्दासु सव्वत्थेवाविसेसेण असंखेज्जगुणं पदेसग्गमोकड्डियूण समये समये गुणसेदिं करेदि, किमाहो संकिलेस-विसोहीसु परियत्तमाणस्स संकिलेसकाले हीयमाणो विसोहिकाले च वट्टमाणो गुणसेदिणिक्खेवो होदि ति एदिस्से पुच्छाए गिरारेणी-करणद्दुत्तरसुत्तविण्णामो—

§ ४४ अब स्वस्थान विशुद्धिसे गिरे हुए संयतासंयतके जिसप्रकार स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होते, क्या इसप्रकार गुणश्रेणिनिर्जरा भी सम्भव नहीं है या सम्भव है ऐसा पूछनेपर उसका निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* किन्तु जब तक संयतासंयत है तब तक समय-समयमें गुणश्रेणिको करता है ।

§ ४५. जब तक संयतासंयत होकर रहता है तब तक समय-समयमें असंख्यात समय-प्रवद्धोंका अपकर्षणकर गुणश्रेणिनिर्जरा करता है, वहाँ उसका निषेध नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—ऐसा होता है इसका क्या कारण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जब तक संयमासंयम गुण नष्ट नहीं होता तब तक संयमा-संयम गुणश्रेणिनिमित्तक श्रेणिनिर्जराकी प्रवृत्तिमें कोई बाधा नहीं उपलब्ध होती ।

इसलिये संयतासंयत गुणश्रेणिनिर्जराका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुल कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । तो क्या इस कालमें गुणश्रेणि-निर्जरा करता हुआ संक्लेशके कालमें और विशुद्धिके कालमें सर्वत्र ही सामान्यरूपमें असंख्यातगुणे प्रवेशपुद्गलका अपकर्षण कर समय-समयमें गुणश्रेणि करता है या क्या संक्लेश और विशुद्धिमें परिवर्तन करनेवाले उक्त जीवके संक्लेशकालमें घटता हुआ और विशुद्धि कालमें वृद्धिगत गुणश्रेणिको होता है इस प्रकार इस पूछाके निराकरण करनेके लिये आगेके सूत्रका विन्यास है—

* विसुज्झंतो वि असंखेज्जगुणं वा संखेज्जगुणं वा संखेज्जभागुत्तरं वा असंखेज्जभागुत्तरं वा करेदि संकिलिस्संतो एवं चेव गुणहीणं वा विसेस-हीणं वा करेदि ।

§ ४६. एयंताणुवड्ढिकालम्भंतरे पडिसमयमणंतगुणवड्ढिदेहिं परिणामेहिं समए समय असंखेज्जगुणदव्वमोकड्डियूण गुणसेट्ठिणिक्खेवं करेदि, तत्थ पयारंतरासंभवादो । सत्थानासंजदासंजदो वुण विसुज्झंतो छव्विहाए वड्ढीए वड्ढिदेहिं परिणामेहि ओकड्डिज्ज-माणदव्वस्स चउव्विहाए वड्ढीए कारणभूदेहिं जहासंभवं परिणममाणो परिणामाणुसारेणेव गुणसेट्ठिणिक्खेवमारमेह । मकिलिस्संतो वि एवमेव छव्विहाए हाणीए परिणामसंबंधमणुहवंतो चउव्विहाए हाणीए गुणसेट्ठिविरचणं करेदि । गुणसेट्ठि-आयामो पुण सव्वत्थावड्ढिदो चेव होइ ति घेत्तव्वो ।

* विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ भी उक्त जीव प्रति समय असंख्यातगुणे, संख्यातगुणे, संख्यात भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक प्रदेशपुञ्जका गुणश्रेणिमें निक्षेप करता है । तथा संक्लेशको प्राप्त हुआ उक्त जीव इसी प्रकारसे असंख्यातगुणे हीन, संख्यातगुणे हीन, संख्यात भागहीन या असंख्यात भाग हीन प्रदेशपुञ्जका गुणश्रेणिमें निक्षेप करता है ।

§ ४६. एकान्तानुवृद्धि कालके भीतर प्रति समय अनन्तगुणे वृद्धिरूप परिणामोंके कारण समय-समयमें असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षणकर गुणश्रेणिनिक्षेप करता है, क्योंकि वहाँपर कोई दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है । परन्तु स्वस्थान संयतासंयत विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ छह प्रकारकी वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हुए तथा अपकर्षित होनेवाले द्रव्यकी चार प्रकारकी वृद्धिके कारणभूत परिणामोंसे यथासम्भव परिणमन करता हुआ परिणामोंके अनुसार ही गुणश्रेणिनिक्षेपका आरम्भ करता है । संक्लेशको प्राप्त होता हुआ भी इसी प्रकार छह प्रकारकी हानिरूपसे परिणामोंके सम्बन्धको अनुभव करता हुआ चार प्रकारकी हानिद्वारा गुणश्रेणि-रचना करता है । परन्तु गुणश्रेणि-आयाम सर्वत्र अवस्थित ही होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो जीव करणपरिणामपूर्वक संयत होता है उसके अन्तर्मुहूर्तकाल तक एकान्तानुवृद्धिरूप ही विशुद्धि होती है जो प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धिरूप ही होती है, अतः उसके अनुसार समय-समयमें असंख्यातगुणे द्रव्यका आकर्षणकर संयतासंयत जीव गुणश्रेणि-निक्षेप करता है । किन्तु जो स्वस्थान संयतासंयत है उसकी विशुद्धि अनन्त भागवृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धिके भेदसे छह प्रकारकी होती है । अतः उसके जिस समय जिस प्रकारके विशुद्धिरूप परिणाम होते हैं उसके अनुसार वह जो गुणश्रेणिनिक्षेप करता है वह चार प्रकारका होता है । कोई गुणश्रेणिनिक्षेप असंख्यात गुणवृद्धिरूप होता है, कोई गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यात-गुणवृद्धिरूप होता है, कोई गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यात भागहानिरूप होता है और कोई गुण-श्रेणिनिक्षेप असंख्यात भागवृद्धिरूप होता है । यह तो स्वस्थान संयतासंयतके विशुद्धिकी अपेक्षा कथन हुआ । संक्लेशकी अपेक्षा विचार करनेपर वह भी अनन्त गुणहानि, असंख्यात

§ ४७. एवमेदेण सुत्तेण मस्याणसंज्ञदासंज्ञदस्स गुणसेट्ठिणिक्खेवगयविसेसं जाणाविय संपहि जो मंक्किलेसभारेणोद्दुद्धो संजमासंजमादो णिप्पड्ढिदो संतो ड्ढिदि-अणुभागे वड्ढाविय पुणो तप्पाओग्गेण कालेण संजमासंजमग्गहणाहिमुहो होइ तस्स केरिसी परूवणा त्ति एवंविहासंकाए णिण्णयविहाणड्ढमुत्तरसुत्तावयारो—

* जदि संजमासंजमादो पडिबदिदूण आगुंजाए मिच्छत्तां गंतूण तदो संजमासंजमं पडिबज्जइ, अंतोमुहुत्तेण वा विप्पकट्टेण वा कालेण, तस्स वि संजमासंजमं पडिबज्जमाणयस्स एदाणि चैव करणाणि कादब्बाणि ।

§ ४८. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे । तं जहा—अगुंजनमागुंजा, संक्लेश-भरेणांतराघूर्णनमित्यर्थः । तदो मंक्किलेसभरेण पेत्तिलिदो संतो जो संजमासंजमादो मिच्छत्तपायाले णिवदिय पुणो वि अंतोमुहुत्तेण वा विप्पकट्टेण वा कालेणाविणड्ढ-वेदगपाओग्गभावेण विसोहिमावूरिय संजमासंजमं पडिबज्जइ तस्स तहा संजमा-

गुणहानि, संख्यात गुणहानि, सख्यात भागहानि असंख्यात भागहानि और अनन्त भागहानिके भेद छह प्रकारका होता है । अतः उसके जिम समय जिस प्रकारका संक्लेश परिणाम होता है उसके अनुसार वह जो गुणश्रेणिनिक्षेप करता है वह भी चार प्रकारका होता है—कोई गुणश्रेणिनिक्षेप असंख्यात गुणहानिरूप होता है, कोई संख्यात गुणहानिरूप होता है, कोई संख्यात भागहानिरूप होता है और कोई असंख्यात भागहानिरूप होता है । इतना अवश्य है कि गुणश्रेणिमें जिस द्रव्यका निक्षेप होता है वह कम हो या अधिक हो, परन्तु गुणश्रेणि-आयाम सर्वत्र अवस्थितरूपसे एकसमान ही होता है ।

§ ४७. इस प्रकार इस सूत्रद्वारा न्वस्थान सयतासंयतके गुणश्रेणिनिक्षेपगत विशेषताका ज्ञान कराकर अब संक्लेशभारसे व्याप्त जो जीव संयमासंयमसे पतित होता हुआ स्थिति और अनुभागको बढ़ाकर पुनः तत्प्रायोग्य कालके द्वारा संयमासंयमके ग्रहणके सन्मुख होता है उसको प्ररूपणा किस प्रकारकी होती है इस तरह इस प्रकारकी आशंकाके होनेपर निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार है—

* यदि कोई जीव आगुंजावन्न अर्थात् संक्लेशकी बहुलतासे प्रेरित हो संयमा-संयमसे च्युत होता है और मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त कालसे या विप्रकृष्ट कालसे संयमासंयमको प्राप्त होता है तो संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले उसके भी ये ही करण करणीय होते हैं ।

§ ४८. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—आगुंजा शब्दकी व्युत्पत्ति है—आगुंजन-मागुंजा । संक्लेशभरसे भीतर ही भीतर उद्वेलित होना यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इसलिये संक्लेशभरसे प्रेरित हुआ जो जीव संयतासंयतगुणसे मिथ्यात्वरूपी पातालमें गिरकर फिर अन्तर्मुहूर्त कालसे या जिस कालके भीतर वेदकप्रायोग्य भाव नष्ट नहीं हुआ है ऐसे विप्रकृष्ट

संजमं पडिबज्जमाणस्स एदाणि चेवाणंतरणिहिट्टाणि दोण्णि करणाणि कादन्वाणि भवन्ति, अण्णहा आगुंजावसेण वट्ठाविदट्ठिदि-अणुभागाणं घादाणुववत्तीदो ।

§ ४९. एवमेत्तिण पबंधेण संजमासंजमलद्धीए परूवणं समाणिय संपहि पयदन्धविसयपदविसेसपडिबद्धमप्पाबहुअदंडयं पदपरिव्रणबीजपदावलंबणेण परूवेमाणो तन्विसयमेव पइण्णावकमाह—

* तदो एविस्से परूवणाए समत्ताए संजमासंजमं पडिबज्जमाणगस्स पहमसमयअपुच्चकरणादो जाव संजदासंजदो एयंताणुवट्ठीए चरित्ता-चरित्तलद्धीए वट्ठदि, एदम्हि काले ट्टिदिबंध-ट्टिदिसंतकम्म-ट्टिदिसंडयाणं जहण्णुक्कस्सियाणमाबाहाणं जहण्णुक्कस्सियाणमुक्कीरणद्दाणं जहण्णुक्कस्सियाणं अण्णेसिं च पदाणमप्पाबहुअं वत्तइस्सामो ।

§ ५०. सुगममेदं पइण्णावकं । णवरि एत्थ चरित्ताचरित्तलद्धीए त्ति वुत्ते संजमासंजमलद्धीए चेव पजायणिहेसो एसो त्ति गहियव्वो, देसचरित्तलद्धीए

कालसे विजुद्धिको पूर कर संयमासंयमको प्राप्त होता है, संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले उस जीवके ये अनन्तर पूर्व निर्दिष्ट किये गये दो करण करणीय होते है, अन्यथा आगुंजावश बदाई गई स्थिति और अनुभागका घात नहीं बन सकता ।

विशेषार्थ—यहाँपर जो संयतासंयत अत्यन्त संकलेश परिणामोंके कारण संयमासंयम गुणसे च्युत होकर मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त हुआ है वह यदि अन्तर्मुहूर्तकालमें या वेदक प्रायोग्य कालके भीतर दीर्घ कालके बाद पुन संयमासंयमको प्राप्त करता है तो अधः-प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण करके ही वह इस गुणको प्राप्त कर सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं यह स्पष्टीकरण यहाँपर किया गया है ।

§ ४९. इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा संयमासंयमलब्धिका कथन समाप्त करके अब प्रकृत अर्थविषयक पदविशेषोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अल्पबहुत्वदण्डकका पदपूरितरूप बीजपदोंका अवलम्बन लेकर कथन करते हुए तद्विषयक ही प्रतिज्ञावाक्यको कहते हैं—

* पश्चात् इस प्ररूपणाके समाप्त होनेपर संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुवृद्धिरूप विजुद्धिके निमित्तसे चरित्ताचरित्तलब्धि अर्थात् संयमासंयमलब्धिकी वृद्धि होने तक इस कालके भीतर जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध, स्थितिसत्कर्म और स्थितिकाण्डकोंका, जघन्य और उत्कृष्ट आबाधाओंका, जघन्य और उत्कृष्ट उन्कीरणकालोंका तथा अन्य पदोंका अल्पबहुत्व बतलावेंगे ।

§ ५०. यह प्रतिज्ञावाक्य सुगम है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर चरित्ताचरित्त-लब्धि देखा कहनेपर संयमासंयमलब्धिका ही यह पर्यायनिर्देश है ऐसा ग्रहण करना चाहिए,

तव्ववएसपडिलंमे विरोहाभावादो ।

* तं जहा ।

§ ५१. सुगममेदं पृच्छावक्कं ।

* सव्वत्थोवा जहणिया अणुभागखंडयउत्कीरणद्धा ।

§ ५२. एसा एयंताणुवट्टिकालचरिमाणुभागखंडयउत्कीरणद्धा सव्वजहण्ण-
भावेण गहेयव्वा १ ।

* उक्कस्सिया अणुभागखंडयउत्कीरणद्धा विसेसाहिया ।

§ ५३. अपुव्वकरणपढमाणुभागखंडयविसये एसा गहेयव्वा २ ।

* जहणिया ट्टिदिखंडयउत्कीरणद्धा जहणिया ट्टिदिबंधगद्धा च
दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ ।

§ ५४. एदाओ एयंताणुवट्टिकालचरिमावत्थाए गहेयव्वाओ ३ ।

* उक्कस्सियाओ विसेसाहियाओ ।

§ ५५. कुदो ? अपुव्वकरणपढमट्टिदिखंडयतव्वबंधगद्धाणमिहावलंविचयादो ४ ।

क्योंकि देशचारित्रलब्धिकी उस संज्ञाके प्राप्त होनेमें विरोधका अभाव है ।

* वह जैसे ।

§ ५१ यह पृच्छावाक्य सुगम है ।

* जघन्य अनुभागकाण्डकका उत्कीरण काल सबसे स्तोक है ।

§ ५२. एकान्तानुवृद्धि कालके भीतर जो अन्तिम अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल है
उसे यहाँ सबसे जघन्यरूपसे ग्रहण करना चाहिए १ ।

* उससे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकका उत्कीरणकाल विशेष अधिक है ।

§ ५३. अपूर्वकरणके प्रथम अनुभागकाण्डकविषयक यह उत्कीरणकाल ग्रहण करना
चाहिए २ ।

* उससे जघन्य स्थितिकाण्डक-उत्कीरणकाल और जघन्य-स्थितिवन्धकाल ये
दोनों तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं ।

§ ५४. एकान्तानुवृद्धिकालकी अन्तिम अवस्थाके इन दोनोंको ग्रहण करना चाहिए ३ ।

* उनसे पूर्वोक्त उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं ।

§ ५५. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम स्थितिकाण्डक और स्थितिवन्धके कालोंका यहाँ
अवलम्बन लिया गया है ४ ।

* पदमसमयसंजदासंजदप्पहुडि जं एगंताणुवड्डीए वड्ढि चरित्तम-
चरित्तपज्जयेहिं एसो वड्ढिकालो संखेज्जगुणो ।

§ ५६. एसो वि एयंताणुवड्ढिकालो अंतोमुहुत्तपमाणो चेष, किंतु संखेज्ज-
सहस्समेत्तद्विदिखंडय-तन्वंधकालगन्धिणो, तेण संखेज्जगुणो जादो ५ ।

* अपुव्वकरणद्धा संखेज्जगुणा ।

§ ५७. को गुणगारो ? तप्पाओग्गसंखेज्जमेत्तरूवाणि ६ । एत्थाणियद्विकरणद्धा
णत्थि त्ति ण तत्थिसयमप्पावहुअचित्तणं कयं ।

* जहरिणया संजमासंजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छत्तद्धा संजमद्धा
असंजमद्धा सम्मामिच्छत्तद्धा च एदाओ छप्पि अद्धाओ तुल्लाओ संखेज्ज-
गुणाओ ।

§ ५८. कुदो एदासि छण्हं जहण्णद्धानं सरिमत्तमवगम्मदे ? एदम्हादो चेष
सुत्तादो । तदो एदाओ छप्पि अद्धाओ अण्णोणणं समाणाओ होदूण अपुव्वकरणद्धादोः
संखेज्जगुणाओ त्ति घेत्तव्वं ७ ।

* गुणसेही संखेज्जगुणा ।

§ ५९. एत्थ गुणसेहि त्ति सामण्णणिहेसे वि पयरणवसेण संजमासंजम-

* उनसे संयतासंयतके प्रथम समयसे लेकर एकान्तानुवृद्धिके द्वारा चारित्र्या-
चारित्रपर्यायरूपसे जो वृद्धि होती है वह वृद्धिकाल संख्यातगुणा है ।

§ ५६ यह एकान्तानुवृद्धिकाल भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही है, क्योंकि इस कालमें संख्यात
हजार स्थितिकाण्डकाल और स्थितिवन्धकाल होते हैं, इनलिये वह संख्यातगुणा हो
जाता है ५ ।

* उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है ।

§ ५७ गुणकार क्या है ? तत्प्रायोग्य संख्यात अंक गुणकार है ६ । यहाँ पर अनिवृत्ति-
करणकाल नहीं है, इसलिए तद्विषयक अल्पबहुत्वका विचार नहीं किया ।

* उससे जघन्य संयमासंयमकाल, सम्यक्त्वकाल, मिथ्यात्वकाल, संयमकाल,
असंयमकाल और सम्यग्मिथ्यात्वकाल ये छह काल परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं ।

§ ५८. शंका—इन छहोंके जघन्य कालका सदृशपना कैसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है । इसलिए ये छहों काल परस्पर सदृश होकर
अपूर्वकरणके कालसे संख्यातगुणे हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए ७ ।

* उनसे गुणश्रेणि संख्यातगुणी है ।

§ ५९. यहाँ पर गुणश्रेणि ऐसा सामान्य निर्देश करने पर भी प्रकरणवश संयमासंयम

गुणसेही चैव घेतत्वा । तदायामो पुव्विन्लजहण्णद्वाहितो संखेज्जगुणो । कुदो एदं परिच्छिण्णं ? एदम्हादो चैव सुत्तादो ८ ।

* जहणिया आबाहा संखेज्जगुणा ।

§ ६०. एयंताणुवट्ठिकालचरिमसमयबंधविसए एसा घेतत्वा^१ । सेसं सुगमं ९।

* उक्कस्सिया आबाहा संखेज्जगुणा ।

§ ६१. अपुव्वकरणपढमसमयाढत्तबंधविसए तदवलवणादो एसा वि अंतो-
मुहुत्तपमाणा चैव ढोदूण पुव्विन्लादो संखेज्जगुणा चि घेतत्वा १० ।

* जहणायं द्विदिखंडयमसंखेज्जगुणं ।

§ ६२. पुव्विन्नमंतोमुहुत्तपमाणमेदं पुण एयंताणुवट्ठिकारिमसमयविसए पलिदो-
वमस्स संखेज्जदिभागमेत्तं^२ जहण्णद्विदिखंडयं गहिदं । तदो असंखेज्जगुणं जादं ११।

* अपुव्वकरणस्स पढमं जहणायं द्विदिखंडयं संखेज्जगुणं ।

§ ६३. एदं पि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तं चैव, कित्तु पुव्विन्लादो

गुणअणि ही लेनी चाहिए । उसका आयाम पूर्वके जघन्य कालसे संख्यातगुणा है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसो सूत्रसे जाना जाता है ८ ।

* उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है ।

§ ६० एकान्तानुवट्ठिकालके अन्तिम समयमें होनेवाले बन्धको यह आबाधा लेनी चाहिए । शेष कथन सुगम है ९ ।

* उससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है ।

§ ६१. अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्राप्त बन्धविषयक आबाधाका यहाँ अवलम्बन लिया है । यह भी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही होकर पूर्वकी आबाधासे संख्यातगुणी है ऐसा ग्रहण करना चाहिए १० ।

* उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है ।

§ ६२. पूर्व सूत्रनिर्दिष्ट उत्कृष्ट आबाधा अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । किन्तु यह एकान्तानु-
वट्ठिके अन्तिम समयमें होनेवाला पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण जघन्य स्थितिकाण्डक
लिया गया है, इसलिए असंख्यातगुणा हो गया है ११ ।

* उससे अपूर्वकरणका प्रथम जघन्य स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ ६३. यह भी पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण ही है । किन्तु पूर्व सूत्रनिर्दिष्ट स्थिति-

संखेज्जसहस्समेत्तद्धिदिस्वंडयगुणहाणीओ हेट्ठा ओसरियूणापुव्वकरणपढमसमये जादं ।
तदो संखेज्जगुणत्तमेदस्स सिद्धं १२।

पल्लिदोवमं संखेज्जगुणं ।

§ ६४. सुगमं १३।

उक्कस्सयं द्विदिस्वंडयं संखेज्जगुणं ।

§ ६५. कुदो ? सागरोवमपुधत्तपमाणत्तादो १४।

जहण्णाओ द्विदिस्वंधो संखेज्जगुणो ।

§ ६६. किं कारणं ? एयंताणुवट्ठिचरिमसमए अंतोकोडाकोडिमेत्तजहण्णाट्ठिदि-
बंधस्स गहणादो १५ ।

उक्कस्सओ द्विदिस्वंधो संखेज्जगुणो ।

§ ६७. कुदो ? अपुव्वकरणपढमसमयट्ठिदिस्वंधस्स गहणादो १६।

जहण्ययं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ ६८. एयंताणुवट्ठिकालचरिमसमयम्मि जहण्णाट्ठिदिसंतकम्मस्स विवक्खि-
यत्तादो १७।

काण्डकसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डक गुणहानियाँ नीचे सरक कर यह अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्राप्त हुआ है, इसलिए यह संख्यातगुणा सिद्ध होता है १२।

उससे पल्योपम संख्यातगुणा है ।

§ ६४ यह सूत्र सुगम है १३।

उससे उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक संख्यातगुणा है ।

§ ६५. क्योंकि वह सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण है १४।

उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।

§ ६६. क्योंकि एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमें होनेवाले अन्तःकोडाकोडीप्रमाण जघन्य स्थितिबन्धका यहाँ पर ग्रहण किया है १५ ।

उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।

§ ६७. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें होनेवाले स्थितिकाण्डकका यहाँ प्रहण किया है १६ ।

उससे जघन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ ६८. क्योंकि एकान्तानुवृद्धिकालके अन्तिम समयमें होनेवाला जघन्य स्थितिसत्कर्म यहाँ पर विवक्षित है १७ ।

* उक्कस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ ६९. अपुव्वकरणपट्टमसमयविसये घादेण विणा अंतोकोडाकोडिमैत्तुकस्स-
द्विदिसंतकम्मस्स गहणादो १८ । एवं ताव पदपरिवूरणवीजपदावलंबणेपेदमप्पाबहुअं
परुविय पुणो संज्ञदासंज्ञदविसयमेव परुवणंतरमाटवेइ—

* संज्ञदासंज्ञदाणमट्ट अणियोगद्वाराणि । तं जहा—संतपरुवणा
दव्वपममाणं खेत्तं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुअं च ।

§ ७०. संज्ञदासंज्ञदाणं परुवणट्टदाए एदाणि अट्ट अणियोगद्वाराणि
णादव्वणि भवन्ति, अण्णहा तव्विसयविसेसणिण्णयाणुप्पत्तीदो त्ति भणिदं होइ ।
गाहासुत्तणिवंधेण विणा कधमेदेसिमैत्थ परुवणा त्ति णासंकणिज्जं, गहासुत्तस्म
सूचणामेत्तवावदस्स संज्ञदासंज्ञदविसयासेसपरुवणाए उवलक्खणभावेण पवुत्तिअब्भुव-
गमादो । एदेसिं च विहासा सुगमत्ताहिप्पाएण चुण्णिसुत्ते ण पवंचिदा । तदो
एत्थ जीवट्टाणभंगाणुसारेण अट्टण्हमणिओगद्वाराणं परुवणा जाणिय कायव्वा ।

* उससे उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ ६९. क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें घातके विना प्राप्त अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण
उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्मका यहाँ ग्रहण किया है १८ । इस प्रकार सर्वप्रथम पदपूरितरूप बोधपदोके
अवलम्बनसे इस अल्पबहुत्वका कथन कर पुनः संयतासंयतविषयक ही दूसरी प्ररूपणाका
आरम्भ करते हैं—

* संयतासंयतविषयक आठ अनुयोगद्वार हैं ज्ञातव्य । यथा—सत्प्ररूपणा, द्रव्य-
प्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भागाभाग और अल्पबहुत्व ।

§ ७० संयतासंयतोंकी प्ररूपणारूप प्रयोजन होने पर ये आठ अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं,
अन्यथा तद्विषयक विशेष निर्णय नहीं हो सकता यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—गाथासूत्रमें ये आठ अनुयोगद्वार निबद्ध नहीं हैं, फिर उसके बिना उनकी यहाँ
प्ररूपणा कैसे की जाती है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूचनामात्रमें व्यापार करनेवाले
गाथासूत्रकी संयतासंयतविषयक अज्ञेय प्ररूपणामें उपलक्षणरूपसे प्रवृत्ति स्वीकार की गई है ।
किन्तु इनका विशेष व्याख्यान सुगम है, इस अभिप्रायसे चूर्णिसूत्रमें इसका विवेचन नहीं
किया, इसलिये वहाँ पर जीवस्थानमें की गई प्ररूपणाके अनुसार आठ अनुयोगद्वारोंकी
प्ररूपणा जानकर करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ संयतासंयत जीवोसम्बन्धी उक्त आठ अनुयोगद्वारोंका अवलम्बन लेकर
कथन करते हैं । यथा—सत्प्ररूपणा—ओषसे संयतासंयत जीव हैं । आदेशसे तिर्यञ्जगति और
मनुष्यगतिमें संयतासंयत जीव हैं । संख्या—ओषसे संयतासंयत जीव पल्योपमके असंख्यातवें

§ ७१. एवमेदेसु अट्टसु अणियोगद्वारेसु विहासिय समत्तेसु पुणो वि संजमा-
संजमलद्धिविसयं परूवणंतरं वचइस्सामो त्ति जाणावणट्टमुत्तरसुत्तारंभो—

* एदेसु अणियोगद्वारेसु समत्तेसु तिक्कमंदाए सामित्तमप्पाबहुअ
च कायव्वं ।

§ ७२. अट्टहि अणियोगद्वारेहि संजदासंजदाणं परूवणाए समत्ताए किमट्ट-

भागप्रमाण हैं। आदेशसे तिर्यञ्चगतिमें संयतासंयत जीव पत्थोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण
हैं और मनुष्यगतिमें संयतासंयत जीव संख्यात है। क्षेत्र—ओघसे स्वस्थान, विहारवत्स्व-
स्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक पदकी अपेक्षा संयतासंयत जीवोंका क्षेत्र
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार आदेशसे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिमें भी
यथासम्भव पदोंकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए। स्पर्शन—ओघसे संयतासंयत जीवोंने
स्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिकपदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मारणान्तिक पदकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे
कुछ कम छह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आदेशसे तिर्यञ्चगतिमें इसी प्रकार
जानना चाहिए। मनुष्यगतिमें संयतासंयतोंने सम्भव सब पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। काल—एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा काल दो
प्रकारका है। एक जीवकी अपेक्षा ओघसे कालका विचार करने पर जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तपृथक्त्व कम एक पूर्वकोटिवर्ष प्रमाण है। आदेशसे
तिर्यञ्चगतिमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल इसी प्रकार जानना चाहिए।
मनुष्यगतिमें एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण ही है। मात्र उत्कृष्ट काल
आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। ओघसे और आदेशसे दोनों गतियोंमें
नाना जीवोंकी अपेक्षा काल सर्वदा है। अन्तर—ओघसे एक जीवकी अपेक्षा जघन्य
अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है।
इसी प्रकार आदेशसे दोनों गतियोंकी अपेक्षा यथासम्भव अन्तरकाल जानना चाहिए। नाना
जीवोंकी अपेक्षा ओघसे और आदेशसे दोनों गतियोंमें अन्तरकाल नहीं है। भागाभाग—
ओघसे संयतासंयत एक पद है, इसलिए भागाभाग नहीं है। परस्थानकी अपेक्षा संयता-
संयत जीव सब संसारी जीवोंके अनन्तवे भागप्रमाण है। आदेशसे तिर्यञ्चगति और
मनुष्यगतिमें इसी प्रकार जान लेना चाहिए। अल्पबहुत्व—ओघसे संयतासंयत एक पद है,
इसलिए स्वस्थानकी अपेक्षा अल्पबहुत्व नहीं है। आदेशसे मनुष्यगतिमें संयतासंयत जीव
सबसे थोड़े हैं। उनसे तिर्यञ्चगतिमें संयतासंयत जीव असंख्यातगुणे है।

§ ७१. इस प्रकार इन आठ अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान समाप्त होने पर फिर भी
संयतासंयतमलद्धिविषयक दूसरी प्ररूपणाको बतलावेंगे इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके
सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* इन अनुयोगद्वारोंके समाप्त होने पर तीव्र-मन्दताविषयक स्वामित्व और
अल्पबहुत्व करना चाहिए ।

§ ७२. शंका—आठ अनुयोगद्वारोंके आलम्बनसे संयतासंयतोंकी प्ररूपणाके समाप्त

मेसा अण्णा परूवणा आदविज्जदि त्ति णासंका कायच्चा, संजभासंजमलद्धीए जहण्णुक्कस्समेयमिण्णाए सामित्तमप्पावहुअमुहेण तिच्चमंददापरूवणहुमेदिस्से परूवणाए अवयारादो । तत्थ सामित्तं णाम जहण्णुक्कस्ससंजमासंजमलद्धीणं को सामिओ होदि त्ति संबंधविसेसावहारणं अप्पावहुअमेदासिं चैव तिच्चमंददाए थोववहुत्त-परिक्खा । एत्थ सामित्तप्पावहुआणं जोणीभूदं परूवणाणिओगहारं किण्ण वुत्तं ? ण, तस्साणुत्तसिद्धत्तादो । तम्हा अत्थि जहण्णिया संजमासंजमलद्धी उक्कस्सिया चेदि तासिं समुक्कित्तणं कादूण तदो सामित्तमहिकीरदे ।

* सामित्तं ।

§ ७३. सुगमं ।

* उक्कस्सिया लद्धी कस्स ?

§ ७४. सुगममेदं पि, पुच्छामेत्तवावारादो ।

* संजदासंजदस्स सच्चविसुद्धस्स से काले संजमग्गाह्यस्स ।

होने पर यह अन्य प्ररूपणा किसलिये आरम्भ की जाती है ?

समाधान—ऐसी आगंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट भेदसे दो प्रकारकी संयमासंयमलब्धिके स्वामित्व और अल्पबहुत्व द्वारा तीव्र-मन्दताकी प्ररूपणा करनेके लिये इस प्ररूपणाका अवतार हुआ है ।

उनमेंसे जघन्य और उत्कृष्ट संयमासंयम लब्धिकोंका स्वामी कौन है इसप्रकार सम्बन्ध विशेषका निश्चय करना स्वामित्व है और इन्हींकी तीव्र-मन्दताके अल्पबहुत्वकी परीक्षाका नाम अल्पबहुत्व है ।

शंका—यहाँ पर स्वामित्व और अल्पबहुत्वके योनिभूत प्ररूपणानुयोगद्वारा कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वह अनुक्तसिद्ध है ।

इसलिये जघन्य संयमासंयमलब्धि है और उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धि है इस प्रकार उनका समुत्कीर्तन कर तत्पश्चात् स्वामित्वको अधिकृत करते हैं—

* स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ७३. यह सूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धि किसके होती है ।

§ ७४. यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि वृच्छामात्रमें इसका व्यापार है ।

* अनन्तर समयमें संयमको ग्रहण करनेवाले सर्व-विशुद्ध संयतासंयतके होती है ।

§ ७५. जो संजदासंजदो सव्वविसुद्धो होदूण संजमाहिमुहो जादो, तस्स-
चरिमसमयसंजदासंजदस्स उक्कस्सिया संजमासंजमलद्धी होइ चि सामित्तसंबंधो ।
कुदो एदिस्से उक्कस्सचमिदि चे ? ण, संजमाहिमुहस्स समयं पडि अणंतगुणाए
विसोहीए विसुज्झमाणस्स दुचरिमसमए उदिण्णकसायाणुभागफहएहितो अणंत-
गुणहीणचरिमसमयोदिण्णफहयजणिदचरिमविसोहीए सव्वुक्कस्सभावं पडि विरोहा-
भावादो ।

* जह्णिया लद्धी कस्स ?

§ ७६. सुगमं ।

* तत्पपाओग्गसंकिलिद्धस्स से काले मिच्छत्तं गाहिदि च्चि ।

§ ७७. जो संजदासंजदो कमायाणं तिच्चाणुभागोदएण संकिलिद्धो होदूण
से काले मिच्छत्तं गाहिदि च्चि अवट्टिदो, तस्स चरिमसमयसंजदासंजदस्स जह्णिया
संजमासंजमलद्धी होइ, कसायाणं तिच्चाणुभागोदयजणिदसंकिलेसाणुविद्वाए तत्थतण-
लद्धीए सव्वजह्णणभावं पडि विरोहाणुयलंभादो ।

§ ७५. जो संयतासयत सर्वविशुद्ध होकर संयमके अभिमुख हुआ है, अन्तिम समय-
वर्ती उस संयतासंयतके उत्कृष्ट संयमासंयमलब्धि होती है इसप्रकार स्वामित्वविषयक
सम्बन्ध है ।

शंका—इस संयमासंयमलब्धिकां उत्कृष्टपना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होनेवाले संयमके
अभिमुख हुए जीवके द्विचरम समयमे उदीर्ण हुए कषायोंसम्बन्धी अनुभागस्पर्द्धाकोसे अनन्त-
गुणे हीन अन्तिम समयसम्बन्धी उदीर्ण हुए स्पर्द्धाकोसे उत्पन्न हुई अन्तिम विशुद्धिके सर्वो-
त्कृष्टपनेके प्रति विरोधका अभाव है ।

* जघन्य संयमासंयमलब्धि किसके होती है ?

§ ७६ यह सूत्र सुगम है ।

* जो अनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होगा ऐसे तत्प्रायोग्य संक्लेश-
परिणामवाले संयतासंयतके होती है ।

§ ७७ जो संयतासयत जीव कषायोंके तीव्र अनुभागके उदयसे संक्लिष्ट होकर
अनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त करेगा, इसप्रकार अवस्थित है उस अन्तिम समयवर्ती
संयतासंयतके जघन्य संयमासंयमलब्धि होती है, क्योंकि कषायोंके तीव्र अनुभागके उदयसे
उत्पन्न हुए संक्लेशसे ओतप्रांत उक्त लब्धिके सबसे जघन्यपनेके प्रति विरोध नहीं पाया जाता ।

* अप्पाबहुअं ।

§ ७८. सुगमं ।

* तं जहा ।

§ ७९. पुच्छावकमेदं पि सुगमं ।

* जहणिया संजमासंजमलद्धी थोवा ।

§ ८०. कुदो ? मिच्छत्तपडिवादाहिमुहस्स चरिमसमए तप्पाओग्गुक्कस्स-
संकिलेसेण पडिलद्धजहणभावत्तादो ।

* उक्कस्सिया संजमासंजमलद्धी अणंतगुणा ।

§ ८१. सव्वविसुद्धस्स संजमाहिमुहस्स चरिमसमयउक्कस्सविसोहीए पडिलद्ध-
तन्भावत्तादो । गुणमारो पुण सव्वजीवेहिंतो अणंतगुणो, पुव्विन्लजहणलद्धि-
ट्टाणादो असंखेज्जलोगमेत्तच्छट्टाणाणि समुन्लंधियूण एदिस्से समुप्पत्तिदंसणादो ।
एवं ताव जहणुक्कस्ससंजमासंजमलद्धीणं सामित्तप्पाबहुअमुहेण विणिण्णयं कादूण
संपहि अजहण्णाणुक्कस्सतव्वियप्पाणमसंखेज्जलोगमेत्ताणं परूवणद्वमुत्तरं सुत्तपबंधमाढवेह-

* एत्तो संजदासंजदस्स लद्धिट्टाणाणि वत्तइस्सामो ।

* अब अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ७८. यह सूत्र सुगम है ।

* वह जैसे ।

§ ७९. यह पृच्छावाक्य भी सुगम है ।

* जघन्य संयमासंयमलन्धि सबसे स्तोक है ।

§ ८०. क्योंकि मिथ्यात्वमें गिरनेके सन्मुख हुए संयतासंयतके अन्तिम समयमें
तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशके कारण वह जघन्यपनेको प्राप्त हुई है ।

* उससे उत्कृष्ट संयमासंयमलन्धि अनन्तगुणी है ।

§ ८१. समयके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध संयतासंयतके अन्तिम समयमें जो उत्कृष्ट
विशुद्धि होती है उसमें उत्कृष्टपना पाया जाता है । परन्तु गुणकार अनन्तगुणा है, क्योंकि
पूर्वके जघन्य लन्धिस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण ब्रह्म स्थानोंको उल्लंघन कर इसकी
उत्पत्ति देखी जाती है । इसप्रकार सर्वप्रथम जघन्य और उत्कृष्ट संयमासंयमलन्धियोंका
स्वामित्व और अल्पबहुत्व द्वारा निर्णय करके अब असंख्यात लोकप्रमाण अजघन्यानुकृष्ट
संयमासंयमसम्बन्धी विकल्पोंका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धका आरम्भ करते हैं—

* अब इससे आगे संयतासंयतके लन्धिस्थान बतलावेंगे ।

§ ८२. पुष्वं जहण्णुकस्सलद्धीणमेव सामित्तप्पावहुअप्पुहेण विणिण्णओ कओ । एत्तो असंखेज्जलोयमेयभिण्णाणमजहण्णाणुकस्सतत्त्वियप्पाणं जहण्णुकस्सलद्धिद्वाणेहिं सह परूवणं कस्सामो त्ति पइण्णावकमेदं । ताणि च लद्धिद्वाणाणि त्तिविहाणि हँति—पडिवाद्दवाणाणि पडिवज्जमाणद्वाणाणि अपडिवादापडिवज्जमाणद्वाणाणि चेदि । तत्थ जम्हि मिच्छत्तं वा असंजमं वा गच्छदि तं पडिवाद्दवाणं णाम । जम्हि संजमासंजमं पडिवज्जदि तं पडिवज्जमाणद्वाणमिदि भण्णदे । सेसाणि संजमासंजमलद्धिद्वाणाणि सत्थाणावद्वाणपाओग्गाणि उवरिमगुणद्वाणादिमुहाणि च अपडिवादापडिवज्जमाणद्वाणाणि त्ति णायव्वाणि । एत्थ सब्बत्थोवाणि पडिवाद्दवाणाणि, पडिवज्जमाणद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि अपडिवादापडिवज्जमाणद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । एदाणि सव्वाणि चेव घेत्तूणं संजदासंजदलद्धिद्वाणाणि हँति । तेसिं परूवणद्दुमेत्थ तिण्णि अणिओगहाराणि परूवणा पमाणमप्पावहुअं च । तत्थ त्तिविहाणं पि लद्धिद्वाणाणं जहण्णद्वाणप्पहुडि जावुकस्सलद्धिद्वाणे त्ति ताव पुष पुष छवट्ठिकमेण सरूवणिहेसो परूवणा त्ति भण्णदे । सा एत्थ पुष्वमणुगंतव्वा, पमाणप्पावहुआणं तज्जोणिचादो ।

* तं जहा ।

§ ८३. पुच्छावकमेदं लद्धिद्वाणपरूवणाविसयं सुगमं ।

§ ८२ पहले जघन्य और उत्कृष्ट लब्धियोंका ही स्वामित्व और अल्पबहुत्व द्वारा निर्णय किया। अब इससे आगे असंख्यात लोकप्रमाण भेदोंसे अनेक प्रकारके अजघन्या-नुकृष्ट संयमासंयमलब्धिसम्बन्धी विकल्पोंका जघन्य और उत्कृष्ट लब्धिस्थानोंके साथ कथन करेंगे, इसप्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है। वे लब्धिस्थान तीन प्रकारके हैं—प्रतिपातस्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान। उनमेंसे जिस स्थानके होनेपर यह जीव मिथ्यात्वको या असंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान कहलाता है। जिस स्थानके होनेपर यह जीव संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपद्यमानस्थान कहलाता है तथा स्वस्थानमें अवस्थानके योग्य और उपरिम गुणस्थानके अभिमुख हुए शेष संयमासंयम लब्धिस्थान अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान जानने चाहिए। यहाँ पर प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं। उनसे प्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान असंख्यातगुणे हैं। इन सभीको ग्रहणकर संयतासंयतसम्बन्धी लब्धिस्थान होते हैं। उनका कथन करनेके लिये यहाँ पर तीन अनुयोगद्वारा हैं—प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व। उनमेंसे तीनों ही लब्धिस्थानोंसम्बन्धी जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट लब्धिस्थान तक पृथक्-पदस्थानपतित छह वृद्धिक्रमसे स्वरूपका निर्देश करना प्ररूपणा कही जाती है। उसे यहाँ 'सर्वप्रथम जानना चाहिए, क्योंकि प्रमाण और अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा वह योनि है।

* वे जैसे ।

§ ८३ लब्धिस्थानोंकी प्ररूपणाको विषय करनेवाला यह पृच्छावाक्य सुगम है।

* जहण्ययं लद्धिद्वानमणंताणि फह्याणि ।

§ ८४. एदेण सुत्तेण असंखेज्जलोगमेत्ताणं संजमासंजमलद्धिद्वानाणं जं जहण्ययं लद्धिद्वानं तस्स सरूवणिहेसो कओ त्ति दट्ठुओ । तं कथं ? एदं जहण्य-
द्वानमणंतेहि अविभागपडिच्छेदेहिं सव्वजीवेहिं अणंतगुणमेत्तेहिं णिफ्फणं । एदे
चेव अणता अविभागपडिच्छेदा अणताणि फह्याणि त्ति भण्णंते, फह्यसह्स्मावि-
भागपडिच्छेदवाचित्तेण इह विवक्खियत्तादो । तदो अणताणि फह्याणि एवविहावि-
भागपडिच्छेदसरूवाणि वेत्तूणेदं जहण्यलद्धिद्वानं होदि त्ति भण्णंते सुत्तयारेण ।
अहवा एदं जहण्ययं लद्धिद्वानं मिच्छत्तपडिवादाहिमुहसंजदासंजदचरिमसमए
अणताणं कसायाणुभागफह्याणमुदएण जणिदमिदि कज्जे कारणोवयारेण अणताणि
फह्याणि त्ति भण्णंते, अण्णहो तस्स सरूवणिरूपणोवायाभावादो ।

§ ८५. एवमेदस्स सव्वजहण्यलद्धिद्वानस्स सरूवणिरूपणं कादूण संपहि

* जघन्य लब्धिस्थान अनन्त स्पर्धकस्वरूप है ।

§ ८४ इस सूत्र द्वारा असंख्यात लोकप्रमाण संयमासंयमलब्धिस्थानोत्पन्नत्वी जो
जघन्य लब्धिस्थान है उसके स्वरूपका निर्देश किया गया है ऐसा जानना चाहिए ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—यह जघन्य स्थान सब जीवोंसे अनन्तरगुणे अनन्त अविभागप्रतिच्छेदोंसे
निष्पन्न हुआ है । ये ही अनन्त अविभागप्रतिच्छेद अनन्त स्पर्धक कहे जाते हैं, क्योंकि
यहाँपर स्पर्धक शब्द अविभागप्रतिच्छेदका वाची स्वीकार किया गया है । इसलिये इस-
प्रकारके अविभागप्रतिच्छेदस्वरूप अनन्त स्पर्धकोंको ग्रहणकर यह जघन्य लब्धिस्थान
होता है यह सूत्रकारने कहा है । अथवा यह जघन्य लब्धिस्थान मिथ्यात्वमें गिरनेके
सन्मुख हुए संयतासंयतके अन्तिम समयमें कषायोंके अनन्त अनुभागस्पर्धकोंके उदयसे
उत्पन्न हुआ है इसप्रकार कार्यमें कारणके उपचारसे अनन्त स्पर्धक ऐसा कहा गया है,
अथवा उसके स्वरूपके निरूपणका दूसरा उपाय नहीं पाया जाता ।

विश्लेषार्थ—जितने भी संयमासंयमलब्धिस्थान हैं वे सब तीन प्रकारके हैं । उनमेंसे
कुछ तो ऐसे हैं जो मात्र संयमासंयमलब्धिसे गिरते समय ही होते हैं । इनकी प्रतिपात
संयमासंयमलब्धिस्थान संज्ञा है । कुछ ऐसे हैं जो संयमासंयमको प्राप्त करते समय प्राप्त होते
हैं । इनकी प्रतिपद्यमान संयमासंयमलब्धिस्थान संज्ञा है और बहुत कुछ ऐसे हैं जो या तो
संयमासंयममें अवस्थितिके कालमें होते हैं या संयमासंयमसे अप्रमत्तसंयतभावको प्राप्त
होनेवालेके होते हैं । इनकी अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान संयमासंयमलब्धिस्थान संज्ञा है ।
इन्हीं तीनों प्रकारके संयमासंयमलब्धिस्थानोंके अल्पबहुत्वका निरूपण करते हुए यहाँ पर
जो सबसे जघन्य संयमासंयम लब्धिस्थान है उसके स्वरूपका निरूपण किया गया है ।
शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ८५. इसप्रकार इस सबसे जघन्य लब्धिस्थानके स्वरूपका कथनकर अब इससे

एत्तो छव्विहाए वड्डीए सेसाणमजहणणट्टाणाणमसंखेज्जलोगमेत्ताणं सरूवणिहेसं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

* तदो विदियलद्धिट्टाणमणंतभागुत्तरं ।

§ ८६. पुब्बिन्लजहणणलद्धिट्टाणं सव्वजीवरासिमेत्तभागहारेण खंडिय तत्थेय-खंडे तम्मि चैव पडिरामीकयम्मि पक्खित्ते विदियं लद्धिट्टाणमणंतभागुत्तरं होदूण समुप्पज्जदि त्ति भणिदं होदि । अथवा जहणणलद्धिट्टाणुप्पत्तिणिवंधणकसायुदयट्टाणादो विदियलद्धिट्टाणुप्पत्तिणिवंधणं कसायुदयट्टाणमणतेहिं फहएहिं हीणं होइ । एदाणि च हीणफहयाणि सयलाणुभागट्टाणस्स अणंतभागमेत्ताणि, सव्वजीवरासिणा जहणण-ट्टाणम्मि खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो । एवं च अणंतैसु अणुभागफहएसु हीणैसु तत्तो समुप्पज्जमाणविदियलद्धिट्टाणं पि जहणणलद्धिट्टाणादो अणंतैहिं फहएहिं अब्भहियं होदूण समुप्पज्जदि, हीणाणुभागफहएहिंतो समुप्पज्जमाणकज्जस्स वि उवयारेण तव्ववएसाविरोहादो । एसो अत्थो उवरि सव्वत्थ जोजेयव्वो । तदो सिद्धं जहणण-लद्धिट्टाणादो विदियं लद्धिट्टाणमणंतरपरूविदेण पडिभागैणाणंतभागुत्तरमिदि ।

आगे छह प्रकारकी वृद्धिसे युक्त असंख्यात लोकप्रमाण शेष अजघन्य स्थानोके स्वरूपका निर्देश करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* उससे दूसरा लब्धिस्थान अनन्तवाँ भाग अधिक है ।

§ ८६ पिछले जघन्य लब्धिस्थानको सब जीवराशिप्रमाण भागहारसे भाजित कर वहाँ प्राप्त एक भागको प्रतिराशिकृत उसी जघन्य लब्धिस्थानमें मिलानेपर उससे अनन्तवाँ भाग अधिक होकर दूसरा लब्धिस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अथवा जघन्य लब्धिस्थानकी उत्पत्तिका कारणभूत जो कषाय-उदयस्थान है उससे दूसरे लब्धि-स्थानकी उत्पत्तिका कारणभूत कषाय-उदयस्थान अनन्त स्पर्धकोंसे हीन होता है । और ये हीन स्पर्धक समस्त अनुभागस्थानके अनन्तवे भागप्रमाण हैं, क्योंकि जघन्य स्थानको समस्त जीवराशिसे भाजित करनेपर वहाँ वे हीन स्पर्धक एक खण्डप्रमाण प्राप्त होते हैं । इसप्रकार अनन्त अनुभागस्पर्धकोंके हीन होनेपर उससे उत्पन्न होनेवाला दूसरा लब्धिस्थान भी जघन्य लब्धिस्थानसे अनन्त स्पर्धक अधिक होकर उत्पन्न होता है, क्योंकि हीन अनुभागस्पर्धकोंसे उत्पन्न होनेवाले कार्यकी भी उपचारसे उक्त संज्ञाके होनेमें विरोधका अभाव है । यह अर्थ आगे सर्वत्र लगा लेना चाहिए । इसलिये सिद्ध हुआ कि जघन्य लब्धिस्थानसे दूसरा लब्धिस्थान अनन्तर पूर्व कहे गये प्रतिभागके अनुसार अनन्तवाँ भाग अधिक है ।

विशेषार्थ—पहले जघन्य लब्धिस्थानको अनन्त अविभागप्रतिच्छेदस्वरूप बतला आये हैं । इन अविभागप्रतिच्छेदोंमें सर्व जीवराशिप्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना उस जघन्य लब्धिस्थानमें जोड़नेपर दूसरा लब्धिस्थान प्राप्त होता है । इसका आशय यह है कि सबसे जघन्य संयमासंयमलब्धिस्थानमें जितनी विशुद्धि पाई जाती है उससे इस दूसरे लब्धिस्थानमें उक्त प्रमाणमें विशुद्धि वृद्धित हो जाती है ।

एवं छट्टाणपडिदल्लिह्वाणाणि ।

§ ८७. एवमेदेण कमेण छट्टाणपदिदाणि लद्धिह्वाणाणि परूवेयव्वाणि ति भणिदं होइ । तं जहा—जहणलद्धिह्वाणादो अणंतभागवट्टिकंडयमंगुलस्स संखेज्जदि-
भागमेत्तं गंतूणासंखेज्जभागवट्टिकंडाणं होइ । तदो असंखेज्जभागवट्टिकंडयं^१ गंतूण
संखेज्जभागवट्टी होइ । तदो संखेज्जभागवट्टिकंडयं गंतूण संखेज्जगुणवट्टिकंडाणमुप्पज्जदि
इत्थादि गेयव्वं जाव पढममणंतगुणवट्टिकंडाणं समुप्पण्णं ति । ताघे कसायुदयट्टाणमणंत-
गुणहीण होइ, अणंतगुणहीणकसायुदयट्टाणेण विणा अणंतगुणसज्जमासंज्जमलद्धि-
ट्टाणाणुप्पत्तीदो । एदमेगं छट्टाणं । एवंविहाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि छट्टाणाणि
पडिवादट्टाणाणि । पडिवादट्टाणपडिबद्धाणि उल्लंघियूण तदो पडिवज्जमाणपाओग्गाणि
असंखेज्जलोगमेत्ताणि छट्टाणाणि पुच्चिन्लेह्मितो असंखेज्जगुणदाणपडिबद्धाणि । तत्तो
वि असंखेज्जगुणाणि अपडिवादअपडिवज्जमाणपाओग्गाणि असंखेज्जलोगमेत्तछट्टाणाणि
णेदव्वाणि जाव से काले संज्जमग्गाहयस्स सव्वुकस्सविसोहिट्टाणं पज्जवसाणं कादूण

दूसरे शब्दोंमें इसीको यों भी कहा जा सकता है कि सबसे जघन्य लब्धिस्थानमें जितने
स्पर्धकोंसे युक्त कषाय-उदयस्थान पाया जाता है उनके अनन्तवें भागहीन स्पर्धकोंसे युक्त
कषाय-उदयस्थान दूसरे लब्धिस्थानमें होता है, क्योंकि जैसे-जैसे संयमासंयमलब्धिस्थानकी
विशुद्धिमें वृद्धि होती है वैसे-वैसे कषाय-उदयस्थानमें स्पर्धकोंकी अपेक्षा हानि होती जाती
है । यहाँ यद्यपि जघन्य लब्धिस्थानसे दूसरे लब्धिस्थानमें अनुभागस्पर्धकोंकी हानि हुई
है, फिर भी इस दूसरे स्थानमें प्रथम स्थानसे जो लब्धिस्थानसम्बन्धी अविभागप्रतिच्छेद
अधिक पाये जाते हैं उनमें स्पर्धकोंका आरोप करके उपचारसे जघन्य स्थानसम्बन्धी स्पर्धकोंसे
द्वितीय स्थानसम्बन्धी स्पर्धक अनन्तवें भाग अधिक कहे हैं ।

इसप्रकार षट्स्थानपतित लब्धिस्थान होते हैं ।

§ ८७ इसप्रकार इस क्रमसे षट्स्थानपतित लब्धिस्थानोंका कथन करना चाहिए यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । यथा—जघन्य लब्धिस्थानसे अंगुलके संख्यातवें भागप्रमाण अनन्त-
भागवृद्धिकाण्डक जाकर असंख्यातभागवृद्धिस्थान होता है । तत्पश्चात् असंख्यातभागवृद्धि-
काण्डक जाकर संख्यातभागवृद्धि स्थान होता है । तत्पश्चात् संख्यातभागवृद्धिकाण्डक
जाकर संख्यातगुणवृद्धिस्थान उत्पन्न होता है इत्यादि रूपसे प्रथम अनन्तगुणवृद्धिस्थान उत्पन्न
होने तक ले जाना चाहिए । तब कषाय उदयस्थान अनन्तगुणा हीन होता है, क्योंकि
अनन्तगुणहीन कषाय-उदयस्थानके बिना अनन्तगुणस्वरूप संयमासंयम लब्धिस्थानकी
उत्पत्ति नहीं हो सकती । यह एक षट्स्थान है । इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान
प्रतिपातस्थान हैं । प्रतिपातस्थानोंसे सम्बद्ध लब्धिस्थानोंका उल्लंघन कर असंख्यात लोक-
प्रमाण षट्स्थानपतित प्रतिपद्यमानस्थान हैं जो कि पिछले स्थानोंसे असंख्यातगुणे स्थानस्वरूप
हैं, उनसे भी असंख्यातगुणे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोंके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण
षट्स्थानपतितस्थान जानने चाहिए जो तदन्तर समयमें संयमको ग्रहण करनेवाले जीवके

१. ता०प्रती प्राय.सर्वत्र 'कंडय स्थाने' 'कंडय' पाठ उपलभ्यते ।

पयदलद्धिद्वानाणि समत्ताणि चि । एवं परूवणा गया । संपहि एदेसिं चैव पमाणाव-
हारणद्धुत्तरसुत्तमोइण्णं—

* असंखेज्जा खोगा ।

§ ८८. एदाणि सव्वाणि छट्ठानपदिदसंजमासजमलद्धिद्वानाणि पडिवादादि-
मेदेण तिहाविहत्ताणि असंखेज्जलोगमेत्तपमाणाणि होति चि एसो एत्थ सुत्तत्थ-
समुच्चओ । संपहि एवं परूविदेसु असंखेज्जलोगमेत्तसंजमासंजमलद्धिद्वानेसु आदीदो
प्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्ताणि लद्धिद्वानाणि एयंतपडिवादापाओग्गाणि चैव होति, ण
तत्थ संजमासंजमं पडिवज्जदि चि जाणावेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

* जहण्णए लद्धिद्वाने संजमासंजमं ण पडिवज्जदि ।

§ ८९. कुदो ? मिच्छत्ताहिमुहसव्वुकस्ससंकिलिद्धसंजदासंजदचरिमसमयविसय-
स्सेदस्स एयंतपडिवादापाओग्गस्स पडिवज्जमाणद्वान्णत्तेण सव्वहा संबंधाभावादो । ण
केवलमेदम्मि चैव जहण्णलद्धिद्वानम्मि संजमासंजमं ण पडिवज्जइ, किंतु एत्तो
उवरि असंखेज्जलोगमेत्तलद्धिद्वानेसु वि संजमासंजमं ण पडिवज्जदे चैव, तेसि पि
पडिवादद्वान्णत्तं पडि विसेसाभावादो चि पदुप्पाएमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिस्थानको अन्त कर प्रकृत लब्धिस्थानोंके समाप्त होने तक प.ये जाते हैं । इस
प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई । अब इन्हींके प्रमाणका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र
आया है—

* जो असंख्यात लोकप्रमाण हैं ।

§ ८८. प्रतिपात आदिके भेदसे तीन प्रकारके ये सब षट्स्थानपतित संयमासंयम-
लब्धिस्थान असंख्यात लोकप्रमाण हैं यह यहाँ सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है । अब इस प्रकार
कहे गये असंख्यात लोकप्रमाण संममासंयमलब्धिस्थानोंमें प्रारम्भसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण
लब्धिस्थान एकान्तसे प्रतिपातके योग्य ही है, उन स्थानोंमें यह संयमासंयमको नहीं प्राप्त
होता इस प्रकार ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* जघन्य लब्धिस्थानमें यह जीव संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता ।

§ ८९. क्योंकि मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणामवाले संयतासंयत
जीवके अन्तिम समयमें एकान्तसे प्रतिपातके योग्य लब्धिस्थान होता है, इसलिए इसका
प्रतिपद्यमान लब्धिस्थानके साथ सर्वथा सम्बन्धका अभाव है । केवल इसी जघन्य लब्धि-
स्थानमें यह जीव संयमासंयमको नहीं प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, किन्तु इससे ऊपर
असंख्यात लोकप्रमाण लब्धिस्थानोंमें भी यह जीव संयमासंयमको नहीं ही प्राप्त होता, क्यों-
कि प्रतिपातस्थानपनेकी अपेक्षा इससे उनमें कोई भेद नहीं है इस बातका कथन करते हुए
आगेके सूत्रको कहते हैं—

* तदो असंखेज्जे लोगे अइच्छिदूण जहणणयं पडिवज्जमाणस्स पाओग्गं लद्धिद्वानमणंतगुणं ।

§ ९०. तदो पुव्वुत्तजहणणद्वानादो प्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्तपमाणणि एयंतपडिवादपाओग्गलद्धिद्वानाणि समुल्लंघियूण एत्थुद्देसे सव्वुक्कस्सपडिवादद्वानादो असंखेज्जलोगमेत्तमंतरिदूण तत्तो अपणंतगुणवड्डीए पडिवज्जमाणगस्स पाओग्गं जहणणयं लद्धिद्वानं होइ । एत्तो हेट्ठिमासेसलद्धिद्वानेसु पडिवादं मोत्तूण संजमा-संजमपडिवचीए अच्चंताभावेण पडिसिद्धत्तादो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । संपहि एदस्सेव सुत्तसूचिदत्थस्स फुडीकरणट्टमुवरिममप्याबहुअसाहणभूदमेत्थ किंचि अत्थपरूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा—

§ ९१. सव्वजहणणलद्धिद्वानादो प्पहुडि उवरि असंखेज्जलोगमेत्ताणि पडिवाद-द्वानाणि मणुसपाओग्गाणि चैव होदूण गच्छंति जाव तप्पाओग्गासंखेज्जलोग-मेत्तच्छद्वानाणि समुल्लंघियूण तिरिक्खजोणियस्स जहणणयं पडिवादद्वानमुप्पणं ति । तदो प्पहुडि तिरिक्ख-मणुस्सजोणियाणं साहारणभावेण असंखेज्जलोगमेत्त-पडिवादद्वानेसु गच्छमाणेसु तिरिक्खस्स उक्कस्सयं पडिवादद्वानं तत्थुद्देसे परिहायदि । तदो पुणो वि असंखेज्जलोगमेत्तद्वानमुवरि गंतूण मणुसजोणियस्स उक्कस्सयं पडि-वादद्वानमेत्थुद्देसे थक्कदि । तत्तो परमसंखेज्जलोगमेत्तमंतरं होदूण पुणो मणुससंज्ञदा-

* उमसे असंख्यात लोकप्रमाण लब्धिस्थानोंको उल्लंघन कर अनन्तगुणी वृद्धिस्वरूप प्रतिपद्यमान स्थानके योग्य जघन्य लब्धिस्थान होता है ।

§ ९० 'तदो' अर्थात् पूर्वोक्त जघन्य स्थानसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण एकान्तसे प्रतिपातके योग्य लब्धिस्थानोंको उल्लंघन कर यहाँ सर्वोत्कृष्ट प्रतिपातस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण अन्तर देकर उससे अनन्तगुणी वृद्धिको लिये हुए प्रतिपद्यमानस्थानके योग्य जघन्य लब्धिस्थान होता है । इससे नीचेके समस्त लब्धिस्थानोंमें प्रतिपातको छोड़कर उनमें संयमासंयमकी प्राप्तिका अत्यन्ताभाव होनेसे उनमें उसकी प्राप्तिका निषेध किया है यह इस सूत्रका भावार्थ है । अब इस सूत्रसे सूचित इसी अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिये आगेके अत्यबहुत्वके साधनभूत किंचित् अर्थकी यहाँ प्ररूपणा करेंगे । यथा—

§ ९१. सबसे जघन्य लब्धिस्थानसे लेकर ऊपर असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिपातस्थान मनुष्योंके योग्य ही होकर तबतक जाते हैं जब जाकर तत्प्रायोग्य असंख्यात लोकप्रमाण षट्-स्थानोंको उल्लंघन कर तिर्यञ्चयोनि जीवका जघन्य प्रतिपातस्थान उत्पन्न हुआ है । पुनः वहाँसे लेकर तिर्यञ्चयोनि और मनुष्य दोनोंके साधारणरूपसे पाये जानेवाले असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिपातस्थानोंके जाने पर उस स्थान पर तिर्यञ्चके उत्कृष्ट प्रतिपातस्थानकी व्युच्छित्ति हो जाती है । तत्पश्चात् फिर भी असंख्यात लोकप्रमाण स्थान ऊपर जाकर इस स्थानपर मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपातस्थान विच्छिन्न होता है । इसके बाद असंख्यात लोक-

संजदस्स जहण्णयं पडिवज्जमाणट्ठाणं होदि । तत्तो परमसंखेज्जलोगमेत्तद्धानं गंतूण तिरिक्खसंजदासंजदस्स जहण्णयं पडिवज्जमाणट्ठाणं होइ । तत्तो प्पहुडि दोण्हं पि साहारणभावेण असंखेज्जलोगमेत्तद्धानमुवरि गंतूण तम्मि उदेसे तिरिक्खसंजदासंजदस्स उक्कस्सयं पडिवज्जमाणट्ठाणं परिहायदि । तत्तो उवरि वि असंखेज्जलोगमेत्तद्धानं गंतूण मणुस्सस्स उक्कस्सयं पडिवज्जमाणं थक्कदि । तत्तो परमसंखेज्जलोगमेत्तमंतरं होदूण पुणो मणुससंजदासंजदस्स जहण्णयमप्पडिवादापडिवज्जमाणट्ठाणाणि होति । तदो असंखेज्जलोगमेत्तद्धानमुवरि गंतूण तिरिक्खसंजदासंजदस्स अपडिवादअपडिवज्जमाणजहण्णट्ठाणं होइ । तदो दोण्हं पि साहारणभूदाणि असंखेज्जलोगमेत्तद्धानाणि उवरि गंतूण तिरिक्खसंजदासंजदस्स उक्कस्सअवडिवादअपडिवज्जमाणट्ठाणमुत्तंघियूण तत्तो पुणो वि असंखेज्जलोगमेत्तद्धानाणि उवरि गंतूण मणुससंजदासंजदस्स उक्कस्सयं अपडिवादअपडिवज्जमाणट्ठाणं सभुप्पज्जइ । एत्थ पडिवादट्ठाणाणि तिरिक्खमणुससंजदासंजदाणं हेट्ठिमगुणट्ठाणाणि पडिवज्जमाणार्णं चरिमसमए धेत्तव्वाणि । पडिवज्जमाणट्ठाणाणि तिरिक्खमणुस्साणं संजमासंजमग्गहणपढमसमए दट्ठव्वाणि । पुणो पढमसमयं चरिमसमयं च मोत्तूण सेसासेसमज्झिमावत्थाए पाओग्गाणि ट्ठाणाणि सत्थानपडिवद्वानि उवरिमगुणट्ठाणाहिमुहाणि च अपडिवादअपडिवज्जमाणट्ठाणाणि णाम वुच्चंति । संपहि एदेसिं ति विहाणं पि लद्धिट्ठाणाणं सुहावबोहणट्ठमेसा संदिट्ठी—

प्रमाण अन्तर होकर पुनः मनुष्य संयतासंयतका जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है । तत्पश्चात् असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर तिर्यञ्च संयतासंयतका जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है । वहाँसे लेकर दोनोंके ही समानरूपसे असंख्यात लोकप्रमाण स्थान ऊपर जाकर वहाँ तिर्यञ्च संयतासंयतके उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थानकी व्युच्छित्ति हो जाती है । वससे ऊपर भी असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर मनुष्यका उत्कृष्ट प्रतिपद्यमानस्थान विच्छिन्न हो जाता है । तत्पश्चात् असंख्यात लोकप्रमाण अन्तर होकर पुनः मनुष्य संयतासंयतके जघन्य अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान होते हैं । उसके बाद असंख्यात लोकप्रमाण स्थान ऊपर जाकर तिर्यञ्च संयतासंयतके अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान होता है । तत्पश्चात् दोनोंके ही साधारण असंख्यात लोकप्रमाण स्थान ऊपर जाकर तिर्यञ्चसंयतासंयतके उत्कृष्ट अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानको उल्लंघन कर तत्पश्चात् फिर भी असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान ऊपर जाकर मनुष्यसंयतासंयतका उत्कृष्ट अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थान उत्पन्न होता है । यहाँ पर प्रतिपातस्थान अधस्तन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेवाले तिर्यञ्च और मनुष्योंके अन्तिम समयके लेने चाहिए । प्रतिपद्यमानस्थान तिर्यञ्च और मनुष्योंके संयमासंयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयके जानने चाहिए, पुनः प्रथम समय और अन्तिम समयको छोड़कर, शेष समय मध्यम अवस्थाके योग्य स्वस्थानसम्बन्धी और उपरिम गुणस्थानके अभिमुख हुए स्थान अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थान कहलाते हैं । अब इन तीनों प्रकारके छिन्धिस्थानोंका सुखपूर्वक ज्ञान करानेके लिये यह संदृष्टि है—

एदाणि ।
तिरिक्ख-मणुससंजदासंजदाणं पडिवादट्ठाणाणि णादक्खाणि भवंति । अंतरं ।

एदाणि तेसिं
खेव पडिवज्जमाणट्ठाणाणि चि गहेयक्खाणि । अंतरं ।

एदाणि
खेव तेसिं खेव अपडिवादअपडिवज्जमाणट्ठाणाणि चि वेत्तक्खाणि ।

§ ९२. एत्थ पडिवादट्ठाणट्ठाणं थोवं । पडिवज्जमाणट्ठाणट्ठाणमसंखेज्जगुणं ।
अपडिवादापडिवज्जमाणट्ठाणट्ठाणमसंखेज्जगुणं । गुणगारो पुण असंखेज्जा लोगा ।
एवमेदीए परूवणाए जणिदसंसकाराणं सिस्साणमेण्हिमप्याबहुअपरूवणट्ठुत्तरसुत्तपबंधो-

* तिच्च-मंददाए अप्पाबहुअं ।

९३. एदेसिं लद्धिट्ठाणाणं तिरिक्खमणुसजाइपडिवट्ठाणमण्णोण्णं पेक्खिगुण
विसोहीए हीणाहियभावो तिच्च-मंददा चि भण्णदे । तिस्से तिच्चमंददाए जाणाव-
णट्ठमप्याबहुअमेत्तो कस्सामो चि भणिदं होइ ।

* सच्चमंदाणुभागं जहण्णगं संजमासंजमस्स लद्धिट्ठाणं ।

§ ९४. सच्चवेहितो मंदाणुभागं सच्चमंदाणुभागं सच्चजहण्णसत्तिसमण्णिदमिदि
वुत्तं होइ । किं तं ? जहण्णयं संजमासंजमलद्धिट्ठाणं । कुदो ? संजदासंजदस्स सच्च-

संवृष्टि मूलमें दी है ।

§ ९२. यहाँ पर प्रतिपातलब्धिस्थानोंका अध्वान (आयाम) थोड़ा है । उससे प्रतिपद्य-
मानलब्धिस्थानोंका अध्वान असंख्यातगुणा है । उससे अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानलब्धिस्थानों-
का अध्वान असंख्यातगुणा है । गुणकार सर्वत्र असंख्यात लोकप्रमाण है । इस प्रकार इस
प्ररूपणाद्वारा जिनके संस्कार उत्पन्न हुए हैं उन शिष्योंके लिये इस समय अल्पबहुत्वकी
प्ररूपणा करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

* अब तीव्र-मन्दताके अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ९३. तिर्यच और मनुष्यजातिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन लब्धिस्थानोंको परस्पर
देखते हुए विजुद्धिके हीनाधिकपनेको तीव्र-मन्दता कहते हैं । उस तीव्र-मन्दताका ज्ञान करानेके
लिये आगे अल्पबहुत्व करेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

संयमासंयमका जघन्य लब्धिस्थान सबसे मन्द अनुभागवाला है ।

§ ९४. सबसे मन्द अनुभागका नाम सर्वमन्दानुभाग है । सबसे जघन्य शक्तिसे युक्त
वह है उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—वह क्या है ?

समाधान—संयमासंयमका जघन्य लब्धिस्थान, क्योंकि मिध्यात्वको प्राप्त होनेवाले

संकलिद्धस्स मिच्छत्तं गच्छमाणस्स चरिमसमये समुवलद्धमरूवत्तादो ।

* मणुसस्स पडिबदमाणयस्स जहण्णयं लद्धिद्वाणं तत्तिंयं चेष ।

§ ९५. सुगममेदं, ओघजहण्णलद्धिद्वाणादो मणुससंजदासंजदजहण्णपडिबाद-
द्वाणस्स भेदाभावमस्सियूण पयद्वत्तादो ।

* तिरिक्खजोणियस्स पडिबदमाणयस्स जहण्णयं लद्धिद्वाणमणंत-
गुणं ।

§ ९६. कुदो ? पुन्विन्लादो असंखेज्जलोगमेत्तच्छद्वाणाणि उवरि गंतूणेदस्स
समुप्पत्तिदंसणादो ।

* तिरिक्खजोणियस्स पडिबदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्वाणमणंत-
गुणं ।

§ ९७. एदं तप्पाओग्गसंकिलेसेणासंजमं गच्छमाणस्स चरिमसमए घेत्तव्वं,
वेदगसम्मत्ताणुविद्धमसजमं गच्छमाणस्स होइ त्ति भावत्थो । णेदस्स पुन्विन्लादो
अणंतगुणत्तमसिद्धं, तत्तो असंखेज्जलोगमेत्तच्छद्वाणाणि समुन्लंघियूण समुप्पण्णस्सेदस्स
अणंतगुणत्तसिद्धीए णिन्वाइमवलंमादो ।

* मणुससंजदासंजदस्स पडिबदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्वाणमणंत-
गुणं ।

सबसे अधिक सकलेश परिणामवाले संयतासंयतके अन्तिम समयमें उसकी उपलब्धि होती है ।

* गिरनेवाले मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान उतना ही है ।

§ ९५. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघ जघन्य लब्धिस्थानसे मनुष्य संयतासंयतके
जघन्य प्रतिपातस्थानमें भेदपनेका आश्रय कर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।

* उससे गिरनेवाले तिर्यंचयोनि जीवका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ९६. क्योंकि पूर्वके लब्धिस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण पटस्थान ऊपर जाकर
इसकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

* उससे गिरनेवाले तिर्यंचयोनि जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ९७. तत्प्रायोग्य संकलेशसे असंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तिम समय इसे ग्रहण
करना चाहिये । वेदकसम्यक्त्वसे युक्त असंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके यह होता है यह
उक्त कथनका भावार्थ है । पहलेके लब्धिस्थानसे इसका अनन्तगुणापना असिद्ध नहीं है, क्योंकि
असंख्यात लोकप्रमाण घटस्थानोंको उल्लंघनकर उत्पन्न हुए इसकी अनन्तगुणपनेकी सिद्धि
बिना किसी बाधाके पाई जाती है ।

* उससे गिरनेवाले मनुष्य संयतासंयतका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ९८. एदं पि तप्पाओग्गजहण्णसंक्किलेसेण सासंजमसम्मत्तं पडिवज्जमाणस्स चरिमसमये चेव लद्धप्पलाहं । णवरि जादिविसेसवसेण तिरिक्खपडिवादपाओग्गुक्खस्स-विसोहीदो मणुससंजदासंजदस्स पडिवादपाओग्गुक्खस्सविसोही अणंतगुणा जादा, पुव्विन्लादो असंखेज्जलोगमेत्तच्छट्ठाणाणि उवरि चट्ठिदूणेदिस्से समुप्पत्तिदंसणादो ।

* मणुसस्स पडिवज्जमाणगस्स जहण्णयं लद्धिद्वाणमणंतगुणं ।

§ ९९. मणुसमिच्छाद्विस्स तप्पाओग्गविसोहीए संजमासंजमं पडिवज्जमाणस्स पढमसमए एदं घेत्तव्वं । ण चेदस्स पुव्विन्लादो अणंतगुणात्तमसिद्धं, तत्तो असंखेज्ज-लोगमेत्तच्छट्ठाणाणि अंतरिदूणेदस्स समुप्पत्तीए अणंतरमेव णिदरिसिणात्तादो ;

* तिरिक्खजोणियस्स पडिवज्जमाणगस्स जहण्णयं लद्धिद्वाणमणंत-गुणं ।

§ १००. एदं पि मिच्छाद्विस्स तप्पाओग्गविसोहीए संजमासंजमं पडिवज्ज-माणस्स पढमसमये चेव लद्धप्परुव्वं । किंतु जादिविसेसदो पुव्विन्लादो एदमणंतगुणं जादं, मणुसाणं व तिरिक्खजोणियाणं सव्वजहण्णसंक्किलेसविसोहीणमसंभवादो, तप्पाओग्गजहण्णाणं चेव ताणं तत्थ संभवोवएसादो ।

§ ९८ यह भी तत्प्रायोग्य जघन्य संक्लेशसे असंयमके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त होने-वाले मनुष्यके अन्तिम समयमें ही आत्मलाभ करता है । इतनी विशेषता है कि जाति विशेषके कारण तिर्यंचोंके प्रतिपातके योग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे मनुष्य संयतासंयतके प्रतिपातके योग्य उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणां हो गई है, क्योंकि पूर्वके लब्धिस्थानसे असंख्यात लोक-प्रमाण षट्स्थान ऊपर चढ़ कर इसकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

* उससे प्रतिपद्यमान मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान अनन्तगुणा है ।

९९ तत्प्रायोग्य विशुद्धिसे संयमासंयमको ग्रहण करनेवाले मनुष्य मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयका यह लब्धिस्थान लेना चाहिए । इसका यह पूर्वके लब्धिस्थानसे अनन्तगुणा होना असिद्ध नहीं है, क्योंकि उससे असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानोंके अन्तरालसे इसकी उत्पत्ति होती है यह इससे पूर्व ही बतला आये हैं ।

* उससे प्रतिपद्यमान तिर्यञ्चयोनि जीवका जघन्य लब्धिस्थान अनन्त-गुणा है ।

§ १००. यह भी तत्प्रायोग्य विशुद्धिसे संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च-के प्रथम समयमें स्वरूपलाभ करता है । किन्तु जातिविशेषके कारण पूर्वके लब्धिस्थानसे यह अनन्तगुणा हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्योंके सबसे जघन्य संक्लेश और विशुद्धि होती है उस प्रकार तिर्यञ्चयोनि जीवके सबसे जघन्य संक्लेश और विशुद्धिका होना असम्भव है तथा तत्प्रायोग्य जघन्योंका ही उन दोनोंके वहाँ होनेका उपदेश पाया जाता है ।

* तिरिक्खजोणियस्स पड्डिवज्जमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्वाण-
मणंतगुणं ।

§ १०१. तं कस्स ? तिरिक्खासंजदसम्माइट्ठिस्स सव्वविसुद्धीए संजमासंजमं
गेण्हमाणस्स पढमससए होइ । सेसं सुगमं ।

* मणुसस्स पड्डिवज्जमाणगस्स उक्कस्सयं लद्धिद्वाणमणंतगुणं ।

§ १०२. तं कस्स ? मणुस्सासंजदसम्माइट्ठिस्स सव्वविसुद्धस्स संजमासंजमं
गेण्हमाणस्स पढमसमए होदि । सुगममण्णं ।

*मणुसस्स अपड्डिवज्जमाण-अपड्डिवदमाणयस्स जहण्णयं लद्धिद्वाण-
मणंतगुणं ।

§ १०३. तं कस्स ? मिच्छाइट्ठिस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स संजमासंजमं पडि-
वण्णस्स विदियसमए होइ । सेसं सुगमं ।

*तिरिक्खजोणियस्स अपड्डिवज्जमाण-अपड्डिवदमाणयस्स जहण्णयं
लद्धिद्वाणमणंतगुणं ।

* उससे प्रतिपद्यमान तिर्यञ्चयोनि जीवका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्त-
गुणा है ।

§ १०१. शंका—वह किसके होता है ?

समाधान—तिर्यञ्च असंयत सम्यग्दृष्टिके सर्व विशुद्धिसे संयमासंजमको ग्रहण
करनेके प्रथम समयमें होता है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे प्रतिपद्यमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणा है ।

§ १०२. शंका—वह किसके होता है ?

समाधान—सर्व विशुद्ध मनुष्य असंयत सम्यग्दृष्टिके संयमासंयमको ग्रहण करनेके
प्रथम समयमें होता है । अन्य कथन सुगम है ।

* उससे अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपतमान मनुष्यका जघन्य लब्धिस्थान अनन्त-
गुणा है ।

§ १०३. शंका—वह किसके होता है ?

समाधान—मिथ्यात्वसे संयमासंयमको प्राप्त हुए तत्प्रायोग्य विशुद्ध मनुष्यके दूसरे
समयमें होता है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे अप्रतिपद्यमान-अप्रतिपतमान तिर्यञ्चयोनि जीवका जघन्य लब्धिस्थान
अनन्तगुणा है ।

§ १०४. तं कस्स ? तिरिक्खमिच्छाहट्ठिस्स तप्पाओग्गविसुद्धीए संजमासंजमं पडिबण्णस्स विदियसमये भवदि । जादिविसेसदो च पुव्विन्लादो अणंतगुणं जादं ।

* तिरिक्खजोणियस्स अपडिबज्जमाण-अपडिबदमाणगस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठाणमणंतगुणं ।

§ १०५. तं कस्स ? सत्याणे चैव सव्वविसुद्धस्स भवदि । सेसं सुगमं ।

* मणुसस्स अपडिबज्जमाण-अपडिबदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिट्ठाण-मणंतगुणं ।

§ १०६. तं कस्स ? संजमाहिमुहस्स सव्वविसुद्धस्स चरिमसमए होइ । एव-मप्यावहुए समत्ते लद्धिट्ठाणपरूवणा समत्ता भवदि । संपहि संजमासंजमलद्धीए ओदयियादिभावेषु कदमो भावो होइ ति सिस्साहिप्पायमासंकिय तण्णिण्णयकरणट्ठ-मुत्तरं सुत्तपबंधमाह—

* संजदासंजदो अपच्चक्खाणकसाए ण धेदयदि ।

§ १०४. शंका—वह किसके होता है ?

समाधान—तिर्यञ्च मिथ्यादृष्टिके तत्प्रायोग्य विशुद्धिसे संयमासंयमको प्राप्त होनेके दूसरे समयमें होता है और यह जातिविशेषके कारण पूर्वके लब्धिस्थानसे अनन्तगुणा हो गया है ।

* उससे अप्रतिपद्यमान—अप्रतिपतमान तिर्यञ्चयोनि जीवका उत्कृष्ट लब्धि-स्थान अनन्तगुणा है ।

§ १०५. शंका—वह किसके होता है ?

समाधान—सर्वविशुद्ध तिर्यञ्चके स्वस्थानमें ही होता है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे अप्रतिपद्यमान—अप्रतिपतमान मनुष्यका उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्त-गुणा है ।

§ १०६. शंका—वह किसके होता है ?

समाधान—संयमके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध मनुष्यके अन्तिम समयमें होता है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर लब्धिस्थानप्ररूपणा समाप्त होती है । अब औदयिक आदि भावोंमेंसे संयमासंयमलब्धिसम्बन्धी कौनसा भाव है इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायको आशंकारूपमें स्वीकार कर उसका निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* संयतासंयत जीव अप्रत्याख्यान कषायको नहीं वेदता ।

§ १०७. कुदो ? तत्थ तेमिमुदयमत्तीए अच्चंतपग्गिक्खयादो । णोदइया संजमासंजमलद्धि चि सिद्धं, सगावरणकम्माणमुदयक्खएणुप्पण्णाए तिससे तच्चव-
एसविरोहादो ।

* पच्चक्खाणावरणीया वि संजमासंजमस्स ण किंचि आवरंति ।

§ १०८. जे च वेदिज्जंता पच्चक्खाणावरणीयकसाया ते वि संजमासंजमस्स ण किंचि उवघादं करंति नि वुत्तं होइ, सयलसजमपडिवंधीणं तेसिं देससंजमलद्धीए वावाराणञ्चुवगमादो । तदो ण तण्णिवंधणो वि एदिस्से ओदइयववएसपडिलंभो चि सिद्धं ।

* सेसा चदुकसाया णवणोकसायवेदणीयाणि च उदिण्णाणि देसघादिं करंति संजमासंजमं ।

§ १०९. एत्थ सेसचदुकसायग्गहणेण चदुसजलणपयडीणं गहणं कायच्चं । अणंताणुबंधोणमिह ग्गहण किण्ण पावादि चि चे ? ण, तेमिं हेट्टा चेव विणट्टोदय-
भावाणमेदम्मि विचारे अणहियारादो । तदो एत्थ विज्जमाणोदयाणि चदुकसाय-
णवणोकसायवेदणीयाणि कम्माणि घेत्तुण संजमासंजमलद्धीए खओवसमियत्तमित्थं

§ १०७. क्योंकि वहाँ उनकी उदयशक्तिका अत्यन्त क्षय पाया जाता है । इसलिये संयमासंयमलद्धि औदयिक नहीं है यह सिद्ध हुआ, क्योंकि अपना-आवरण करनेवाले कर्मके उदयक्षयसे उत्पन्न हुए उसकी औदयिक संज्ञा स्वीकार करनेमें विरोध है ।

प्रत्याख्यानावरणीय कषाय भी संयमासंयमका कुछ आवरण नहीं करते ।

§ १०८ और जो वहाँ वेदे जानेवाले प्रत्याख्यानावरणीय कषाय है वे भी संयमासंयमका कुछ उपघात नहीं करते यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि सकलसंयमका प्रतिबन्ध करनेवाले उनका देशसंयमलद्धिमें व्यापार नहीं स्वीकार किया गया है, इसलिए उनके निमित्त-से भी इसकी औदयिक संज्ञाकी प्राप्ति नहीं है यह सिद्ध हुआ ।

शेष चार कषाय और नौ नोकषायवेदनीय उदीर्ण होकर संयमासंयमको देशघाति करते हैं ।

§ १०९. यहाँपर शेष चार कषायोंके ग्रहण करनेसे चार संज्वलन प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—यहाँ अनन्तानुबन्धियोंका ग्रहण क्यों प्राप्त नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि पहले ही उनके उदयका विनाश हो गया है, इसलिये इस विचारमें उनका अधिकार नहीं है ।

इसलिये यहाँपर जिनका उदय विद्यमान है ऐसे चार कषाय और नौ नोकषायवेदनीय

समत्थेयव्वं । तं जहा—ताणि तेरस कम्मणि देसघादिसरूवेणुदिण्णाणि संजमा-
संजमगुणं देसघादिं करेति, खओवसमियं करेति त्ति वुत्तं होइ । कुदो ? देसघादि-
उदयजणिदक्खओवसमलद्धीए वि कज्जे कारणोवयारवसेण देसघादिववएसकरणादो ।
कुदो वुण तेसिमेत्थ देसघादिउदयणियमो चे ? ण, संजमासंजमगुणुप्पत्तिअण्णहाणु-
ववत्तीए तेसिमेत्थ देसघादिउदयणियमसिद्धीदो । तदो चदुसंजलण-णवणोकसायाणं
सव्वघादिफहयोदयक्खएण तेसिं चेव देसघादिफहयोदयेण लद्धप्परूवत्तादो संजमा-
संजमलद्धी खओवसमिया त्ति सिद्धं ।

* जइ पच्चक्खाणावरणीयं वेदेंतो सेसाणि चरित्तमोहणीयाणि ण
वेदेज्ज तदो संजमासंजमलद्धी खहया होज्ज ?

§ ११०. एवं भणंतस्साहिष्णायो—अपच्चक्खाणावरणीयचउकस्स ताव णत्थि
एत्थ उदयो त्ति वत्तव्वं । पच्चक्खाणावरणीयाणि वि वेदिज्जमाणाणि संजमासंजमस्स
ण किंचि उवघादमणुग्गहं वा करेति त्ति । तदो पच्चक्खाणावरणीयचउकमेसो
वेदेंतो सेसाणि चरित्तमोहणीयाणि चदुसंजलण-णवणोकसायसण्णिदाणि जइ किइ

कर्मोंको ग्रहण कर संयमासंयमलब्धिके क्षयोपशमपनेका इसप्रकार समर्थन करना चाहिए ।
यथा—वे तेरह कर्म देशघातिस्वरूपसे उदीर्ण होकर संयमासंयमगुणको देशघाति करते हैं—
क्षायोपशमिक करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि देशघातिस्वरूप उदयसे उत्पन्न
हुई क्षयोपशमलब्धिको भी कार्यमें कारणके उपचारवश देशघाति संज्ञा की है ।

शंका—परन्तु उनका यहाँ देशघाति उदय है यह नियम कैसे बनता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमासंयमगुणकी अन्यथा उत्पत्ति नहीं बनती, इसलिए
यहाँ उनके देशघातिरूप उदयका नियम सिद्ध होता है ।

इसलिये चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके सर्वघाति स्पर्धकोंका उदयक्षय होनेसे
और उन्हींके देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेसे संयमासंयमलब्धि अपने स्वरूपका प्राप्त करती
है, इसलिए वह क्षायोपशमिक है यह सिद्ध हुआ ।

* यदि प्रत्याख्यानावरणीयका वेदन करता हुआ श्लेष चारित्रमोहनीयोंका
वेदन न करे तब संयमासंयमलब्धि क्षायिक हो जाय ।

§ ११०. ऐसा कहनेवाले आचार्यका अभिप्राय है कि अप्रत्याख्यानावरणीयचतुष्कका
तो यहाँपर उदय नहीं है ऐसा कहना चाहिए । वेदनमें आते हुए प्रत्याख्यानावरणीय भी
संयमासंयमका उपघात या अनुग्रह नहीं करते, इसलिये यह प्रत्याख्यानावरणीयचतुष्कका
वेदन करता हुआ श्लेष चारित्रमोहसम्बन्धी चार संज्वलन और नौ नोकषायोंको यदि कुछ

वि ण वेदेज तो संजमासंजमलद्धी खइया चेव होज, खइयसमाणा एयवियप्पा चेव हवेज चारिचपडिंबंधीणं कम्माणमेत्थ संताणं पि णिक्कारणचदंसणादो चि । ण पुणो एस संभवो, चदुसंजलण-णवणोकसायाणं देसघादिसरूवेणुदयपरिणामस्स तत्थवस्संभाविचादो । तदो खओवसमिया चेव संजमासंजमलद्धी असंखेज्जलोयमेय-भिण्णा एत्थ पडिवजेयव्वा चि सिद्धं । एत्थ उवसंहरेमाणो सुत्तमुत्तरमाह—

* एककेण वि उदिण्णेण खओवसमलद्धी भवदि ।

§ १११. चदुसंजलण-णवणोकसायाणमण्णदरेण वि कम्मेणुदिण्णेण खओव-समियलद्धी चेव एसा होइ, किं पुण तेसिं सव्वेसिमेवेत्थुदयसंभवे खओवसमिया ण होज ? णिच्छएण खओवसमिया चेव संजमासंजमलद्धी होदि चि एसो एदस्स भावत्थो ।

लद्धी च संजमासंजमस्से चि समत्तमणिओगहारं ।

भी वेदन न करे तो संयमासंयमलब्धि क्षायिक ही हो जाय, क्षायिकभावके समान एक बिकल्पवाली ही हो जाय, क्योंकि चारित्रका प्रतिबन्ध करनेवाले कर्मोंके यहाँपर रहते हुए भी ऐसी अवस्थामें उनका निष्कारणना देखा जाता है । परन्तु यह सम्भव नहीं है, क्योंकि चार संज्वलन और नौ नोकघायोंका देशघातिरूपसे उदयपरिणाम वहाँ अवश्यंभावी है । अतएव क्षायोपशमिक ही संयमासंयमलब्धि असंख्यात लोकप्रमाण भेदवाली यहाँपर जाननी चाहिए यह सिद्ध हुआ । अब यहाँपर उपसंहार करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* अतः एकका भी उदय होनेसे क्षयोपशमलब्धि होती है ।

§ १११. चार संज्वलन और नौ नोकघायोंमेंसे एक भी कर्मके उदयसे यह क्षायोपशमिक लब्धि ही है, तो क्या उन सबका यहाँ उदय सम्भव होनेपर वह क्षायोपशमिक नहीं होगी, संयमासंयमलब्धि निश्चयसे क्षायोपशमिक ही होती है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—संयमासंयमलब्धि औद्दयिक आदि भावोंमेंसे कौनसा भाव है ऐसी आज्ञाका होनेपर उसका समाधान करते हुए यहाँ बतलाया गया है कि अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्ककी उदयशक्तिका यहाँपर अत्यन्त विनाश देखा जाता है, अतः इसका उदय न होनेसे तो वह औद्दयिक है नहीं, यद्यपि प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका यहाँपर उदय है पर उदयस्वरूप वे संयमका घात करनेवाली प्रकृतियाँ हैं, उनके उदयसे संयमासंयमगुणका न तो घात ही होता है और न कुछ उपकार ही होता है । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उदयव्युच्छित्ति नीचेके गुणस्थानोंमें ही हो जाती है । अतएव यहाँपर चार संज्वलन और नौ नोकघायोंके सर्वघातिस्पर्धकोंका उदयक्षय होनेसे तथा उन्हींके देशघातिस्पर्धकोंका उदय होनेसे क्षायोप-शमिक भाव जानना चाहिए ।

इस प्रकार संयमासंयमलब्धिनामक बारहवाँ अर्थाधिकार समाप्त हुआ ।

सिरि-जइवसहाइरियविरइय-जुण्णिमुत्तसमण्णिदं
सिरि-भगवंतगुणहरभडारभ्रोवइट्ठं

कसायपाहुडं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

जयधवला

तत्थ

संजमे त्ति तेरसमं अणिओगहारं

—: ❁ :—

संजमिदसयलकरणे णमंसिउं सच्चसंजदे वोच्छं ।

संजमसुद्धिमित्तं संजमलद्धि त्ति अणिओगं ॥ १ ॥

* लद्धी तहा चरित्तस्से त्ति अणिओगहारे पुब्बं गमणिज्जं सुत्तं ।

§ १. लद्धी तहा चरित्तस्से त्ति गाहासुत्तावयवबीजपदे गिणीणं जमणियोगहारं कसायपाहुडस्स पण्हारसण्हमत्थाहियाराणं मज्जे तेरसमं खओवसमियसंजमलद्धीए पहाणभावेण पडिबद्धं, अदो चेव संजमलद्धिसण्णिदं तमिदाणि वचइस्सामो । तत्थ पुब्बमेव ताव गमणिज्जमणुगंतव्वं सुत्तं, सुत्तेण विणा तप्परूवणाए सुत्ताणुसारीणं तत्थापवुत्तिप्पसंगादो त्ति । तं पुण सुत्तमेत्थोवजोगी कदममिच्चासंकाए पुच्छावक्कमाह —

जिन्होंने समस्त करणोंको संबन्धित कर लिया है ऐसे सर्व संयतोंको नमस्कार कर संयमकी शुद्धिके निमित्त संयमलब्धि अनुयोगद्वारको कहूँगा ॥ १ ॥

* चारित्रलब्धि अनुयोगद्वारमें पहले गाथासूत्र ज्ञातव्य है ।

§ १. गाथासूत्रके 'लद्धी तहा चरित्तस्स' इस अवयवरूप बीजपदमें कथायप्राभृतके पन्द्रह अर्थाधिकारोंके मध्य क्षायोपशामिक संयमलब्धिमें प्रधानरूपसे प्रतिबद्ध जो तेरहवाँ अनुयोगद्वार लीन है और इसीलिए जिसकी संयमलब्धि संज्ञा है उसे इस समय बतलाते हैं । उसमें सर्वप्रथम गाथासूत्र 'गमणिज्जं' जानने योग्य हैं, क्योंकि सूत्रके बिना उसकी प्ररूपणा करने पर सूत्रानुसारी शिष्योंकी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । परन्तु यहाँ पर वह कौन सा सूत्र उपयोगी है ऐसी आशंका होने पर पृच्छावाक्यको कहते हैं—

* तं जहा ।

§ २. सुगमं ।

* जा चैव संजमासंजमे भणिदा गाहा सा चैव एत्थ वि कायव्वा ।

§ ३. जा चैव पुत्रं संजमासंजमपरूवणाए वणिणदा गाहा 'लद्धी च संजमा-संजमस्स लद्धी तथा चरित्तस्स' इत्थादिया सा चैव एत्थ वि परूवेयव्वा । किं कारणं ? तिस्से दोसु वि एदेसु अत्थाहियारेसु पडिबद्धत्तादो । संपडि एदं गाहामुत्तमवलंबणं कादूण पयदाणिओगहारं परूवेमाणो तत्थ ताव अधापवत्तकरणे चदुण्हं पट्टवण-गाहाणं विहासणड्ढमिदमाह—

* चरिमसमय-अधापवत्तकरणे चत्तारि गाहाओ ।

§ ४. एत्थ दोष्णिण करणाणि होति । तत्थ अधापवत्तकरणस्स चग्मिसमए चचारि सुत्तगाहाओ पुत्रं विहासियव्वाओ भवंति, अण्णहा पयदत्थविसयविसेस-णिण्णयाणुप्पत्तीदो त्ति भणिदं होइ ।

* तं जहा ।

§ ५. काओ ताओ गाहाओ त्ति पुच्छिदं भवदि ।

* वह जैसे ।

§ २. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गाथा संयमासंयम अनुयोगद्वारमें कही गई हैं वही यहाँ पर प्ररूपण करने योग्य है ।

§ ३. पहले संयमासंयमकी प्ररूपणाके समय 'लद्धी च संजमासंजमस्स लद्धी तथा चरित्तस्स' इत्यादि जो गाथा कह आये हैं उसीकी यहाँ भी प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि वह इन दोनों ही अर्थाधिकारोंमें प्रतिबद्ध है । अब इस गाथासूत्रका अबलम्बन लेकर प्रकृत अनुयोगद्वारका कथन करते हुए वहाँ सर्वप्रथम अधःप्रवृत्तकरणमें चार प्रस्थापना गाथाओंका विशेष व्याख्यान करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें चार सूत्रगाथाएँ व्याख्यान करने योग्य हैं ।

§ ४. यहाँ पर दो करण होते हैं । उनमेंसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें पहले चार सूत्रगाथाएँ व्याख्यान करने योग्य हैं, अन्यथा प्रकृत अर्थविषयक विशेष निर्णय नहीं बन सकता यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* वे जैसे ।

§ ५. वे गाथाएँ कौन सी हैं यह इस सूत्र द्वारा पूछा गया है ।

* संजमं पडिबज्जमाणस्स परिणामो केरिसो भवे० ॥१॥ काणि वा पुब्बद्धाणि० ॥२॥ के अस्से भीयदे पुब्बं० ॥३॥ किं द्विदियाणि कम्माणि० ॥४॥

§ ६. संपहि एदासि गाहाणं एत्थ विहासाए कीरमाणाए उवसमसम्मत्तेण सह संजमं पडिबज्जमाणमिच्छाइट्टिस्स सम्मत्तुप्पसीए एदासि विहासा कया तहा णिरवसेसमेत्थ वि कायव्वा, विसेसाभावादो । णवरि मणुससंबंधिणीणमेव बंधोदयो-दीरणपयडोणमणुगमो एत्थ कायव्वो, तदण्णत्थ संजमुप्पत्तीए संभवाभावादो । अण्णो वि विसेसो जाणिय वत्तव्वो । तदो वेदगपाओग्गमिच्छाइट्टिस्स वेदगसम्मा-इट्टिस्स वा संजमं पडिबज्जमाणस्स पयदगाहत्थविहासाए किंचि विसेसाणुगमं कस्सामो । तं जहा—वेदगपाओग्गमिच्छाइट्टिस्स ताव पढमगाहत्थविहामाए दंसण-मोहोवसामगभंगो चेव कायव्वो । णवरि जोगे त्ति विहासाए दंसणमोहक्खवणभंगो ।

* वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके या वेदक सम्यग्दृष्टिके संयमको प्राप्त होते समय परिणाम कैसा होता है, किम योग, कषाय और उपयोगमें विद्यमान उसके कौन सी लेश्या और वेद होता है ॥ १ ॥ पूर्ववद् कर्म कौन-कौन हैं, वर्तमानमें किन-किन कर्मोंको बाँधता है, कितने कर्म उदयावलिमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मोंका प्रवेशक होता है ? ॥ २ ॥ पूर्व ही बन्ध और उदयरूपसे कौनसे कर्मोंका क्षीण होते हैं आगे चलकर यह जीव किसी कर्मका न तो अन्तर करता है और न किसी कर्मका उपशामक होता है । ॥ ३ ॥ वह किस स्थितिवाले कर्मोंका तथा किन अनुभागोंमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त होता है ? ॥ ४ ॥

§ ६ अब इन गाथाओंको यहाँ पर विभाषा करने पर उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अनुयोगद्वारमें इनकी जैसी विभाषा कर आये हैं उसी प्रकार पूरी यहाँ भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई भेद नहीं है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर मनुष्यसम्बन्धी ही बन्ध, उदय और उदीरणारूप प्रकृतियोंका अनुगम करना चाहिए, क्योंकि उससे अन्यत्र संयमकी उत्पत्ति संभव नहीं है । अन्य जो भी विशेष है उसका जानकर कथन करना चाहिये । इसलिये संयमको प्राप्त होने-वाले वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके और वेदकसम्यग्दृष्टिके प्रकृत गाथाओंके अर्थका विशेष व्याख्यान करने पर जो कुछ विशेष है उसका अनुगम करेंगे । यथा—सर्वप्रथम वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टिके प्रथम गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान करने पर दर्शनमोहके उपशामकके समान ही व्याख्यान करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि 'जोगे त्ति' इस पदका विशेष व्याख्यान करने पर दर्शनमोहक्षपणाके समान व्याख्यान करना चाहिये ।

विशेषार्थ—जो वेदक प्रायोग्य मिथ्यादृष्टि जीव संयमको प्राप्त करता है उसका परिणाम विशुद्धतर होता है, औदारिक काययोग, चार मनोयोग और चार बचनयोग इनमेंसे कोई एक योग होता है, चारों कषायोंमेंसे हीयमान कोई एक कषाय होती है, साकार उपयोग

§ ७. 'काणि वा पुव्वबद्धाणि' ति विहासा । एत्थ पयडिसंतकम्मं द्विदिसंत-
कम्ममणुमागसंतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियव्व, तम्मग्गणाए च दंसणमोहोव-
सामगमंगो । णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि संतकम्मिओ ति वत्तव्वं । आउअस्स
एक्का वा दो वा पयडीओ संतकम्मं, मणुसाउअस्स धुवभावेण, देवाउअस्स वि
परभवियाउअबंधवसेण कहिं पि संभवदंसणादो ।

§ ८. 'के वा अंसे णिबंधदि' ति विहासा । एत्थ पयडि-द्विदि-अणुभाग-
पदेसबंधा मग्गियव्व्या । तम्मग्गणाए च उवसामगमंगदो णत्थि जाणत्तं । णवरि
पढमदंडए णिद्विक्काणं चैव पयडीणमेत्थ बंधसंभवो वत्तव्वो, सेसाणमेत्थ बंधा-
संभवादो ।

§ ९. 'कदि आवलियं पविसंति' ति विहासा । मूलपयडीओ सव्वाओ

होवा है तथा तेज, पद्म और शुक्ल इन तीनोंमेंसे कोई एक लेझ्या होता है जो नियमसे
वर्धमान होती है । वेद भी तीनोंमेंसे कोई एक होता है । यहाँ वेदसे तात्पर्य भावभेदसे है ।

§ ७ 'काणि वा पुव्वबद्धाणि' इस पदकी विभाषा—यहाँ पर प्रकृतिसत्कर्म, स्थिति-
सत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मकी मार्गणा करनी चाहिये और उनकी मार्गणाका
भंग दर्शनमोहके उपशामकके समान है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मि-
ध्यात्वका भी सत्कर्मवाला है ऐसा कहना चाहिये । आयुकी एक या दो प्रकृतियोंका सत्त्व
है । उनमेंसे मनुष्यायुका ध्रुवरूपसे सत्त्व है, देवायुका भी परभवसम्बन्धी आयुबन्धके कारण
फिसीमें सम्भव देखा जाता है ।

विश्लेषार्थ—पहले दर्शनमोहोपशामना अनुयोगद्वारमे पूर्वबद्ध कितने कर्मोंकी सत्ता
होती है यहाँ बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिये । यहाँ इतना विशेष
जानना चाहिये कि जो वेदकप्रयोग्य मिथ्यादृष्टि जीव संयमके अभिमुख होते हैं उनके
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्ता नियमसे होती है । तथा उनमेंसे किन्हींके आहारक
शरीरचतुष्ककी भी सत्ता पाई जाती है ।

§ ८ 'के वा अंसे णिबंधदि' इस पदकी विभाषा । यहाँपर प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध,
अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी मार्गणा करनी चाहिए और उनकी मार्गणा उपशामकके
समान है, उससे कोई भेद नहीं है । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डकमें निर्दिष्ट प्रकृतियोंका
ही यहाँपर बन्ध सम्भव है ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि शेषका यहाँपर बन्ध सम्भव नहीं है ।

विश्लेषार्थ—प्रथम दण्डककी ये प्रकृतियाँ हैं—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, सावा-
वेदनीय, मिध्यात्व, १६ कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय-
जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर-
आंगोपांग, वर्णाधिचतुष्क, देवगतिप्रयोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघुआदि चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति,
प्रसादिचतुष्क, सिधरादिषट्क, निर्माण, उच्चगोत्र और ५ अन्तराय । स्थितिबन्ध आदिका
कथन उपशामकके समान जानना चाहिए ।

§ ९. 'कदि आवलियं पविसंति' इस पदकी विभाषा । मूल प्रकृतियाँ सब प्रवेश करती

पविसंति । उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ सव्वाओ पविसंति । णवरि जइ परभवियं देवाउअमत्थि तं ण पविसदि त्ति वत्तव्वं । एत्थिओ च्च विसैसो ।

§ १०. 'कदिण्हं वा पवेसगो' चि विहासा । मूलपयडीणं सव्वासिं पवेसगो । उत्तरपयडीणं पि पंचणाणावरणीय-चउदंसणावरणीय-मिच्छत्त-मणुस्साउ-मणुसगदि-पंचि-दियजादि-ओरालिय० - तेजा - कम्महयसरीरं - ओरालियसरीरअंगोवंग-वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ४—तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेयसरीर-धिराधिर-सुमासुभ-णिमिण-उच्चागोद-पंचं-तराह्याणं णियमापवेसगो । सादासादाणमण्णदरस्स पवेसगो । चदुण्हं कसायाणं तिण्हं वेदाणं दोण्हं जुगलाणमण्णदरपवेसगो । भय-दुगुंछा० सिया पवेसगो । छण्णं संठाणाणं छण्णं संघट्टणाणमण्णदर० णियमा पवेसगो । दोविहायगदि-सुभग-दुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदेज्ज-अणादेज्ज-जसगित्ति-अजसगिचीणमण्णदरपवेसगो । द्विदि-अणु-भाग-पदेसाणं पि पवेसापवेसणं च जाणिय वत्तव्वं ।

हैं । उत्तर प्रकृतियों भी जो हैं वे सब प्रवेश करती हैं । इतनी विशेषता है कि यदि परभवसम्बन्धी देवायु है तो वह प्रवेश नहीं करती पेसा कहना चाहिए । इतना ही विशेष है ।

विशेषार्थ—संयमके अभिमुख हुए वेदकप्रायोग्य मिथ्यादृष्टि जीवके आठों कर्मोंकी सत्ता होती है, इसलिये वे सब उदयावलिमें प्रवेश करती हैं । तथा उदय-अनुदयरूप जितनी उत्तर प्रकृतियोंकी सत्ता है वे सभी उदयावलिमें प्रवेश करती हैं । मात्र जिसके परभवसम्बन्धी देवायुकी सत्ता है वह उदयावलिमें प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उसका आबाधाकाल नियमसे मुख्यमान आयुप्रमाण पाया जाता है ।

§ १०. 'कदिण्हं वा पवेसगो' इस पदकी विभाषा । मूल प्रकृतियोंका सबका प्रवेशक होता है । उत्तरप्रकृतियोंमें भी पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, मिथ्यात्व, मनुष्यायु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक-तैजस-कार्मणशरीर, औदारिकशरीरअंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघुचतुष्क, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे प्रवेशक है । साता और असाता इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक है । चार कषाय, तीन वेद और दो युगलोंमेंसे अन्यतरका प्रवेशक है । भय और जुगुप्साका स्वात् प्रवेशक है । छह संस्थान और छह संहनन इनमेंसे अन्यतरका नियमसे प्रवेशक है । दो विहायोगति, सुभग-दुर्भग, सुस्वर-दुःस्वर, आदेय-अनादेय, तथा यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इनमेंसे अन्यतरका प्रवेशक है । स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके भी प्रवेश और अप्रवेशको जानकर कथन करना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ आयुकर्मके सिवाय शेष कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी होती है, अतः तदनु रूप स्थितियोंकी उद्दीरणा होती है तथा आयुकर्मकी जो मुख्यमान स्थिति शेष हो,

१. भा०प्रती चदुर्दसणावरणीय-मिच्छत्तमर्णतकालमसंखेज्जपोमलपरियट्टा तेजा-कम्महयसरीरर- इति पाठः । ता०प्रतावपि पाठोऽप्यमव्यवस्थित एव ।

§ ११. 'के असे झीयदे पुव्वं बंधेण उदएण वा' ति विहासा । तत्थ बंध-
बोच्छेदे उवसामगमंगादो णत्थि णाणत्तं । जो च थोवयरो विसेसो जाणिय वत्तव्वो ।
संपहि उदयवोच्छेदो बुद्धदे—पंचदंसणावरणीय-णिरय-तिरिक्ख-देवगदि-चट्टुजादिणामाणि
वेडव्विय-आहारसरीर-तदंगोवंग-चट्टुआणुपुव्विणामाणि आदावुज्जोव-थावर-सुहुम-अपजत्त-
साहारणसरीरणामाणि णीचागोदं च एदाणि उदएण वोच्छिण्णाणि, एदेसिमेत्थुदय-
संभवाभावादो ।

§ १२. 'अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं' ति विहासा । तत्थ
अंतरकरणमेत्थ ण संभवइ, वेदगपाओग्गमिच्छाइट्ठिणा एत्थाहियारादो । तदो चैव
उवसामणा वि णत्थि । अथवा पुव्ववद्धानमणुदयोवसामणा जहा संजमासंजमलद्वीए

तदनुरूप स्थितियोंकी उदीरणा होती है । यह स्थिति उदीरणाका विचार है । अनुभाग-
उदीरणाका विचार इस प्रकार है कि यहाँ निर्दिष्ट प्रशस्त प्रकृतियोंकी चतुःस्थानीय होती है
जो बन्धस्थानसे अनन्तगुणी हीन होती है और अप्रशस्त प्रकृतियोंकी द्विस्थानीय होती है जो
सत्त्वस्थानसे अनन्तगुणी हीन होती है । तथा इन्हीं प्रकृतियोंकी प्रवेश उदीरणा अजघन्य-
अनुत्कृष्ट होती है । प्रकृति उदीरणाका स्पष्ट निर्देश मूलमें किया ही है । इतना अवश्य है कि
जिस जीवके जिस समय जिन प्रकृतियोंकी उदीरणा होती है उसके उस समय उन्हीं प्रकृतियों-
की स्थिति, अनुभाग और प्रवेश उदीरणा होती है ।

§ ११. के असे झीयदे पुव्वं बंधेण उदएण वा' इसकी विभाषा । उसमें बन्धव्युच्छित्तिके
विषयमें उपशामकके समान भंग होनेसे कोई भेद नहीं है । और जो थोड़ा भेद है उसका
जानकर कथन करना चाहिए । अब उदयव्युच्छित्तिको कहते हैं—पाँच दर्शनावरणीय,
नरकरति, तिर्यञ्चगति, देवगति, चार जातिनाम, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, ये दोनों
आंगोपांग, चार आनुपूर्वनाम और नीचगोत्र ये उदयसे व्युच्छिन्न हैं, क्योंकि इनका यहाँपर
उदय असम्भव है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उक्त जीवके किन प्रकृतियोंका बन्ध और उदय नहीं होता
इसका स्पष्टीकरण किया गया है । दजंनमोहके उपशामकके जिन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं
होता उनका इसके भी बन्ध नहीं होता । मात्र संयमके सन्मुख हुआ जीव नियमसे कर्म-
भूमिज मनुष्य ही होता है, अतः इसके नामकर्मकी देवगतिप्रायोग्य प्रकृतियोंका ही बन्ध होता
है, मनुष्यगतिप्रायोग्य प्रकृतियोंका नहीं इतना विशेष जानना चाहिए । यहाँ पर जिन
प्रकृतियोंका उदय नहीं होता उनका निर्देश मूलमें किया ही है ।

§ १२. 'अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं' इसकी विभाषा । इसके
अनुसार यहाँ अन्तरकरण सम्भव नहीं है, क्योंकि वेदकप्रायोग्य मिथ्यावृष्टिका यहाँ पर
अधिकार है और इसीलिये उपशामना भी नहीं है । अथवा पूर्ववद्द कर्मोंकी अनुदय-उपशा-

परूविदा, तहा एत्थ वि परूवेयव्वा, तिस्से सब्बत्थ पडिसेहाभावादो ।

§ १३. 'किं द्विदियाणि कम्माणि कं ठाणं पडिवज्जइ' चि विहासा । ठिदिबादो ताव संखेजे भागे घादेदूण संखेज्जदिभागं पडिवज्जदि, इच्चादि उवसामगमंगेण वत्तव्वं, विसेसाभावादो । वेदगसम्माइद्विस्स' वि असंजदस्स संजमलंमे बहुमाणस्स पयदगाहत्थ-विहासा जाणिय कायव्वा ।

§ १४. एवमेदासु गाहासु सवित्थरमेत्थ विहासिदासु तदो उत्तरं परूवणा-

मना जिस प्रकार संयमासंयमलब्धिमें कही है उसी प्रकार यहाँ भी कहनी चाहिए, क्योंकि उसका सर्वत्र प्रतिषेध नहीं है ।

विशेषार्थ—संयमलब्धि क्षायोपशमिक भाव है और इसकी प्राप्तिके पूर्व केवल अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण ये दो करण होना ही सम्भव है, अतः यहाँ न तो किसी कर्मका अन्तरकरण होता है और न अन्तरकरणपूर्वक होनेवाली उपशमना ही होती है । इतना अवश्य है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्क, अप्रत्याख्यानान्तरणचतुष्क और प्रत्याख्यानान्तरणचतुष्क इन बारह कर्मप्रकृतियोंके अनुदयलक्षण उपशमके होने पर संयमलब्धिकी प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ सर्वदा अनुदय-उपशमना बन जाती है, उसका निषेध नहीं है । इस लब्धिमें यद्यपि चार संखलन और नौ नोकषायोंका उदय रहता है । परन्तु वह सर्वथाति न होकर देशचातिस्वरूप होता है, इसलिए उसके होनेमें कोई विरोध नहीं है । यह प्रकृति अनुदयोपशमनाका स्पष्टीकरण है । स्थिति, अनुभाग और प्रदेशानुदयोपशमनाका स्पष्टीकरण जानकर कर लेना चाहिये ।

§ १३ 'किं द्विदियाणि कम्माणि कं ठाणं पडिवज्जइ' इसकी विभाषा । स्थितिघात यथा—संख्यात बहुभागका घात कर संख्यातवै भागको प्राप्त होता है इत्यादिका जिस प्रकार दर्शनमोहके उपशमककी अपेक्षा कथन कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी कथन करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । तथा यदि वेदकसम्यग्दृष्टि असंयत भी संयमको प्राप्त कर रहा है तो उसके प्रकृत गाथाके अर्थकी विभाषा जानकर करना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणपूर्वक जिस संयमकी प्राप्ति होती है उसका प्रकरण है । जो मिध्यावृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त करता है उसका यहाँ प्रकरण नहीं है । यहाँ मुख्यरूपसे वेदकप्रायोग्य कालके भीतर जो मिध्यावृष्टि जीव अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणपूर्वक संयमको प्राप्त करता है उसका प्रकरण है, अतः ऐसे जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें आयुकर्मके अतिरिक्त अन्य सात कर्मोंका जितना स्थितिसत्त्व शेष हो उसका हजारों स्थितिकाण्डकोंके द्वारा घात होकर अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें संख्यातवै भागप्रमाण स्थितिसत्त्व शेष रहना आगमसिद्ध ही है । मूलमें इसी तथ्यको स्पष्ट किया गया है । शेष व्याख्यान आगमसे जान लेना चाहिए ।

§ १४. इस प्रकार इन गाथाओंका यहाँ पर विस्तारपूर्वक व्याख्यान कर देने पर

पबंधमाहवेमाणो इदमाह—

* एवाओ सुस्तगाहाओ विहासियुण तदो संजमं पडिवज्जमाणगस्स उवक्कमविधिविहासा ।

§ १५. उपक्रमणमुपक्रमं प्रारंभ इत्यर्थः । उपक्रमस्य विधिरुपक्रमविधिः । उपक्रमविधेः परिभाषा उपक्रमविधिपरिभाषा । संयमग्रहणं प्रत्यभिमुखीभावमास्कंदत-स्तदारंभात्प्रसृत्यापरिसमाप्तेर्विस्तरप्ररूपणेति यावत् । सेदानीं प्रस्तूपत इति सूत्रार्थ-संग्रहः ।

* तं जहा ।

§ १६. सुगमं ।

* जो संजमं पढमदाए पडिवज्जदि तस्स दुविहा अद्धा—अधापवस्त-करणद्धा च अपुव्वकरणद्धा च ।

§ १७. एत्थानियड्डिअद्धाए सह तिण्णि अद्धाओ कथं ण परूविदाओ ? ण, वेदगपाओगमिच्छाइड्डिस्स वेदगसम्माइड्डिस्स वा पढमदाए संजमं पडिवज्जमाण-स्सानियड्डिकरणसंभवाभावादो । अणादियमिच्छाइड्डिम्मि उवसमसम्मत्तेण सह संजमं

तत्पश्चात् आगे प्ररूपणाप्रबन्धका आरम्भ करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* इन सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करनेके बाद संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके उपक्रमविधिका विशेष व्याख्यान प्रस्तुत है ।

§ १५. उपक्रम शब्दकी व्युत्पत्ति है—उपक्रमणं उपक्रमः । उपक्रम और प्रारम्भ इन शब्दोंका अर्थ एक है । उपक्रमकी विधि उपक्रमविधि कहलाती है । उपक्रमविधिकी परिभाषा उपक्रमविधिपरिभाषा है । संयमके ग्रहणके प्रति अर्थात् संयमके सन्मुखभावको प्राप्त होनेवाले जीवके संयमग्रहणके प्रारम्भ समयसे लेकर समाप्त होने तक विस्तारसे की गई प्ररूपणा यह उक्त कथनका तात्पर्य है । वह इस समय प्रस्तुत है यह सूत्रार्थसमुच्चय है ।

* वह जैसे ।

§ १६. यह सूत्र सुगम है ।

* जो संयमको प्रथमतः प्राप्त होता है उसके अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरण ये दो काल होते हैं ।

§ १७. शंका—यहाँ अनिष्टत्तिकरण कालके साथ तीन काल क्यों नहीं कहे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वेदकप्रायोग्य मिध्यादृष्टिके या वेदकसम्यग्दृष्टिके प्रथमतः संयमको ग्रहण करते हुए अनिष्टत्तिकरणका होना सम्भव नहीं है ।

पडिवज्जमाणम्मि तिण्हं करणाणं संभवो अत्थि त्ति वे ? होउ णाम, इच्छिज्ज-
माणत्तादो । किंतु ण तस्सेह विवक्खा अत्थि, तप्परूवणाए दंसणमोहोवसामणाए
चेव अंतभूदत्तादो । संपहि एदेसिं दोण्हं करणाणं लक्खणविहासा च जहा संजमा-
संजमलद्धीए परूविदा तथा णिरवसेसमेत्थ वि कायव्वा, विसेसाभावादो त्ति जाणावे-
माणो अप्पणामुत्तमुत्तरं भणइ—

* अधापवत्तकरण-अपुव्वकरणाणि जहा संजमासंजमं पडिवज्ज-
माणयस्स परूविदाणि तथा संजमं पडिवज्जमाणयस्स वि कायव्वाणि ।

§ १८. गयत्थमेदं सुत्तं । तदो अधापवत्त-अपुव्वकरणाणं लक्खणादिपरूवणा
पुव्वभंगेण णिरवसेसमेत्थ कायव्वा । तत्थ कीरमाण-कज्जमेदो च ठिदि-अणुभागखंडय-
तव्वंधोसरणलक्खणो सवित्थरं परूवेयव्वो ; तदो अपुव्वकरणद्वाए णिट्ठिदाए अप्प-
मादभावेण संजमं पडिवण्णस्स पढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तमेत्तकालमेयंताणुवट्ठीए
संजमपरिणामो वट्ठदि त्ति परूवणट्ठमुत्तरसुत्तमाह—

* तदो पढमसमयसंजमप्पहुडि अंतोमुहुत्तद्दमणंतगुणाए चरित्त-
लद्धीए वट्ठदि ।

शंका—अनादि मिथ्यादृष्टिके उपशमसम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त होते समय तीन
करण होते हैं ?

समाधान—होने दो, क्योंकि उसके तीनों करणोंका होना इष्ट है । किन्तु उसकी यहाँ
विवक्षा नहीं है । उक्त प्ररूपणा दर्शनमोहोपशमनासम्बन्धी प्ररूपणामें ही अन्तर्भूत है ।

अब इन दोनों करणोंके लक्षणोंका विशेष व्याख्यान जिस प्रकार संयमासंयमलब्धिमें
कहा है उसी प्रकार उसका पूरा व्याख्यान यहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई
भेद नहीं है इस प्रकार इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके अर्पणासूत्रको कहते हैं—

* संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीवके जिस प्रकार अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्व-
करणका कथन किया है उसी प्रकार संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके भी प्ररूपण करना
चाहिए ।

§ १८. यह सूत्र गतार्थ है । इसलिये अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणके लक्षणाविकी
समस्त प्ररूपणा पहलेके समान यहाँ पर करनी चाहिए । वहाँ स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक
तथा स्थितिवन्धापसरणलक्षण किये जानेवाले नाना कार्य विस्तारके साथ कहने चाहिए ।
तत्पश्चात् अपूर्वकरणके समाप्त होने पर अप्रमादभावसे संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम
समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालतक एकान्तानुवृद्धिसे संयमपरिणाम वृद्धिगत होता है इस बात-
का कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* तत्पश्चात् संयम ग्रहणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालतक अनन्त-
गुणी चारित्रलब्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है ।

§ १९. कुदो ? अलद्धपुव्वसंजमपडिलंमेण जणिदसवैगस्स तहावट्ठीए विप्पडि-
सेहाभावादो । ण एसो अणंतगुणविसोहिपडिलंभो णिप्फलो, पडिसमयमसंखेज्जगुण-
सेटीए कम्मक्खंधाणं णिज्जरणफलत्तादो । जाव एसो एयंताणुवट्ठीए वट्ठदि ताव
आउगबजाणं सब्बकम्माणं ट्ठिदि-अणुभागखंडयसहस्साणमंतोमुहुत्तुकीरणद्वापडिबद्धाणं
घादुवलंभादो च ।

* जाव चरित्तलद्धीए एगंताणुवट्ठीए वट्ठदि ताव अपुव्वकरणसण्णिदो
भवदि ।

§ २०. जाव एसो चरित्तलद्धीए अंतोमुहुत्तकालमेयताणुवट्ठिपरिणामेहिं वट्ठदि
ताव अपुव्वकरणववएसारिडो चैव होदि । किं कारणं ? अपुव्वापुव्वेहिं परिणामेहिं
वट्ठमाणस्स तदवत्थाए तव्ववएससिद्धीए बाहाणुवलंभादो । असंजदचरिमसमये चैय
अपुव्वकरणे णिट्ठिदे पुणो कधमेदस्स तव्ववएसो त्ति णासंकाणिज्जं, अपुव्वकरणो व्व
अपुव्वकरणो त्ति तव्ववएससिद्धीए विरोहाभावादो । जहा अपुव्वकरणो टिदिघादादि-
कज्जविसेसमपुव्वापुव्वेहिं परिणामेहिं करेदि तहा एसो वि करेदि त्ति भावत्थो ।
एदम्मि काले णिट्ठिदे तदो अधापवत्तसंजदो होइ । तत्थ णत्थि ट्ठिदिघादो अणुभाग-

§ १९. क्योंकि अलब्धपूर्व संयमके प्राप्त होनेसे उत्पन्न हुए संवेगसम्पन्न जीवके उस
प्रकार वृद्धि होनेमें प्रतिषेध नहीं है और यह अनन्तगुणी विशुद्धिकी प्राप्ति निष्फल नहीं है,
क्योंकि प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कर्मस्कन्धोंकी निजरा होना उसका फल है ।
और जब तक यह जीव एकान्तानुवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है तब तक आयुकर्मको छोड़कर
शेष सब कर्मोंके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्कीरणकालसे सम्बन्ध रखनेवाले हजारों स्थितिकाण्डकों
और हजारों अनुभागकाण्डकोंका घात पाया जाता है ।

* तथा जब तक एकान्तानुवृद्धिरूप चारित्रलब्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है तब
तक अपूर्वकरणसंज्ञावाला होता है ।

§ २०. जब तक यह जीव एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके द्वारा अन्तर्मुहूर्त काल तक
चारित्रलब्धिसे वृद्धिको प्राप्त होता है तब तक अपूर्वकरण संज्ञाके योग्य ही होता है, क्योंकि
अपूर्व-अपूर्व परिणामोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होनेवाले जीवके उस अवस्थामें उक्त संज्ञाकी
सिद्धिमें कोई बाधा नहीं पाई जाती ।

संज्ञा—असंयतके अन्तिम समयमें ही अपूर्वकरणके समाप्त हो जाने पर पुनः इसके
बह संज्ञा कैसे बन सकती है ?

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपूर्वकरणके समान यह
अपूर्वकरण है, इसलिए इस संज्ञाकी सिद्धिमें कोई विरोध नहीं है । जिस प्रकार अपूर्वकरण
जीव प्रति समय अपूर्व-अपूर्व परिणामोंके द्वारा स्थितिघात आदि कार्यविशेष करता है उसी
प्रकार यह भी करता है यह उक्त कथनका भावार्थ है ।

बादो वा । गुणसेढी पुण जाव संजदो ताव अवट्ठिदायामा होदूण पयडुदे । णवरि विमुज्जंतो असंखेज्जगुणं वा संखेज्जगुणं वा संखेज्जदिभागुत्तरं वा असंखेज्जदिभागुत्तरं वा दव्वमोकङ्कियूण गुणसेढिं करेदि । संकिलम्संतो एवं चेव गुडहीणं वा विसेस-हीणं वा दव्वमोकङ्कियूण गुणसेढिं करेदि । अवट्ठिदपरिणामो अवट्ठिदं चेव करेदि, परिणामाणुसारीए गुणसेढिणिज्जराए तव्वट्ठि-हाणिवसेणेव पवुत्तीए बाहाणुवलंभादो । एदं च सव्वमणेणावहारिय इदमाह—

* एयंतरवट्ठीदो से काले चरित्तलद्धीए सिया वट्ठेज्ज वा हाएज्ज वा अवट्ठाएज्ज वा ।

§ २१. सत्याणपदिदस्स अधापवत्तसंजदस्स गुणसेढिणिज्जराविणाभाविंसंजम-लद्धीए विसोहि-संकिलेसवसेण वट्ठि-हाणि-अवट्ठानसिद्धीए विरोहाणुवलंभादो ।

§ २२. एवमेदं परूवणं समाणिय संपहि पदपडिवूरणवीजपदावलंबणेण एत्थ अप्पावहुअं कायव्वमिदि जाणावेमाणो उत्तरं पबंधमाह—

इस कालके समाप्त होने पर तत्पश्चात् अधःप्रवृत्तसंयत होता है । वहाँ स्थितिघात और अनुभागघात नहीं हैं । परन्तु जब तक संयत है तब तक अवस्थित आयामवाली गुणश्रेणि होकर प्रवृत्त होती है । इतनी विशेषता है कि विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ असंख्यातगुणे, संख्यातगुणे, संख्यातवे भाग अधिक या असंख्यातवे भाग अधिक द्रव्यका अपकर्षण कर गुणश्रेणि करता है । संक्लेशको प्राप्त होता हुआ इसी प्रकार गुणहीन या विशेष हीन द्रव्यका अपकर्षण कर गुणश्रेणि करता है । तथा अवस्थित परिणामवाला जीव अवस्थित ही गुणश्रेणि करता है । परिणामोंके अनुसार होनेवाली गुणश्रेणिनिर्जराके परिणामोंकी वृद्धि-हानिवश ही प्रवृत्ति होनेमें बाधा नहीं पाई जाती । इस प्रकार इस सबको मनसे निश्चित कर इस सूत्रको कहते हैं—

* एकान्तानुवृद्धिके पश्चात् अनन्तर कालमें चारित्रलब्धिवश कदाचित् वृद्धिको प्राप्त होता है, कदाचित् हानिको प्राप्त होता है और कदाचित् अवस्थित रहता है ।

§ २१. स्वस्थानपतित अधःप्रवृत्तसंयतके गुणश्रेणिनिर्जराकी अविनाभावी संयमलब्धिसम्बन्धी विशुद्धि-संक्लेशवश वृद्धि, हानि और अवस्थानकी सिद्धि होनेमें विरोध नहीं पाया जाता ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि अप्रमादभावपूर्वक संयमकी प्राप्ति होने पर अन्तर्मुहूर्त काल तक संयमसम्बन्धी परिणामोंमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, इसलिए उस समय होनेवाली निर्जरा उत्तरोत्तर असंख्यात गुणितक्रमसे ही होती है । किन्तु उसके बाद इस जीवके स्वस्थानपतित अधःप्रवृत्तसंयत होनेपर जिस क्रमसे संक्लेश और विशुद्धिवश संयमरूप परिणामोंमें वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है उसी क्रमसे निर्जराका भी क्रम बदलता रहता है । विशेष निर्देश पूर्वमें किया ही है ।

§ २२. इस प्रकार इस प्ररूपणाको समाप्त कर अब पदपूर्तिस्वरूप बीजपदोंका अवलम्बन लेकर यहाँ पर अल्पबहुत्व करना चाहिए इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* संजमं पडिवज्जमाणयस्स वि पडमसमय-अणुव्वकरणमादिं कावूण जाव ताव अधापवत्ससंजदो त्ति एदमिह काले इमेसिं पदानमप्पाबहुअं कादव्वं ।

§ २३. सुगममेदं पयदप्पाबहुअपरूवणाविसयं पइण्णावक्कं ।

* तं जहा ।

§ २४. काणि ताणि पदाणि एदमिह काले संभवंताणि जेसिमप्पाबहुअमिद-महिकीरदि त्ति पुच्छा कदा होइ ।

* अणुभागखंडय-उत्कीरणद्धाओ जहण्णुक्कस्सियाओ द्विदिखंडय-उत्कीरणद्धाओ जहण्णुक्कस्सियाओ इच्चेवमादीणि पदाणि ।

§ २५. एत्यादिसहेण जहण्णुक्कस्साबाहो जहण्णुक्कस्सट्टिदिखंडयबंधसंतादि-पदानमण्णेसिं च पयदोवजोगीणं पदाणं गहणं कायव्वं । सुगममण्णं ।

* सव्वत्थोवा जहण्णिया अणुभागखंडयउत्कीरणद्धा ।

* सा चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया ।

* जहण्णिया द्विदिखंडयउत्कीरणद्धा द्विदिबंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ ।

* संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अधःप्रवृत्त संयतके अन्तिम समय तक इस कालमें इन पदोंका अल्पबहुत्व करना चाहिए ।

§ २३ प्रकृत अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाको विषय करनेवाला यह प्रतिज्ञावाक्य सुगम है ।

* वह जैसे ।

§ २४ इस कालमें सम्भव होनेवाले वे पद कौन हैं जिनका अल्पबहुत्व अधिकृत है यह इस सूत्र द्वारा पृच्छा की गई है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक-उत्कीरणकाल तथा जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक उत्कीरणकाल इत्यादि जो पद हैं उनका अल्पबहुत्व करना चाहिए ।

§ २५. इस सूत्रमें आये हुए 'आदि' शब्दसे जघन्य और उत्कृष्ट आवाधास्थानोंका, जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिकाण्डकोंका, जघन्य और उत्कृष्ट बन्धपदोंका, जघन्य और उत्कृष्ट सत्कर्मपदोंका तथा प्रकृतमें उपयोगी अन्य पदोंका ग्रहण करना चाहिए । अन्य कथन सुगम है ।

* जघन्य अनुभागकाण्डक-उत्कीरणकाल सबसे थोड़ा है ।

* उत्कृष्ट वही विशेष अधिक है ।

* उससे जघन्य स्थितिकाण्डक-उत्कीरणकाल और स्थितिवन्धकाल ये दोनों तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं ।

- * तेसिं चेष उक्कस्सिया विसेसाहिवा ।
- * पढमसमयसंजदमादिं कादूण जं कालमेयंताणुवट्ठीए बहूदि एसा अद्दा संखेज्जगुणा ।
- * अपुन्वकरणद्दा संखेज्जगुणा ।
- * जहणिया संजमद्दा संखेज्जगुणा ।
- * गुणसेदिणिक्खेवो संखेज्जगुणो ।
- * जहणिया आबाहा संखेज्जगुणा ।
- * उक्कस्सिया आबाहा संखेज्जगुणा ।
- * जहणयं द्विदिखंडयमसंखेज्जगुणं ।
- * अपुन्वकरणस्स पढमसमए जहण्णाट्टिदिखंडयं संखेज्जगुणं ।
- * पलिदोवमं संखेज्जगुणं ।
- * पढमस्स ट्टिदिखंडयस्स विसेसो सागरोवमपुधत्तं संखेज्जगुणं ।
- * जहण्णाओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ।
- * उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ।

- * उनसे उन्हींके उत्कृष्ट काल विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे संयत होनेके प्रथम समयसे लेकर जिस कालमें एकान्तानुवृत्तिसे बढ़ता है वह काल संख्यातगुणा है ।
- * उससे अपूर्वकरणका काल संख्यातगुणा है ।
- * उससे जघन्य संयमकाल संख्यातगुणा है ।
- * उससे गुणश्रेणिनिक्षेप संख्यातगुणा है ।
- * उससे जघन्य आबाधा संख्यातगुणी है ।
- * उससे उत्कृष्ट आबाधा संख्यातगुणी है ।
- * उससे जघन्य स्थितिकाण्डक असंख्यातगुणा है ।
- * उससे अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्राप्त जघन्य स्थितिकाण्डक संख्यात-गुणा है ।
- * उससे पण्योपम संख्यातगुणा है ।
- * उससे प्रथम स्थितिकाण्डकका सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण विशेष संख्यात-गुणा है ।
- * उससे जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।
- * उससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।

* जहण्णयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

* उक्कस्सयं द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २६. सुगमो एसो अप्पावहुअपबंधो त्ति णेदस्स वक्खाणं कीरदे, जाणिद-
जाणावणे फलाभावादो । णवरि जहण्णपदाणि एयंताणुवट्ठिकालचरिमसमये
चेत्तन्वाणि । उक्कस्सपदाणि च अपुव्वकरणपढमसमए गेण्हिदव्वाणि । एवमेदमप्पा-
वहुअं समाणिय संपहि एत्थेव विसेसंतरपदुप्पायणट्ठमिदमाह —

* संजमादो णिग्गदो असंजमं गंतूण जो द्विदिसंतकम्मेण अणवट्ठि-
देण पुणो संजमं पडिवज्जदि तस्स संजमं पडिवज्जमाणगस्स णत्थि अपुव्व-
करणं, णत्थि द्विदिघादो, णत्थि अणुभागघादो ।

§ २७. जो संजमादो परिणामपच्चएण संकिलेसवहुत्तेण विणा णिस्सरिदो
संतो असंजदभावं गंतूण तत्थ द्विदिसंतकम्ममवट्ठाविय पुणो वि अतोमुहुत्तेणेव
विसुद्धो होदूण सजमं पडिवज्जदि तस्स तथा सजमं पडिवज्जमाणस्स णत्थि अपुव्व-
करणपरिणामो द्विदि-अणुभागघादो वा, तत्थ पुव्वघादिदावसेसद्विदिअणुभागानं
संजमग्गहणपाओग्गभावेण तदवत्थपदंसणादो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स समुच्चयट्ठो ।
जो वुण संकिलेसभरेण मिच्छत्ताणुविद्धमसंजदपरिणामं पडिवण्णो अंतोमुहुत्तेण

* उससे जघन्य स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

* उससे उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २६. यह अल्पबहुत्वप्रबन्ध सुगम है, इसलिये इसका व्याख्यान नहीं करते, क्योंकि
जिसका ज्ञान कराया है उसका पुनः ज्ञान करानेमें कोई फल नहीं है । इतनी विशेषता है कि
जघन्य पदोंको एकान्तानुवृत्तिकालके अन्तिम समयमें ग्रहण करना चाहिए और उत्कृष्ट पदोंको
अपूर्वकरणके प्रथम समयमें ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार इस अल्पबहुत्वको समाप्त कर
अब वहाँ पर विशेष अन्तरका कथन करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं—

* जो संयमसे च्युत हो असंयमको प्राप्त कर नहीं बढ़े हुए स्थितिसत्कर्मके
साथ पुनः संयमको प्राप्त करता है, संयमको प्राप्त होनेवाले उस जीवके अपूर्वकरण
नहीं होता, स्थितिघात नहीं होता और अनुभागघात नहीं होता ।

§ २७. जो जीव बहुत संकलेशके विना परिणामवश संयमसे च्युत हो असंयतपनेको
प्राप्त कर वहाँ स्थितिसत्कर्मको न बढ़ाकर फिर भी अन्तर्मुहूर्तमें ही विशुद्ध होकर संयमको
प्राप्त होता है, उस प्रकार संयमको प्राप्त हुए उसके अपूर्वकरण परिणाम नहीं होता, स्थिति-
काण्डकघात नहीं होता और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता, क्योंकि वहाँ पहले घात कर
शेष रहे स्थिति और अनुभाग संयम ग्रहणके प्रायोग्यरूपसे तदवस्थित देखे जाते हैं यह इस
सूत्रका समुच्चयार्थ है । परन्तु जो संयत संकलेशकी बहुलतावश मिथ्यात्वसहित असंयत-

विष्पकिट्टंतरेण वा पुणो संजमं पडिवअदि तस्स वि पुच्चुत्ताणि चैव दोष्णि करणाणि, तद्वा चैव द्विदि-अणुभागघादा च होंति । बट्ठाविद-द्विदिअणुमागाणं घादेण विणा संजमग्गहणाणुववत्तीदो ।

* एत्तो चरित्तलद्धिगाणं जीवाणं अट्ट अणिओगहाराणि ।

§ २८. एत्तो उवरि चरित्तलद्धिमंताणं जीवाणं अट्टहिं अणिओगहारेहिं परूवणा कायव्वा, अण्णहा तच्चिसयविसेसाणिप्पत्तीदो त्ति भणिदं होइ । काणि ताणि अट्टाणियोगहाराणि त्ति पुच्छावक्कमाह—

* तं जह्हा ।

§ २९. सुगमं ।

* संतपरूवणा दब्बं खेचं पोसणं कालो अंतरं मागाभागो अत्पा-
यहुअं च अणुगंतव्वं ।

परिणामको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्तमें या बड़े अन्तरके बाद पुनः संयमको प्राप्त होता है उसके भी पूर्वोक्त दो करण नियमसे होते हैं तथा उसी प्रकार स्थितिघात और अनुभागघात भी होते हैं, क्योंकि उक्त जीवके बढ़ाये गये स्थिति और अनुभागका घात किये विना संयमका ग्रहण नहीं बन सकता ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि जो बहुत संक्लेश हुए विना परिणामोंके निमित्तसे संयमभावसे च्युत होकर अतिशीघ्र अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर पुनः संयमभावको प्राप्त होते हैं उनके पूर्वोक्त दो करण और स्थिति-अनुभागकाण्डकघात हुए विना संयमकी प्राप्ति ही जाती है । किन्तु जो बहुत संक्लेशके कारण संयमसे च्युत होते हैं वे चाहे अन्तर्मुहूर्तमें पुनः संयमको प्राप्त हों और चाहे बहुत कालका अन्तर देकर संयमको प्राप्त करें, परन्तु उनके कर्मोंकी स्थिति और अनुभागमें वृद्धि हो जानेके कारण वे पूर्वोक्त दो करणपूर्वक स्थिति-अनुभाग काण्डकघात करके ही संयमको प्राप्त होते हैं ।

* आगे चारित्रलब्धिको प्राप्त जीवोंके आठ अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं ।

§ २८ इससे आगे चारित्रलब्धिसम्पन्न जीवोंकी आठ अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे प्ररूपणा करनी चाहिये, क्योंकि अन्यथा तद्विषयक विशेषका ज्ञान नहीं हो सकता यह उक्त कथनका तात्पर्य है । वे आठ अनुयोगद्वार कौन हैं इस प्रकार पृच्छावाक्यको कहते हैं—

* वे जैसे ।

§ २९. यह सूत्र सुगम है ।

* सत्प्ररूपणा, द्रव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, मागाभाग और
अन्पबहुत्व ।

§ ३०. एदेसि च अट्टण्हमणिओगदाराणं विहासा सुगमा ति चुणिसुच-
यारेण ण वित्थारिदा । तदो एत्थ मंदमेहाविजणाणुगहट्टुमेदेसिमणुगमं कस्सामो ।
तं जहा—

संतपरूवणदाए दुविहो णिहेसो—ओघेणादेसेण य । ओघेण अत्थि संजदा
सामाहय-छेदोवट्टावण० परिहार० सुहुम० जहाक्खादविहारमुद्धिसंजदा च । एवं मणुस-
मणुसपञ्जत्त-पंचिदिय-पंचिदियपञ्जत्त-तस-तसपञ्जत्त- पंचमण० - पंचवचि०-कायजोगि-
ओरालिय० - आभिणि० - सुद० - ओहि० - चक्खु० - अचक्खु० - ओहिदंसण - मुक्कलेस्सिय-
भवसिद्धिय-सम्मदिट्ठि-खइयसम्मदिट्ठि-सण्णि-आहारि ति । एवं मणुसिणी० । णवरि
परिहारमुद्धि० णत्थि । एवमवगद०-मणपञ्जव०-उवसमसम्माइट्ठि ति । ओरालिय-
भिस्स०-कम्मइय० अत्थि जहाक्खादविसुद्धिसं० । सेसं णत्थि । एवमकसा०-केवल-
णाणि-केवलदंसणि-अणाहारि ति । आहार-आहारभिस्स०-इत्थि-णवुंस० अत्थि सामा-
इय-छेदोवट्टावणमुद्धिसंजदा । पुरिसवेद० अत्थि सामाहय-छेदोव०-परिहारमुद्धिसंजद० ।
एवं कोह-माण-मायाकसाय० । तेउ०-पम्म०-वेदगसम्माइट्ठि ति ओघभंगो । णवरि
सुहुम०-जहाक्खाद० णत्थि । सेसमग्गणासु णत्थि संजदा । सेसाणिओग-
दाराणि वि एदेण बीजपदेण णादूण णेदव्वाणि । णवरि सच्चत्थ संजमाणुवादं भोत्तूण

§ ३०. इन आठ अनुयोगद्वारोंकी विभाषा सुगम है, इसलिये चूर्णिसूत्रकारने विस्तार
नहीं किया । अतएव यहाँपर मन्दबुद्धि जनोका अनुगृह करनेके लिये इनका अनुगम करेंगे ।
यथा—सप्ररूपणाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सामायिक-
छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविमुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत और यथाख्यातविहारमुद्धि-
संयत जीव हैं । इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, मनुष्यपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त,
ब्रह्म, ब्रह्मपर्याप्त, पाँच मनयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनि-
बोधिकजानी, श्रुतजानी, अवधिजानी, चञ्चुदर्शनी, अचञ्चुदर्शनी, अवधिदर्शनी, मुक्कलेस्यावाले,
भय्य, सम्यग्बुद्धि, क्षायिकसम्यग्बुद्धि, संज्ञी और आहारक (मार्गणावाले) जीवोंमें जानना
चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें परिहार-
विमुद्धिसंयत जीव नहीं होते । इसी प्रकार अर्थात् मनुष्यिनियोंके समान अपगतवेदी,
मनःपर्ययजानी और उपसमसम्यग्बुद्धि जीवोंमें जानना चाहिए । औदारिकमिश्रकाययोगी
और कर्मणकाययोगयोगी जीवोंमें यथाख्यातविमुद्धिसंयत जीव हैं । शेष संयत जीव नहीं हैं ।
इसी प्रकार अकषायी, केवलज्ञानी, केवलदर्शनी और अनाहारकोंमें जानना चाहिये । आहार-
रककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें सामायिक-छेदो-
पस्थापनामुद्धिसंयत जीव हैं । पुरुषवेदी जीवोंमें सामायिक-छेदोपस्थापनामुद्धिसंयत और
परिहारमुद्धिसंयत जीव हैं । इसीप्रकार क्रोध, मान और मायाकषायमें जानना चाहिये ।
तेज, पद्म और वेदकसम्यग्बुद्धि जीवोंमें ओषके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि
इनमें सूक्ष्मसाम्परायसंयत और यथाख्यातसंयत जीव नहीं हैं । शेष मार्गणाओंमें संयत
जीव नहीं हैं । शेष अनुयोगद्वारोंका भी इसी बीजपदके अनुसार जानकर कथन करना

सेसतेरसमग्गणाहिं च्चैव अणुगमो कायब्बो, तिस्से आधेयसेण विवक्खियाए मग्गणासु पवैसासंभवादो ।

चाहिए । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र संयमानुवादको छोड़ शेष तेरह मार्गणाओंके द्वारा ही अनुगम करना चाहिए, क्योंकि संयम मार्गणा प्रकृतमें आधेय है इस विवक्षावश उसका प्रकृतमें आधारभूत शेष मार्गणाओंमें प्रवेश नहीं हो सकता ।

विशेषार्थ—संयममार्गणा एक मनुष्यगतिमें ही सम्भव है । उसमें भी छठे गुणस्थानसे संयममार्गणाका प्रारम्भ होता है इस तथ्यको ध्यानमें रख कर जो मार्गणाएँ छठे आदि गुणस्थानोंमें बन जाती हैं उनमें संयममार्गणाका होना सिद्ध होता है । उसमें भी संयमभावके पाँच अवान्तर भेदोंमेंसे सामायिक-छेदोपस्थापनासंयम नौवें गुणस्थान तक, परिहारविशुद्धि-संयम छठे-सातवें दो गुणस्थानोंमें, सूक्ष्मसाम्परायसंयम दसवें गुणस्थानमें और यथाख्यात-चारित्र ग्यारहवेंसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है । इस हिसाबसे संयममार्गणाके अवान्तर भेद किस-किस मार्गणामें सम्भव हैं इसका विचार कर लेना चाहिये । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनी, मनःपर्ययज्ञानी, उपशमसम्यग्दृष्टि, स्त्रीवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयम नहीं होता ऐसा सहज ही वस्तुस्वभाव है । शेष कथन सुगम है । अब रहा द्रव्यप्रमाणआदिका विचार सो सामान्यसे संयत तथा सामायिक-छेदोपस्थापनासंयत जीव कोटिपृथक्त्वप्रमाण हैं । परिहारशुद्धिसंयत जीव सहस्रपृथक्त्वप्रमाण हैं । सूक्ष्मसाम्पराय-शुद्धिसंयत जीव शतपृथक्त्वप्रमाण हैं और यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत जीव लक्षपृथक्त्व प्रमाण हैं । काल—एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा काल दो प्रकारका है । एक जीवकी अपेक्षा कालका विचार करने पर संयत तथा सामायिक-छेदोपस्थापना संयत जीवका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है । परिहारविशुद्धिसंयतका काल भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका उत्कृष्ट काल अड़तीस वर्ष कम एक पूर्व कोटिप्रमाण है । उपशमश्रेणिकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है तथा इसी अपेक्षासे यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल आठ वर्ष अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है । नाना जीवोंकी अपेक्षा संयत, सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत और यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत इनका काल सर्वथा है । तथा सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अन्तरकाल—एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा यह दो प्रकारका है । उनमेंसे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकालका विचार करनेपर संयत, सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत और परिहारविशुद्धिसंयतका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । उपशमश्रेणिकी अपेक्षा सूक्ष्मसाम्पराय-शुद्धिसंयत और यथाख्यातविहारशुद्धिसंयतका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । क्षपकश्रेणिकी अपेक्षा अन्तरकाल नहीं है । नाना जीवोंकी अपेक्षा संयत, सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत और यथाख्यातविहार-शुद्धिसंयतोंका अन्तर काल नहीं है । सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना है । क्षेत्र और स्पर्शन—सामायिक-छेदोप-

§ ३१ एवमेदेषु सवित्थरमणुमगिगय समत्तेसु तदो संजमलद्धिविसयमेव परूवणंतरमाहवेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

* लद्धीए तिव्वमंददाए सामित्तमप्पाबहुअं च ।

§ ३२. संजमलद्धी दुविहा—जहणिया उक्कस्सिया च । तत्थ जहणिया मंदा, कसायाणं तिव्वाणुभागोदयजणिदजहणलद्धीए मंदभावोवत्तीदो । उक्कस्सिया लद्धी तिव्वा, कसायाणं मंदयराणुभागोदयणिबंधणत्तादो । खीणोवसंतमोहेसु सव्वुक्कस्सचरिमलद्धीए गहणं किण्ण कीरदे ? ण, सामाह्य-च्छेदोवट्टाणियाणमुक्कस्सचरित्तलद्धीए इहाहियारवसेण गहणादो । तदो दोण्हमेदासिं लद्धीणं तिव्वमंददाए जाणावणट्टमेत्थ परूवणापुव्वं सामित्तमप्पाबहुअं च कायव्वमिदि एदेण सुत्तेण अत्थसमप्पणा कया होइ ।

स्थापनाशुद्धिसंयत, परिहारशुद्धिसंयत और सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयतोंका क्षेत्र और स्पर्शन अपने-अपने सम्भव पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । संयत और यथाख्यात-विहारशुद्धिसंयतोंका क्षेत्र और स्पर्शन केवलिसमुद्घातको छोड़कर सम्भव अपने-अपने पदोंकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा केवलिसमुद्घातकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, असंख्यात बहुभागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण है । भागाभाग—उक्त मव संयत सब जीवोंके अनन्तवे भागप्रमाण हैं । भागाभागका परस्पर विशेष विचार अल्पबहुत्वको जान कर साध लेना चाहिए । अल्पबहुत्व—सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत सबसे थोड़े है । उनसे परिहारशुद्धिसंयत संख्यातगुणे हैं । उनसे यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत संख्यातगुणे हैं । उनसे सामायिकछेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत ये दोनों परस्पर तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं । उनसे संयत विशेष अधिक है । यह ओघप्ररूपणा है । आदेशसे इसी बीजपदके अनुसार विचार कर लेना चाहिए ।

§ ३१. इस प्रकार इन अनुयोगद्वारंके विस्तारके माथ विचार समाप्त होने पर तत्पश्चात् संयमलब्धिबिषयक ही दूसरी प्ररूपणाका आरम्भ करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* चारित्रलब्धिकी तीव्रता और मन्दताके विषयमें स्वामित्व और अल्पबहुत्व ज्ञातव्य हैं ।

§ ३२. संयमलब्धि दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे जघन्य संयमलब्धि मन्द है, क्योंकि कषायोंके तीव्र अनुभागके उदयसे उत्पन्न हुई जघन्य लब्धिका मन्दपना बन जाता है । उत्कृष्ट संयतलब्धि तीव्र है, क्योंकि वह कषायोंके मन्दतर अनुभागके उदयके निमित्तसे उत्पन्न होती है ।

शंका—क्षीणमोह और उपशान्तमोह जीवोंमें सबसे उत्कृष्ट अन्तिम लब्धिका ग्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंकी चारित्रलब्धिका यहाँ पर अधिकारवश ग्रहण किया है ।

इसलिये इन दोनों लब्धियोंकी तीव्रता और मन्दताका ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर

३३. संपाहि एदेण सुत्तेण समप्पियद्वस्स विवरणं कस्सामो । तं जहा—परू-
वणाए अत्थि जहण्णयं लद्धिद्वानुमुक्कस्सयं च । सामित्तं—जहण्णलद्धिद्वानं कस्स ?
संजदस्स सव्वसंक्किल्लिद्वस्स से काले मिच्छत्तं गच्छमाणस्स चरिमसमये भवदि ।
उक्कस्सयं लद्धिद्वानं कस्स ? संजदस्स सत्थाणे चेव सव्वविमुद्वस्स भवदि । एसा
आदेसुक्कस्सिया । सव्वुक्कस्सिया पुण खीणोवसंतकसायाणं जहाक्खादसंजमलद्धी
होइ । अप्पावहुअं—सव्वत्थोवं जहण्णयं लद्धिद्वानं । उक्कस्सयमणंतगुणं, जहण्ण-
लद्धिद्वानादो असंखेअलोगमेत्ताणि छट्टणाणि समुल्लंघियूणेदस्स समुप्पत्तीए । एवं ताव
सामण्णेण जहण्णुक्कस्सलद्धिद्वानाणं सामित्तप्पावहुअमुहेण विणिण्णयं कादूण संपाहि
सव्वेसिमेव संजमलद्धिद्वानाणं पडिवादादिभेदेण तिहाविहत्ताणं परूवणा पमाणप्या-
वहुअमिदि एदेहि तीहिं अणिओगहारेहिं पमाणमुल्लंघियूण परूवणं कुणमाणो उवग्गिं
सुत्तपबंधमाह—

* एत्तो जाणि द्वाणाणि ताणि तिविहाणि । तं जहा—पडिवादाद्वाणाणि
उत्पादयद्वाणाणि लद्धिद्वानाणि ३ ।

प्ररूपणापूर्वकं स्वामित्वं और अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए इसप्रकार इस सूत्र द्वारा
अर्थकी समर्पणा की गई है ।

विशेषार्थ—यह चारित्रलब्धिनामक अर्थाधिकार है । वेदकप्रयोग्य मिध्यावृष्टि जीव
या असंयत वेदकसम्यग्दृष्टि जीव किस अवस्थामें किस प्रकार चारित्रलब्धिको प्राप्त करता है,
इसलिए चारित्रलब्धिमें यहाँ पर प्रधानतासे सामायिक-छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमका ही प्रहण
होता है । यही कारण है कि प्रकृतमें तीव्रता-मन्दताका विचार इसी आधारसे किया
गया है ।

§ ३३. अब इस सूत्र द्वारा समर्पित अर्थका विवरण करेंगे । यथा—प्ररूपणाकी अपेक्षा
विचार करनेपर जघन्य लब्धिस्थान है और उत्कृष्ट लब्धिस्थान है । स्वामित्व—जघन्य
लब्धिस्थान किसके होता है ? जो सर्व संक्लिष्ट संयत जीव अनन्तर समयमें मिध्यात्वको
प्राप्त करेगा उसके अन्तिम समयमें होता है । उत्कृष्ट लब्धिस्थान किसके होता है ? स्वस्थानमें
ही सर्वविशुद्ध संयतके होता है । यह आदेशसे उत्कृष्ट संयमलब्धिस्थान है । परन्तु सर्वोत्कृष्ट
क्षीणकषाय और उपशान्तकषाय जीवोंके यथाख्यातसंयतलब्धिस्वरूप होती है । अल्पबहुत्व—
जघन्य लब्धिस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनन्तगुणा है, क्योंकि
जघन्य लब्धिस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानोंका उल्लंघन कर इसकी उत्पत्ति होती
है । इस प्रकार सर्वप्रथम सामान्यसे जघन्य और उत्कृष्ट लब्धिस्थानोंका स्वामित्व
और अल्पबहुत्वद्वारा निर्णय करके अब प्रतिपात आदिके भेदसे तीन प्रकारके सभी संयम-
लब्धिस्थानोंकी प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व इन तीन अनुयोगद्वारोंके आलम्बनसे
प्रमाणका उल्लंघन कर प्ररूपणा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* आगे जो स्थान हैं वे तीन प्रकारके हैं यह बतलाते हैं । यथा—प्रतिपात-
स्थान, उत्पादकस्थान और लब्धिस्थान ३ ।

§ ३४. एचो उवरि जाणि संजमलद्धिद्वाणाणि ताणि बत्तइस्सामो । ताणि च पडिवादद्वाणादिभेएण तिविहाणि होति त्ति एदेण सुत्तेण परूवणा कया होइ । संपहि एदेसिं चैव सामण्णेण णिदिद्वाणं तिविहाणं पि लद्धिद्वाणाणं सरूवविसेसजाणावणट्ट-मुत्तरो सुत्तपबंधो—

* पडिवादद्वाणं णाम जहा—जम्हिं द्वाणे मिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा गच्छइ तं पडिवादद्वाणं ।

§ ३५. जम्हिं द्वाणे द्विदो संजदो संकिलेसवहुलदाए ओट्टदो संतो मिच्छत्तं वा असंजमसम्मत्तं वा संजमासंजमं वा पडिवज्जदि तं पडिवादद्वाणमिदि भण्णदे । कुत्त एवमिति चेत्, प्रतिपत्तस्यस्मादधस्तनगुणेण्विति प्रतिपातशब्दस्य व्युत्पादनात् । ताणि च मिच्छत्तासंजमसम्मत्त-संजमासंजमपडिवादविसयत्तेण तिहा विहत्ताणि पडिवाद-द्वाणाणि पादेकमसंखेज्जलोमत्ताणि सग-सगजहण्णलद्धिद्वाणादो जावुकस्सलद्धिद्वाणं ति ताव छवट्टिकमेणावट्टिदाणि त्ति धेत्तव्वाणि । तत्थ संजदस्स सव्वुकस्ससंकिलिट्टस्स मिच्छत्तादिसु पडिवदमाणयस्स जहण्णाणि होति । तप्पाओग्गजहण्णसंकिलिट्टस्स उक्कस्साणि भवंति ।

§ ३४. इससे आगे जो संयमलब्धिस्थान है उन्हें बतलाते हैं । वे प्रतिपात आदिके भेदसे तीन प्रकारके हैं इस प्रकार इस सूत्रद्वारा प्ररूपणा की गई है । अब सामान्यसे निर्दिष्ट इन्हीं तीनों ही प्रकारके स्थानोंके स्वरूपविशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र-प्रबन्ध आया है—

* प्रतिपातस्थान यथा—जिस स्थानमें स्थित संयत मिध्यात्वको अथवा असंयमसम्यक्त्वको अथवा संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान है ।

§ ३५. जिस स्थानमें स्थित संयत जीव संक्लेशकी बहुलतावश गिरता हुआ मिध्यात्व-को अथवा असंयमसम्यक्त्वको अथवा संयमासंयमको प्राप्त होता है वह प्रतिपातस्थान कहा जाता है ।

शंका—ऐसा किस कारणसे ?

समाधान—जिस स्थानसे नीचेके गुणस्थानोंमें गिरता है इस प्रकार प्रतिपात शब्दकी व्युत्पत्तिके कारण इसे प्रतिपातस्थान कहा है । और वे मिध्यात्व प्रतिपात, असंयमसम्यक्त्व प्रतिपात और संयमासंयम प्रतिपातको विषय करनेवाले होनेसे तीन प्रकारके होकर प्रत्येक जघन्य लब्धिस्थानसे लेकर उत्कृष्ट लब्धिस्थान तक षट्स्थानपतित वृद्धिक्रमसे अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिये । उनमेंसे मिध्यात्व आदिमें गिरनेवाले सर्वोत्कृष्ट संक्लेशयुक्त संयतके जघन्य प्रतिपातलब्धिस्थान होते हैं । तथा तत्प्रायोग्य जघन्य संक्लेश परिणामवालेके उत्कृष्ट प्रतिपातलब्धिस्थान होते हैं ।

* उत्पादयद्वाणं नाम जहा—जम्हि द्वाणे संज्ञमं पडिज्जह तमुत्पादय-
द्वाणं नाम ।

§ ३६. संयममुत्पादयतीत्युत्पादकः प्रतिपद्यमान इत्यर्थः । तस्य स्थानमुत्पादक-
स्थानं पडिवज्जमाणद्वाणमिदि वुचं होइ । तं पुण भिच्छाइद्विस्स वा असंजदसम्माइद्विस्स
वा संजदासंजदस्स वा संजमं गेण्हमाणस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स पढमसमये जहण्णयं
होइ । सव्वविसुद्धस्स उक्कस्सं होइ । मज्झिमवियप्पाणि द्विदाणि वुण असंखेज्जलोग-
मेत्ताणि उत्पादद्वाणाणि छवट्ठीए समवट्ठिदाणि दट्ठ्वाणि ।

* सव्वाणि चैव चरित्तद्वाणाणि लद्धिद्वाणाणि ।

§ ३७. एत्थ सव्वग्गहणेण पडिवाद-पडिवज्जमाण-अपडिवादापडिवज्ज-
माणद्वाणाणं सव्वेसिं पादेक्कमसंखेज्जलौयमेयभिण्णणं गहणं कायव्वं । तदो ताणि
सव्वाणि चैत्तूण चरित्तलद्धिद्वाणाणि होति त्ति सुत्तथसंगहो । अथवा सव्वाणि चैव
लद्धिद्वाणाणि त्ति भण्णिदे उत्पादद्वाणाणि पडिवादद्वाणाणि च भोत्तूण सेसाणि सव्वाणि
चैव संजमद्वाणाणि अपडिवादापडिवज्जमाणविसयाणि लद्धिद्वाणाणि त्ति अत्थो चैत्तव्वो ।
एवं पमाणाणुविद्धमेदेसिं द्वाणाणं परूवणं कादूण संघहि एदेसिं परिमाणविसयणिण्णय-
समुप्पायणट्ठमप्पावहुअं भणइ—

* उत्पादकस्थान यथा—जिस स्थान में संयम को प्राप्त होता है वह उत्पादक-
स्थान है ।

§ ३६. संयमको उत्पन्न करता है, इसलिये उत्पादक संज्ञा है । उत्पादक अर्थात् प्रति-
पद्यमान यह इसका तात्पर्य है । उसका स्थान उत्पादकस्थान अर्थात् प्रतिपद्यमानस्थान यह
इसका भाव है । किन्तु वह, जो मिथ्यावृष्टि, असंयत सम्यग्बुद्धि और संयतासंयत जीव
संयमको ग्रहण करता है, तत्रायोग्य विसुद्ध उसके संयमको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें
जघन्य होता है तथा सर्व विसुद्ध संयतके उत्कृष्ट होता है । मध्यम भेदरूप उत्पादकस्थान
तो षट्स्थानपतित वृद्धिरूपसे अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण जानने चाहिए ।

* तथा सभी चारित्रस्थान लब्धिस्थान हैं ।

§ ३७. यहाँ 'सर्व' पदका ग्रहण किया है सो उससे प्रत्येक असंख्यात लोकप्रमाण भेदोंसे
जुड़े ऐसे प्रतिपातस्थान, प्रतिपद्यमानस्थान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थान इन सबका
ग्रहण करना चाहिए । इसलिये उन सबको मिलाकर चारित्रलब्धिस्थान होते हैं यह सूत्रार्थ-
समुच्चय है । अथवा सभी लब्धिस्थान हैं ऐसा कहने पर उत्पादकस्थान और प्रतिपातस्थानों
को छोड़कर शेष सभी अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानस्थानोंको विषय करनेवाले संयमस्थान
लब्धिस्थान हैं ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार प्रमाण सहित इन स्थानोंका कथन
करके अब इनके परिमाण विषयको निर्णयको उत्पन्न करनेके लिये अल्पबहुत्वको कहते हैं—

एदेसि लद्धिद्वाणाणमप्पाबहुअं ।

§ ३८. एत्थ दुविहमप्पाबहुअं लद्धिद्वाणसंखाविसयं तिच्चमंददाविसयं च । तत्थ तिच्च-मंददाए अप्पाबहुअमुवरि कस्सामो । एदेसिं लद्धिद्वाणाणं ताव संखा-विसयमप्पाबहुअं कस्सामो चि एदेण सुत्तेण पइण्णा कदा होइ ।

तं जहा ।

§ ३९. सुगममेदं पुच्छावकं ।

सच्चत्थोवाणि पडिवाद्वाणाणि ।

§ ४०. हेट्ठिमगुणद्वाणेषु पडिवदमाणस्स चरिमसमये असंखेज्जलोगमेत्ताणि लद्धि-द्वाणाणि घेत्तूण एदाणि सच्चत्थोवाणि चि भणिद होइ ।

उप्पादयद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ४१. उप्पादयद्वाणाणि चि वा पडिवज्जमाणद्वाणाणि चि वा एयट्ठो । तदो संजमं पडिवज्जमाणस्स पढमसमये सम्भवल्लसच्चत्थोवाणि घेत्तूणेदाणि पुच्चिन्नेहिंसो असंखेज्जगुणाणि जादाणि । गुणगारपमाणमेत्थासंखेज्जा लोमा ।

अब इन लब्धिस्थानोंका अन्यबहुत्व कहते हैं ।

§ ३८. यहाँ पर अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—लब्धिस्थानसंख्याविषयक और तीव्र-मन्दताविषयक । उनमेंसे तीव्र-मन्दताविषयक अल्पबहुत्वका आगे कथन करेंगे । सर्व प्रथम इन लब्धिस्थानोंके संख्याविषयक अल्पबहुत्वका कथन करेंगे यह इस सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा की गई है ।

वह जैसे ।

§ ३९. यह पृच्छावाक्य सुगम है ।

प्रतिपातस्थान सबसे थोड़े हैं ।

§ ४०. नीचेके गुणस्थानोंमें गिरनेवाले संयतके अन्तिम समयमें प्राप्त होनेवाले असंख्यात लोकप्रमाण लब्धिस्थानोंको ग्रहण कर ये सबसे स्तोक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

उनसे उत्पादकस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४१. उत्पादकस्थान या प्रतिपद्यमानस्थान इन दोनोंका एक अर्थ है । अतः संयमको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाले सब स्थानोंको ग्रहण कर ये स्थान पूर्वके स्थानोंसे असंख्यातगुणे हो जाते हैं । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है । अर्थात् पूर्वमें कहे गये स्थानोंको असंख्यात लोकसे गुणित करने पर प्रतिपद्यमान स्थान उत्पन्न होते हैं ।

उक्त० अणंतगु० । तं कस्स ? सच्चविसुद्ध० सुहुमसुवण० चरिमसमए भवदि । वीच-
रायस्स अजहणमणुक्क० अणंतगु० । कसायाभावादो इयविषयं वेव । तं पुण
उवसंत०-खीणकसाय-सजोगि-अजोगीणं वेत्तव्वं । एवमेदीए संदिट्ठीए जणिदपडिचोह्वारं
सिस्साणमिदाणि तिव्वमंददाविसयमप्पाबहुअं सुत्ताणुसारेण वसइस्सामो । तं जहा—

तिव्वमंददाए सच्चमंदाणुभागं भिच्छत्तं गच्छमाणस्स जहणायं
संजमट्ठाणं ।

§ ४८. कुदो ? सच्चुकस्ससंकिलेसेण भिच्छत्तं गच्छमाणस्स चरिमसमए एदस्स
गहणादो ।

तस्सेषुक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं ।

§ ४९. कुदो ? तप्पाओग्गसंकिलेसेण भिच्छत्तपडिवादाहिमुहस्स चरिमसमए
पुव्विद्धानो असंखेजलोगमेत्तछट्ठाणाणि समुल्लंघियूणेदस्स समुप्पत्तिदंसणादो ।

असंजदसम्मत्तं गच्छमाणस्स जहणायं संजमट्ठाणमणंतगुणं ।

§ ५०. कुदो ? पुव्विन्लादो असंखेजलोगमेत्तछट्ठाणाणि अंतरियूणेदस्स समुप्प-
णत्तादो । पुव्विन्लुकस्सट्ठाणादो कथमेदस्स जहणलट्ठिट्ठाणस्साणंतगुणत्तसंभवो ति

गुणा है । वह किसके होता है ? सर्वविशुद्ध सूक्ष्मसाम्परायशुद्धिसंयत क्षपकके अन्तिम समय
में होता है । उससे बीतरागका अजघन्य-अतुकृष्ट स्थान अनन्तगणा है । वह कषायके
अभावके कारण एक ही प्रकारका है । परन्तु वह उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगी जिन
और अयोगी जिनका ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार इस संदृष्टि द्वारा जिनको प्रतिबोध
हुआ है ऐसे शिष्योंको इस समय तीव्र-मन्दताविषयक अल्पबहुत्वको सूत्रके अनुसार
बतलावेंगे । यथा—

तीव्र-मन्दताकी अपेक्षा मिथ्यात्वको प्राप्त करनेवाले संयतके जघन्य संयम-
स्थान सबसे मन्द अनुभागवाला होता है ।

§ ४८. क्योंकि सबसे उत्कृष्ट संकलेशके साथ मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले संयतके
अन्तिम समयमें इसका ग्रहण किया है ।

उससे उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ४९. क्योंकि तत्प्रायोग्य संकलेशसे मिथ्यात्वमें गिरनेके सन्मुख हुए संयतके अन्तिम
समयमें पूर्वके संयमस्थानसे असंख्यात लोक प्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघन कर इसकी उत्पत्ति
देखी जाती है ।

उससे असंयत सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले संयतके जघन्य संयमस्थान अनन्त-
गुणा है ।

§ ५०. क्योंकि पूर्वके संयमस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानोंको उल्लंघन कर
यह स्थान उत्पन्न हुआ है ।

§ ५४. कुदो ? संकिलेसणिवंधणपडिवादड्डाणादो पुच्छिन्लादो तव्विवरीदस्सस्वस्से-
दस्स जहणत्ते वि अणंतगुणभावसिद्धीए णायोववणत्तादो । इत्थं 'कम्मभूमियस्से'त्ति
वुत्ते पण्णारसकम्मभूमिसु मज्झिमखंडसमुप्पणमणुस्सस्स गहणं कायत्वं, कम्मभूमिसु
जातः कम्मभूमिज इति तस्य तद्व्यपदेशार्हत्वात् ।

* अकम्मभूमियस्स पडिवज्जमाणयस्स जहणायं संजमकण्ड-
मणंतगुणं ।

§ ५५. पुच्छिन्लादो असंखेज्जलोगमेत्तच्छड्डाणाणि उवरि गंतूणेदस्स समुप्पत्तीए ।
को अकम्मभूमिओ णाम ? भरहेरावयविदेहेसु विणीदसण्णिणदमक्किमखंडं मोत्तण सेसपंच-
खंडणिवासी मणुओ एत्थाकम्मभूमिओ त्ति विवक्खिओ, तेसु धम्म-कम्मपवुत्तीए
असंभवेण तव्भावाववत्तीदो । जह एव, कुदो तस्य संजमगहणत्तंभवो त्ति णासंक्रणजं,
दिसाविवजयपयपट्टचक्रयट्टीखंधावारेण सह मज्झिमखंडभागयाणं मिलेच्छरायाणं तस्य
चक्रवट्टिआदीहि सह जादवेवाहियसंबंधाणं सजमपडिवत्तीए विरोहामावादो । अथवा
तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भपूत्पन्नमातृपक्षापेक्षया स्वयमकर्मभूमिजा इतीह
विवक्षिताः । ततो न किंचद्विप्रतिषिद्धं, तथा जातीयकानां दीक्षार्हत्वे प्रतिषेधाभावादिति ।

§ ५४. क्योंकि संकलेशनिमित्तक पूर्वके प्रतिपातस्थानसे उससे विपरीत स्वरूपवाले
इसके जघन्य होनेपर भी अनन्तगुणपनेकी सिद्धि न्याययुक्त है । यहाँपर 'कर्मभूमिजके' ऐसा
कहनेपर पन्द्रह कर्मभूमियोंसे मध्यम खण्डमें उत्पन्न हुए मनुष्यका ग्रहण करना चाहिए,
क्योंकि कर्मभूमियोंमें उत्पन्न हुआ कर्मभूमिज है इस प्रकार वह इस संज्ञाके योग्य है ।

* उससे संयमको प्राप्त करनेवाले अकर्मभूमिज मनुष्यका जघन्य संयमस्थान
अनन्तगुणा है ।

§ ५५. क्योंकि पूर्वके संयमस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण घटस्थान आगे जाकर इस
स्थानकी उत्पत्ति हुई है ।

शंका—अकर्मभूमिज कौन कहलाता है ?

समाधान—भरत, येरावत और विदेहमें विनीत संज्ञावाले मध्यम खण्डको छोड़कर
शेष पाँच खण्डका निवासी मनुष्य यहाँ पर अकर्मभूमिज इस रूपसे विवक्षित है, क्योंकि
उनमें धर्म-कर्मकी प्रवृत्ति असम्भव होनेसे अकर्मभूमिजपनेकी उत्पत्ति बन जाती है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उनमें संयम ग्रहण कैसे सम्भव है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिशाविजयमें प्रवृत्त हुए चक्र-
वर्तीके स्कन्धावार (सेना) के साथ जो मध्यम खण्डमें आये हैं तथा चक्रवर्ती आविके साथ
जिन्होंने वैवाहिक सम्बन्ध किया है ऐसे म्लेच्छराजाओंके संयमकी प्राप्तिमें विरोधका अभाव
है । अथवा उनकी जो कन्याएँ चक्रवर्ती आविके साथ विवाही गईं उनके गर्भसे उत्पन्न हुई
सन्तान मातृपक्षकी अपेक्षा स्वयं अकर्मभूमिज है यह यहाँ पर विवक्षित है । इसलिये कुछ
त्रिविद्ध नहीं है, क्योंकि इस प्रकारकी जातिवालोंके दीक्षाके योग्य होनेमें प्रतिषेध नहीं है ।

१ धर्मकर्मबहिर्भूता इत्यमी म्लेच्छका मता । आदिपु०

* तस्सेजुक्कस्सयं पडिबज्जमाणयस्स संजमद्वाणमणंतगुणं ।

§ ५६. कुदो ? पुव्विन्लजहण्णद्वाणादो असंखेज्जलोगमेत्तच्छद्वाणाणि उवरिमब्भु-
दसरिदूणेदस्स समुप्पत्तिदंसणादो ।

* कम्मभूमियस्स पडिबज्जमाणयस्स उक्कस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं ।

§ ५७. कुदो ? खेचाणुभावेण पुव्विन्लादो एदस्स तहाभावसिद्धीए बाहाणुव-
लंभादो ।

* परिहारसुद्धिसंजदस्स जहण्णयं संजमद्वाणमणंतगुणं ।

§ ५८. एदं कत्थ होइ ? परिहारसुद्धिसंजदस्स तप्पाओग्गसंकिलेसेण सामाइय-
छेदोवद्वावणाहिमुहस्स चरिमसमये होइ । एदं पुण सामाइय-छेदोवद्वावणाणमपडिवादा-
पडिबज्जमाणा० जहण्णसंजमलद्धिद्वाणप्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्तच्छद्वाणाणि उवरि गंतूण
तदित्थसंजमलद्धिद्वाणेण सरिसं होदूण समुप्पण्णं । तदो सिद्धमेदस्स पडिवादाहिमुहत्ते
सत्थाणे सव्वजहण्णत्ते वि परिहारसंजममाहप्पेण पुव्विन्लादो अणंतगुणत्तं ।

* तस्सेव उक्कस्सयं संजमद्वाणमणंतगुणं ।

* उससे संयमको प्राप्त होनेवाले उसीके उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा हैं ।

§ ५६. क्योंकि पूर्वके जघन्य स्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान ऊपर जाकर
इस स्थानकी उत्पत्ति देखी जाती है ।

* उससे संयमको प्राप्त होनेवाले कर्मभूमिज मनुष्यका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्त
गुणा हैं ।

§ ५७. क्योंकि क्षेत्रके माहात्म्यवश पूर्वके संयमस्थानसे इसके अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें
कीई बाधा नहीं उपलब्ध होती ।

* उससे परिहारसुद्धि संयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा हैं ।

§ ५८. शंका—यह कहाँ पर होता है ?

समाधान—तत्प्रायोग्य संकलेशवश सामायिक-छेदोपस्थापना संयमोंके अभिमुख हुए
परिहारसुद्धिसंयतके अन्तिम समयमें होता है ।

परन्तु यह अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान सामायिक-छेदोपस्थापनासम्बन्धी जघन्य संयम-
लब्धिसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थान ऊपर जाकर वहाँ प्राप्त संयमलब्धि स्थानके
सवृश होकर उत्पन्न हुआ है । इस लिये इसके प्रतिपातके अभिमुख होकर स्वस्थानमें सबसे
जघन्य होने पर भी परिहारसुद्धि संयमके माहात्म्यवश पूर्वके स्थानसे अनन्तगुणापना सिद्ध
होता है ।

* उससे उसीका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा हैं ।

§ ५९. कुदो ! पुव्विन्लजहण्णट्टाणादो असंखेज्जलोगमेत्तट्टाणमुवरि गंतूण सामाह्य-
छेदोवट्टावणणमपडिवादारपडिवज्जमाणट्टाणाणमन्मंतरे समयविरोहेणेदस्स समुप्पत्ति-
दंसणादो ।

* सामाह्यछेदोवट्टावणियाणमुक्कस्सयं संजमट्टाणमणंतगुणं ।

§ ६०. कुदो ? सामाह्यछेदोवट्टावणियाणमज्जहण्णणुकस्सअपडिवादापडिवज्ज-
माणट्टाणेण समाणभावेण पुव्विन्लुकम्मट्टाणे णिट्ठिंदे तदो णिरतरकमेण पुणो वि
तत्तो उवरि असंखेज्जलोगमेत्ताणि छट्टाणाणि गंतूणेदस्स अणियट्ठिख्वगचरिमसमये
समुप्पत्तिदंसणादो ।

* सुहुमसांपराह्यसुद्धिसंजवस्स जहण्णयं संजमट्टाणमणंतगुणं ।

§ ६१. बादरकसायाणुविदुधुकस्ससंजमळ्दीदो सुहुमकसायाणुविद्वज्जहण्णसंजम-
ळ्दीए वि अणंतगुणत्तं मोत्तूण पयारंतरासभवादो । एदं पुण सुहुमसांपराह्यस्स
उवसामियस्स परिवदमाणयस्स चरिमसमये घेत्तव्वं ।

* तस्सेवुक्कस्सयं संजमट्टाणमणंतगुणं ।

§ ६२. सुहुमसांपराह्यकखयगस्स चरिमसमये मव्वुकस्सविसोह्णिवधणस्सेदस्स
पुव्विन्लज्जहण्णपरिणामादो अणंतगुणत्तसिद्धीए विरोहाभावादो ।

§ ५९. क्योंकि पहलेके जघन्य स्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण स्थान ऊपर जाकर
सामायिक-छेदोपस्थापनासम्बन्धी अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थानोके भीतर यथागम इस
स्थानको उत्पत्ति देखी जाती है ।

* उससे सामायिक-छेदोपस्थापना संयतोंका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुण है ।

§ ६०. क्योंकि सामायिक-छेदोपस्थापनाके अजघन्य-अनुत्कृष्ट अप्रतिपात-अप्रतिपद्य-
मान स्थानके समान पूर्वके उत्कृष्ट स्थानका निदेश करनेपर तत्पश्चात् निरन्तर क्रमसे फिर
भी उससे ऊपर असंख्यात लोकप्रमाण पटस्थान जाकर इस स्थानकी अनिवृत्ति करण क्षपकके
अन्तिम समयमें उत्पत्ति देखी जाती है ।

* उससे सूक्ष्मसाम्परायिक संयतका जघन्य संयमस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ६१. बादर कषायके रहते हुए होनेवाली उत्कृष्ट संयमलब्धिसे सूक्ष्मकषायमें होने-
वाली संयमलब्धि भी अनन्तगुणी होती है, इसके सिवाय बहौ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है ।
परन्तु यह जो उपशामक गिरकर सूक्ष्मसाम्परायमें आया है उसके अन्तिम समयकी लेनी
चाहिए ।

* उससे उसीका उत्कृष्ट संयमस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ६२. सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके अन्तिम समयमें सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिनिमित्तक इसके
पहलेके जघन्य परिणामसे अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें विरोधका अभाव है ।

* चीयरायस्स अजहणमणुक्कस्सयं चरित्तलद्धिट्टाणमणंतगुणं ।

६३. कुदो ? स्त्रीणोवसंतकसाएसु केवलीसु च जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमलद्धीए एत्थ विवक्खियत्तादो । एसा उवसंतकसायभयवंतये जहण्णा होदु, स्त्रीणकसाय-सजोगि-अजोगीसु च उक्कस्सिया होउ, खइयलद्धिपाहम्मादो त्ति णासंकणिज्जं, स्त्रीणोवसंतकसाएसु कसायाभावेण अवट्टिदसंजमपरिणामेसु जहाक्खादविहारसुद्धिसंजमस्स मेदानुवलंभादो ।

एवमप्पाबहुए समत्ते तदो 'लद्धी तथा चरित्तस्से'त्ति समत्तमणिओगहारं ।

* उससे वीतरागका अजघन्य-अनुत्कृष्ट चारित्रलब्धिस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ६२. क्योंकि क्षीणकषाय, उपशान्तकषाय और केवलियोंमें जघन्य और उत्कृष्ट विशेषणसे रहित यथाख्यातविहारशुद्धि संयमलब्धिकी यहाँ पर विवक्षा है ।

शंका—यह उपशान्तकषाय भगवन्तके जघन्य होओ तथा क्षीणकषाय, सयोगिकेवली और अयोगिकेवलीके क्षायिकलब्धिके माहात्म्यबश उत्कृष्ट होओ ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्षीणकषाय और उपशान्त-कषाय जीवोंमें कषायोंका अभाव होनेसे अवस्थित संयम परिणाम होनेपर यथाख्यातविहार-शुद्धिसंयममें भेद नहीं उपलब्ध होता ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर 'लद्धी तथा चरित्तस्स'
के अनुसार संयमलब्धि अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।



सिरि-जइवसहाइरियविरइय-त्रुणिसुत्तसमण्डिं
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइट्ठं

कसायपाहुडं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका
जयधवला

तत्थ

चरित्तमोहणीय-उवसामणा णाम चोइसमो अत्थाहियारो

—: ❁ :—

उवसमिदसयलदोसे उवसंतकसायवीयरारते ।
उवसामए षणमिउं कसायउवसामणं वोच्छं ॥१॥

जिन्होंने समस्त दोषोंको उपशान्त कर लिया है ऐसे उपशान्त कथाय बीतराग पर्यन्त
समस्त उपशामकों को नमस्कार कर, कथाय-उपशामक नामक अनुयोगद्वारा का कथन करेंगे ॥१॥

* चरित्तमोहणीयस्स उवसामणाए पुव्वं गमणिज्जं सुत्तां ।

§ १. दंसणमोहणीयस्स उवसामणा खवणा च पुव्वं परूविदा, चरित्तमोहणीयस्स वि खयोवसमलद्विलम्बणा देसावसामणा संजमायंजम-संजम-लद्धिमेदेण दुविहा विहत्ता अणंतरमेव विहासिदा । संपहि चरित्तमोहणीयस्स सब्बोवसामणा विहाणपरूवणडुमेसो चोइसमो अत्थाहियारो चरित्तमोहोवसामणासण्णिदो समोइण्णो । एवमवहारिदसंबंधस्से-दस्स अत्थाहियारस्स परूवणाए पुव्वमेव ताव सुत्तमणुगंतव्वं, अण्णहा सुत्ताणुसारीण-मेत्थाणादरप्पसंगादो, सुत्तावलंबणेण विणा पयदपरूवणाए णिव्वहणाणुववत्तीदी चेदि एसो एदस्स सुत्तस्स समुदायत्थो । एत्थ य अट्ट गाहासुत्ताणि होति । कुदो एदं परिच्छिज्जे ? 'अट्टेवुवसामणद्धम्मि' इदि संबंधगाहावयवेण तहोवइत्तुत्तादो । तदो तेसिमवसरकरणट्टं पुच्छावकमाह —

* तं जहा ।

२. सुगममेदं पुच्छावकं । एवं च पुच्छाविसईकयाणमट्टण्हं गाहासुत्ताणं जहाकममैसो सरूवणिदेसो—

* चारित्रमोहनीय-उपशामक नामक अनुयोगद्वारमें सर्व प्रथम गाथासूत्र ज्ञातव्य है ।

§ १. दर्शनमोहनीय उपशामना और क्षपणाका पहले कथन किया तथा चारित्रमोहनीय की क्षयोपशमलब्धि लक्षणवाली संयमासंयम और संयमलब्धिके भेदसे दो प्रकारकी देशो-पशामनाका भी अनन्तर पूर्व ही व्याख्यान किया । अब चारित्रमोहनीय-सर्वोपशामनाका कथन करनेके लिये चारित्रमोहोपशामना संज्ञावाला यह चौदहवाँ अर्थाधिकार अवतीर्ण हुआ है । इस प्रकार जिसके सम्बन्धका निश्चय किया है ऐसे इस अर्थाधिकारकी प्ररूपणामें पूर्व ही सब प्रथम गाथासूत्र जानने योग्य है, अन्यथा सूत्रानुसारी शिष्योंको इसमें आदर ब होनेका प्रसंग आता है तथा गाथासूत्रोंका अवलम्बन लिये बिना प्रकृत प्ररूपणाका निर्वाह नहीं हो सकता यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है । यहाँ आठ गाथासूत्र हैं ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—'अट्टेवुवसामणद्धम्मि' इस सम्बन्ध गाथाके एक पाद द्वारा उसी प्रकारका उपदेश पाया जाता है । इसलिए ज्ञात होता है कि इस अनुयोगद्वारमें आठ ही गाथासूत्र हैं ।

इसलिए उनका अवसर करनेके लिये पृच्छावाक्यको कहते हैं—

* वह जैसे ।

§ २. यह पृच्छावाक्य सुगम है । इस प्रकार पृच्छाके विषय किये गये गाथासूत्रोंका यथाक्रम यह स्वरूप निर्देश है—

(६३) उवसामणा कदिविधा उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स ।

कं कम्मं उवसंतं अणउवसंतं च कं कम्मं ॥११६॥

§ ३. एसा पढमा गाहा उवसामणाभेदणिहेसद्दुमुवसामिज्जमाणकम्मविसेसावहार-णद्दुमुवसंताणुवसंतपयडिसरूवणिरूवणद्दं च समागया । संपहि एदिस्से किंचि अवयवत्थ-परामरसं कस्सामो । त जहा—‘उवसामणा कदिविधा’ एवं भणिदे पसत्थापसत्त्व-भेदेण दुविहा उवसामणा होदि ति एवंपयारो तन्मेदणिहेसो सूचिदो । ‘उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स’ एदेण वि सव्वेसिं कम्मोणं किमेसा उवसामणा संभवह, आहो णत्थि ति पुच्छं कादूण तदो सेसकम्मपरिहारेण मोहणीयविसये चैव पयदोवसामणा-संभवो ति एवंविहा अत्थपरूवणा सूचिदा । ‘कं कम्मं उवसंतं’ एदम्मि वि गाहापच्छद्द-सुत्तावयवे णवसयवेदादिपयडोण जहाकममुवसामिज्जमाणं कदमम्मि अवत्थाविसेसे कं कम्ममुवसंतं होह, कं वा अणुवसंतमिच्चेवंविहा अत्थपरूवणा पडिच्चदा । एवमेसा संखेवेण पढमगाहए अत्थपरूवणा । एदिस्से वित्थारत्थपरूवणमुवरी चुण्णिमुत्तसंबंधेणैव कस्सामो ।

(६४) कदिभागुवसामिज्जदि संकमणमुदीरणा च कदिभागो ।

कदिभागं वा बंधदि द्विदि-अणुभागे पदेस्सग्गे ॥११७॥

उपशमना कितने प्रकारकी होती है ? उपशम किस-किस कर्मका होता है ? कब कौन कर्म उपशान्त रहता है और कौन कर्म अनुपशान्त रहता है ॥११६॥

§ ३ यह प्रथम गाथा उपशमनाके भेदोंका निर्देश करनेके लिये, उपशमको प्राप्त होने-वाले कर्मविशेषोंका निश्चय करनेके लिये तथा उपशान्त और अनुपशान्त प्रकृतियोंके स्वरूप का निरूपण करनेके लिये आई है । अब इसके किंचित् अवयवार्थका परामर्श करेंगे । वह जैसे—‘उवसामणा कदिविधा’ ऐसा कहने पर प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारकी उपशमना होती है इस प्रकार उक्त प्रकारसे उसके भेदोंका निर्देश किया है । ‘उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स’ इस वचन द्वारा भी सभी कर्मोंकी क्या यह उपशमना सम्भव है अथवा सम्भव नहीं है ऐसी पृच्छा करके पश्चात् शेषकर्मोंके परिहारद्वारा मोहनीय कर्मके विषयमें ही प्रकृत उपशमना सम्भव है इस प्रकारकी अर्थप्ररूपणा सूचित की गई है । ‘कं कम्मं कस्स उवसंतं’ गाथासूत्रके इस उत्तरार्धसम्बन्धी चरणमें भी क्रमसे उपशान्त होनेवाली नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके किस अवस्था विशेषमें कौन कर्म उपशान्त होता है अथवा कौन कर्म अनुपशान्त रहता है इस प्रकारकी अर्थप्ररूपणा प्रलिब्ध है । इस प्रकार संक्षेपसे प्रथम गाथाकी यह अर्थप्ररूपणा है । इसके विस्ताररूप अर्थकी प्ररूपणा आगे चूर्णिसूत्रके सम्बन्धसे ही करेंगे ।

चारित्रमोहकर्मकी स्थिति, अनुभाग और प्रदेशपुञ्जके कितने भागका प्रति समय उपशमन करता है, संक्रमण करता है और उदीरणा करता है तथा कितने भाग का बन्ध करता है ॥११७॥

§ ४. एसा विदियगाहा गिरुद्धचरित्तमोहपयडीए उवसामिज्जमाणाए समयं पडि उवसामिज्जमाणपदेसगस्स ट्टिदि-अणुभागानं च पमाणावहारणहुं पुणो तस्संबंधेणैव बज्जमाण-वेदिज्जमाण-संक्रामिज्जमाणोवसामिज्जमाणट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणमपावहुअ-विहाणहुं च समोहण्णा । तं जहा—‘कदि भागुवसामिज्जदि’ एवं भणिदे गिरुद्ध-चरित्तमोहपयडीए ट्टिदिमुवसामेमाणो ट्टिदीए केवडियं भागमुवसामेदि, केत्तिये भागे संक्रामेदि, कदिभागे वा उदीरेदि, केत्तियं वा भागं बंधदि । एवमणुभाग-पदेसाणं पि पादेक्कं पुच्छाणुगमो कायव्वो । तदो ट्टिदि-अणुभाग-पदेसाणमेत्तिओ एत्तिओ भागो उवसामिज्जदि संक्रामिज्जदि उदीरिज्जदि बज्जदि वा त्ति एवंविहो अत्थणिहेसो एदम्मि गाहासुत्ते णिवद्धो त्ति घेतव्वो । एदस्स विसेसणिणयमुवरि चुण्णिणसुत्त-संबंधेण कस्सामो ।

(६५) केवचिरंमुवसामिज्जदि संक्रमणमुदीरणा च केवचिरं ।

केवचिरं उवसंतं अणुवसंतं च केवचिरं ॥११॥

§ ५. एसा तदियगाहा उवसामण्णकिरियाए कालपमाणावहारणट्टमागया । तं जहा—‘केवचिरंमुवसामिज्जदि’ गिरुद्धचरित्तमोहणीयपयडिमुवसामेमाणो केवचिरेण कालेणुवसामेह, किमेगसमयेण आहो अंतोमुहुत्तादिकालेणे त्ति एवंविहे कालणिहेस-

§ ४. यह दूसरी गाथा विवक्षित चारित्रमोहनीय प्रकृतिका उपशम करनेकी अवस्थामें प्रति समय उपशामित होनेवाले प्रदेशपुञ्जके तथा स्थिति और अनुभागके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये पुनः उसीके सम्बन्धसे ही बन्धको प्राप्त होनेवाले, वेदे जानेवाले, संक्रमित होनेवाले और उपशमको प्राप्त होनेवाले स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये अवतीर्ण हुई है। जैसे—‘कदि भागुवसामिज्जदि’ ऐसा कहने पर विवक्षित चारित्रमोह प्रकृतिकी स्थितिका उपशम करता हुआ स्थितिके कितने भागका उपशम करता है, कितने भागोंका संक्रम करता है, कितने भागोंकी उदीरणा करता है और कितने भागको बाँधता है। इसीप्रकार अनुभाग और प्रदेशोंसम्बन्धी पृच्छाका भी पृथक्-पृथक् अनुगम करना चाहिए। इसलिये स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके इतने-इतने भागको उपशमाता है, संक्रमित करता है, उदीरित करता है और बाँधता है इस प्रकारका अर्थविशेष इस गाथासूत्रमें निबद्ध है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसका विशेष निर्णय आगे चूर्णिसूत्रके सम्बन्धसे करेगे।

* चारित्रमोहनीय कर्म-प्रकृतियोंका कितने काल द्वारा उपशमन करता है, उनका संक्रमण और उदीरणा कितने काल तक होती है, कौन कर्म कितने काल तक उपशान्त रहता है और कितने काल तक अनुपशान्त रहता है ॥११॥

§ ५. यह तीसरी गाथा उपशामन क्रियाके कालके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आया है। यथा—‘केवचिरं उवसामिज्जदि’ विवक्षित चारित्रमोहनीयकी प्रकृतिकी उपशामना करता हुआ कितने काल द्वारा उपशमाता है, क्या एक समय द्वारा या अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा इस प्रकार यह पृच्छा इस तरहके कालकी अपेक्षा करती है। अतएव कहना चाहिए कि अन्तर्मुहूर्त

शुक्लवेद एसा पुच्छा । तदो वचब्बं अंतोमुहुत्तेणे चि, अंतोमुहुत्तेण कालेण विणा णवुंसयवेदादिपयडीणमुवसामणकिरियाए अपरिसमचीदो । तिस्से चैव उपसामिअवाच-पयडीए 'संकमणमुदीरण च केवचिरं' कालं वयडुदि चि एसा वि पुच्छा कालविसेसमेव जोएदि । एदिस्से पुच्छाए णिण्णयमुवरि कस्सामो । 'केवचिरं उवसंतं एवं भणिदे णवुंसयवेदादिकम्ममुवसंतं होदूण केवचिरं कालमवचिडुद्द, किमेगसयवमाहो अंतो-मुहुत्तादिकालं । अथवा सव्वमेव चरित्तमोहणीयं सव्वोवसामणाए उवसंतं होदूण केचियं कालमवचिडुदि चि एसा वि पुच्छा उवसंतावत्थाए कालविसेसमुवेकखदे । तदो वचब्बं जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तमिदि । 'अणुवसंतं च केवचिरं' एसा वि पुच्छा अप्पसत्थोवसामणाए अणुवसंतावत्थाए कालणिदेसमुवेकखदे । एदस्स णिण्णय-मुवरि चुण्णिमुत्तसंबंधेण कस्सामो चि जेह तप्पवंचो कीरदे ।

(६६) कं करणं वोच्छिज्जदि अचोच्छिज्जणं च होइ कं करणं ।

कं करणं उवसंतं' अणुवसंतं च कं करणं ॥११६॥

§ ६. एसा चउत्थी मूलगाहा मूलुत्तरपयडीणमप्यसत्त्वोवसामणादिअट्टकरणेषु उपसामगस्स कदमम्मि अवत्थाविसेसे 'कं करणं वोच्छिज्जदि', ण वोच्छिज्जदि चि एवंविहस्स? अत्थविसेसस्स पुच्छामुहेण जिच्छयविहाणहुमवइण्णा, पुव्व-वच्छद्वेहिं करण-

काल द्वारा उपशमाता है, क्योंकि अन्तर्मुहूर्त कालके बिना मनुसक वेद आदि प्रकृतियोंकी उपशामनक्रिया समाप्त नहीं होती । तथा उपशमित होनेवाली उसी प्रकृतिका संक्रमण और उदोराणा कितने काल तक प्रवृत्त रहती है इस प्रकार यह पृच्छा भी काल विशेषको स्वीकार करती है । इस पृच्छाका निर्णय आगे करेंगे । 'केवचिरं उवसंतं' ऐसा कहने पर नपुंसकवेद आदि कर्म उपशान्त होकर कितने कालतक ठहरते हैं ? क्या एक समय तक या अन्तर्मुहूर्त कालतक ? अथवा समस्त चारित्रमोहनीयकर्म सर्वोपशामनाद्वारा उपशान्त होकर कितने काल तक ठहरता है ? इसलिए कहना चाहिए कि समस्त चारित्रमोहनीय कर्म जचन्यसे एक समय तक और उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त कालतक उपशान्त रहता है । 'अणुवसंतं' यह पृच्छा भी अप्रशस्त उपशामनाके अनुपशान्त अवस्थाके कालका निर्देशकी अपेक्षा करती है । इसका निर्णय ऊपर चूर्णिसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे, इसलिए उसका विस्तार यहाँ नहीं करते हैं ।

उपशामककी किस अवस्थामें कौन करण व्युच्छिज्ज हो जाता है और कौन करण अन्युच्छिज्ज रहता है । तथा कौन करण उपशान्त रहता है और कौन करण अनुपशान्त रहता है ॥११९॥

§ ६. यह चौथी मूलगाथा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके अप्रशस्त उपशामना आदि आठ करणोंमेंसे उपशामकके किस अवस्थामें कौन करण व्युच्छिज्ज रहता है या अन्युच्छिज्ज नहीं रहता है इस प्रकार इस तरहके अर्थ विशेषका पृच्छाद्वारा निर्णय करनेके लिये आई है, क्योंकि

१. ता०प्रती कं उवसंतं करण इति पाठः ।

२. ता०प्रती कं करण वोच्छिज्जदि चि एवंविहस्स इति पाठः ।

वीच्छेदावोच्छेदाणं चैव णिण्णयकरणादो । सेसासेसविसेसणिण्णयसुवरि सुत्तसंबंधमेव कस्सामो । एवमेदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ उवसामगपरूवणाए पडिबद्धाओ । उवरिम-चत्तारि गाहाओ तस्सेव पडिवादपदुप्पायणे पडिबद्धाओ । तं जहा—

(६७) पडिवादो च कदिविधो कम्मि कसायम्मि होइ पडिबदिधो ।

केसि कम्मसाणं पडिबदिदो बंधगो होइ ॥१२०॥

§ ७. एसा सव्वा वि गाहा पुच्छासुत्तं । तत्थ 'पडिवादो च कदिविधो' ति एसो पठमावयवो पडिवादमेदणिहेसमुवेक्खदे । 'कम्मि कसायम्मि होइ पडिबदिदो' एसो वि विदिंयावयवो सव्वोवसामणादो पडिबदमाणो पठमं कदमम्मि कसाये पडिबदिदि, किमविसेसेण, आहो अत्थि को वि बादर-सुहुमादिकसायगओ विसेसो ति एवंविहस्स अत्थविसेसस्स पुच्छामुहेण णिण्णयकरणद्धं पवत्तो । पडिबदमाणस्स पपडिबंधपरिवाडीए पुच्छामुहेण णिच्छयकरणद्धं गाहापच्छद्धमोइण्णमिदि । एवमेत्थ तिण्णि पुच्छाओ पडिबद्धाओ । सपहि एवमेदीए गाहाए पुच्छिदत्थविसये जहाकम्मं णिण्णयविहाणद्धुमवरिमाणं तिण्हं गाहासुत्ताणमवयाओ—

(६८) बुविहो खलु पडिवादो भवक्खयावुवसमक्खयादो वु ।

सुहुमे च संपराए बादरराणे च बोद्धव्वा ॥१२१॥

एक गाथासूत्रके पूर्वाध और उत्तरार्ध द्वारा करणोंके विच्छेद और अविच्छेदका ही निर्णय किया गया है । शेष समस्त विशेषोंका निर्णय आगे सूत्रके सम्बन्धको ध्यानमें रखकर ही करेंगे । इस प्रकार ये चार सूत्रगाथाए उपशामकसम्बन्धी प्ररूपणामें ही प्रतिबद्ध हैं । तथा उपरिम चार गाथाएँ उसीके प्रतिपातके कथनमें प्रतिबद्ध हैं । यथा—

चारित्रमोहनीयके उपशामकका प्रतिपात कितने प्रकारका होता है, वह सर्व-प्रथम किस कथायमें प्रतिपतित होता है तथा गिरता हुआ किन कर्मप्रकृतियोंका बंधक होता है ? ॥१२०॥

§ ७. यह पूरी गाथा पृच्छासूत्र है । उसमें 'पडिवादो च कदिविधो' यह पहला चरण प्रतिपातके भेदोंकी अपेक्षा करता है । 'कम्मि कसायम्मि होइ पडिबदिदो' यह दूसरा चरण भी सर्वोपशामनासे गिरनेवाला जीव पहले किस कथायमें गिरता है, क्या विशेषताके बिना गिरता है या बादर-सुद्धम आदि कथायगत कोई भी विशेषता है इस प्रकार इस तरहके अर्थ विशेषका पृच्छाद्वारा निर्णय करनेके लिये प्रवृत्त हुआ है । तथा गिरनेवाले जीवके प्रकृतिबन्धके क्रमानुसार पृच्छा द्वारा निश्चय करनेके लिये गाथाका उत्तरार्ध आया है । इस प्रकार इस गाथा सूत्रमें तीन पृच्छाएँ प्रतिबद्ध हैं । अब इस प्रकार इस गाथा द्वारा पूछे गये अर्थके विषयमें यथाक्रम निर्णय करनेके लिये आगेके तीन गाथासूत्रोंका अवतार हुआ है—

भवक्षय और उपशमक्षयके भेदसे प्रतिपात नियमसे दो प्रकारका है । वह प्रतिपात भवक्षयसे बादररागमें और उपशमक्षयसे सूक्ष्मसाम्परायमें जानना चाहिए ॥१२१॥

§ ८. एदेण छट्ठगाथासुत्तेण पुब्बिन्लगाहाए पुब्बद्वगिबद्धाणं दोणहं पुच्छमम-
मत्थगिण्णजो कजो दट्ठव्वो, पडिवादस्स दुविहत्तपरुवण्णए सुहुमवादरलोमकसाय-
विसयपडिवादस्स च एदिस्से गाहाए पुव्व-पच्छद्वेसु पडिबद्धस्स परिक्कुडहुवलंभादो ।

(६९) उवसामणाखण तु पडिबदिवो होइ सुहुमरागणिह ।

बादररागे गियमा भवक्खया होइ परिबदिवो ॥१२२॥

§ ९. एसा वि सत्तमी गाहा उवसामणद्धाखण जो पडिवादो सो गियमा
सुहुमसंपाराइयो होइ । भवक्खयगिबंधो पुण पडिवादो गियमा बादरकसाये होदि
त्ति पुब्बिन्लगाथासुत्तणिहिट्ठस्सेवत्थविसेसस्स परुवणहुमवइण्णा । एदिस्से अन्नमत्त-
परुवणा सुगमा ।

(७०) उवसामणाखण तु अंसे बंधदि जहाणुपुव्वीए ।

एमेव य वेदयवे जहाणुपुव्वीय कम्मंसे । (८) ॥१२३॥

§ १०. भवक्खएण परिवदिदस्स देवेसुप्पण्णपढमसमये अकमेण सच्चाणि
करणाणि उग्घादिज्जति, ण तत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि । जो वुण उवसामणद्धाखण
पडिबदिवो सो जाए आणुपुव्वीए पुव्वं चडमाणावत्थाए बंधवोच्छेदं काट्ठणागदो ताए
चेवाणुपुव्वीए जहाकमं लोहंसजलणादिकम्मंसे बंधइ तहा चेव पच्छाणुपुव्वीए उदय-

§ ८. इस छठे गाथासूत्रद्वारा पिछली गाथाके पूर्वार्धमें निबद्ध दो वृत्तासम्बन्धी
अर्थका निर्णय किया गया जानना चाहिए, क्योंकि प्रतिपातकी दो प्रकारकी प्ररूपणा तथा
सूक्ष्म लोभकषाय और बादर लोभकषायमें प्रतिपात ये दो अर्थ इस गाथाके पूर्वार्ध और
उत्तरार्धमें प्रतिबद्ध हैं यह स्पष्ट उपलब्ध होता है ।

उपशामनाके क्षयसे यह जीव सूक्ष्म रागमें गिरता है और भवक्षयसे नियमसे
बादर रागमें गिरता है ॥१२२॥

§ ९. यह सातवीं गाथा भी उपशामनाकालके क्षयसे जो प्रतिपात होता है वह नियम-
से सूक्ष्मसाय्परायमें होता है, परन्तु भवक्षयनिमित्तक जो प्रतिपात होता है वह नियमसे
बादरकषायमें होता है इस पूर्व गाथासूत्रमें निर्दिष्ट अर्थविशेषके ही कथन करनेके लिये आई
है । इसके अवयवायकी प्ररूपणा सुगम है ।

उपशामनाके क्षय होनेसे गिरनेवाला जीव यथानुपूर्वी कर्मप्रकृतियोंको बाँधता है
और इसी प्रकार यथानुपूर्वी कर्मप्रकृतियोंका वेदन करता है (८) ॥१२३॥

§ १०. भवक्षयसे गिरनेवाले जीवके देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सुगपत् सभी
करण प्रकट हो जाते हैं, इस विषयमें कुछ वक्तव्य नहीं है । परन्तु जो उपशामनाकालके
क्षयसे गिरता है वह जिस आनुपूर्वीसे पहले बंदनेकी अवस्थामें बन्धन्युच्छिन्ति करके आया
है उसी आनुपूर्वीसे बधाक्रम लोभसंभवलन आवि प्रकृतियोंका बन्ध करता है तथा उसी प्रकार

बोण्डेदानुसारेण वेदवदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स विंढत्थो । एवमेदाओ अहु वेव सुणगाहाओ चरित्तमोहोवसामणाए पडिबद्धाओ त्ति जाणावणडुमेत्थ सुत्तसमत्तीए अहुण्हमंकविण्णासो कओ । एवमेसा संखेवेण गाहासुत्ताणमत्थपरूवणा कया । वित्था-रत्थपरूवणमुवरि कुण्णिमुत्तसंबंधेण कस्समो । संपहि एवं समुक्कित्तिदाणं गाहासुत्ताण-मत्त्वविहासणं कुण्णमणो तत्थ ताव तस्सेव परिकरमावेण सुत्तसुत्तदपरिमासिदत्थपरूवणडु-मुत्तरुत्तावपारो—

* चरित्तमोहणीयस्स उवसामणाए पुब्बं गमणिज्जा उवक्कम-परिभासा ।

§ ११. उपक्रमणमुपक्रमः समीपीकरणं प्रारंभ इत्यनर्थान्तरम् । तस्य परिभाषा उपक्रमपरिभाषा । सा प्रथमतरमेव तावत्प्ररूपयितव्येति सूत्रार्थः ।

* तं जहा ।

§ १२. सा उवक्कमपरिभासा केरिसी होइ त्ति पुच्छा कदा भवदि । सा च उवक्कमपरिभासा एत्थ दुविहा होइ—अणंताणुबंधिविसंजोयणा दंसणमोहोवसामणा चेदि । तत्थ ताव पुब्बमणंताणुबंधिविसंजोयणा परूवेयव्वा, अविसंजोइदाणंताणुबंधिचउक्कस्स

परचात् आनुपूर्वीसे उदयव्युच्छित्तिके अनुसार वेदन करता है यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है । इस प्रकार ये आठ ही सूत्रगाथाएँ चारित्रमोहोपशामनामें प्रतिबद्ध हैं इसका ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर गाथासूत्रोंकी समाप्ति होने पर आठ अंकका विन्यास किया है । इस प्रकार संक्षेपमें गाथा सूत्रोंकी यह अर्थप्ररूपणा की । विस्तारसे अर्थका कथन आगे चूर्णिंसूत्रके सम्बन्धसे करेंगे । अब इस प्रकार निर्विष्ट किये गये गाथासूत्रोंके अर्थका विशेष व्याख्यान करते हुए वहाँ सर्व प्रथम उसीके परिकररूपसे गाथासूत्रों द्वारा सूचित परिभाषारूप अर्थ-का कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* चारित्रमोहनीयकी उपशामनाके विषयमें सर्वप्रथम उपक्रम-परिभाषा जानने योग्य है ।

§ ११. उपक्रम शब्दकी व्युत्पत्ति है—उपक्रमणं उपक्रमः । उपक्रम, समीपीकरण और प्रारम्भ इन तीनों शब्दोंका एक ही अर्थ है । उसकी परिभाषा उपक्रमपरिभाषा है । वह सर्व प्रथम ही प्ररूपण करने योग्य है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

* वह जैसे ।

§ १२. वह उपक्रम-परिभाषा किस प्रकारकी है यह पृच्छा की गई है । वह उपक्रम-परिभाषा प्रकृतमें दो प्रकारकी है—अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना और दर्शनमोहकी उपशामना । उसमें सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका कथन करना चाहिए, जिसने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं की है ऐसे वेदकसम्पगदृष्टि जीवकी कषायोंकी उ-

वेदयसम्माइड्डिस्स कसापोवसामणाणिबंधणदंसणमोहोवसामणादिकिरियासु पवुत्तीए असंभवादो । तदो तव्विसंजोयणमेव पुच्चं परूवेमाणो तदवसरकरणइत्तुत्तरसुत्तं भणइ—

* वेदयसम्माइड्डी अणंताणुबंधी अबिसंजोएदूष कसाए उवसानेदुं णो उवहादि ।

§ १३. जो अट्टावीससंतकम्मिजो वेदयसम्माइड्डी संजदो सो जाव अणंताणु-बंधिचउकं ण विसंजोएदि ताव कसाए उवसामेदुं णो उवकमदि । कुदो ? तेसिमवि-संजोयणाए तस्स उवसमसेट्ठिचडणपाओग्गभावासंभवादो । तदो अणंताणुबंधिविसं-जोयणाए वेव पढममेसो पयइदि चि जाणावणइत्तुत्तरसुत्तारंभो—

* सो ताव पुच्चमेव अणंताणुबंधी विसंजोएदि ।

§ १४. सुगमं ।

* तदो अणंताणुबंधी विसंजोएंतस्स जाणि करणाणि ताणि सव्वाणि परूवेयव्वाणि ।

§ १५. कुदो ? करणपरिमाणेहिं विणा तव्विसंजोयणाणुववत्तीदो । काणि पुण ताणि करणाणि चि आसंकिय पुच्छाणिहेसमाह—

शामनाके निमित्तरूप दर्शनमोहकी उपशामनादि क्रियाओंमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इसलिये अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाका ही सर्वप्रथम कथन करते हुए उसका अवसर करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* वेदकसम्यग्दृष्टि जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना किये बिना कषायोंको उपशमानेके लिये प्रवृत्त नहीं होता है ।

§ १३. अट्टाईस सत्कर्मवाला जो वेदकसम्यग्दृष्टि संयत है वह जब तक अनन्तानु-बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं करता है तब तक कषायोंको उपशमानेके लिए प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना न होनेपर उसके उपशमश्रेणिपर चढ़नेके योग्य परिणाम नहीं हो सकते । इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनामें ही वह सर्व प्रथम प्रवृत्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका प्रारम्भ करते हैं—

* वह सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है ।

§ १४ यह सूत्र सुगम है ।

* इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवके जो करण होते हैं उन सबका कथन करना चाहिए ।

§ १५ क्योंकि करणपरिणामोंके बिना अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना नहीं बन सकती । वे करण कौन हैं ऐसी आज्ञाका कर पुच्छासूत्रकानिर्देश करते हैं—

* तं जहा !

§ १६. सुगमं ।

* अधापवत्तकरणमपुव्वकरणमभियट्टिकरणं च ।

§ १७. एदाणि तिण्णि वि करणाणि कादूणाणंताणुबंधिणो विसंजोएदि षि भणिदं होह । एदेसिं करणाणं लक्खणं जहा दंसणमोहोवसामणाए परुविदं तथा णिरव-
सेसमेत्याणुगंतव्वं, विसेसाभावादो । तदो अधापवत्तकरणवितोहीए अंतोसुहुत्तं विसुज्झ-
माणस्स ट्टिदिषादादिसंभवो णत्थि, केवलमणंतगुणाए पडिसमयं विसुज्झमाणो मच्छदि
त्ति जाणावणहुमिदमाह—

* अधापवत्तकरणे णत्थि ट्टिदिघादो वा अणुभागघादो वा गुणसेही
वा गुणसंकमो वा ।

§ १८. कुदो एदेसिमेत्थासंभवो चे ? ण, अधापवत्तकरणविसोहीणं सव्वत्थ
ट्टिदि-अणुभागखंडयगुणसेट्ठिणिअरादीणमकारणत्तञ्जुवगमादो । पुणो किमेदाहिं
कीरमाणं फलमिदि चे ? ट्टिदिबंधोसरणसहस्साणि असुहाणं कम्माणमणंतगुणहाणीए
पडिसमयमणुभागबंधोसरणं सुहाणमणंतगुणवट्टीए चउट्टुणाणुभागबंधोत्ति एदं फलमेत्थ

* वे जैसे ।

§ १६. यह सूत्र सुगम है ।

* अधःप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण ।

§ १७. इन तीनों ही करणोंको करके अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करता है यह
उक्त कथनका तात्पर्य है । इन करणोंका लक्षण दर्शनमोहोपशामनामें जिस प्रकार कह आये
हैं उस प्रकार पूरी तरह यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । इसलिये अधः-
प्रवृत्तकरणरूप विशुद्धिद्वारा अन्तर्मुहूर्त कालतक विशुद्ध होनेवाले जीवके स्थितिघात आदि
सम्भव नहीं हैं, प्रति समय केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता जाता है इस बातका
ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* अधःप्रवृत्तकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात. गुणश्रेणि और गुणसंकम
नहीं होता ।

§ १८. संज्ञा—ये यहाँ पर असम्भव क्यों हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अधःप्रवृत्तकरणरूप विशुद्धियोंको सर्वत्र स्थितिकाण्डक,
अनुभागकाण्डक और गुणश्रेणिनिर्जरा आदिके कारणरूपसे नहीं स्वीकार किया गया है ।

संज्ञा—तो इनके द्वारा किया जानेवाला कार्य क्या है ?

समाधान—हजारों स्थितिवन्धापरण, अशुभ कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी ज्ञानि

दृष्टव्यं । एवमभाषवत्करणं बोद्धव्यं तदो अपुव्यकरणं पविद्वस्स । कीरमाणकजमेदपदुप्या-
यण्णुत्तरसुत्तं—

* अपुव्यकरणे अत्थि द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेही च गुण-
संकमो वि ।

§ १९. एत्थ द्विदिघादादीणं परूवणा जहा दंसणमोहक्खवणाए मिच्छत्तस्स
परूविदा तहा वैव भिरवयवमणुगंतव्वा । णवरि एत्थतणगुणसेही सम्भत्तुप्पत्ति-संजदा-
संजद-संजदगुणसेहीहितो पदेसग्गेणासंखेज्जगुणा होदूण तदायामादो संखेज्जगुण-
हीणायामा होइ । गुणसंकमो पुण अणंताणुबंधीणमेव, णाण्णेसि कम्माणमिदि वत्तव्वं ।
एवं संखेजेहिं द्विदिखंडयसहस्सेहिं ठिदिबंधोसरणसहगएहिं पादेकमणुभागखंडयसहस्ता-
विणामावीहिं अपुव्यकरणद्वा समप्पह । अपुव्यकरणस्स पढमसमयद्विदिबंधादो द्विदि-
संतकम्मादो च तस्सेव चरिमसमए द्विदिसंत-द्विदिसंकम्माणि संखेज्जगुणहीणाणि ।
तदो पढमसमयअणियद्विकरणो जादो । ताषे अणंताणुबंधीणं द्विदिसंतकम्ममंतोकोडा-
कोडीए सागरोवमसदसहस्सपुधत्तं । सेसाणं कम्माणं अंतोकोडाकोडीए । पुणो वि
अणियद्विकरणं पविद्वस्स वि एवं वैव द्विदि-अणुभागखंडय-द्विदिबंधोसरण-गुणसेहि-
णिज्जरा-गुणसंकमपरिणामा णिव्वामोहमणुगंतव्वा च्चि पदुप्यायण्णुत्तरसुत्तावयारो—

रूपसे अनुभागबन्धापसरण और शुभ कर्मोंका अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे चतुःस्थानीय अनुभाग-
बन्ध यह यहाँ अधःप्रवृत्तकरणरूप विशुद्धियोंका फल जानना चाहिए ।

इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणको बिताकर उसके बाद अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके
किये जानेवाले कार्योंके भेदका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* अपूर्वकरणमें स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणि है, गुणसंकम भी है ।

§ १९. वर्धनमोहकी क्षणामे जिस प्रकार मिथ्यात्वके स्थितिघात आविकी प्ररूपणा की
है उसी प्रकार पूरी प्ररूपणा यहाँ जाननी चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँकी गुणश्रेणि
अन्वक्त्वकी उत्पत्ति, संयतासंयत और संयतसम्बन्धी गुणश्रेणियोंसे प्रवेदोंकी अपेक्षा असंख्यात
गुणी है, तथा उनके आयामसे संख्यातगुणी हीन है । परन्तु गुणसंकम अनन्तानुबन्धियोंका
ही होता है, अन्य कर्मोंका नहीं होता ऐसा कहना चाहिए । इस प्रकार प्रत्येक हजारों अनु-
भागकाण्डकोंके अविनाभावी ऐसे स्थितिबन्धापसरणोंके साथ होनेवाले हजारों स्थितिकाण्डकों
के द्वारा अपूर्वकरणके कालको समाप्त करता है । अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिबन्ध
और स्थितिसत्कर्म होता है उससे उसके अन्तिम समयमें स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्म
संख्यातगुणा हीन होता है । तत्पश्चात् प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरणबाला हो जाता है ।
वह अनन्तानुबन्धियोंका स्थितिसत्कर्म अन्तःकोडाकोडीके भीतर लक्षप्रवृत्तसागरोपमप्रमाण
होता है । शेष कर्मोंका अन्तःकोडाकोडीके भीतर होता है । फिर भी अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए
जीवके भी इसी प्रकार स्थितिकाण्डक, अनुभागकाण्डक, स्थितिबन्धापसरण, गुणश्रेणि निजरा
और गुणसंकम परिणाम व्यामोहके बिना जानना चाहिए इसका कथन करनेके लिये आगेके
सूत्रका अवतार करते हैं—

✽ अणियट्टिकरणे वि एदाणि खेव । अंतरकरणं णत्थि ।

§ २०. अणियट्टिकरणे वि पयट्टमाणस्स एदाणि खेवाणंतरपरुविदाणि ठिदि-
खंडयघादादीणि कजाणि होति, णत्थि तत्थ को वि विसेसो । जहा बुण दंसणमोहोव-
सामणाए अणियट्टिकरणम्म अंतरकरणमत्थि, किमेवमेत्थ वि संभवो, आहो णत्थि थि
आसंकाए णिराकरणट्टमतरकरणं णत्थि'त्ति पटुप्पाहदं । कुदो तदसंभवणिण्णयो चे ?
दंसणचरित्तमोहोवसामणाए चरित्तमोहकखवणाए च अंतरकरणस्स संभवो णाण्णत्थे
त्ति णियमदंसणादो । संपहि अणियट्टिपरिणामेहिं ट्टिदि-अणुभागखंडयसहस्साणि
कुणमाणो तदद्वाए संखेजेसु भागेषु गदेसु तदो विसेसघादवसेण अणंताणुबंधीणं
ट्टिदिसंतकम्मसण्णिट्टिदिवंधेण समाणं करोदि । तदो संखेजेहिं ट्टिदिसंखंडयसहस्सेहिं
चउरिंदियट्टिदिवंधसमाणं । एवं तीइदिय-वेइंदिय-एइंदियट्टिदिवंधेण समाण कादूण पुणो
पल्लिदोवममेचट्टिदिसंतकम्मं ठवेदूण तदो सेसस्स संखेज्जे भागे ट्टिदिसंखंडयमागाएतो
दूरावकिट्टिमेत्तमणंताणुबंधीणं ट्टिदिसंतकम्मं कादूण तदो सेसस्स असंखेज्जे भागे घादेतो
संखेज्जेहिं ट्टिदिसंखंडयसहस्सेहिं गदेहिं उदयावलियबाहिरं सन्वमणंताणुबंधिट्टिदि-
संतकम्मं अणियट्टिकरणचरिमसमये पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तायामचरिम-

✽ अनिष्टात्तिकरणमें भी ये ही कार्य होते हैं । अन्तरकरण नहीं होता ।

§ २०. अनिष्टात्तिकरणमें प्रवर्तमान हुए जीवके भी अनन्तर पूर्व कहे गये थे ही स्थिति-
काण्डकघात आदि कार्य होते हैं, वहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है । परन्तु दर्शनमोहकी
उपशामनामें जिस प्रकार अनिष्टात्तिकरणमें अन्तरकरण होता है, उसप्रकार क्या यहाँ पर भी
सम्भव है, अथवा सम्भव नहीं है ऐसी आशंका होनेपर निराकरण करनेके लिये 'अन्तरकरण
नहीं होता यह बचन कहा है ।

शंका—वहाँ अन्तरकरण सम्भव नहीं है इसका निर्णय किस प्रमाणसे किया जाता है ?

समाधान—क्योंकि दर्शन-चारित्रमोहोपशामना और चारित्रमोहद्वेषणमें अन्तरकरण
सम्भव है, अन्यत्र नहीं यह नियम देखा जाता है । इससे निर्णय होता है कि अनन्तानु-
बन्धियोंकी विसंयोजनामें अन्तरकरण सम्भव नहीं है ।

अब अनिष्टात्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा हजारों स्थितिकाण्डक और हजारों अनुभाग-
काण्डकोंको करता हुआ उस कालके संख्यात बहुभागके जानेपर पश्चात् विशेष घातबल
अनन्तानुबन्धियोंका स्थितिसत्कर्म असंखियोंके स्थितिबन्धके समान करता है । उसके बाद
संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके होनेपर स्थितिसत्कर्म चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धके समान
करता है । इस प्रकार त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिबन्धके समान करके पुनः
पल्लोपमप्रमाण स्थितिसत्कर्मको स्थापित कर तत्पश्चात् शेष स्थितिके संख्यात बहुभागप्रमाण
स्थितिकाण्डकोंके ग्रहण करता हुआ अनन्तानुबन्धियोंका दूरापकृष्टिप्रमाण स्थितिसत्कर्म करके
पश्चात् शेष स्थितिके असंख्यात बहुतभागका घात करता हुआ संख्यात हजार स्थितिकाण्डकों
के जाने पर अनन्तानुबन्धियोंके उदयावलि बाह्य समस्त स्थितिसत्कर्मको अनिष्टात्तिकरणके

द्विद्विखंडयचरिमफालिसरूवेण सेसवज्जमाणाकसाय-नोकसाएसु संकामिय पयदं किरियं समाणेदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो ।

* एसा ताव जो अणंताणुबंधी विसंजोएदि तस्स समासपरूवणा ।

§ २१. सुगममेदं पयदत्थोवसंहारवकं । एवमणंताणुबंधिविसंजोयणमुवसंहरिय सत्थाणे पदिदो अंतोमुहुत्तं विस्ममियूण किरियंतरमाढवेदि त्ति जाणावणद्दुमुत्तरसुत्ता-वयारो—

* तदो अणंताणुबंधी विसंजोइवे अंतोमुहुत्तमघापवत्तो जादो असाद-अरदि-सोग-अजसगित्तिआदीणि ताव कम्माणि बंधदि ।

§ २२. अणंताणुबंधिविसंजोयणकिरियासत्तिसमणंतरमेव किरियंतरं षाढवेइ । किंतु अणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तं सत्थाणसंजदो होदूण तत्थ संकिलेस-विसोहिवसेण पमत्तापमत्तगुणेषु परियत्तमाणो असाद-अरइ-सोग-अजसगित्तिआदि-पयडीओ पुव्वं करणविसोहिपाहम्मेण अवज्जमाणाओ ताव केत्तियं पि कालं बंधमाणो विस्समिदो त्ति एमो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । एत्थादिसहेण संकिलेस्समाणसंजद-बंधपाओग्गाणमथिर-असुहाणं गहणं कायव्वं, छण्हमेदासिं पयडीणं बंधस्स संकिले-

अन्तिम समयमें पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण आयामबाले अन्तिम स्थितिकाण्डक सम्बन्धी अन्तिम फालिरूपसे बध्यमान शेष कषायों और नोकषायोंमें संक्रमित कर प्रकृत क्रिया को समाप्त करता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

* जो उक्त जीव मर्व प्रथम अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करता है उसकी यह संक्षेपमें प्ररूपणा है ।

§ २१. प्रकृत अर्थका उपसंहार करनेवाला यह वचन सुगम है । इस प्रकार अनन्तानु-बन्धियोंकी विसंयोजनाका उपसंहार करके स्वस्थानमें आया हुआ उक्त संयत अन्तर्मुहूर्त कालतक विश्राम करके दूसरी क्रियाका आरम्भ करता है । इसका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* इस प्रकार अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक अधःप्रवृत्तसंयत होता हुआ असातावेदनीय, अरति, शोक और अपन्नःकीर्ति आदि का बन्ध करता है ।

§ २२. अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनारूप क्रियाशक्तिके समाप्त होनेके बाद ही दूसरी क्रियाका आरम्भ नहीं करता है । किन्तु अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करके अन्तर्मुहूर्त कालतक स्वस्थान संयत होकर वहाँ संक्लेश और विमुद्दिबश प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें परिवर्तन करता हुआ असातावेदनीय, अरति, शोक और अयशःकीर्ति आदि प्रकृतियोंको, पहले करणरूप विमुद्दिके माहात्म्यवश नहीं धाँधता रहा, किन्तु अब कियेने ही काल तक बन्ध करता हुआ विश्राम करता है यह इस सूत्रका भावार्थ है । यहाँ पर सूत्रमें आये हुए 'आदि' शब्दसे संक्लेशको प्राप्त होनेवाले संयतके बन्धके योग्य अस्थिर

साणुविद्धपमादणिवंधणत्तादो । एत्थत्तण 'ताव'मदो पुणो वि किरियंतराहिमुहत्तमेदस्स जाणावेह । तं च किरियंतरमेत्थोवजोगिदंसणमोहोवमामणमेवे त्ति तप्परूवणङ्कुमुत्तरं सुत्तपबंधमाह—

* तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयमुवसामेदि, तदो ण अंतरं ।

§ २३. पुणो वि विसोहिमावरिय अतोमुहुत्तेण कालेण दंसणमोहणीयं कम्मं उवसामेदि त्ति वुत्तं होह । दंसणमोहणीयमणुवसामिय वेदगमम्मत्तेणेव उवसमसेणि-
मेमो किण्ण चडाविज्जे ? ण, तहासंभवाभावादो । हदि खइयसम्माइड्ढी उवसम-
सम्माइड्ढी वा होदूण चरित्तमोहोवसामणाए पयड्ढिदि, णाण्णहा त्ति । जइ एवं, दंसण-
मोहक्खवणाए वि एत्थ णिहेमो कायव्वो त्ति णासकाणज्जं, तिस्से पुव्वमेव सवित्थरं
परुविदत्तादो । दंसणमोहोवसामणा वि पुव्वं परुविदा चेव, तदो णेदाणिमाहवेयव्वा
त्ति चे ? ण, अणादियमिच्छाइड्ढिपड्डिवद्धाए तदुवमामणाए पुव्व परुविदत्तादो । ण सा
एत्थ पयदावजोगिणी, तिस्से उवममसेदिपाओग्गत्तामंभवादो । तदा वेदगमम्माइड्ढि-

और अशुभ प्रकृतियोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उन छह प्रकृतियोंका वन्व सत्रलेशयुक्त प्रमार्दानिमित्तक होता है । इस सूत्रमें आया हुआ 'ताव' शब्द इस त्रावके किंवा मा दूमरी क्रियाके अभिमुख होनेका ज्ञान करता है । और वह दूमरी क्रिया प्रकृतम उपागो दशनमाह की उपशामना ही है इसलिए उमका कथन करनेके लिय आशेक सूत्रभवन्धका कहते हैं

* पश्चात् अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा दर्शनमोहनीय कर्मका उपशमाता है, इसलिए हम समय अन्तर नहीं है ।

§ २३ फिर भी विशुद्धिको पूरकर अन्तर्मुहूर्त कालद्वारा दर्शनमोहनीय कर्मका उप-
शमाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—दर्शनमोहनीयको उपशमाये बिना वेदकसम्यक्त्वसे ही उपशमश्रेणिपर इसे क्यों
नहीं चढ़ाया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वैसा सम्भव नहीं है । ऐसा नियम है कि श्रायिकसम्यग्दृष्टि
या उपशमसम्यग्दृष्टि होकर चारित्रमोहकी उपशामनामें प्रवृत्त होता है, अन्य प्रकारसे नहीं ।

शंका—यदि ऐसा है तो दर्शनमोहकी क्षपणाका भी यहाँ पर निर्देश करना चाहिए ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उमका पहले ही विस्तारके
साथ कथन कर आये हैं ।

शंका—दर्शनमोहकी उपशामनाका कथन भी पहले कर ही आये है, इसलिए यहाँ
उसका आरम्भ नहीं करना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टिसे प्रतिबद्ध दर्शनमोहकी उपशामनाका
पहले कथन किया है, वह यहाँ प्रकृतमें उपयोगी नहीं है, क्योंकि वह उपशमश्रेणिके योग्य
नहीं है ।

विसया दंसणमोहोवसामणा पुव्वं व परूविदत्तादो एण्हि परूवेयव्वा त्ति वेसव्वं ।

* तदो दंसणमोहणीयमुवसामेतस्स जाणि करणाणि पुव्वपरूविदाणि ताणि सव्वाणि इमस्स वि परूवेयव्वाणि ।

§ २४. पुव्वं दंसणमोहणीयमुवसामेमाणस्स अणादियमिच्छाइट्टिस्स जाणि करणाणि अधापवत्तादिमेयमिण्णाणि परूविदाणि ताणि सव्वाणि णिरवसेसमेत्थाणु-गंतव्वाणि विसेमाभावादो त्ति भणिदं होदि । एदेहिं करणेहिं कीरमाणकज्जमेदो वि तहा चेय परूवेयव्वो त्ति जाणावणइमिदमाह—

* तहा द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेढी च अत्थि ।

§ २५. जहा पढमम्मत्तमुप्पाएमाणस्स द्विदि-अणुभागघादो गुणसेढी च अत्थि, तहा एत्थ वि तेमिमत्थिचमवगंतव्व, ण तत्थ किंचि णाणचमत्थि त्ति भणिदं होइ । तं कथं ? अधापवत्ताकरणे ताव णत्थि द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेढी वि, केवल-मणंतगुणाए विमोहीए विसुज्झमाणो सगद्धाए संखेज्जसहस्समेत्ताणि द्विदिबंधोसरणाणि करेदि । अप्पसत्थाण कम्माणं समयं पडि अणंतगुणहाणीए विट्ठाणियमणुभागं बंधइ । पमत्थाणं कम्माणमणंतगुणवट्ठीए चउट्ठाणियमणुभागबंधं बंधदि । एवमेदेण

इसलिये वेदकमस्यगृष्टिविषयक दर्शनमोहकी उपशमना पहलेके समान कही गई हानेसे इस समय कही जाना चाहिए ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

* तदनन्तर दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवालेके जो करण पहले कह आये हैं वे सब इसके भी कहने चाहिए ।

§ २४ दर्शनमोहनीयका उपशमना करनेवाले अनादि मिथ्यादृष्टिके पहले अध-प्रवृत्तकरण आदि भेदरूप करण कह आये हैं वे सब यहाँ भी जानने चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । तथा इन करणोंद्वारा किये जानेवाले कायभेदका कथन भी उसी प्रकार कहना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रका कहते हैं—

* उसी प्रकार स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणि होती है ।

§ २५. प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवालेके जिस प्रकार स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणि होती है उसी प्रकार यहाँ पर भी उनका अस्तित्व जानना चाहिए, उनमें कुछ फरक नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका— वह कैसे ?

समाधान—अधःप्रवृत्तकरणमें तो स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणि भी नहीं है, केवल अनन्तगुणी विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ अपने कालमें संख्यात हजार स्थिति-बन्धापरणोंको करता है । अप्रस्त कर्मोंके प्रवृत्ति समय अनन्तगुणी हानिरूपसे द्विस्थानीय अनुभागको बाधता है तथा प्रशस्त कर्मोंके अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे चतुःस्थानीय अनुभागको

बिहाणेण सगद्धमणुपालिय' तदो से काले पढमसमयअपुव्वकरणो होइ । ताषे चैव द्विदिघादो अणुभागघादो गुणसेढी च समगमाढत्ता । गुणसकमो पत्थि । द्विदिखंडय-पमाणं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । अणुभागखंडयपमाणमप्यसत्थाणं कम्ममाणमणु-मागसंतकम्मस्स अणंता भागा । गुणसेढिणिक्खेवो पुण अपुव्वकरणद्वादो अणियट्टि-करणद्वादो च विसेसाहिओ गलिदसेसायामो च । ताषे चैव द्विदिबंधो अधापवत्त करण-चरिमद्विदिबंधादो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागेणूणो पवद्धो । एकम्मि द्विदिखंडय-कालम्भंतरे संखेज्जसहस्सेत्ताणि अणुभागखंडयाणि अंतोमुहुत्तकीरणद्वापडिबद्धाणि । एवमेदोए परूवणाए सगद्धमणुपालिय तदो चरिमसमयअपुव्वकरणो जादो । ताषे अपुव्वकरणपढमसमयद्विदिसंतकम्मादो संखेज्जगुणहीणं द्विदिसंतकम्मं होदि त्ति जाणा-वणफल्लुत्तरसुत्तं—

* अपुव्वरणस्स जां पढमसमए द्विदिसंतकम्मं तं चरिमसमए संखेज्जगुणहीणं ।

§ २६. एत्थ जह वि द्विदिवधो संखेज्जगुणहीणो त्ति ण वुत्तो तो वि अत्थदो तस्स संखेज्जगुणहीणत्तमवगम्मदे, द्विदिखंडय-द्विदिवंधोसरणवसेण बंध-संताणं तहाभावो-ववत्तीदो । एवमपुव्वकरणद्वमुल्लंघियूण से काले पढमसमयाणियट्टिकरणो जादो ।

बांधता है। इस प्रकार इस विधिसे अपने कालको सम्पन्न कर उसके बाद तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण होता है और तभी स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणिको एक साथ आरम्भ करता है। यहाँ गुणसंक्रम नहीं है। स्थितिकाण्डकका प्रमाण पत्थोपमके संख्यातवें भागप्रमाण है। अनुभागकाण्डकका प्रमाण अप्रशस्त कर्मोंके अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण है। गुणश्रेणि निक्षेप तो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक और गलित शेष आयामवाला है। तभी स्थितिवन्ध अधःप्रवृत्तिकरणके अन्तिम समयके स्थितिवन्धसे पत्थोपमका संख्यातवां भाग कम बंधता है। एक स्थितिकाण्डकके कालके भीतर संख्यात हजार अनुभागकाण्डक होते हैं। जिनमेंसे प्रत्येकका उत्कीरण काल अन्तर्मुहूर्त है। इस प्रकार इस प्ररूपणके साथ अपने कालको सम्पन्न करके तब अन्तिम समयवर्ती अपूर्वकरण हो जाता है। तब अपूर्वकरणके प्रथम समयके स्थितिसत्कर्मसे संख्यात गुणा हीन स्थितिसत्कर्म होता है इस बातका ज्ञान कराना है फल जिसका ऐसे आगेके सूत्रको कहते हैं—

* अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिसत्कर्म है वह अन्तिम समयमें संख्यात-गुणा हीन हो जाता है ।

§ २६ यहाँपर यद्यपि स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन हो गया है यह नहीं कहा है तो भी वास्तवमें उसका संख्यातगुणा हीनपना जाना जाता है, क्योंकि स्थितिकाण्डकघात और स्थितिवन्धापरसरणवश बन्ध और सत्त्व उस प्रकारसे बन जाते हैं। इसप्रकार अपूर्व-करणके कालको उल्लंघनकर तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण हो जाता है ।

तथा चैव द्विदिघादो अणुभागघादो द्विदिबंधोसरणं गुणसेद्विणिजरा च । एवं गेदव्वं जाव अणियद्विअद्दाए चरिमसमयो ति । णवरि अणियद्विअद्दाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु तम्मि उद्देसे को वि विसेससंभवो अत्थि ति परूवणइत्तुत्तरसुत्तावपारो —

* दंसणमोहणीयउपसामग्या-अणियद्विअद्दाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्दाणमुदीरणा ।

§ २७. पुव्वमसंखेज्जलोगपडिभागेण सव्वेसि कम्माणमुदीरणा । एत्थुद्देसे पुण सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्दाणमुदीरणा परिणामपाहम्मणेण पवत्तदि ति एसो विसेसो पढमसम्मत्तुप्पत्तीए उवसामगस्स परूवणादो ।

* तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयस्स अंतरं करेदि ।

§ २८. जदो सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्दाणमुदीरणा हवदि तदो अंतोमुहुत्तेण कालेण एयद्विदिबंध-द्विदिखंडयद्वावच्छिण्णपमाणेण दंसणमोहणीयस्स कम्मस्स गुणसेद्विसीसएण सह उवरि संखेज्जगुणाओ द्विदीओ घेत्तूणंतोमुहुत्तायामे-णंतरमेसो करेदि ति वुत्तं होइ । एत्थ सम्मत्तस्स पढमद्विदिमंतोमुहुत्तमेत्तं ठवेयूण सेसाण-मुदयावलिपमाणं भोत्तूणंतरं करेदि ति वत्तव्वं । अंतरद्विदीसु उक्कीरिजमाणं पदेसगं बंधाभावेण विदियद्विदीए ण संखुहदि, सव्वमाणेदूण सम्मत्तस्स पढमद्विदीए

वहाँ उसी प्रकार स्थितिघात, अनुभागघात, स्थितिवन्धापरण और गुणश्रणिनिर्जरा होती है। इसप्रकार उन्हें अनिवृत्तिकरणके कालके अन्तिम समयतक ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनिवृत्तिकरणके कालमेंसे संख्यात बहुभाग व्यतीत होनेपर उस स्थानपर जो कुछ भी विशेष सम्भव है उसका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* दर्शनमोहनीय-उपशामनासम्बन्धी अनिवृत्तिकरण कालके संख्यात बहुभाग जानेपर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती है ।

§ २७. पहले असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार सब कर्मोंकी उदीरणा होती रही। किन्तु इस स्थानपर परिणामोंके माहात्म्यवश सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा प्रवृत्त होती है इतना विशेष प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी अपेक्षा उपशामकके कहा है।

* पश्चात् अन्तर्मुहूर्तकाल द्वारा दर्शनमोहनीयका अन्तर करता है ।

§ २८. जहाँसे लेकर सम्यक्त्वके असंख्यात समयप्रवद्धोंकी उदीरणा होती है वहाँसे लेकर एक स्थितिवन्ध और एक स्थितिकाण्डकघातमें गलनेवाले एक अन्तर्मुहूर्त कालद्वारा दर्शनमोहनीय कर्मके गुणश्रणिशीर्षके साथ ऊपरकी इससे संख्यातगुणों स्थितियोंको ग्रहणकर अन्तर्मुहूर्त कालद्वारा यह अन्तर करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँपर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थापितकर तथा शेष मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वकर्मकी उदयावलिको छोड़कर अन्तर करता है यह कहना चाहिए। अन्तरकी स्थितियोंमेंसे उत्कीरण किये जानेवाले प्रवेशपुञ्जको बन्धका अभाव होनेसे

णिकिस्रवदि । सम्मत्तस्स विदियद्विदिपदेसग्गमोक्कड्डियूण अप्पणो पढमद्विदीए गुण-
सेटिसरूवेण णिकिस्रवदि । एवं मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि विदियद्विदिपदेसग्ग-
मोक्कड्डियूण सम्मत्तपढमद्विदिम्मि गुणसेटीए णिकिस्रवदि । सत्थाणे वि अधिच्छाव-
णावलयं मोत्तूण समयाविरोहेण णिसिंचदि, अप्पणो अंतरद्विदीसु ण णिकिस्रवदि ।
सम्मत्तपढमद्विदीए सरिसं होदुणुदयावलयवाहिरे जं द्विदं मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-
पदेसग्गं तं सम्मत्तस्सुवरि समद्विदीए संकामेदि, जाव अंतरदुचरिमफाली ताव एसो
चेव क्कमो । चरिमफालीए णिवदमाणाए जहा पुवं मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणमंतर-
द्विदिदव्वमोक्कड्डणासंक्क्रेण अद्विच्छावणावलयं बोलाविय सत्थाणे वि देदि तहा संपहि
ण संछुहदि । किंतु तेसिमंतरचरिमफालिदव्वं सम्मत्तपढमद्विदीए चेव गुणसेटीए णिकिस्र-
वदि । सम्मत्तस्स चरिमफालिदव्वमणत्थ ण संछुहदि, अप्पणो पढमद्विदीए चेव संछु-
हांद ति वत्तवं । पढमद्विदीए द्विदाए पढमद्विदिदव्वमुक्कड्डियूण विदियद्विदीए ण
संछुहदि, बंधामावादो सत्थाणे चेव ओक्कड्डि । विदियद्विदिदव्वं पि ताव पढमद्विदीए
आगच्छदि जाव आवलिय-पडिआवलियाओ सेसाओ ति । तत्तो परमागाल-पडिआगाल-
वोच्छेदो । तत्तो पाए सम्मत्तस्स गुणसेटिविण्णासां णत्थि । पडिआवलियादो चेव
उदीरणा । आवलियाए समयाहियाए सेसाए सम्मत्तस्स जहणिया द्विदिउदीरणा ।

द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त नहीं करता, किन्तु सबको लाकर सम्यक्त्वको प्रथम स्थितिमें
निक्षिप्त करता है । तथा सम्यक्त्वकी दूसरी स्थितिके प्रदेश-पुञ्जको अपकर्षितकर अपनी
प्रथम स्थितिमें गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है । इसीप्रकार मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वके
भी द्वितीय स्थितिके प्रदेशपुञ्जको अपकर्षितकर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें गुणश्रेणिरूपसे
निक्षिप्त करता है । स्वस्थानमें भी अतिस्थापनावलिको छोड़कर आगममे बतलाई गई
विधिके अनुसार निक्षिप्त करता है, अपनी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें निक्षिप्त नहीं
करता है । उद्यावलिके बाहर सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके समान होकर मिध्यात्व और
सम्यग्मिध्यात्वका जो प्रदेशपुञ्ज स्थित है उसे सम्यक्त्वके ऊपर समान स्थितिमें संक्रमित
करता है । अन्तरकी द्विचरम फालितक यही क्रम चालू रहता है । चरम फालिका पतन
होते समय मिध्यात्व और सम्यग्मिध्यात्वके अन्तर स्थितिसम्बन्धी द्रव्यको अपकर्षण
संक्रमणके द्वारा अतिस्थापनावलिको छोड़कर जिस प्रकार पहले स्वस्थानमें भी देता रहा
उसप्रकार इस समय नहीं देता है । किन्तु उनके अन्तरसम्बन्धी अन्तिम फालिके द्रव्यको
सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिमें ही गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त करता है । तथा सम्यक्त्वकी अन्तिम
फालिके द्रव्यको अन्यत्र निक्षिप्त नहीं करता है, अपनी प्रथम स्थितिमें ही निक्षिप्त करता है ऐसा
कहना चाहिये । प्रथम स्थितिके रहते हुए प्रथम स्थितिके द्रव्यको उत्कर्षितकर द्वितीय स्थितिमें
निक्षिप्त नहीं करता है, बन्धका अभाव होनेसे स्वस्थानमें ही अपकर्षण द्वारा निक्षिप्त करता
है । द्वितीय स्थितिका द्रव्य भी तभीतक प्रथम स्थितिमें आता है जबतक आवलि-प्रत्यावलि
शेष रहती है । उसके बाद आगाल और प्रत्यागालका विच्छेद हो जाता है । वहाँसे लेकर
सम्यक्त्वका गुणश्रेणिविभ्यास नहीं होता । मात्र प्रत्यावलिमेंसे उदीरणा होती है । एक समय

तदो पदमद्विदीए चरिमसमये अणियद्विकरणद्वा समप्यह । से काले पदमसम्मत्त-
मुप्पाहय सम्माइड्डी जायदे ।

§ २९. संपहि जहा पदमसम्मत्ते उप्पाहदे सम्माइड्डीपदमसमयप्यहुडि जाव
अंतोमुहुत्तमेत्तकालं मिच्छत्तस्स गुणसंकमसंभवो किमेदमेवमेत्थ वि संभवो आहो णत्थि
त्ति आसंकाए णिरारेगीकरणद्वुत्तरसुत्तावयारो—

* सम्मत्तस्स पदमद्विदीए ऋणाए जं तं मिच्छत्तस्स पदेसग्गं
सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तेसु गुणसंकमेण संकमवि जहा पदमदाए सम्मत्त-
मुप्पाएंत्तस्स तथा एत्थ णत्थि गुणसंकमो, इमस्स विज्झादसंकमो चेव ।

§ ३०. किं पुण कारणमेत्थ गुणसंकमो णत्थि त्ति चे ? सहावदो चेव, जीव-

अधिक प्रत्यावलिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वकी जघन्य स्थितिकी उदीरणा होती है । पश्चात्
प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें अनिवृत्तिकरणकाल समाप्त होकर तदनन्तर समयमें प्रथम
सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सम्यग्दृष्टि हो जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँपर वेदकसम्यग्दृष्टि संयत उपशमश्रेणिपर आरोहणके योग्य कब
होता है इस तथ्यका त्रिचार करते हुए बतलाया है कि ऐसा जीव सर्वप्रथम अनन्तानुबन्धी-
चतुष्ककी विसंयोजना करनेके लिए अधःप्रवृत्त आदि तीन करण करता है । यहाँ अन्य सब
विधि दर्शनमोहकी उपशमनाके समान हैं । मात्र इस जीवके अनिवृत्तिकरणमें अन्तरकरण
नहीं होता । इसप्रकार संक्षेपमें यह अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका प्रकार है । इसके बाद
अन्तर्मुहूर्त कालतक विभ्राम करते हुए प्रमत्तसंयत होकर असातावेदनीय, अरति, शोक और
अयशःकीर्ति आदि प्रकृतियोंका अन्तर्मुहूर्त कालतक बन्ध करता है । पुनः दर्शनमोहनीयका
उपशम करता है । यतः यह वेदकसम्यग्दृष्टि है अतः इसके एक तो वेदक सम्यक्त्वके कालतक
यथायोग्य सम्यक्त्व प्रकृतिका ही उदय-उदीरणा होती रहती है, दूसरे इसके दर्शनमोहनीयकी
किसी प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । ये दो विशेषताएँ हैं जिनको ध्यानमें रखकर यहाँ
दर्शनमोहनीयका उत्कर्षण, अपकर्षण संक्रमण आदिकी प्रक्रिया समझ लेनी चाहिए ।
विस्तारसे इस विधिकी कथन मूलमें किया ही है ।

§ २९. अब प्रथम सम्यक्त्वके उत्पन्न करने पर सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयसे लेकर
जिस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक मिध्यात्वका गुणसंक्रम होता है क्या इस प्रकार यहाँ पर
भी वह सम्भव है या सम्भव नहीं है ऐसी आशंका होने पर निःशंक करनेके लिये आगेके
सूत्रका अवतार करते हैं—

* सम्यक्त्वकी प्रथम स्थितिके क्षीण होने पर जो मिध्यात्वका प्रदेशपुञ्ज है
उसका सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वमें गुणसंक्रमसे संक्रम जिस प्रकार प्रथम
सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवके होता है उस प्रकार यहाँ पर गुणसंक्रम नहीं
होता, विघ्यातसंक्रम ही होता है ।

§ ३०. शंका—यहाँ पर गुणसंक्रम नहीं होता इसका क्या कारण है ?

समाधान—स्वभावसे ही यहाँ गुणसंक्रम नहीं होता । अथवा संक्रमादिके कारणभूत

परिणामाणं संक्रमादिकरणगणिवंधणाणं वड्चित्तियादो वा । तदो इमस्स जीवस्स विज्जादसंकमो वेव समयं पडि विसेसहीणकमेण पयदुदि त्ति वेत्तव्वं । णाणावरणादि-
कम्पामेत्तो प्पहुडि द्विदि-अणुभागघादो णत्थि । गुणसेटी पुण संजमपरिणामगणिवंधणा
अवड्ठिदायामेण पयदुदि त्ति वेत्तव्वं, करणपरिणामगणिवंधणगल्लिदसेसगुणसेटीए
एत्थुवरिमदसणादो ।

* पढमदाए सम्भत्तमुप्पादयमाणस्स जो गुणसंकमेण पूरणकालो
तदो संखेज्जगुणं कालमिमो उवसंतदंसणाभोहणीओ विसोहीए वड्ठुदि ।

§ ३१. पढमसम्भत्तमुप्पादयमाणस्स जो गुणसंकमकालो तत्तो मखेज्जगुणं
कालमेसो गुणसंकमेण विणा वि पडिसमयमणंतगुणाए विसोहिवट्ठीए वड्ठुदि त्ति
सुत्तथो ।

* तेण परं हायदि वा वड्ठुदि वा अवट्ठायदि वा ।

जीवपरिणामोंका विचित्रतावश यहाँ पर गुणसंक्रम नहीं होता । इसलिए इस जीवके प्रति
समय विशेष हीनक्रमसे विध्यासंक्रम ही प्रवृत्त होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । तथा यहाँ
से लेकर ज्ञानावरणादि कर्मोंका स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता । परन्तु संयमरूप
परिणामोंके निमित्तसे अवस्थित आयामरूपसे गुणश्रेणि प्रवृत्त रहती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना
चाहिए, क्योंकि करणपरिणाम निमित्तक गलितशेष गुणश्रेणिका यहाँ पर अन्त देखा
जाता है ।

विश्लेषार्थ—गुणसंक्रममें उत्तरोत्तर गुणित क्रमसे कर्मपुञ्जका संक्रम होता है । किन्तु
द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयसे लेकर गुणसंक्रम न होकर विध्यातसंक्रम होता है ।
इसलिए उत्तरोत्तर विशेष हीन क्रमसे मिध्यात्वके द्रव्यका सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वमें
संक्रम होता रहता है । यहाँ ज्ञानावरणादि कर्मोंका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डक-
घात भी नहीं होता । साथ ही करणपरिणामनिमित्तक जो गलितशेष गुणश्रेणि रचना प्रवृत्त
थी वह अब नहीं होती । हाँ संयमपरिणामनिमित्तक अवस्थित गुणश्रेणि रचना निरन्तर
होती रहती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवका गुणसंक्रमद्वारा जो पूरणकाल
प्राप्त होता है उससे संख्यातगुणे कालतक यह उपशान्त दर्शनमोहनीय जीव विशुद्धिके
द्वारा बढ़ता रहता है ।

§ ३१. प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवका जो गुणसंक्रमकाल प्राप्त होता है
उससे संख्यातगुणे काल तक यह जीव गुणसंक्रमके बिना भी प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धि
को वृद्धि होनेसे बढ़ता रहता है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

* उसके बाद परिणामोंके द्वारा कभी घटता है कभी बढ़ता है और कभी
अवस्थित रहता है ।

§ ३२. कृदो ? सत्याणे पदिदस्स वट्ठि-हाणि-अवट्ठानेषु संकिलेस-विसोहिवसेण संचरणं पडि विरोहाभावो ।

* तथा चेव ताव उवसंतदंसणमोहणिज्जो असाद-अरवि-सोग-अजस-गित्तिआदीसु बंधपरावत्तसहस्साणि कादूण ।

§ ३३. जहा अणंताणुबंधी विसंजोएदूण सत्याणे पदिदो असादादिबंधपाओग्गो होदि एवमेसो वि उवसंतदंसणमोहणिज्जो होदूण विसोहिकालं बोलिय पमत्तापमत्त-गुणेषु परावत्तमाणो असादारह-सोग-अजसगित्तिआदीणमसुहपयड्डीणं बंधगो होदूण तब्बंधपरावत्तसहस्साणि कुणमाणो अंतोमुहुत्तं विस्समिय तदो उवसमसेट्ठिपाओग्ग-विसोहीए अहिमुहो होदि ति सुत्तयसंगहो ।

§ ३२. क्योंकि स्वस्थानको प्राप्त हुए जीवके संकलेश और विगुद्विवश परिणामोंके वृद्धि, हानि और अवस्थानमें संचरणके प्रति विरोधका अभाव है ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि जब तक उक्त जीव स्वस्थान संयत बना रहता है तब तक जब विगुद्विको प्राप्त होता है तब परिणामोंमें वृद्धि होती है, जब संकलेशको प्राप्त होता है तब परिणामोंमें हानि होती है और जब पिछले समयके समान संकलेश या विगुद्वि बनी रहती है तब परिणामोंमें भी अवस्थितपना बना रहता है ।

* तबसे उसीप्रकार उपशान्तदर्शन मोहनीय जीव असातावेदनीय, अरति, शोक और अयशःकीर्ति आदि प्रकृतियोंसम्बन्धी हजारों बन्धपरावर्तन करके ।

§ ३३. जिस प्रकार अनन्तानुबन्धियोंकी विसंजोयना करके स्वस्थानको प्राप्त हुआ उक्त जीव असातावेदनीय आदिके बन्धके योग्य होता है उसी प्रकार यह भी उपशान्तदर्शनमोहनीय हो विगुद्वि कालको विताकर प्रमत्त और अप्रमत्तगुणस्थानोंमें परावर्तन करता हुआ असाता-वेदनीय, अरति, शोक और अयशःकीर्ति आदि अशुभ प्रकृतियोंका बन्धक होकर उनके हजारों बन्धपरावर्तन करता हुआ अन्तर्मुहूर्त काल तक विश्राम करके तत्पश्चात् उपशम-श्रेणिके योग्य विगुद्विके अभिमुख होता है यह सूत्रार्थसंग्रह है ।

विशेषार्थ—जब एकान्त विगुद्विकी वृद्धिका काल समाप्त होकर यह जीव स्वस्थान-संयत हो जाता है तब यह जीव प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानोंमें परावर्तन करता हुआ प्रमत्त गुणस्थानसम्बन्धी जब संकलेशरूप परिणाम होते हैं तब असातावेदनीय आदि अप्रशस्त प्रकृतियोंका बन्ध करने लगता है । स्वस्थान संयत इस कालके भीतर इन प्रकृतियों का इस प्रकार हजारों बार बन्ध करता है । यह विश्राम काल है जो समुच्चयरूपसे अन्त-मुहूर्तप्रमाण है । पुनः इस कालके व्यतीत होनेके बाद यह जीव उपशमश्रेणिके योग्य विगुद्विकी निचमसे प्राप्त करता है यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है ।

* तत्पश्चात् कषार्योंको उपशमानेके लिये अधःप्रवृत्तकरणसम्बन्धी परिणामरूप परिणमता है ।

* तदो कसाए उबसामेवुं कचचे अधापवत्तकरणस्स परिणामं परिणमइ ।

§ ३४. तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सवावारादो अणंतरमुवसमसेदिपाओग्ग-विसांहीए विसुज्झयूण कसायाणमुवसामणइमधापवत्तकरणपरिणामं परिणमदि चि भणिदं होइ । कषायानुपशमयित्तुमुद्यतः तस्य कृत्ये तस्य कृते आद्यं करणपरिणाम-मधःप्रवृत्तमंशमेव कृताशेषपरिकरकरणीय परिणमत इत्यर्थः । एदेण हेट्टिमसेसपरूवणा कसायावसामणाए परिकरभावेण विहासिदा । एत्तो उवरिमा पुण कसायोवसामगस्स परूवणा चि जाणाविदं ।

* जं अणंताणुबंधी विसंजोएतेण हदं दंसणमोहणीयं च उवसामेतेण हदं कम्मं तमुवरि हदं ।

§ ३५. जं कम्ममणंताणुबंधिणो विसंजोएतेण हद, जं च दंसणमोहणीयमुवमामेतेण हदं तं सव्वं कसायोवसामणेण घादिज्जमाणट्टिदि-अणुभागमंतकम्मादां उवारिम चेव हद णो हेट्टा चि भणिदं होइ । एदेण कसायोवसामगस्स घादिज्जमाणट्टिदि-अणुभागण-

§ ३४ तत्पश्चात् हजारों प्रमत्त और अप्रमत्तसम्बन्धी परावतेनरूप व्यापारके बाद प्रपशमश्रेणिके योग्य विशुद्धिसे विशुद्ध होता हुआ कषायोंको उपशमानेके लिये अध प्रवृत्त-करण परिणामरूप परिणमता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । कषायोंका उपशमानेके लिए उद्यत हुआ जीव 'तस्य कृत्ये' अर्थात् उसके लिये मवसे प्रथम जो अधःप्रवृत्त मज्जावाला करणपरिणाम है 'उस रूप, यह समस्त करणीय परिकरसे सम्पन्न होकर, परिणमता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस द्वारा अधस्तन समस्त प्ररूपणाका कषायके उपशमानेके परिकररूपसे व्याख्यान किया गया । परन्तु इससे उपरिम प्ररूपणा कषायोंके उपशामक-सम्बन्धी है यह ज्ञान कराया गया है ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि द्वितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्तिके बाद हजारों बार प्रमत्त-अप्रमत्तसंयत होता है । उसके बाद सातिशय अप्रमत्तभावको प्राप्त कर उपशमश्रेणि पर आगेहण करनेके लिए अधःप्रवृत्तकरणभावको प्राप्त होता है ।

* अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीवने जो कर्म नष्ट किया और दशनमाहनीयकी उपशामना करनेवाले जीवने जो कर्म नष्ट किया वह स्थिति-अनुभागमत्कर्मकी अपेक्षा उपरिम कर्म ही नष्ट किया ।

§ ३५ अनन्ताबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीवने जो कर्म नष्ट किया और दर्शन-मोहनीयकी उपशामना करनेवाले जीवने जो कर्म नष्ट किया वह सब कषायोंकी उपशामना करनेवाले जीवके द्वारा घाते जानेवाले स्थिति-अनुभागसत्कर्मसे जो उपरिम कर्म है वही नष्ट किया गया । अधस्तन कर्म नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस वचन द्वारा कषायोंका उपशामक जिन स्थिति-अनुभागवाले कर्मोंका घात करनेवाला है, उनका अस्तित्व दिखलाकर

मत्थितपदंसणमुहेण उवरिमकरणपयारस्त साइलत्तं परुविदं ति दट्ठुवं । अघवा 'उवरि' 'हदं' एवं भणिदे ताहिं दोहिं किरियाहिं घादिज्जमाणट्टिदि-अणुभागसंतकम्म-मुवरिमं पुवं चैव हदं घादिदं, तदो तपो हेट्टिमट्टिदि-अणुभाग-संतकम्माण घादिदाव-सेसरूवाणि अस्सिदूण उवरिमं पबंभमवदारयिस्सामो चि एसो एदस्साहिप्पायो । अघवा 'उवरि हदं' एवं भणंतस्साभिप्पायो सन्वत्थेव ट्टिदि-अणुभागघादं कुणमाणा हेट्टा मज्जे वा ण हणदि, किंतु उवरि चैव हणदि ट्टिदि-अणुभागसंतकम्माणमुवरिमभागे चैव केत्तियं पि घेत्तूण ट्टिदि-अणुभागखंडयघादमाचरदि चि पुत्तं होइ । अथवा अणंताणु-बंधी विसंजोइय वेदयसम्मत्तमुवसामिय कसायोवसामणाए पयट्टमाणेण दोहिं किरियाहिं मिलिदाहिं जं कम्मं हदं तमुवरि हदमिदि भणिदे दंसणमोहणीयं खविय उवसमसेटिं चट्टमाणो दंसणमोहक्खवएण हेट्टा घादिज्जमाणट्टिदि-अणुभागोहितो उवरि चैव हदं । एत्तो संखेज्जगुणहीणमणंतगुणं च ट्टिदि-अणुभागसंतकम्मं कादूण खइय-सम्माइट्ठी उवममसेटिं चट्टदि चि एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । एदेण दंसणमोहणीयं खविय इगिवीमंतकम्मिओ उवसमसेटिं चट्टमाणपाओग्गो होदि चि एसो अत्थविसेसो जाणाविदो होदि, अण्णहा पुव्विन्लपरुवणाए चउवीससंतकम्मियोवसमसम्माइट्टिस्सेव उवसमसेटिपाओग्गभावावहारणप्संगादो । अण्णे वुण 'तमुवरि इम्मदि' चि पाठंतर-मवलंबमाणा एवमेत्थसुचात्थसमत्थणं करेति । तं जहा—जं कम्मं अणंताणुबंधी

उपरिम करणोंकी सफलता कही गई है ऐसा जानना चाहिए। अथवा 'उवरि हदं' ऐसा कहनेपर उन दोनों क्रियाओंके द्वारा घाते जानेवाले उपरिम स्थिति-अनुभाग सत्कर्मका पहले ही घात कर दिया है, इसलिए उनद्वारा घात करनेसे शेष बचे हुए अधस्तन स्थिति-अनुभागसत्कर्मोंका आश्रय कर आगेके प्रबन्धका अवतार करेगे यह इस सूत्रका अभिप्राय है। अथवा 'उवरि हदं' ऐसा कहनेवाले आचार्यका अभिप्राय है कि सभी जगह स्थिति और अनुभागका घात करनेवाला जीव नीचेके या बीचके स्थितिअनुभागसत्कर्मका घात नहीं करता, किन्तु 'उवरि चैव हणदि' अर्थात् स्थिति-अनुभागसत्कर्मोंके उपरिम भागमेंसे कुछ ही को ग्रहण कर स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अथवा अनन्तानुबन्धीका विसंयोजनकर और वेदकसम्यक्त्वको उपशमाकर कषायोंको उपशमानेके लिये प्रवृत्ति हुए जीवने मिली हुई दूो क्रियाओं द्वारा जिस कर्मको नष्ट किया 'तं उवरि हदं' ऐसा कहने पर दर्शनमोहका क्षयकर उपशमश्रेणि पर चढ़नेवाले दर्शनमोहके क्षयकने पूर्वमें घाते जानेवाले स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा अधिक कर्मका ही घात किया। इससे स्थितिसत्कर्म और अनुभागसत्कर्मको संख्यात गुणहानि और अनन्तगुणा करके क्षाधिकसम्यक्वृष्टि जीव उपशमश्रेणि पर चढ़ता है यह इस सूत्रका भावार्थ है। इस कथन द्वारा दर्शनमोहनीयका क्षय करके मोहनीयकी इक्कीस प्रकृतियोंके सत्कर्मवाला जीव उपशमश्रेणि पर चढ़नेके योग्य होता है इस अर्थविशेषका ज्ञान कराया गया है, अन्यथा पहलेकी प्रहृणणाके अनुसार चौबीस कर्मप्रकृतियोंकी सत्तावाला उपशमसम्यक्वृष्टि जीव ही उपशमश्रेणिके योग्य है ऐसा अवधारण करनेका प्रसंग प्राप्त होता है। परन्तु दूसरे आचार्य

विसर्जोयतेण दंसमोहणीयमुवसामेंतेण खवेंतेण वा हेट्टा सग-सगकरणपरिणामेहिं हदं तं केव कम्मं घादिदावसेसमुवरि वि इम्मदि, ण तत्तो अण्णं किंचि कम्मंतरं बंधेणणहा वा समुप्पाइय कसायोवसामणो हणदि, तहा संभवाभावादो सि ।

§ ३६. संपहि अधापवत्तादीणं तिणं करणाणं जहाकममेत्थ परूवणं कुणमाणो अधापवत्तकरणविसयमेव ताव परूवणापबंधमाठवेह 'यथोद्देशस्तथा निर्देश' इति न्यायात् ।

* इवाणि कसाए उवसामेंतस्स जमधापवत्तकरणं तम्मिह णत्थि द्विविधावो अणुभागघावो गुणसेदी च । णवरि विसोहीए अणंतगुणाए बड्ढि ।

'तमुवरि इम्मदि' इस पाठान्तरका अबलम्बन लेकर यहाँ उक्त सूत्रके अर्थका इस प्रकार समर्थन करते हैं। यथा—अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवालेने और दर्शनमोहनीयकी उपशमना करनेवाले अथवा क्षपणा करनेवालेने अपने-अपने करणपरिणामोंके द्वारा जिस कर्मका पहले घात किया, घात करनेसे शेष बचे हुए उसी कर्मका आगे घात करता है, कषायोंका उपशम करनेवाला बन्ध द्वारा या अन्य प्रकारसे उससे कुछ दूसरे कर्मको उत्पन्न कर उसका घात नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार सम्भव नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँपर 'जं अणंताणुबंधी विसंजोयतेण' इत्यादि रूपसे कथित उक्त सूत्रमे आये हुए 'तमुवरि हदं' पदकी अपेक्षा भेदसे अनेक व्याख्याएँ प्रस्तुत की गई हैं उन सबका मुख्य सार यह है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले जीवने और दर्शनमोहनीयकी उपशमना करनेवाले जीवने जो कर्म नष्ट किया वह स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा उपरिम भागमे स्थित कर्म ही नष्ट किया, क्योंकि स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा उपरिम भागको नष्ट किये बिना अधस्तन या मध्यके भागको नष्ट करना सम्भव नहीं है। तथा जो शेष कर्म बचा है उसको आगे की जानेवाली क्रिया विशेषके द्वारा उत्सारित किया जायगा। यहाँपर 'तमुवरि हदं' के स्थानमे कुछ आचार्य 'तमुवरि इम्मदि' पाठ स्वीकार करते हैं। इस पाठको स्वीकार कर वे ऐसा अर्थ करते हैं कि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और दर्शनमोहनीय की उपशमना या क्षपणा करनेवाले जीवने पहले अपने अपने करण परिणामोंके द्वारा जिस कर्मका घात किया कषायोंका उपशम करनेवाला आगे भी घात करनेसे शेष बचे हुए उसी कर्मका घात करता है, क्योंकि यहाँ पर बन्ध या अन्य प्रकारसे दूसरे कर्मको उत्पन्न कर उसका घात करना सम्भव नहीं है।

§ ३६ अब अध-प्रवृत्त आदि तीन करणोंका क्रमसे यहाँ पर कथन करते हुए अध-प्रवृत्तकरणविषयक प्ररूपणाप्रबन्धको सर्वप्रथम आरम्भ करते हैं, क्योंकि 'जैसा उद्देश होता है उसीके अनुसार निर्देश किया जाता है' ऐसा न्याय है।

* इस समय कषायोंका उपशम करनेवाले जीवके जो अधःप्रवृत्तकरण होता है उसमें स्थितिघात, अनुभागघात और गुणश्रेणि नहीं होती। किन्तु प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धिसे बढ़ता रहता है।

§ ३७. कसाये उवसामेतस्स जमधापवत्तकरणं तन्दि पयड्ढमाणस्स द्विदि-
धादादिसंभवो णत्थि । केवलमंतोमुहुत्तमेत्तकालत्तमंतरे पडिसमयमणंतगुणाए विसो-
हीए विसुज्झमाणो द्विदिवंधोसरणसहस्साणि कादूण अप्पणो पढमसमयद्विदिवंधादो
संखेअगुणहीणं द्विदिवंधं चरिमसमए ठवेदि । अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागबंधोसरणं
पि समये समये अणंतगुणहाणीए करेदि । पसरथाणं कम्माणमणंतगुणवड्डोए
चउट्टाणियमणुभागबंधं समये समये पयड्ढावेदि ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । संपहि
एत्थ अधापवत्तकरणस्स लक्खणं परूवेयव्वं, अण्णहा अणवगयतस्सरूवाणं तच्चिसय-
सेसपरूवणाए असंबंधत्तप्पसंगादो ति आसंकाए उत्तरमाह—

* तं चेव इमस्स वि अधापवत्तकरणस्स लक्खणं जं पुब्बं परूविदं ।

§ ३८. जं पुब्बं पढमसमत्तग्गहणे अधापवत्तकरणस्स लक्खणमणुकड्ढिआदीहिं
विसेसियूण परूविदं तं चेव णिरवसेसमेत्थ वि कायव्वं, ण तत्तो विलक्खणमेदस्स
लक्खणंतरमत्थि त्तित्तुत्तं होइ । एवमपुब्बाणियट्टिकरणणं पि पुब्बुत्तमेव लक्खणमणु-
गंतव्वं, विसेसाभावादो । कधं पुण सव्वकिरियासु अमिण्णलक्खणणमेदेसिं तिण्हं

§ ३७. कषायोंका उपशम करनेवाले जीवके अधःप्रवृत्तकरण होता है उसमें प्रवृत्ति
करनेवाले जीवके स्थितिघात आदि सम्भव नहीं है । केवल उसके अन्तमुहूर्तप्रमाण
कालके भीतर प्रति समय अनन्तगुणी विजुद्धिसे विजुद्ध होता हुआ हजारों स्थितिवन्धाप-
सरण करके अपने प्रथम समयके स्थितिवन्धसे उसके अन्तिम समयमें संख्यातगुणे हीन
स्थितिवन्धको स्थापित करता है । अप्रशस्त कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी हानिको लिये
हुए अनुभागवन्धापसरण भी करता है । तथा प्रशस्त कर्मोंका प्रति समय अनन्तगुणी वृद्धिको
लिये हुए चतुःस्थानीय अनुभाग बन्ध करता है इस प्रकार यह यहाँ पर सूत्रके अर्थका संग्रह
है । अब यहाँ पर अधःप्रवृत्तकरणके लक्षणका कथन करना चाहिए, अन्यथा जिन्होंने उसके
स्वरूपको नहीं जाना है उनके लिए तद्विषयक शेष प्ररूपणा असम्बद्ध होनेका प्रसंग प्राप्त होता
है ऐसी आशंका होने पर आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस अधःप्रवृत्तकरणका भी वही लक्षण है जिसका पहले कथन किया है ।

§ ३८. प्रथम समयक्त्वके ग्रहणके समय अधःप्रवृत्तकरणका अनुकृष्टि आदि विशेष-
ताओंके साथ जो लक्षण पहले कह आये हैं उसी पूरे लक्षणको यहाँ पर भी कहना चाहिए,
उससे विलक्षण इसका दूसरा लक्षण नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इसी प्रकार अपूर्व-
करण और अनिष्टवृत्तकरणका भी पूर्वोक्त लक्षण ही जानना चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई
अन्तर नहीं है ।

शंका—सब कार्योंमें एक समान लक्षणवाले इन तीनों करणोंमें अलग-अलग कार्योंको
उत्पन्न करनेकी शक्ति कैसे सम्भव है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि इन करणोंके लक्षणोंके
कथनमें वास्तवमें कोई भेद नहीं है फिर भी पूर्वके करणोंमें विजुद्धि अनन्तगुणी हीन होती है और

करणान् भिण्णकज्जुपायणसत्तिसंभवो विरोहादो चि णासंका कायव्वा, लक्खणालाव-
गयमेदाभावे वि अत्थदो हेड्ढिमोवरिमकरणविसोहीणमणंतगुणहीणाहियभावमेद
मत्तिसयूण पुध पुध कज्जसिद्धीए विरोहाणुवलंभादो ।

§ ३९. एवमेदेसिं लक्खणानुवादं कादूण संपहि अधापवत्तकरणपरूयणावसरे
चउण्हं पवट्टणगाहाणमत्थविहासा जहावसरपत्ता कायव्वा चि पदुप्पाएमाणो
सुत्तपबंघमुत्तरं भणइ—

* तदो अधापवत्तकरणस्स चरिमसमये इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ ।

§ ४०. विहासियव्वाओ चि वक्खसेसो । सेसं सुगमं ।

* तं जहा ।

§ ४१. एदं पि सुगमं ।

* कसायउवसामणपट्टवगस्स० ॥ १ ॥

आगेके करणोंमें विशुद्धि अनन्तगुणी अधिक होती है इस प्रकार इन करणोंमें जो भेद उपलब्ध होता है उसका आश्रय कर पृथक्-पृथक् कार्योंकी सिद्धि हो जाती है इसमें कोई विरोध नहीं उपलब्ध होता ।

विशेषार्थ—प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना, द्वितीयोपशमकी उत्पत्ति, क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति, चारित्रमोहकी उपशमना और क्षपणा ये कार्य हैं जिनमें अधःप्रवृत्त आदि तीन करण होते हैं, उनके लक्षण भी सर्वत्र समान हैं । इसी बातको ध्यानमे रखकर उक्त शंका-समाधान किया गया है । प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय इन तीन करणोंमें सबसे कम विशुद्धि होती है । चारित्रमोहनीयकी क्षपणाके समय इन तीन करणोंमें सबसे अधिक विशुद्धि होती है । मध्यके स्थानोंमें अधिकारी भेदसे यथायोग्य जान लेनी चाहिए ।

§ ३९ इस प्रकार इनके लक्षणोंका अनुवाद करके अब अधःप्रवृत्तकरणके कथनके अवसर पर चारों प्रस्थापक गाथाओंके अर्थका विशेष व्याख्यान क्रमसे अवसर प्राप्त है, ऐसा कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* तत्पदचात् अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें इन चार सूत्रगाथाओंका व्याख्यान करना चाहिए ।

§ ४०. 'व्याख्यान करना चाहिए' इतने वाक्यशेषकी अनुवृत्ति करनी चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

* वह जैसे ।

§ ४१. यह सूत्र भी सुगम है ।

* कषायोंका उपशम करनेवाले जीवका परिणाम कैसा होता है, किस योग, कषाय और उपयोगमें 'वर्तमान, किस लेश्यासे युक्त और कौनसे वेदवाला जीव कषायोंका उपशम करता है ॥ १ ॥

§ ४२. एसा पढमगाहा ति जाणावणड्डमेत्थ एगंकविण्णासो कओ । कयमेत्थ गाहाए एगदेसणिहेसेण सयलगाहासुत्तपडिवत्ति ति णासंकणिज्जं, देसामासयभावेण एदस्स गाहापढमपादस्स सयलगाहापरामरसयभावेण षवुत्तिदंसणादो । तदो सयलगाहा एत्थ उच्चारिय गेण्हियव्वा । आद्यन्तनिर्देशाद्वा सिद्धं, सर्वत्रागमिकानामाद्यन्तनिर्देश-व्यवहारस्य सुप्रसिद्धत्वात् ।

* काणि वा पुठ्वच्चद्वाणि० ॥ २ ॥

§ ४३. एसा विदियगाहा ति जाणावणड्डमेत्थ दोअंकविण्णासो वुण्णिस्सुत्तयारेण कओ । एत्थ वि पुठ्वं व गाहेयदेसणिहेसेण सयलगाहापडिवत्ती वक्खाणयव्वा ।

* 'के अंसे भ्नीयदे० ॥ ३ ॥

§ ४४. एसा तइआ गाहा ति जाणावणड्डमिह तिण्हमंकविण्णासो । तदो एत्थ वि पुव्वुत्तेणेव णायेण सयलगाहापडिवत्ती दड्डव्वा ।

§ ४२. यह प्रथम गाथा है इस बातका ज्ञान करानेकेलिये यहाँ एक अंकका विन्यास किया है ।

शंका—यहाँ पर गाथाके एकदेशके विन्यास द्वारा पूरे गाथासूत्रकी प्रतिपत्ति कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देशामर्षकरूपसे गाथाके इस प्रथम पादकी पूरे गाथासूत्रके परामर्शरूपसे प्रवृत्ति देखी जाती है । इसलिए यहाँ पर पूरे गाथा सूत्रका उच्चारण कर उसे ग्रहण करना चाहिए । अथवा गाथाके आदि और अन्तका निर्देश करनेसे पूरे सूत्रका उच्चारण सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सर्वत्र आगमिकोंमें आदि अन्तके निर्देश करनेका व्यवहार सुप्रसिद्ध है ।

* कषायोंका उपशम करनेवाले जीवके पूर्वबद्ध कर्म कौन-कौन हैं, वर्तमानमें किन कर्मोंकी बाँधता है, कितने कर्म उदयावलिमें प्रवेश करते हैं और यह किन कर्मोंका प्रवेशक होता है ॥ २ ॥

§ ४३. यह दूसरी गाथा है इसका ज्ञान करानेके लिए चूर्णिसूत्रकारने यहाँ दो अंकका विन्यास किया है । यहाँ पर भी पहलेके समान गाथाके एकदेशके निर्देशद्वारा सम्पूर्ण गाथाकी प्रतिपत्तिका व्याख्यान करना चाहिए ।

* कषायोंके उपशम करनेके सन्मुख होनेके पूर्व ही बन्ध और उदयरूपसे किन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छिति हो जाती है । आगे चलकर अन्तरको कहाँ पर करता है और कहाँ पर किन-किन कर्मोंका उपशामक होता है ॥ ३ ॥

§ ४४. यह तीसरी गाथा है इसका ज्ञान करानेके लिये यहाँ पर तीन अंकका विन्यास किया है । इसलिये यहाँ पर भी पूर्वोक्त न्यायसे ही सम्पूर्ण गाथाकी प्रतिपत्ति कर लेनी चाहिए ।

* 'किं द्विवियाणि० ॥ ४ ॥

४६. एसा चउत्थी गाहा ति जाणावणफलो सुत्तपरिसमत्तीए चउण्हमंक-
विण्णासा । एत्थ वि पुच्चो वेव सयलगाहापडिवत्तिउवाओ वक्खाणेष्वो । एदासि
च गाहाणमत्थविहासा सुगमा ति चुण्णिंसुत्तयारेण ण वित्थारिदा । तदो एत्थ
मंदमेहाविजणाणुग्गहट्टमेदेण समप्पिदगाहासुत्तत्थविवरणमणुवत्तइस्सामो । तं जहा—
'कसायोवसामणपट्टगस्स परिणामो केरिसो भवे' ति विहासा—परिणामो विसुद्धो ।
पुच्चं पि अंतोमुहुत्तप्पहुट्ठि अणंतगुणविसोद्दीए विसुद्धमाणो आगदो, अण्णहा उवसम-
सेटिसमारोहणपाओग्गभावाणुववत्तीदो । 'जोगे' ति विहासा—अण्णदरमणजोगो,
अण्ण द्रवच्चिजोगो, ओरालियकायजोगो वा, सेसकायजोगाणमेत्थासंभवादो । 'कसाये'
ति विहासा—अण्णदरोकसायो । सो किं वट्टमाणो हायमाणो ति ? णियमा हायमाणो,
वट्टमाणकसायेण सेटिसमारोहणविरोहादो । 'उवजोगे' ति विहासा—एको उवदेसो-
णियमा सुदोवजुत्तो ति । अण्णो उवदेसो—सुदणाणेण वा मदिणाणेण वा, अचक्खु-
दंसणेण वा चक्खुदंसणेण वा उवजुत्तो ति । 'लेस्सा' ति विहासा—णियमा सुक्कलेस्सा
णियमा च वट्टमाणलेस्सा । सेसलेस्साविसयमुत्तंघियूण सुविसुद्धसुक्कलेस्साए एदस्स

* कषायोंका उपशम करनेवाला जीव किस स्थितिवाले कर्मोंका तथा किन
अनुभागोंमें स्थित कर्मोंका अपवर्तन करके शेष रहे उनके किस स्थानको प्राप्त
होता है ॥ ४ ॥

§ ४५ यह चौथी गाथा है इसका ज्ञान करानेके लिए सूत्रकी परिसमाप्ति होने पर
चार अंकका बिन्यास किया है । यहाँ पर सकल गाथाकी प्रतिप्रत्तिके पूर्वोक्त उपायका ही
व्याख्यान करना चाहिए । इन गाथाओंके अर्थका विशेष व्याख्यान सुगम है, इसलिये
चूर्णिसूत्रकारने विस्तार नहीं किया । इसलिये यहाँ पर मन्दबुद्धि जनोंके अनुग्रहके लिये इसके
द्वारा प्राप्त हुए गाथासूत्रोंके अर्थका विवरण करेंगे । यथा 'कषायोंका उपशम करनेवाले जीवका
परिणाम कैसा होता है' इसकी विभाषा (विशेष व्याख्यान)—परिणाम विसुद्ध होता है जो
पहले ही अन्तर्मुहूर्त कालसे लेकर अनन्तगुणो विसुद्धिके साथ विसुद्ध होता हुआ आया है,
अन्यथा उपशमश्रेणि पर चढ़नेके भावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 'योग' इस पदकी विभाषा—
अन्यतर मनोयोग, अन्यतर वचनयोग अथवा औदारिककाययोग होता है, क्योंकि शेष
काययोग यहाँ पर सम्भव नहीं है । 'कषाय' इस पदकी विभाषा—अन्यतर कषाय होती है ।

शंका—वह क्या वर्धमान होती है या हीयमान होती है !

समाधान—नियमसे हीयमान होती है, क्योंकि वर्धमान कषायके साथ श्रेणि पर
आरोहण करनेका विरोध है ।

'उपयोग' इस पदकी विभाषा—एक उपदेश है कि नियमसे श्रुतज्ञानमें उपयुक्त होता
है । अन्य उपदेश है कि श्रुतज्ञान, मतिज्ञान, अचक्षुदर्शन या चक्षुदर्शनरूपसे उपयुक्त होता है ;
'लेस्या' इस पदकी विभाषा—नियमसे मुक्कलेस्या होती है और जो नियमसे वर्धमान होती

परिणदसादो । 'वेदो व को भवे' त्ति विहासा—अण्णदरो वेदो भावदो, दव्वदो पुण पुरिसवेदो वेव । एवं पढमगाहाए अत्थविहासा समत्ता ।

है, क्योंकि शेष लेइयाओंके विषयका उल्लंघन कर शुविशुद्ध शुक्ललेइयारूपसे यह परिणत रहता है। 'वेद कौन होता है, इसकी विभाषा—भावसे अन्यतर वेद होता है, परन्तु द्रव्यसे पुरुषवेद ही होता है। इस प्रकार प्रथम गाथाके अर्थका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ।

विशेषार्थ—जो सातिशय अप्रमत्त संयत चारित्रमोहनीयका उपशम करनेके लिए उद्यत होता है उसका परिणाम कैसा होता है तथा योग, कषाय, उपयोग, लेइया और वेद कौन-कौनसी होती हैं इसका उक्त सत्रगाथाके प्रसंगसे विचार किया गया है। अप्रमत्तसंयमके स्वरूपपर प्रकाश डालते हुए गोमूढसार जीवकाण्डमें अन्य विशेषताओंके साथ उसे ध्यानमें निरन्तर लीन बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि सातवेंसे लेकर बारहवें तकके सब गुणस्थानोंमें उत्तरोत्तर ध्यान की प्रगाढ़ता होती जाती है। साथही इन गुणस्थानों में एकमात्र निर्विकल्प ध्यान होनेसे कषायोंका सद्भाव अबुद्धिपूर्वक ही पाया जाता है। इसका आशय यह है कि उक्त गुणस्थानोंमें स्थित जीव स्वरूपका अनुभव करता हुआ इष्टानिष्ट विकल्पके बिना ही शुद्ध चतन्य स्वरूप का अनुभव करता है। निर्विकल्प ध्यान भी इसीका नाम है। अतः चारित्र-मोहनीयका उपशमन करनेके लिए उद्यत हुए जीवका परिणाम विशुद्ध होता है यह आगम-वचन युक्तियुक्त ही है, क्योंकि यहाँ बुद्धिपूर्वक कषायका सद्भाव तो पाया ही नहीं जाता, अबुद्धि पूर्वक कषायका सद्भाव है भी ता उसमें उत्तरोत्तर हानि होती जाती है और अपने उपयाग परिणामके द्वारा उक्त जीवकी अपने स्वरूपमें उत्तरोत्तर प्रगाढ़ता होती जाती है। यह ता उक्त जीवका परिणाम कैसा होता है इसका स्पष्टीकरण है। योग कौन होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए बतलाया है कि चारों मनोयोग, चारों वचन योग और औदारिक काययोग इनमेंसे कोई एक योग होता है सो इसका कारण यह है कि एक तो यह पर्याप्त मनुष्य ही होता है, क्योंकि इसके सिवाय अन्य किसी भी अवस्थावाला जीव उपशमश्रेणि और क्षपकश्रेणि पर चढ़नेका पात्र नहीं होता। दूसरे यह जीव लक्ष्यस्थ होता है, इसलिए इसके उक्त नौ योगोंमें से कोई एक योग बन जाता है। जो जीव उपशमश्रेणि पर आरोहण करता है उसके संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ इनमेंसे किसी भी कषायका सद्भाव होनेमें कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि संज्वलन क्रोध, मान और माया यथासम्भव ये तीन कषाय नौवें गुणस्थान तक और लोभकषाय दसवें गुणस्थान तक पायी जाती है, अतः इनमेंसे किसी भी कषायके सद्भावमें श्रेणिपर आरोहण करना बन जाता है। सामायिक और छेदोप-स्थापनासंयमके समान मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका जोड़ा है। इसलिये श्रेणि आरोहणके समय इनमेंसे विवक्षाभेदसे कोई भी उपयोग कहा जाय इसमें बाधा नहीं आती। इतना अवश्य है कि आत्मानुभवनमें इन्द्रिय और मनका आलम्बन नहीं रहता, क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञान-स्वरूप होनेसे जो ज्ञानानुभूति है ऐसा स्वीकार करने पर उसका स्वसहाय होना युक्तिसंगत ही है और चूँकि ऐसी अनुभूति रागादि पर भावस्वरूप नहीं होती, पर द्रव्य और उनकी पर्यायस्वरूप तो अज्ञानदर्शमें भी नहीं होती, इसलिए उसे मात्र स्वभावके आलम्बनसे उत्पन्न हुई होनेसे निश्चय नयस्वरूप कहा है। जिन आचार्योंने यहाँ श्रुतज्ञानोपयोग स्वीकार किया है उसका यही कारण है। किन्तु अन्य जिन आचार्योंने श्रुतज्ञानोपयोग के समान मतिज्ञानो-पयोग तथा चक्षुदर्शन स्वीकार किया है उसका वह आशय प्रतीत होता है कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है और मतिज्ञान चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनपूर्वक होता है इसलिए

§ ४६. 'काणि वा पुव्ववद्वाणि' चि विहासा—एत्थ पयडिसंतकम्मं अणुभाग-
संतकम्मं पदेससंतकम्मं च मग्गियच्चं । तत्थ पयडिसंतकम्ममग्गणाए म्लुत्तरपयडीणं
सव्वासि संतकम्मिओ चि वचच्चं । णवरि अणताणु० ४ णियमा असंतकम्मिओ,
दंसणतियस्स सिया संतकम्मियो, आउअस्स णियमा मणुसाउअमंतकम्मिओ,
देवाउअस्स सिया संतकम्मिओ, सेसाणं दोणहमाउआणं णियमा असंतकम्मिओ ।
णामस्स सिया आहारदुगसंतकम्मिओ, एवं तित्थयरस्स वि, तित्थयरसंतकम्मियाण-
मुवसमसेदिसमारोहणे पडिसेहाभावादे । सेसाणं णियमा संतकम्मिओ । जासि पयडीणं
संतकम्मिओ, तासिमाउअवज्जाणमंतोकोडाकोडिट्टिदिसंतकम्मिओ । अप्पसत्थाणं
विट्ठाणाणुभागसंतकम्मिओ, पसत्थाणं चउट्ठाणाणुभागसंतकम्मिओ । सव्वासिमेव

यहाँ श्रतज्ञान उपयोग की चरितार्थता रहने पर भी कार्य में कारणका उपचार कर उक्त सभी उपयोग बन जाते हैं। उत्तरोत्तर परिणाम विशुद्ध होनेसे ऐसे जीवके एकमात्र सुविशुद्ध शुक्ललेदया कही है। वेद में किसी भी वेदसे श्रेणि चढ़ना सम्भव है, क्योंकि यहाँ पर अयुद्धि-पूर्वक कपायके समान वेद भी अयुद्धिपूर्वक ही पाया जाता है। लोके स्त्री, पुरुष और नपुंसकका व्यवहार शरीराश्रित बाह्य चिह्नके अनुसार होता है, मात्र इसलिए बाह्य चिह्नके अनुसार कथनमें वेद संज्ञा रूढ़ है, परन्तु वह जीवका नोआगम भाव न होनेसे उसका द्रव्यवेद संज्ञा है। यतःवक्ष्यर्भनाराचसंहननका धारी मनुष्य जीव ही मोक्षका अधिकारी होता है, अतः द्रव्यनपुंसकके समान द्रव्यस्त्री मोक्षगमनकी पात्र न होनेसे परभागममें द्रव्यस्त्रीके मोक्षगमनका निषेध किया है। साथ ही समग्ररूपसे वस्त्रका त्याग करना उसके लिये सम्भव नहीं है और न ही वह पूर्ण स्वात्मनपूर्वक ध्यानादिकी अधिकारिणी हो सकती है, अतः वह जिनलिंगके धारण करनेके अयोग्य बतलाई गई है। यही कारण है कि यहाँ पर यह जिज्ञासा होने पर कि उक्त जीवके वेद कौन होता है इसका समाधान करते हुए यह बतलाया गया है कि उक्त जीवके भावसे तीनों वेदोंमें से कोई एक वेद होता है और द्रव्यसे केवल पुरुषवेदका निर्देश किया है। इस प्रकार श्रेणि आरोहण के सम्मुख हुए जीवका परिणाम कैसा होता है आदि का सम्यक् प्रकारसे विचार किया।

§ ४६ 'पूर्ववद् कर्म कौन हैं' इस पदकी विभाषा—यहाँ पर प्रकृति सत्कर्म, स्थिति-सत्कर्म, अनुभागसत्कर्म और प्रदेशसत्कर्मका अनुसन्धान करना चाहिए। उनमेंसे प्रकृति सत्कर्मका अनुसन्धान करनेपर मूल और उत्तर सभी प्रकृतियोंका सत्कर्मवाला होता है ऐसा कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उक्त जीव अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्कर्मवाला नियमसे नहीं होता, दर्शनमोहनीयत्रिकका स्यात् सत्कर्मवाला होता है। आयु कर्ममें मनुष्यायुका नियमसे सत्कर्मवाला होता है, देवायुका म्यात् सत्कर्मवाला होता है। शेष दो आयुओंका सत्कर्मवाला नियमसे नहीं होता है। नामकर्ममें आहारक द्विकका स्यात् सत्कर्म-वाला होता है। इसी प्रकार तीर्थकर प्रकृतिकी अपेक्षा भी जानना चाहिए, क्योंकि तीर्थकर प्रकृतिके सत्कर्मवाले जीवोंका उपलभश्रेणि पर आरोहण करनेके प्रतिषेधका अभाव है। शेष प्रकृतियोंका नियमसे सत्कर्मवाला है। यह जिन प्रकृतियोंका सत्कर्मवाला है, आयुको छोड़कर उन प्रकृतियों का स्थितिसत्कर्म अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण होता है। अप्रशस्त कर्मोंका द्विस्थानीय अनुभागसत्कर्मवाला होता है तथा प्रशस्तरूप कर्मोंका चतुःस्थानीय अनुभागसत्कर्मवाला होता

संतपयडीणमजहण्णाणुक्कम्सपदेससंतकम्मिओ ।

§ ४७. के वा असे णिबंधदि' त्ति विहासा—एत्थ पयडिबंधो द्विबंधो अणुभागबंधो पदेसबंधो च मंगियव्वो । तत्थ पयडिबंधमगणाए विसुज्जमाणसजद-बंधपाओग्गपयडीणं णिहसो कायव्वो । तं जहा—पंचणाणावरण-छदंसणावरण-सादावेदणीय-चदुसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंछ-देवगदि-पंचिदियजादि-वेउ-व्विय-तेजा-कम्महयं ० 'आहारमरीरं' मिया समउरससंठाण-वेउव्वियअंगोवंग-आहार-अंगोवंग मिया देवगदिपाओग्गणुपुव्वी-वणणगंध-रस-फास-अगुरुअलहुआदि४-पसत्थ-विहायगदि-तमादिचउक्क-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सरादेज्जसगित्ति-णिमिण-त्तिथयरं मिया उच्चगोद-पंचंतगइयाणि त्ति एदाओ पयडीओ बंधदि । एत्थ णामस्स ३१, ३०, २९, २८ एदाणि बंधट्टाणाणि । एदासिं चैव पयडीणमंतोकोडाकोडिडिदिं बंधदि, अप्पमत्थाणं विट्टाणाणुभागमणंतगुण हीणं बंधइ, पमत्थाणं चउट्टाणाणुभागमणंतगुणं बंधइ ।

हे । तथा मभी मत्कर्मप्रकृतियों का अजघन्य-अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मबाला होता है ।

§ ४७ किन कर्मप्रकृतियोंको बाँधता है इस पद की विभाषा—यहाँ पर प्रकृतिबन्ध, भित्तिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धका अनुसन्धान करना चाहिए । उसमें प्रकृतिबन्धका अनुसन्धान करनेपर उत्तरोत्तर विशुद्धिको प्राप्त होनेवाले सयतके बन्ध योग्य प्रकृतियोंका निर्देश करना चाहिए । यथा—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनोय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजसप्ररीर, कामेणशरीर, स्यात् आहारकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आंगोपांग, स्यात् आहारकशरीर आंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वर्ण, गन्ध, रस, स्पृश, अगुरुलघु आदि चार, प्रशस्त विहायोगति, त्रसादि चार, स्थिर, शुभ, सुभग, सुन्वर, आदेय, यशःकीर्ति निर्माण, स्यात् तीर्थकर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन प्रकृतियोंका बन्ध करता है । यहाँपर नामकर्मके ३१ प्रकृतिक, ३० प्रकृतिक, २९ प्रकृतिक और २८ प्रकृतिक ये चार बन्धस्थान होते हैं । इन्ही प्रकृतियोंकी अन्त. कोडाकोडी प्रमाण स्थितिका बन्ध करता है । अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्तरोत्तर अनन्तगुणा हीन द्विस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्तरोत्तर चतुःस्थानीय अनुभागका बन्ध करता है ।

विशेषार्थ—यद्यपि सातवे गुणस्थानमें देवायु सहित ५९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, परन्तु सातिसय अप्रमत्त संयत देवायुका बन्ध नहीं करता, इसलिए प्रकृत्योंमें देवायुको छोड़कर पूर्वोक्त स्यात् ५८ प्रकृतियोंको, स्यात् ५७ प्रकृतियोंको, स्यात् ५६ प्रकृतियोंको और स्यात् ५५ प्रकृतियोंको बाँधता है । यदि तीर्थकर-आहारकद्विक सहित बन्ध करता है तो ५८ प्रकृतियोंका बन्ध करता है । यदि तीर्थकर प्रकृतिके बिना आहारक द्विक सहित बन्ध करता है तो ५७ प्रकृतियोंका बन्ध करता है । यदि आहारकद्विकको छोड़कर तीर्थकर प्रकृति सहित नामकर्मकी २९ प्रकृतियोंका बन्ध करता है तो ५६ प्रकृतियोंका बन्ध करता है और आहारकद्विक और तीर्थकर इन तीनोंको छोड़कर बन्ध करता है तो ५५ प्रकृतियोंका बन्ध करता है यहाँ पर ५८ प्रकृतियोंमें नामकर्मकी ३१ प्रकृतियाँ परिगणितकी गई हैं, ५७ प्रकृतियोंमें नामकर्मकी ३० प्रकृतियाँ परिगणितकी गई हैं, ५६ प्रकृतियोंमें नामकर्मकी २९ प्रकृतियाँ परिगणित की गई हैं और ५५ प्रकृतियोंमें नामकर्मकी २८ प्रकृतियाँ परिगणित की गई हैं ।

§ ४८. पदेसबंधे पंचणाणावरण-चउदसणावरण-सादावेदणीयचदुसंजल०-पुरिस-वेद-पंचिंदियजादि-तेजा-कम्मइयसरीर-वण्ण-गंध-रस-फास—अगुरुअलहुअ४-तसादि चउक-थिर-सुभ-जसगिति-णिमिण-उच्चागोद-पंचंतराइयाणं नियमा अणुकस्सो । सेसाणं पयडीणं सिया उकस्सो सिया अणुकस्सो ।

§ ४९. 'कदि आबलियं पविसंति' चि विहासा—मूलपयडीओ सच्चाओ पविसंति उत्तरपयडीओ वि जाओ अत्थि ताओ सच्चाओ पविसंति । णवरि जइ परभवियं देवाउ-अमत्थि, तं ण पविसदि ।

§ ५०. 'कदियं वा पवेसगो' चि विहासा । आउग-वेदणीयवज्जाणं वेदिज्ज-माणपयडीणं पवेसगो । एवं विदियगाहाए विहासा गया ।

§ ५१. 'के असे झीयदे पुव्वं वंधेण उदएण वा' चि विहासा-धीणगिद्धितियमसा-दावेदणीयमिच्छत्तवारसकसाय-इत्थि-णनुंसयवेद-अरदिसोग सच्चाणि चैव आउआणि परियत्तमाणियाओ णामपयडीओ असुभाओ सच्चाओ चैव मणुसगदि-ओरालियसरीर-

§ ४८. प्रदेशबन्धका अनुमन्धान करनेपर पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता-वेदनीय, चारसंज्वलन, पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसादिचतुष्क स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनका नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है तथा शेष प्रकृतियोंका स्यात् उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है और स्यात् अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है ।

§ ४९. 'कितनी प्रकृतियाँ उदयावलिमें प्रवेश करती हैं' इसकी विभाषामूल प्रकृतियाँ सभी प्रवेश करती हैं । उत्तर प्रकृतियाँ जिनकी सत्ता है वे सभी प्रवेश करती हैं । इतनी विशेषता है कि यदि परभवसम्बन्धी देवायुकी सत्ता है तो वह प्रवेश नहीं करती ।

विशेषार्थ—परभवसम्बन्धी देवायुका बन्ध होते समय उमकी जितनी मुख्यमान आयु शेष होती है आवाधा नियमसे उतनी ही पड़ती है और आवाधाकालके भीतर निपेक रचना होती नहीं । यही कारण है कि यहाँ परभवसम्बन्धी देवायुके उदयावलिमें प्रवेश करनेका निषेध किया है ।

§ ५०. 'कितनी प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है' इसकी विभाषा—आयु और वेदनीयको छोड़कर उदयमें आनेवाली प्रकृतियोंका प्रवेशक होता है । इस प्रकार दूसरी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ ।

विशेषार्थ—यहाँ पर प्रवेशक पदका अर्थ उदीरक है । यतः आयुर्कर्म और वेदनीय-कर्मकी उदीरणा घटे गुणस्थान तक ही होती है, आगे इनका मात्र उदय रहता है उदीरणा नहीं होती, इसलिए यहाँ पर इनका प्रवेशक नहीं होता यह कहा है ।

§ ५१. 'उपशमश्रेणि पर चदनेके सन्मुख हूए जीवके इससे पूर्व बन्ध और उदयसे किन प्रकृतियोंकी व्युच्छित्ति हो जाती है' इसकी विभाषास्त्यानगृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिश्यास्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद नपुंसकवेद, अरति, शोक, सभी आयुर्कर्म प्रकृतियाँ, परा-वर्तमान अशुभ सब नामकर्म-प्रकृतियाँ, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आंगो-

ओरालियअंगोवंग-वज्जरिसहसंघडण-मणुसगइपाओग्गणुपुब्बी-आदातुज्जोव-णामाओ च सुहाओ णीचागोदं च एदाणि कम्माणि बंधेण वोच्छिण्णाणि ।

§ ५२. धीणगिद्धितियं मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवारसकसाय मणुसाउ-अवज्जाणि आउआणि णिरयगदि-तिरिक्खगदिपाओग्गणामाओ अहारदुगं च अंतिम-संघडणतिय-मणुसगदिपाओग्गणुपुब्बीअपज्जत्तणाम० असुभतियं तित्थयरणामं च णीचागोदमेदाणि कम्माणि उदएण वोच्छिण्णाणि ।

§ ५३. 'अंतरं वा कहिं किच्चा के के उवसामगो कहिं' ति विहासा-ण ताव अंतरं करेदि पुरदो अंतरं काहिदि । एवमुवसामगो वि पुरदो होहिदि त्ति वत्तव्वं । एवं तदियगाहा विहासिदा होदि ।

पांग, वज्रपंभनाराचसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप और उद्योत ये शुभ नामकर्म प्रकृतियाँ तथा नीचगोत्र ये प्रकृतियाँ बन्धसे व्युच्छिन्न हो जाती हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ पर परावर्तमान सब अशुभ नामकर्म प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—नरकगति, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियादि चार जाति, अन्तके पाँच संस्थान, अन्तके पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और अयशःकीर्ति । इनकी मिथ्यात्व आदि पूर्वके गुणस्थानोंमें यथास्थान बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती है ।

§ ५२. स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय मनुष्यायुके अतिरिक्त तीन आयु, नरकगति-तिर्यञ्चगति-देवगति इन तीनोंके प्रायोग्य नाम-कर्मकी नरकगति, तिर्यञ्चगति, देवगति, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, वैक्रियिक शरीर आंगोपांग, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यगगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण प्रकृतियाँ तथा आहारक द्विक, अन्तके तीन संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अपर्याप्त, नामकर्मसम्बन्धी दुर्भग, अनादेय और अयशःकीर्ति ये तीन अशुभ प्रकृतियाँ तथा तीर्थंकर और नीचगोत्र ये सब प्रकृतियाँ उदयसे व्युच्छिन्न रहती हैं ।

विशेषार्थ—उदय योग्य कुल १२२ प्रकृतियाँ हैं । उनमेंसे मनुष्यगतिमें मनुष्यायुको छोड़कर तीन आयु, नरकगतिद्विक, तिर्यञ्चगतिद्विक, देवगतिद्विक, एकेन्द्रिय आदि चार जाति, वैक्रियिकशरीरद्विक, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण ये २० प्रकृतियाँ उदयके सर्वथा अयोग्य हैं । उनके अतिरिक्त अन्य जितनी प्रकृतियाँ पूर्व में गिनाई हैं उनका भी उदय श्रेणिके सन्मुख हुए पर्याप्त मनुष्यके नहीं पाया जाता । इसलिये इन सब प्रकृतियोंको यहाँ उदयसे व्युच्छिन्न कहा है ।

§ ५३. 'अन्तर कहाँ करके कहाँ किन-किन प्रकृतियोंका उपशामक होता है' इसकी विभाषा—उपशम श्रेणिके सन्मुख हुआ जीव तो अन्तर नहीं करता, आगे अन्तर करेगा । इसी प्रकार उपशामक भी आगे होगा ऐसा कहना चाहिए । इस प्रकार तीसरी सूत्रगाथाका विशेष व्याख्यान किया ।

§ ५४. 'किं ठिदियाणि कम्माणि कं ठाणं पडिवज्जदि' त्ति विहासा-एदीए गाहाए ठिदिघादो अणुभागघादो च सूचिदो भवदि । तदो इमस्स चरिमसमयअधाप-वत्तकरणस्स णत्थि ठिदिघादो अणुभागघादो वा । से काले दो वि घादा पवत्तीहिंति । एवमेदासु चदुसु गाहासु विहामिदासु अधापवत्तकरणद्वा सम्पपदि । तदो अपुव्वकरण-विसया परूवणा एण्हमाटवेयव्वा त्ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

* एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियूण तदो अपुव्वकरणस्स पढमसमए परूवेयव्वाणि ।

§ ५५. एदाओ अणंतरणिहिट्टाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ अधापवत्तकरण चरिमसमये विहासियूण तदो पच्छा अपुव्वकरणस्स पढमसमए इमाणि ट्टिदिखंडयादीणि आवासयाणि—परूवेयव्वाणि त्ति भणदं होइ । तत्थ ताव ट्टिदिखंडयभाणावहारणट्टमिदमाह ।

* जो खीणदंसणमोहणिज्जो कसायउवसामर्णो तस्स खीणदंसण-मोहणिज्जस्स कसायउवसामर्णाए अपुव्वकरणे पढमट्टिदिखंडयं णियमा पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।

§ ५६. एसो कसायउवसामर्णो खीणदंसणमोहो वा होज्ज उवसंतदंसणमोहणिज्जो वा, दोण्हं पि उवसमसेटिममार्णेहणे पडिसेहाभावादो । तत्थ जो खीणदंसणमोहणिज्जो

§ ५४ 'किस स्थितिवाले कर्म किस स्थानको प्राप्त होते हैं' इसको विभाषा । इस द्वारा स्थितिघात और अनुभागघात सूचित किया गया है । किन्तु इस जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें स्थितिघात और अनुभागघात नहीं हैं । तदन्तर समयमें दोनों ही घात प्रवृत्त होंगे । इस प्रकार इन चार गाथाओंका विशेष व्याख्यान करनेपर अधःप्रवृत्तकरण काल समाप्त होता है । तदनन्तर अपूर्वकरणविषयक प्ररूपणा इस समय आरम्भ करनी चाहिए इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* इन चार सूत्रगाथाओंका विशेष व्याख्यान करके तदनन्तर अपूर्वकरणके प्रथम समयमें इन आवश्यकोंका कथन करना चाहिए ।

§ ५५ अनन्तर पूर्व कही गई इन चार सूत्रगाथाओंका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विशेष व्याख्यान करके तत्पश्चात् अपूर्वकरणके प्रथम समयमें इन स्थितिकाण्डक आदि आवश्यकोंका व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उसमें सर्व प्रथम स्थितिकाण्डकके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं—

* जो क्षीणदर्शनमोहनीय जीव कषायोंका उपशामक होता है उस क्षीणदर्शन-मोहनीय जीवके कषायोंके उपशामनाके अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डक नियमसे पण्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है ।

§ ५६ यह कषायोंका उपशामक जीव क्षीणदर्शनमोहनीय होवे अथवा उपशान्तदर्शन-मोहनीय होवे, दोनोंके उपशामनेपर आरोग्य करनेमें निषेधका अभाव है । उनमेंसे जो क्षीण दर्शनमोहनीय कषायोंका उपशामक होता है, कषायोंका उपशाम करनेके लिए उद्यत हो

कसायउवसामगो तस्स कसायोवसामणाए अणुव्वकरणे वट्टमाणस्स पढमं
ट्टिदिखंडयं किंपमाणमिदि वुत्ते 'णियमा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो' ति तप्पमाण-
णिहिसो कदो । पुव्वमेव दंसणमोहक्खवयपरिणामेहिं सुडहु घादं पत्ताए ट्टिदीए तत्तो
अण्महियट्टिदिखंडयस्स पाओग्गभावो ण संभवदि ति भावत्थो । एदेण उवसंतदंसण-
मोहणीयस्स कसायउवसामगस्स अपुव्वकरणपढमसमए ट्टिदिखंडयपमाणं जहण्णेण
पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो, उक्कस्सेण सागरोवमपुधत्तमेत्तमिदि अणुत्तं पि अवगम्मदे,
अण्णहा एदस्स विसेसियूण परूवणाए विहलत्तप्पसंगादो ।

§ ५७. संपहि तत्थेव ट्टिदिबंधोसरणपमाणावहारणट्टिमिदमाह—

* ट्टिदिबंधेण जमोसरदि सो वि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।

§ ५८. उवसंतदंसणमोहणिज्जो खीणदंसणमोहणिज्जो वा कसायउवसामगो
अपुव्वकरणपढमसमये ट्टिदिबंधेण जमोसरदि जहण्णुक्कस्सेण सो वि पलिदोवमस्स

अपूर्वकरणमें विद्यमान हुए उसके प्रथम स्थितिकाण्डकका क्या प्रमाण है ऐसा पूछनेपर
'नियमसे पल्योपमका संख्यातवों भाग होता है, इस वचन द्वारा उसके प्रमाणका निर्देश किया
गया है । दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले परिणामोंके द्वारा पहले ही अच्छी तरहसे
घातको प्राप्त हुई स्थितिमें उससे अधिक स्थितिकाण्डकका योग्यता सम्भव नहीं है यह उक्त
कथनका भावार्थ है । इस सूत्र वचनसे जो उपशान्तदर्शनमोहनीय जीव कषायोंका उपशम
करता है उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डकका जघन्य प्रमाण पल्योपमका
संख्यातवा भाग और उत्कृष्ट प्रमाण सागरोपमपृथक्त्व होता है यह बिना कहे ही जाना जाता
है, अन्यथा कषायोंके उपशामकको विशेषणके साथ कथन करनेपर विशेषणके निष्फल हानेका
प्रसंग प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—प्रकृतमें जो दर्शनमोहनीयका क्षयकर कषायोंके उपशामानेके लिये उद्यत
हुआ है उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें जो स्थितिकाण्डक प्राप्त होता है वह नियमसे
पल्योपमके संख्यातवों भागप्रमाण होता है यह नियम उक्त सूत्र द्वारा किया गया है । किन्तु
जो दर्शनमोहनीयके उपशम द्वारा द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि हांकर कषायोंका उपशम करता है
उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है । उसके जघन्य स्थितिकाण्डक तो पल्योपमके संख्यातवों
भागप्रमाण ही होता है, किन्तु उत्कृष्ट स्थितिकाण्डक सागरोपमपृथक्त्व प्रमाण होता है यह
अर्थ भी उक्त सूत्रसे ध्वनित होता है ।

§ ५७ अब वही पर स्थितिवन्धापसरणके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये इस सूत्र-
को कहते हैं—

* स्थितिवन्धरूपसे जिस स्थितिकाण्डकका अपसरण करता है वह स्थितिकाण्डक
मी पल्योपमके संख्यातवों भागप्रमाण होता है ।

§ ५८. उपशान्तदर्शनमोहनीय या क्षीणदर्शनमोहनीय कषायोंका उपशामक जो जीव
अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थितिवन्धरूपसे जिस स्थितिकाण्डकका अपसरण करता है
जघन्य और उत्कृष्ट वह काण्डक भी पल्योपमके संख्यातवों भागप्रमाण होता है, वहाँ अन्य

संखेज्जदिभागो' चेव, णत्थि तत्थ अण्णो वियप्पो त्ति भणिदं होइ । संपहि एत्थेवाणु-
भागखंडयपमाणावहारणट्टमुत्तरसुत्तं भणइ—

* असुभाणं कम्ममाणमणंसा भागा अणुभागखंडयं ।

§ ५९. सुगममेदं सुत्तं । संपहि अपुव्वकरणपटमसमयविसयाणं ट्टिदिवंधट्टिदि-
संतकम्माणं पमाणावहारणट्टमुत्तरसुत्तं भणइ—

* ठिदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए ट्टिदिवंधो वि अंतोकोडाकोडीए ।

§ ६०. कुदो ? एत्तो उवरिमट्टिदिवंधसंताणमेदम्मि विसये संभवाभावादो । संपहि
एत्थेव गुणसेट्ठिणिकखेवपमाणपरूवणट्टमुत्तरसुत्तमाइ—

* गुणसेट्ठी च अंतोमुहुत्तमेत्ता णिक्खित्ता ।

§ ६१. अपुव्वकरणपटमसमए उवरिमसेसट्टिदीणं पदेसग्गमोकट्टिवृण उदयावलिय-
वाहिरे अंतोमुहुत्तायामेण गुणसेट्ठिणिकखेवमेमो करेदि त्ति वुत्त होइ । सो वुण अंतो-
मुहुत्तायामो अपुव्वकरणद्वादो अणियट्टिकरणद्वादो च त्रिसेसाहिओ । एत्थेव गुणसंकमो
वि, णवुंमयवेदादिपयडीणमप्पसत्थाणमवज्जमाणाणमाटविज्जदि त्ति वक्खणायेव्वं ।
एवमपुव्वकरणपटमसमएण सा सव्वा परूवणा विदियसमए वि । तं चेव ठिदिसंखंडयं सो

विकल्प नहीं है यह एक कथनका तात्पर्य है । अब यहीं पर अनुभागाकाण्डकके प्रमाणका
अवधारण करनेके लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* अनुभागाकाण्डक अशुभ कर्मोंके अनन्त बहुभागप्रमाण होता है ।

§ ५९. यह सूत्र सुगम है । अब अपूर्वकरणके प्रथम समयमें प्राप्त होनेवाले स्थिति-
बन्ध और स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* स्थितिसत्कर्म अन्तःकोडाकोडीके भीतर होता है और स्थितिबन्ध भी अन्तः-
कोडाकोडीके भीतर होता है ।

§ ६०. क्योंकि इस स्थानपर इससे अधिक स्थितिबन्ध और स्थितिसत्कर्म सम्भव
नहीं है । अब यहीं पर गुणश्रेणिनिक्षेपके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेके सूत्रको
कहते हैं—

* तथा गुणश्रेणि अन्तर्मुहूर्त आयामवाली निक्षिप्त करता है ।

§ ६१. यह जीव अपूर्वकरणके प्रथमसमयमें उपरिम स्थितियोंसे प्रदेशपुञ्जाका अप-
कर्षण कर उदयावलिके बाहर अन्तर्मुहूर्त आयामरूपसे गुणश्रेणिका निक्षेप करता है । किन्तु
वह अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयाम अपूर्वकरणके कालसे और अनिवृत्तिकरणके कालसे विशेष अधिक
होता है । तथा यहीं पर नहीं बँधनेवाली नपुंसकवेद आदि अप्रशस्त प्रकृतियों सम्बन्धी
गुणसंकमका भी प्रारम्भ करता है इसका व्याख्यान करना चाहिए । इस प्रकार अपूर्वकरणके
प्रथम समय द्वारा जो कार्यविशेष प्रारम्भ होते हैं वह सब कथन दूसरे समयमें भी जानना
चाहिए । उस समयमें भी वही स्थितिकाण्डक होता है, वही स्थितिबन्ध होता है, वही

वेव द्विदिबंधो, तं चेवाणुभागखंडयं, सा चेव गुणसेठी । णवरि असंखेज्जगुणपदेस-
विण्णासोवचिदा गलिदसेसायामा च । विसोही च अणंतगुणा । एवं णेद्वं जाव
अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु पढमद्विदिखंडय-द्विदिबंधकालो अण्णो अणुभागखंडयकालो
च जुगवं णिद्विदा त्ति । संपहि एदिस्सेव संधिविसेसस्स फुडीकरणड्डमुत्तरसुत्तमवइण्णं—

* तदो अणुभागखंडयपुधत्ते गदे अण्णमणुभागखंडयं पढमं द्विदि-
खंडयं जो च अपुव्वकरणस्स पढमो द्विदिबंधो एदाणि समगं णिद्विदाणि ।

§ ६२. गयत्थमेदं सुत्तं । णवरि अणुभागखंडयपुधत्तणिदेसो जेणेत्थ वहपुन्ल-
वाचओ तेणाणुभागखंडयसहस्सपुधत्ते गदे त्ति घेत्तव्वं, एयद्विदिबंधकालम्भंतरे
संखेज्जसहस्समेत्ताणमणुभागखंडयाणमुवलंभादो । एवमेदेण कमेण संखेज्जसहस्समेत्तेसु
द्विदिखंडएसु द्विदिबंधसमाणपारंभपज्जवसाणेसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभावोसु
गदेसु अपुव्वकरणद्वाए पढमसत्तमभागस्स चरिमसमए वट्टमाणस्स जो विसेससभवो
तदवबोहणड्डमुत्तरसुत्तावयारो—

* तदो द्विदिखंडयपुधत्ते गदे णिदा-पयत्ताणं बंधवोच्छेदो ।

अनुभागकाण्डक होता है और वही गुणश्रेणि होती है । इतनी विशेषता है कि वह प्रति
ममय असंख्यातगुणे प्रदेशविन्याससे उपचित और गलितशेष आद्यामबाली होती है ।
तथा विशुद्धि भी प्रति समय अनन्तगुणी होती है । इस प्रकार हजारों अनुभागकाण्डकोंके
व्यतीत होनेपर प्रथम स्थितिकाण्डक, स्थितिवन्धकाल और अन्य अनुभागकाण्डककाल एक
साथ समाप्त होते हैं । अब इसी सन्धिविशेषका स्पष्टीकरण करनेके लिये आगेके सूत्रका
अवतार हुआ है—

* तत्पश्चात् अनुभागकाण्डकपृथक्त्वके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभागकाण्डक,
प्रथम स्थितिकाण्डक और जो अपूर्वकरणका प्रथम स्थितिवन्ध है उस सहित ये एक
साथ समाप्त होते हैं ।

§ ६२. यह सूत्र गतार्थ है । इतनी विशेषता है कि यतः यहाँपर अनुभागकाण्डक
पृथक्त्वका निर्देश विपुलतावाची है, इसलिये हजारपृथक्त्व अनुभाग काण्डकके व्यतीत
होनेपर ऐसा यहाँपर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि एक स्थितिवन्ध-कालके भीतर संख्यात
हजार अनुभागकाण्डक उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार इस क्रमसे जो प्रत्येक स्थितिकाण्डक
हजारों अनुभागकाण्डकोंका अविनाभावी है तथा जिसमेंसे प्रत्येकका स्थितिवन्धके समान
प्रारम्भ और पर्यवसान है ऐसे संख्यात हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अपूर्वकरणके
प्रथम सातवें भागके अन्तिम समयमें विद्यमान जीवके जो विशेष सम्भव है उसका ज्ञान
करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

* तत्पश्चात् स्थितिकाण्डक-पृथक्त्वके व्यतीत होनेपर निद्रा और प्रचला
प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद होता है ।

§ ६३. एत्थ वि द्विदिखंडयपुधत्तणिहेसेण द्विदिखंडयसहस्सपुधत्तसंगहो पुव्वुत्तेण णायेणाणुगंतव्वो, अण्णहा अपुव्वकरणकालन्मंतरे संखेज्जसहस्समेत्तद्विदि-
खंडयाणं संखेज्जगुणहीणद्विदिसंतकम्म्युत्पत्तिणिबंधणाणमसंभवप्पसंगादो । एसो णिहा-
पयलाणं बंधवोच्छेदविसयो अपुव्वकरणद्वाए सत्तमभागमेत्तो त्ति जह वि सुत्ते मुत्तकंठ-
मणुवहट्ठो तो वि तस्स तप्पमाणावच्छिण्णत्तं पमाणीभूदसुत्ताविरुद्धपरमगुरुवएसवलेण
सुणिच्छिदमिदि धेत्तव्वं ।

* तदो अंतोमुहुत्ते गद्वे परभवियणामागोवाणं गंधवोच्छेदो ।

§ ६४. तदो णिहा-पयलाबंधविच्छेदविसयादो उवरि पुव्वुत्तेणेव कमेण द्विदिअणु-
भागखंडयसहस्साणि अणुपालेमाणस्स हेट्ठिमद्वाणादो संखेज्जगुणमेत्ते अंतोमुहुत्ते गद्वे तावे
परभवसंबंधेण वज्जमाणाणं णामपयडीणं देवगदि-पंचिदियजादि-वेउच्चियाहार-तेजा-कम्म-
इयसरीर-समचउरससंढाण-वेउच्चियाहारसरीरंगोवंग-देवगदिपाओग्गाणुपुव्वि-वण्ण-गंध-
रस-फास-अगुरुअलहुअ ०४-पसत्थविहायगदि-तसादिचउक्क-थिर-सुभ-सुभग-सुस्सारादेज्ज-
णिमिण-तित्थयरसणिणदाणमुक्कस्सेण तीससंखावहारियाणं जहण्णदो सत्तवीससंखा-
विसेसिदाणं बंधवोच्छेदो जादो । एसो एत्थ सुत्तथसग्भावो । एत्थ परभवियणामंतभूद-
जसगित्तिणामाए वि बंधवोच्छेदाहप्पसंगो त्ति णासंक्कणिज्जं, तं मोत्तण सेसाणं चेव
णामपयडीणमिह विवक्खियत्तादो । कुदो एदं परिच्छिज्जदे ? सुहुमसांपराइयचरिमसमए

§ ६३. यहाँपर भी स्थितिकाण्डक-पृथक्त्वके निर्देशसे स्थितिकाण्डक सहस्रपृथक्त्वका
संग्रह पूर्वोक्त न्यायके अनुसार जानना चाहिए, अन्यथा अपूर्वकरणके कालके भीतर सख्यात-
गुणे हीन स्थितिसत्कर्मका उत्पत्तिके कारण ऐसे सख्यात हजार स्थितिकाण्डकों असंभव
होनेका प्रसंग आता है । निद्रा-प्रचला प्रकृतियोंके बन्धविच्छेदका यह स्थल अपूर्वकरणके
कालमें सातवाँ भागमात्र है ऐसा यद्यपि सूत्रमें मुक्तकण्ठ नहीं कहा है तो भी वह तत्प्रमाण है
यह प्रमाणीभूत सूत्राविरुद्ध परम गुरुके उपदेशके बलसे सुनिश्चित है ऐसा यहाँ प्रहण
करना चाहिए ।

* तत्पश्चात् अन्तर्मुहूर्त काल जानेपर परभवसम्बन्धी गोत्र संज्ञावाली नामकर्म
प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद होता है ।

§ ६४. तत्पश्चात् निद्रा और प्रचलाके बन्धविच्छेदके स्थलसे ऊपर पूर्वोक्त क्रमसे ही
हजारों स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंका पालन करनेवाले जीवके अधस्तन स्थानसे
सख्यातगुणे अन्तर्मुहूर्त कालके जानेपर तब परभवके सम्बन्धसे बंधनेवाली देवगति, पञ्चेन्द्रिय-
जाति, वैक्रियिक शरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुस्रसंस्थान, वैक्रियिक
शरीर आंगोपांग, आहारकशरीर आंगोपांग, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श,
अगुरुलघुचतुष्क (अगुरुलघु, उपधात, परधात और उच्छ्वास) प्रशस्तविहायोगति, त्रसादिचतुष्क
(त्रस, बादर पर्याप्त और प्रत्येक) स्थिर, सुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थकर
संज्ञावाली, उक्तप्रूपसे तीस संख्या जिनकी सुनिश्चित है और जघन्यरूपसे जिनकी संख्या

तन्बन्धवोच्छेदविहाणणहाणुववसीए एत्थुवागोदस्स बंधवोच्छेदाभावे परभवियणामा-
गोदाणं बंधवोच्छेदो त्ति णिहेसो कथं षडदि त्ति णासंका कायव्वा, गोदसहचारीणं
णामपयडीणं वेव गोदववएसं कादूण सुत्ते तथा णिहेसावलंबणादो । संपहि णिहा-पयलाणं
बंधवोच्छेदकालो अपुव्वकरणद्वाए सत्तमभागमेत्तो, परभवियणामाणं बंधवोच्छेदकालो
एत्तो छ-सत्तमभागमेत्तो त्ति एदस्स णिवंधणमप्यावहुअमेत्थ कुणमाणो उत्तरं
सुत्तपबंधमाह—

* अपुव्वकरणपविट्टस्स जम्हि णिहा-पयलाओ वोच्छिण्णाओ सो
कात्तो थोवो ।

§ ६५. कुदो ? अपुव्वकरणद्वाए सत्तमभागपमाणत्तादो ।

* परभवियणामाणं वोच्छिण्णाकात्तो संखेज्जगुणो ।

सत्ताईस हैं ऐसी नामकर्मसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद हो जाता है । प्रकृतमें यह इस
सूत्रके अर्थका तात्पर्य है ।

शंका—यहाँपर परभवसम्बन्धी नामकर्म-प्रकृतियोंमें गभित यशःकीर्ति नामकर्म-प्रकृतिके
भी बन्धविच्छेदका अतिप्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे छोड़कर नामकर्मकी शेष
प्रकृतियाँ ही यहाँ पर विवक्षित हैं ?

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्योंकि सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें उसके बन्ध-
विच्छेदका विधान अन्यथा बन नहीं सकता, इससे जाना जाता है कि यहाँ यशःकीर्तिको
छोड़कर बन्धविच्छेदरूप उक्त शेष प्रकृतियाँ ही विवक्षित हैं ।

शंका—यहाँपर उच्चगोत्रका बन्धविच्छेद नहीं होता तब सूत्रमें परभवियणामा-गोदाणं
बंधवोच्छेदो' ऐसे पाठका निर्देश कैसे बन सकता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोत्रके साथ रहनेवाली नाम-
कर्मसम्बन्धी प्रकृतियोंकी गोत्रसंज्ञा करके सूत्रमें उस प्रकारके निर्देशका अवलम्बन लिया है ।
अब निद्रा और प्रचलाके बन्धविच्छेदका काल अपूर्वकरणके कालके संख्यातवै भागप्रमाण है
तथा परभवसम्बन्धी नामकर्म-प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद काल छह बटे सात भाग प्रमाण है
इस प्रकार इसको बतलानेमें निमित्तरूप अल्पबहुत्वको यहाँपर करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको
कहते हैं—

* अपूर्वकरण गुणस्थानमें प्रविष्ट हुए संयत जीवके जिस कालमें निद्रा और
प्रचलाका बन्धविच्छेद होता है वह काल सबसे थोड़ा है ।

§ ६५. क्योंकि वह अपूर्वकरणके कालका सातवाँ भागप्रमाण है ।

* उससे परभवसम्बन्धी नामकर्म-प्रकृतियोंका बन्धविच्छेद काल संख्यात-
गुणा है ।

§ ६६. किं कारणं? अपुव्वकरणद्वाए छ-सत्तभागपमाणत्तेण पवाइज्जमाणत्तादो ।

* अपुव्वकरणद्वा विसेसाहिया ।

§ ६७. केत्तियमेत्तेण ? सगसत्तमभागमेत्तेण । एत्तो उवरि पुव्वं व द्विदि-
अणुभागघादं कुणमाणो गच्छइ जाव अपुव्वकरणचरिमसमयो त्ति तत्थुद्देसे परूवणा-
भेदपदुप्पायणइमिदमाह —

* तदो अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमाए द्विद्विखंडयमणुभागखंडयं
द्विद्विबंधो च समगं णिट्ठिदाणि ।

सुगममेदं सुत्तं ।

* एदस्मिह चेव समए हस्स-रइ-भय-दुगुं छाणं बंधवोच्छेदो ।

§ ६९. कुदो ? एत्तो उवरिमविसोहीणं तव्वंधविरुद्धमहावत्तादो ।

* हस्स - रइ - अरइ - सोग - भय - दुगुं छाणं एवेसिं छण्हं कम्माण-
मुदयवोच्छेदो च ।

§ ७०. कुदो ? एत्तो उवरि एदेसिमुदयसत्तीए अच्चंताभावेण णिरुद्धपवेमत्तादो । एत्थ
द्विदिसंतकम्मपमाणमपुव्वकरणपटमसमयद्विदिसंतकम्मादो संखेज्जगुणहीणमंतोकोडा-

§ ६६ क्योंकि अपूर्वकरणक कालके छह बटे सात भागप्रमाण यह काल प्रवाहरूपसे
स्वीकृत चला आ रहा है ।

* उससे अपूर्वकरणका काल विशेष अधिक है ।

§ ६७. कितना अधिक है ? अपने कालका सातवाँ भागमात्र अधिक है । इससे ऊपर
पहलेके समान स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातको करता हुआ अपूर्वकरणके
अन्तिम समयके प्राप्त होने तक जाता है, इसलिए उस स्थानपर प्ररूपणाभेदका कथन करनेके
लिये इस सूत्रको कहते हैं—

* तत्पश्चात् अपूर्वकरणके कालके अन्तिम समयमें स्थितिकाण्डक, अनुभाग-
काण्डक और स्थितिवन्ध एक साथ समाप्त होते हैं ।

§ ६८ यह सूत्र सुगम है ।

* इसी समय ही हास्य, रति, भय और जुगुप्साका बन्धविच्छेद होता है ।

§ ६९. क्योंकि इससे उपरिम विशुद्धियाँ उनके बन्धके विरुद्ध स्वभाववाली हैं ।

* तथा इसी समय हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा इन छह
कर्माँका उदयविच्छेद होता है ।

§ ७०. क्योंकि इससे ऊपर इनकी उदयरूप शक्तिका अत्यन्त अभाष होनेसे इनका
उदयरूपसे प्रवेश रुक जाता है । यहाँ पर स्थितिसत्कर्मका प्रमाण अपूर्वकरणके प्रथम समयमें
प्राप्त स्थितिसत्कर्मसे संख्यातगुणा हीन अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर है । इसी प्रकार स्थिति-

कोडीए । एवं द्विदिबंधो वि दट्ठव्वो । णवरि अंतोकोडाकोडीए सदसहस्सपुधत्तपमाणो
त्ति वत्तव्वं । एवमपुव्वकरणद्वमणुपालिय तदणंतरसमए अणियट्टिकरणपविट्ठो णि
जाणावणड्ढमुत्तरसुत्तं—

* तवो से काले पढमसमयअणियट्टी जावो ।

§ ७१. सुगममेदं । एवमणियट्टिकरणं पविट्ठस्स पढमसमयप्पहुडि केत्तिय पि
कालं पुव्वुत्तो चेव द्विदिखंडयघादादिकिरियाकलावो, ण तत्थ णाणचमत्थि त्ति
पदुप्पाएमाणो उत्तरं पबंधमाह—

* पढमसमयअणियट्टिकरणस्स द्विदिखंडयं पल्लिदोवमस्स संखेज्जदि-
भागो ।

§ ७२. जहा अपुव्वकरणो पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागायामेण द्विदिखंडयमागाएंतो
आगदो एवमेसो वि पढमसमयाणियट्टिदिदिखंडयमागाएदि, ण तत्थ णाणत्तमिदि
वुत्तं होइ । णवरि अपुव्वकरणपढमद्विदिखंडयप्पहुडि विसेसहीणकमेण टिदिखंडएसु
ओवट्टिज्जमाणेसु संखेज्जसहस्समेचीओ टिदिखंडयगुणहाणीओ उल्लघियूण तत्तो संखेज्ज-
गुणहीणं चरिमसमयापुव्वकरणस्स द्विदिखंडयं होइ । तत्तो विसेसहीणमेदमणियट्टि-
करणं पविट्ठस्स पढमद्विदिखंडयमिदि वेत्तव्वं ।

बन्धका प्रमाण भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अन्तःकोडाकोडीके भीतर लक्षप्रथक्त्व-
प्रमाण है ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार अपूर्वकरणके कालका पालनकर उसके अनन्तर
समयमें अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट होता है इसका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* इसके अनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण संयत हो जाता है ।

§ ७१ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए संयतकं प्रथम
समयसे लेकर कितने ही कालतक पूर्वोक्त ही स्थितिकाण्डक आदि क्रियाकलाप होता है, वहाँ
नानापन नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते है—

* अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें स्थितिकाण्डक पन्न्योपमके संख्यातवें
भागप्रमाण होता है ।

§ ७२. जिस प्रकार अपूर्वकरणमें स्थित संयत पन्न्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण
आयामवाले स्थितिकाण्डकको ग्रहण कर आया है उसी प्रकार यह भी अनिवृत्तिकरणके प्रथम
समयमें स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता है, वहाँ नानापन नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।
इतनी विशेषता है कि अपूर्वकरणके प्रथम स्थितिकाण्डकसे लेकर विशेष हीन क्रमसे स्थिति-
काण्डकोंके अपवर्तित होनेपर संख्यात हजार स्थितिकाण्डक गुणहानियोंका उल्लघन कर
उससे (प्रथम समयके स्थितिकाण्डकसे) अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें संख्यातगुणा हीन
स्थितिकाण्डक होता है । तथा अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए संयत जीवका प्रथम स्थितिकाण्डक
उससे विशेष हीन होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

* अपुन्वो द्विदिबधो पल्लिवोवमस्स संखेज्जदिभागेण हीणो' ।

§ ७३. सुगममेदं ।

* अणुभागखंडयं सेसस्स अणता भागा ।

§ ७४. अणियद्विपदमसमये अणुभागखंडयसंकमो एत्तो पुव्वधादिदाणुभाग-संतकम्मस्साणंते भागे गेण्हदि, तत्थ वयारंतरासंभवादो त्ति मणिदं होइ ।

* गुणसेढी असंखेज्जगुणाए सेढीए सेसे सेसे णिक्खेवो ।

§ ७५. जहा अपुव्वकरणे समयं पडि असंखेज्जगुणाए सेढीए उदयावलियबाहिरे गल्लिदसेसायामेण गुणसेठिविण्णासो एवमेत्थ वि दट्ठव्वो, ण तत्थ को वि परूवणा-भेदो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । गुणसंकमो वि पुव्वुत्ताणमप्यसत्थपयडीणमेत्थ अप्पडिहयपसगे पयट्ठदि ति धेत्तव्वं । णवरि इस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं पि गुणसंकमो एत्तो पारमदि, तेसिमपुव्वकरणचरिमसमए उवरिदबंधाणं तहाभावपरिगदीए विरोहाभावादो । एवमेदेषु किरियाकलावेषु णाणत्ताभावं पदुप्पाइय संपहि एत्थतणो जो विसेससंभवो तप्पदुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्तमाह—

* अपूर्व स्थितिवन्ध पन्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन होता है ।

§ ७३. यह सूत्र सुगम है ।

* अनुभागकाण्डक शेषका अनन्त बहुभागप्रमाण होता है ।

§ ७४. क्योंकि संयत जीव अनिष्टुत्तिकरणके प्रथम समयमें अनुभागकाण्डकके संक्रमको इससे पूर्व धाते गये अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागप्रमाण ग्रहण करता है, उसमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तथा गुणश्रेणि प्रतिसमय असंख्यातगुणी श्रेणिक्रमसे होती है, जिसका उत्तरोत्तर गलित-शेष-आयाममें निक्षेप होता है ।

§ ७५. जिस प्रकार अपूर्वकरणमें प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिक्रमसे उदयावलि-के बाहर गलित-शेष-आयाममें गुणश्रेणिका विन्यास होता है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। वहाँ कोई प्ररूपणाभेद नहीं है यह इस सूत्रका भावार्थ है। गुणसंकम भी पूर्वाक्त अप्रशस्त प्रकृतियोंका यहाँपर बिना रुकावटके प्रवृत्त होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, भय और जुगुप्साका गुणसंकम भी यहाँसे प्रारम्भ होता है, क्योंकि अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उनका बन्धविच्छेद हो जाता है, इसलिये उनका उस प्रकार परिणमन होनेमें विरोधका अभाव है। इस प्रकार इन क्रियाकलापोंमें नानापनका कथन कर अब यहाँपर जो विशेष सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* तिस्से चैव अणियट्ठिअञ्जाए पढमसमये अप्पसत्थउवसामणाकरणं णिघत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च वोच्छिण्णाणि ।

§ ७६. सव्वेसिं कम्माणमणियट्ठिगुणट्ठानपवेसपढमसमए चैव एदाणि तिण्णि वि करणाणि अक्कमेण वोच्छिण्णाणि त्ति भणिदं होइ । तत्थ जं कम्ममोक्कड्डुकड्डुण-पर-पयडिसंक्रमाणं पाओगं होदूण पुणो णो सकम्मदयट्ठिदिमोक्कड्डुं उदीरणाविरुद्धसहावेण परिणत्तादो तं तहाविहएण्णाए पडिगहियमप्पसत्थउवसामणाए उवसंतमिदि भण्णदे । तस्स सो पजायो अप्पसत्थउवसामणाकरणं णाम । एवं जं कम्ममोक्कड्डुकड्डुणासु अवि-रुद्धसंचरणं होदूण पुणो उदय-परपयडिसंक्रमाणमणागमणपइण्णाए पडिगहियं तस्स सो अवत्थाविसेसो णिघत्तीकरणमिदि भण्णदे । जं पुण कम्मं चटुण्णमेदेसिं उदयादीण-मप्पाओगं होदूणावट्ठानपइण्णं तस्स तहावट्ठानलक्खणो पजायविसेसो णिकाचणाकरणं णाम । एवमेदाणि तिण्णि वि करणाणि हेट्ठा सव्वत्थ पयट्ठमाणाणि । एदेसु वोच्छिण्णेसु सव्वमेव कम्ममोक्कड्डुमुक्कड्डुमुदीरेदुं परपयडीसु च संकामेदुं तप्पाआगगभावमुवगय-मिदि एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । संपहि एत्थेव ट्ठिदिसंत-ट्ठिदिबंधाणमियत्तावहारणट्ठ-मुत्तरसुत्तदयमोइण्णं—

* आउगवज्जाणं कम्माणं ट्ठिदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए ।

* उसी अनिवृत्तिकरणकालके प्रथम समयमें अप्रशस्त उपशामनाकरण, निधत्तीकरण और निकाचनाकरण व्युच्छिन्न होते हैं ।

§ ७६. सभी कर्मोंके अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें ही ये तीनों ही करण युगपत् व्युच्छिन्न हो जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उसमें जो कर्म अपकर्षण, उत्कर्षण और परप्रकृतिसंक्रमके योग्य होकर पुनः उदीरणाके विरुद्ध स्वभावरूपसे परिणत होनेके कारण उद्यस्थितिमें अकर्षित होनेके अयोग्य है वह उस प्रकारसे स्वीकार की गई अप्रशस्त उपशामनाको अपेक्षा उपशान्त ऐसा कहलाता है । उसकी उस पर्यायका नाम अप्रशस्त उपशामनाकरण है । इसी प्रकार जो कर्म अपकर्षण और उत्कर्षणके अविरुद्ध पर्यायके योग्य होकर पुनः उदय और परप्रकृतिसंक्रमरूप न हो सकनेकी प्रतिज्ञारूपसे स्वीकृत है उसकी उस अवस्था विशेषको निधत्तीकरण कहते हैं । परन्तु जो कर्म उदयादि इन चारोंके अयोग्य होकर अवस्थानकी प्रतिज्ञामें प्रतिबद्ध है उसकी उस अवस्थान-च्छरण पर्यायविशेषको निकचनाकरण कहते हैं । इस प्रकार ये तीनों ही करण इससे पूर्व सर्वत्र प्रवर्तमान थे, यहाँ अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमें उनकी व्युच्छित्ति हो जाती है । इनके व्युच्छिन्न होनेपर सभी कर्म अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीरणा और परप्रकृतिसंक्रम इन चारोंके योग्य हो जाते हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है । अब वहींपर स्थितिसत्त्व और स्थितिवन्ध इनके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेके दो सूत्र आये हैं—

* आयुर्कर्मको छोटकर शेष कर्मोंका स्थितिसत्कर्म अन्तःकोडाकोडी सागरोपमके भीतर होता है ।

§ ७७. कुदो ? सुट्टु वि घादं पत्तस्स तस्स उवसमसेटीए तच्चावापरिच्चागे-
णेवावट्ठाणणियमदंसणादो ।

* ट्टिदिबंधो अंतोकोडाकोडीए सदसहस्सपुधत्तां ।

§ ७८. किं काण्णं ? तस्स ट्टिदिबंधोसरणमाहप्पेण उवरि सुट्टु ओहट्टमाणस्स
तद्दामावसिद्धीए विरोहाभावादो ।

* तदो ट्टिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु ट्टिदिबंधो सहस्सपुधत्तां ।

§ ७९. तदो अणियट्टिपट्टमसमयादो पट्टि ट्टिदिबंधोसरणसहगएसु ट्टिदिखंडय-
सहस्सेसु बहुएसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभाविमु गदेसु सत्तण्णं पि कम्मणं
ट्टिदिबंधो सागरोवमसदमहस्सपुधत्तादो सुट्टु होहट्टियूण सागरोवमसहस्सपुधत्तमेत्तो
जायदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंबंधो ।

* तदो अणियट्टिअट्टाए संग्वेज्जेसु भागेसु गदेसु असण्णिट्टिदिबंधेण
समगो ट्टिदिबंधो ।

§ ८०. एत्थ सागरोवमसहस्सपुधत्तादो सागरोवमसहस्सं सोहिय सुद्धसेसमेगट्टिदि-
वधोसरणपमाणेण भागं हरिय मज्झिमट्टिदिबंधवियप्पा णिव्वाभोहमणुगंतच्चा । णवरि
मोहणीयस्स सागरोवमसहस्सचत्तारिसत्तभागमेत्ते असण्णिपाओग्गे ट्टिदिबंधे संजादे

§ ७७. क्योंकि अत्यन्त रूपसे भी घातको प्राप्त हुए शेष कर्मोंका उपशमश्रेणिमें सूत्रोक्त
प्रमाणका त्याग किये बिना अवस्थान नियम देखा जाता है ।

* स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडीके भीतर लक्षपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण होता है ।

§ ७८. क्योंकि उसका स्थितिवन्धापसरणके साहाय्यवश पहले बहुत हास हो गया
है, इसलिए उसके सूत्रोक्त सिद्ध होनेमें विरोधका अभाव है ।

* तत्पश्चात् हजारों स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर स्थितिवन्ध हजार
सागरोपमपृथक्त्वप्रमाण होता है ।

७९ तत्पश्चात् अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक हजारों अनुभाग-
काण्डकोंके अविनाभावी ऐसे बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके स्थितिवन्धापसरणोंके साथ
व्यतीत होनेपर सातों ही कर्मोंका स्थितिवन्ध लक्षपृथक्त्व सागरोपमसे बहुत अधिक घटकर
हजारपृथक्त्व सागरोपमप्रमाण हो जाता है यह यहाँ उक्त सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है ।

* तत्पश्चात् अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुभागके व्यतीत होनेपर असंज्ञीके
समान स्थितिवन्ध होता है ।

§ ८०. यहाँपर हजार पृथक्त्वप्रमाण सागरोपममें से हजार सागरोपमको घटाकर जो
शेष रहे उसमें एक स्थितिवन्धापसरणके प्रमाणका भाग देनेपर स्थितिवन्धके मध्यम विकल्प
उत्पन्न होते हैं यह व्यामोहके बिना जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मोहनीय
कर्मका हजार सागरोपमके चार बटे सात भागप्रमाण असंज्ञीके योग्य स्थितिवन्धके हो

सेसाणं कम्मणांमप्यणो पडिभागेण सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि-सत्त-भागा, वे-सत्त-भागा च एत्थ द्विदिवंधपमाणमिदि वत्तव्वं ।

* तदो द्विदिवंधपुधत्ते गदे चतुरिंदियद्विदिवंधसमगो द्विदिवंधो ।

* एवं तीहंदिय-बीहंदियद्विदिवंधसमगो द्विदिवंधो ।

* एहंदियद्विदिवंधसमगो द्विदिवंधो ।

§ ८१. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । णवरि अप्पप्यणो पडिभागेण चउरिंदियादिसु परिवाडीए सागरोवमसद-पण्णारस-पणुविस-संपुण्णेगसागरोवमाणं चदुसत्तभाग-तिण्णि-सत्तभाग-वेसत्तभागपमाणो द्विदिवंधो वुत्तसंबंधी होइ चि षेत्तव्वो ।

* तदो द्विदिवंधपुधत्तेण णामा-गोदाणं पल्लिदोवमद्विद्विगो द्विदिवंधो ।

§ ८२. एत्थ सागरोवम-वे-सत्तभागेहिंतो पल्लिदोवमं सोहिय सुद्धसेसपल्लिदोवमे-

जानेपर शेष कर्मोंका अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार हजार सागरोपमका तीन बटे सात भागप्रमाण और दो बटे सात भागप्रमाण यहाँपर स्थितिवन्धका प्रमाण होता है ऐसा कहना चाहिए ।

* पश्चात् स्थितिवन्ध पृथक्त्वके जानेपर चतुरिन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान स्थितिवन्ध होता है ।

* इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान स्थितिवन्ध होता है ।

* तथा एकेन्द्रिय जीवोंके स्थितिवन्धके समान स्थितिवन्ध होता है ।

§ ८१. ये सूत्र सुगम हैं । इतनी विशेषता है कि अपने-अपने प्रतिभागके अनुसार चतुरिन्द्रिय आदि जीवोंमें क्रमसे सौ सागरोपम, पचास सागरोपम, पच्चीस सागरोपम और पूरे एक सागरोपमके चार बटे सात भाग, तीन बटे सात भाग और दो बटे सात भागप्रमाण जो स्थितिवन्ध होता है उसके समान स्थितिवन्ध होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

विशेषार्थ—चतुरिन्द्रिय जीवोंमें सौ सागरोपमका, त्रीन्द्रिय जीवोंमें पचास सागरोपमका, द्वीन्द्रिय जीवोंमें पच्चीस सागरोपमका और एकेन्द्रिय जीवोंमें एक सागरोपमका चरित्तमोहणीयका चार बटे सात भागप्रमाण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका तीन बटे सात भागप्रमाण, तथा नाम और गोत्रका दो बटे सात भागप्रमाण जो स्थितिवन्ध होता है उली प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए ।

* तत्पश्चात् स्थितिवन्ध पृथक्त्वके व्यतीत होनेपर नाम और गोत्रका पल्लोपम स्थितिवाला स्थितिवन्ध होता है ।

§ ८२. यहाँपर सागरोपमके दो बटे सात भागमें से पल्लोपमको घटाकर जो पल्लोपम

हिंती मन्निममड्ढिदिवंधोसरणट्टाणाणि आणेयूण णामा-गोदाणं पल्लिदोवममेचड्ढिदिवंधविसयो एसो परूवेयव्वो । संपहि णामा-गोदाणं पल्लिदोवमड्ढिदिगे बंधे जादे सेसकम्माणमेत्थतणो ड्ढिदिवंधो किंपमाणो होदि त्ति आसंकाए इदमाह—

* णाणावरणीय-वंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराहयाणं च विवड्ढुपल्लिदो-वममेत्तड्ढिदिगो बंधो ।

§ ८३. एत्थ बीसपडिभागेण जइ एगपल्लिदोवममेत्तो ड्ढिदिवंधो लन्मदि तो तीसपडिभागेण किं लभामो त्ति तेरासियं कादूण दिवड्ढुपल्लिदोवममेत्तपयदड्ढिदिवंध-विसयो सिस्साणं पडिबोहो कायव्वो । तस्स ड्ढुवणा—|२०|१|३०|

* मोहणीयस्स वेपल्लिदोवमड्ढिदिगो बंधो ।

§ ८४. एत्थ वि पुव्वं वतेरासियं कादूण पयदड्ढिदिवंधसिद्धी वत्तव्वा |२०|१|४०| एत्थ पुण ड्ढिदिवंधप्पावहुअमेवं कायव्वं । णामागोदाणं ड्ढिदिवंधो थोवो । चदुण्हं कम्माणं ड्ढिदिवंधो विसेसो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? दुभागमेत्तो । मोहणीयस्स ड्ढिदि-

शेष रहे उनमेंसे मध्यके स्थितिवन्धपासरण स्थानोंको विताकर नाम और गोत्रका पल्योपम-प्रमाण स्थितिवन्धविषयक इस स्थितिवन्धका कथन करना चाहिए। अब नाम और गोत्र कर्मका पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध हो जानेपर शेष कर्मोंका यहाँ सम्बन्धी स्थितिवन्ध कितना होता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं—

* ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका डेढ़ पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है ।

§ ८३ यहाँ पर बीसिय कर्मोंके प्रतिभागसे यदि एक पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध प्राप्त होता है तो तीसिय कर्मोंके प्रतिभागसे कितना प्राप्त होगा इस प्रकार त्रैराशिक करके डेढ़ पल्योपमप्रमाण प्रकृत स्थितिवन्धविषयक शिष्योंको प्रतिबोध कराना चाहिए। उसकी स्थापना इस प्रकार है—बीसिय कर्मोंका पल्योपम स्थितिवन्ध तो तीसिय कर्मोंका कितना ऐसा त्रैराशिक करने पर १२ पल्योपम स्थितिवन्ध प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर बीसिय कर्मोंसे नाम और गोत्र कर्मोंका ग्रहण किया गया है और तीसिय कर्मोंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय कर्मोंका ग्रहण किया गया है। अल्पबहुत्वके अनुसार नाम और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धसे उक्त कर्मोंका स्थितिवन्ध डेढ़ गुणा होता है। इससे स्पष्ट है कि जहाँ अनिष्टुत्तिकरणमें नाम और गोत्र कर्मका एक पल्योपम स्थितिवन्ध होता है वहाँ उक्त कर्मोंका स्थितिवन्ध डेढ़ पल्योपम ही होगा ।

* तथा मोहनीय कर्मका दो पल्योपमप्रमाण स्थितिवन्ध होता है ।

§ ८४ यहाँपर भी पहलेके समान त्रैराशिक करके प्रकृत स्थितिवन्धकी सिद्धि करनी चाहिए। यथा—बीसिय कर्मोंका १ पल्योपम स्थितिवन्ध तो चालीसिय कर्मोंका कितना ऐसा त्रैराशिक करनेपर २ पल्योपम प्राप्त होता है। परन्तु यहाँपर स्थितिवन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्व इस प्रकार करना चाहिए—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। उससे चार

बंधो विसेसाहिओ । केत्तियमेत्तो विसैसो ? तिभागमेत्तो । हेट्ठिमासेसट्ठिदिबंधेसु वि एसो चेव अप्पाबहुअपयारो दट्ठुव्वो । संपहि जाव एदुदूरं पावइ ताव सव्वेसिं कम्मणं ट्ठिदिबंधोसरणं पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चेव, णाणो वियप्पो त्ति पदुप्पायणट्ठुत्तरसुत्तमोहणं—

* एदम्मि काले अदिच्छुवे सव्वम्मिह पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ठिदिबंधेण ओसरवि ।

§ ८५. गयत्थमेदं सुत्तं, एदम्मि वियसे पयारंतरसंभवाणुवलंभादो । संपहि एत्तो उवरि वि णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीय-मोहणीय-अंतराहयाणमेसो चेव ट्ठिदिबंधोसरण-कमो ताव दट्ठुव्वो जाव पल्लिदोवममेत्तं ट्ठिदिबंधं ण पावेदि । णामा-गोदाणं पुण अण्णा-रिसो ट्ठिदिबंधोसरणकमो एत्तो पाए पयट्ठदि त्ति पदुप्पाएमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

* णामा-गोदाणं पल्लिदोवमट्ठिदिगादो बंधादो अण्णं जं ट्ठिदिबंधं वंधहिदि सो ट्ठिदिबंधो संखेज्जगुणहीणो ।

§ ८६. कुदो एवं चे ? सहावदो चेव, पल्लिदोवमट्ठिदिगो बंधे जादे तत्तो प्पहुट्ठि

कर्मोंका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । विशेषका प्रमाण कितना है ? द्वितीय भागप्रमाण है । उससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक है । विशेषका प्रमाण कितना है ? तृतीय भागप्रमाण है । अधस्तन समस्त स्थितिवन्धोंमें भी अल्पबहुत्वका यही प्रकार जानना चाहिए । अब इतने दूर स्थानके प्राप्त होने तक सब कर्मोंका स्थितिवन्धापसरण पल्लयोपमके संख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, अन्य विकल्प नहीं है इस बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* इस कालके जाने तक सर्वत्र पल्लयोपमके संख्यातवें भागप्रमाण स्थितिवन्धापसरण होता है ।

§ ८५. यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि इस विषयमें प्रकारान्तर सम्भव नहीं है । अब इससे आगे भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मके स्थितिवन्धापसरणका यह क्रम तब तक जानना चाहिए जब तक पल्लयोपमप्रमाण स्थितिवन्धेको नहीं प्राप्त होता । परन्तु यहाँसे लेकर नामकर्म और गोत्रकर्मका अन्य प्रकारका स्थितिवन्धापसरण प्रवृत्त होता है इसका कथन करते हुए चूर्णिकार आचार्य आगेके सूत्रको कहते हैं—

* नामकर्म और गोत्रकर्मके पल्लयोपमप्रमाण स्थितिवाले बन्धसे अन्य जिस बन्धको बाँधेगा वह स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है ।

§ ८६. शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—स्वभावसे ही ऐसा है, क्योंकि पल्लयोपमप्रमाण स्थितिवाले बन्धके ही

संखेज्जाणं भागाणं द्विदिबंधोसरणणियमदंसणादो ।

* सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणो ।

§ ८७. ताघे पुणसेसाणं कम्माणं णाणावरण-दंसणावरण-वेदणीयं-मोहणीयंत-
राइयाणं द्विदिबंधो पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागपरिहीणो चेव होइ, तेसिमज्ज वि
पल्लिदोवमठिदिबंधविसयाणुप्पत्तीदो । ताघे अप्पावहुअं—णामा-गोदाणं द्विदिबंधो थोवो ।
चदुण्हं कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणो । मोहणीयद्विदिबंधो विसेसाइओ । केत्तिय-
मेत्तेण ? तिभागमेत्तेण । एवमेस कमो ताव णेदव्वो जाव सेसकम्माणं पल्लिदोवम-
द्विदिगो बंधो ण पत्तो त्ति जाणावणदुत्तरसुत्तमोहणं—

* तदो प्पहुडि णामा-गोदाणं द्विदिबंधे पुण्णे संखेज्जगुणहीणो द्विदिबंधो
होइ, सेसाणं कम्माणं जाव पल्लिदोवमद्विदिगं बंधं ण पावदि ताव पुण्णे
द्विदिबंधे पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागहीणो द्विदिबंधो ।

§ ८८. गयत्थमेदं सुत्तं ।

जानेपर वहाँसे लेकर संख्यात भागोंका स्थितिबन्धापसरण होता है यह नियम
देखा जाता है ।

* शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन होता है ।

§ ८७ परन्तु तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और अन्तराय इन शेष
कर्मोंका स्थितिबन्ध पूर्वके स्थितिबन्धसे पल्योपमका संख्यातवाँ भाग हीन ही होता है,
क्योंकि उनका अभी भी पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध नहीं प्राप्त हुआ है । उस समय अल्प-
बहुत्व इसप्रकार होता है—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे अल्प होता है । उससे
चार कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है तथा उससे मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध
विशेष अधिक होता है । कितना अधिक होता है ? त्रिभाग अधिक होता है । इस प्रकार
स्थितिबन्धका यह क्रम तब तक चलाना चाहिए जब तक शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध पल्योपम-
प्रमाण नहीं प्राप्त होता है इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* यहाँसे लेकर नामकर्म और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर संख्यातगुणा
हीन अन्य स्थितिबन्ध होता है तथा शेष कर्मोंका जबतक पल्योपमस्थितिवाला बंध
नहीं प्राप्त करता है तब तक एक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर पल्योपमका संख्यातवाँ
भाग हीन दूसरा स्थितिबन्ध होता है ।

§ ८८. यह सूत्र गतार्थ है ।

१. ता. प्रती भागहीणो [द्विदिबंधो ।] ताघे इति पाठः ।

२. ता. प्रती णाणावरण वेदणीय इति पाठः ।

* एवं ढिदिबंघ-सहस्सेसु गवेसु णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराहयानं पखिदोवमड्ढिदिगो बंधो ।

§ ८९. दिवड्ढपलिदोवममेत्तपुव्वणिरुद्धड्ढिदिबंधादो पलिदोवमबंधे सोहिदे सुद्ध-सेसद्धपलिदोवमम्मि एयड्ढिदिबंधोसरणायामेण भागे हिदे संखेज्जसहस्समेत्तरूवाणि आग-च्छंति । पुणो तेत्तियमेत्तड्ढिदिबंधवियप्पेसु समइकंतेसु णाणावरणादीणं चदुण्हमेदेसिं च कम्माणं पलिदोवमड्ढिदिगो बंधो जायदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो ।

* मोहणीयस्स तिभागुत्तरं पलिदोवमड्ढिदिगो बंधो ।

§ ९०. तीसिगाणं पलिदोवममेत्तड्ढिदिबंधविसये चालीसिगस्स केत्तियं ड्ढिदिबंधं लहामो त्ति तेरासियं कादूणेदस्स ड्ढिदिबंधवियप्पस्स सगुपत्ती वत्तव्वा । एत्थ वि ड्ढिदिबंधप्पावहुअमणंतरपरुविदं चेव । एवमेदेसिं चदुण्हं कम्माणं पलिदोवमड्ढिदिगो बंधे जादे मोहणीयस्स वि तिभागुत्तरपलिदोवममेत्ते ड्ढिदिबंधे वट्टमाणे एत्तो उवरि केरिसो परूवणाभेदो त्ति आसंकाए इदमाह—

* तदो जो अण्णो णाणावरणादिच्चदुएहं पि ड्ढिदिबंधो सो संखेज्ज-गुणहीणो ।

* मोहणियस्स ड्ढिदिबंधो विसेसहीणो ।

* इस प्रकार हजारों स्थितिबन्धोंके जानेपर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कर्मोंका पल्योपम स्थितिवाला बन्ध होता है ।

§ ८९. डेढ़ पल्योपमप्रमाण विवक्षित पूर्व स्थितिबन्धमें से पल्योपमप्रमाण स्थिति-बन्धके घटानेपर बाकी बचे अर्थ पल्योपममे एक स्थितिबन्धापसरणके आयामका भाग देने पर संख्यात हजार प्रमाण संख्या प्राप्त होती है । पुनः उतने स्थितिबन्धके भेदोंके विच्छिन्न हो जानेपर इन ज्ञानावरणादिक चार कर्मोंका पल्योपम स्थितिवाला बन्ध प्राप्त होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

* तथा मोहनीय कर्मका तीसरा भाग अधिक पल्योपम स्थितिवाला बन्ध होता है ।

§ ९०. जहाँ तीसिय प्रकृतियोंका पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्ध होता है वहाँ चालीसिय प्रकृतिका कितने स्थितिबन्धको प्राप्त करेगा इस प्रकार त्रैाशिक करके स्थितिबन्धके इस भेदकी उत्पत्ति कहनी चाहिए । यहाँपर भी अनन्तर पूर्व कहा गया स्थितिबन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्व ही होता है । इस प्रकार इन चार कर्मोंका पल्योपम स्थितिवाला बन्ध होनेपर तथा मोहनीय कर्मका भी तीसरा भाग अधिक पल्योपमप्रमाण स्थितिबन्धके रहते हुए इससे आगेका प्ररूपणाभेद किस प्रकारका होता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं—

* तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि चार कर्मोंका भी जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह संख्यातगुणा हीन होता है और मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध विशेष हीन होता है ।

§ ९१. कुदो ? चदुण्हं कम्माणं पल्लिदोवमट्टिदिगादो बंधादो पल्लिदोवमस्स संखेजाणं भागाणं ताधे ट्टिदिवंधेणोसरणदंसणादो । मोहणीयस्स वि ताधे अपत्तपल्लिदो-वमट्टिदिवंधस्स तत्कालभाविणो ट्टिदिवंधोसरणस्स पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागपमाणाण-इक्कमादो । ताधे पुण ट्टिदिवंधप्पावहुअं—णामा-भोदाणं ट्टिदिवंधो थोवो । चदुण्हं कम्माणं ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स ट्टिदिवंधो संखेज्जगुणो । एवमेदेणप्पा-वहुअविधिणा संखेजेसु ट्टिदिवंधसहस्सेसु गदेसु तदो मोहणीयस्स वि पल्लिदोवमट्टिदिगो बंधो जायदि त्ति जाणावणफलमुत्तरसुत्तं—

* तदो ट्टिदिवंधपुधत्तेण गदेण मोहणीयस्स वि ट्टिदिवंधो पल्लिदोवमं ।

§ ९२. तदो पुव्वणिरुद्धट्टिदिवंधादो ट्टिदिवंधपुधत्तेण पल्लिदोवमस्स ट्टिदिवंध विभागमेत्तीमु ट्टिदीसु कमेणोवट्टिदामु ताधे मोहणीयस्स वि ट्टिदिवंधो संपुण्णपल्लिदोवम-मेत्तो जायदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्सत्थसंगहो । एत्थ अप्पावहुअमणंतरपरूविदमेव ।

* तदो जो अण्णो ट्टिदिनंधो सो आउगवज्जाणं कम्माणं ट्टिदिनंधो पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।

§ ९३. मोहणीयस्स वि तत्कालभावियस्स ट्टिदिवंधस्स पल्लिदोवमस्स संखेज्जेहिं

§ ९१. क्योंकि चार कर्मोंके पल्लोपम स्थितिवाले बन्धके बाद तब पल्लोपमके संख्यात भागोंका एक स्थितिवन्धापरण देखा जाता है । तब मोहनीय कर्मका भी पल्लोपमप्रमाण स्थितिवन्ध नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिये उस समय जो स्थितिवन्धापरण होता है वह पल्लोपमके संख्यातवें भागका उल्लंघन नहीं करता है । तब स्थितिवन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्व इस प्रकार रहता है—नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे थोड़ा होता है । उससे चार कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । तथा उससे मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा होता है । इस प्रकार इस अल्पबहुत्वकी परिपाटीके अनुसार संख्यात हजार स्थितिवन्धोंके जानेपर तब मोहनीय कर्मका भी पल्लोपम स्थितिवाला बन्ध ही जाता है इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* तत्पश्चात् स्थितिवन्धपृथक्त्वके व्यतीत होने पर मोहनीयकर्मका भी स्थिति-वन्ध पल्लोपमप्रमाण होता है ।

§ ९२. 'तदो' अर्थात् पूर्वमें विवक्षित स्थितिवन्धमेंसे स्थितिवन्ध-पृथक्त्वके द्वारा पल्लोपमके तीसरे भागप्रमाण स्थितियोंके क्रमसे अपवर्तित होनेपर तब मोहनीयकर्मका भी स्थितिवन्ध पूरा एक पल्लोपमप्रमाण हो जाता है यह इस सूत्रका ससुच्ययरूप अर्थ है । जो पहले अल्पबहुत्व कह आये हैं वही यहाँपर भी जानना चाहिए ।

* तत्पश्चात् जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह स्थितिवन्ध आयुर्कर्मको छोड़-कर शेष कर्मोंका पल्लोपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है ।

§ ९३. क्योंकि मोहनीय कर्मका भी संख्यात भागोंसे हीन तत्काल होनेवाला स्थिति-

भागेहि ओसरिदूण बज्जमाणस्स पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तसिद्धीए णिप्पडि-
बंधमुवलंभादो ।

* तस्स अप्पाबहुअं ।

§ ९४. तस्स तत्कालभावियस्स द्विदिबंधस्स सव्वेसु कम्मेषु पलिदोवमस्स
संखेज्जदिभागपमाणेण पयट्टमाणस्स थोवबहुत्तमिदाणि वत्तइस्सामो त्ति भणिदं होइ ।

* तं जहा ।

§ ९५. सुगमं ।

* णामा-गोदाणं द्विदिबंधो थोवो ।

§ ९६. कुदो ? पुव्वमेव पलिदोवमद्विदिगं बंधं लट्ठूण संखेजेहि संखेज्जगुणहाणि-
पडिबद्धद्विदिबंधोसरणेहि सुट्ठु ओहट्टिदत्तादो ।

* मोहणीयवज्जाणं कम्ममाणं ठिदिबंधो तुल्लो संखेज्जगुणो ।

§ ९७. किं कारणं ? पच्छा अंतोमुहुत्तमुवरि गंतूणेदेसिं पलिदोवममेत्तद्विदि-
बंधसमुप्पत्तीदो ।

* मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ।

§ ९८. कुदो ? एकस्सेव संखेज्जगुणहाणिपडिबद्धद्विदिबंधोसरणस्स ताधे

बन्ध पल्योपमके संख्यातवें भागमात्र सिद्ध होता है यह बिना बाधाके बन जाता है ।

* तत्काल होनेवाले स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व ।

§ ९४. 'तस्स' अर्थात् तत्काल प्रवृत्त हुए सब कर्मोंके पल्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण
स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व इस समय बतलावेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* बह जैसे ।

§ ९५. यह सूत्र सुगम है ।

* नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे अल्प है ।

§ ९६. क्योंकि पूर्वमें ही पल्योपम स्थितिवाले बन्धको प्राप्तकर संख्यात गुणहानियोंसे
प्रतिबद्ध संख्यात स्थितिबन्धापसरणोंके द्वारा उक्त स्थितिबन्धको बहुत अधिक कम कर दिया
गया है ।

* उससे मोहनीय कर्मके अतिरिक्त कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर
संख्यातगुणा है ।

§ ९७. क्योंकि पीछेकी ओर अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर इन कर्मोंका पल्योपमप्रमाण
स्थितिबन्ध उत्पन्न हुआ था ।

* उससे मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।

§ ९८. क्योंकि तब मोहनीय कर्मविषयक एक ही संख्यात गुणहानिरूप स्थितिबन्धाप-

मोहणीयस्स विसये सञ्चवलंभादो ।

* एदेण अप्पाबहुअविहिणा द्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

§ ९९. जाव णामा-गोदाणमपच्छिमो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तो द्राव-किट्टिसण्णिदो द्विदिबंधो ताव एसो अप्पाबहुअपसरो ण पडिहम्मदि । तत्तो परमण्णो अप्पाबहुअपयारो पारमदि त्ति भणिदं होइ ।

* तदो अण्णो द्विदिबंधो णामा-गोदाणं थोवो ।

§ १००. कुदो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागवमाणत्तादो । तं पि कुदो ? द्रावकिट्टिद्विदिबंधादो पाए असंखेज्जभागणं द्विदिबंधोसरणणियमदंसणादो ।

* इदरेसिं चउण्णं पि तुल्लो असंखेज्जागुणो ।

§ १०१. किं कारणं । तेसिमज्ज वि द्रावकिट्टिद्विदिबंधविसयस्स असंपत्तीदो ।

* मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेज्जागुणो ।

§ १०२. सुगमं ।

सरण उपलब्ध होता है ।

* इस प्रकार इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत हजार स्थितिवन्ध व्यतीत होते हैं ।

९९. क्योंकि जबतक नामकर्म और गोत्रकर्मका अन्तिम दूरापकृष्टि सञ्जावाला पल्योपमका संख्यातवर्षा भागप्रमाण स्थितिवन्ध प्राप्त होता है तबतक अल्पबहुत्वका यह क्रम विच्छिन्न नहीं होता है । तत्पश्चात् अल्पबहुत्वका अन्य प्रकार प्रारम्भ होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तत्पश्चात् अन्य स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है, उसकी अपेक्षा नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है ।

§ १००. क्योंकि वह पल्योपमके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण है ।

शंका—वह भी किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि दूरापकृष्टि संज्ञक स्थितिवन्धसे लेकर असंख्यात बहुभागोंका स्थितिवन्धापसरण नियम देखा जाता है ।

* उससे इतर चार कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है ।

§ १०१. क्योंकि उनका अभी भी दूरापकृष्टिसंज्ञक स्थितिवन्ध प्राप्त नहीं हुआ है ।

* उससे मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ।

§ १०२. यह सूत्र सुगम है ।

* एदेण अप्पाबहुअविहिणा द्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

§ १०३. जब णाणावरणादीणं दूरावकिट्टिविसयं पावदि ताव संखेजसहस्स-
मेचाणि द्विदिबंधोसरणाणि एदेणेव कमेण गदाणि, ण तत्थ परूवणामेदो त्ति भणिदं
होइ । तदो णाणावरणादिकम्माणं दूरावकिट्टिद्विदिबंधे संपसे तत्तो परं तेसिमसंखेजे
भागे द्विदिबंधेणोसरमाणस्स तत्कालपडिबद्धमप्पावहुअमेदं वत्तइस्सामो—

* तदो अण्णो द्विदिबंधो । णामागोदाणं थोवो ।

§ १०४. सुगमं ।

* इदरेसिं च्चदुएहं पि कम्माणं द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो ।

§ १०५. एदं पि सुगमं ।

* मोहणीयस्स द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो ।

§ १०६. किं कारणं? दूरावकिट्टिविसयं दूदो परिहरिय अज्ज वि मोहणीयद्विदि-
बंधस्स पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागमेत्तद्विदिबंधवियप्ये समवट्ठाणदंसणादो ।

* एदेण कमेण द्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

* इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत हजार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए ।

§ १०३. जब जाकर ज्ञानावरणादि कर्मोंका दूरापकृष्टिविषयक स्थितिबन्ध प्राप्त होता
है तबतक संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरण इसी क्रमसे व्यतीत हुए, वहाँ प्ररूपणाभेद नहीं
है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । तत्पश्चात् ज्ञानावरणादि कर्मोंका दूरापकृष्टिसंज्ञक स्थिति-
बन्धके प्राप्त होनेपर उसके बाद उन कर्मोंके असंख्यात बहुभागका स्थितिबन्धरूपसे अपसरण
करनेवाले जीवके उम कालसे सम्बन्ध रखनेवाले अल्पबहुत्वके भेदको बतलाते हैं—

* तत्पश्चात् अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है । उसको अपेक्षा नामकर्म और
गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ।

§ १०४. यह सूत्र सुगम है ।

* उससे इतर चारों ही कर्मोंका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।

§ १०५. यह सूत्र भी सुगम है ।

* उससे मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।

§ १०६. क्योंकि दूरापकृष्टिके विषयभूत स्थितिबन्धको दूरसे छोड़कर अभी भी मोहनीय
कर्मसम्बन्धी स्थितिबन्धका पल्लोपमके संख्यातवर्गे भागप्रमाण स्थितिबन्धरूप भेदमें अवस्थान
देखा जाता है ।

* इस क्रमसे बहुत हजार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए ।

§ १०७. मोहणीयस्स द्रावकिट्टिविसयमुल्लंघियूण परदो वि संखेज्जसहस्रमेत्ताणि
ट्टिदिबंधोसरणाणि एदेणेवप्पावहुअकमेण गदाणि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो ।
एवं सव्वेसिं कम्मणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिबंधे असंखेज्जगुणहाणीए
संखेज्जसहस्रवारमोसरदि, तम्मि उद्देसे अप्पावहुअपरूवणाए को वि विसेसो अत्थि त्ति
तप्पदुप्पायणड्डमुत्तरसुत्तं—

* तदो अण्णो ट्टिदिबंधो । णामा-गोदाणं थोवो ।

§ १०८. सुगमं ।

* मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो असंखेज्जगुणो ।

§ १०९. कुदो ? ताघे मोहणीयट्टिदिबंधस्स विसेसोवट्टणावसेण च्चदुण्हं कम्मणं
ट्टिदिबंधादो एकसराहेण असंखेज्जगुणहाणीए ओसरणदंसणादो । कुदो एवमेत्थ एवंविहो
विवज्जासो जादो त्ति णासंकणिज्जं, अप्पसत्थयरस्स मोहणीयस्स विसोहिपरिणामेसु
वट्टमाणेसु विसेसघादपवुत्तीए पडिबंधाभावादो ।

* णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराहयाणं ट्टिदिबंधो असं-
खेज्जगुणो ।

§ १०७. मोहनीयकर्मके दूरापकृष्टिसम्बन्धी स्थलको उल्लंघन कर आगे भी संख्यात
हजार स्थितिबन्धापसरण इसी अल्पबहुत्व क्रमसे व्यतीत हुए यह इस सूत्रका भावार्थ है ।
इस प्रकार सभी कर्मोंके पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिबन्धमें असंख्यात
गुणहानिरूपसे संख्यात हजार बार अपसरण करता है, उस स्थलपर अल्पबहुत्वकी प्ररूपणामें
कोई भी विशेषता है इसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* तत्पश्चात् अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है । उसकी अपेक्षा नामकर्म और
गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध सबसे थोड़ा है ।

§ १०८. यह सूत्र सुगम है ।

* उससे मोहनीय कर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।

§ १०९. क्योंकि तब मोहनीय कर्मके स्थितिबन्धका विशेष अपवर्तन होनेसे चार कर्मोंके
स्थितिबन्धकी अपेक्षा इसका एक साथ असंख्यात गुणहानिरूपसे अपसरण देखा जाता है ।

शंका—यहाँ पर इस प्रकारका विपर्यास कैसे हो गया ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोहनीय कर्म अविशय अप्रशस्त
कर्म है, अतः विशुद्धरूप परिणामोंमें वृद्धि होनेपर उसका विशेष घात होनेमें कोई रुकाबाट
नहीं पाई जाती ।

* उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका स्थितिबन्ध
असंख्यातगुणा है ।

§ ११०. कुदो ? मोहणीयद्विदिबन्धे हेद्वा असंखेज्जगुणहाणीए णिवदिदे एदेसिं द्विदिबन्धस्स तत्तो असंखेज्जगुणत्तसिद्धीए णायागदत्तादो । संपहि किं कारणमेवविह-गुणमारपरावत्तीए एत्थप्पाबहुअस्स विवज्जासो जादो त्ति संदेहेण घुलमाणहिययस्स सिस्सस्स णिरारेगीकरणं पयदप्पाबहुअसमत्थणापरमुवरिमपबन्धमाह—

* एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबन्धो णाणावरणादिद्विदिबन्धादो हेद्दवो जादो असंखेज्जगुणहीणो च । णत्थि अप्णो वियप्पो ।

§ १११. एकवारेणेव विसेसघादं लद्धूण मोहणीयस्स द्विदिबन्धो णाणावरणादीणं चदुण्हं कम्मणं द्विदिबन्धादो हेद्दवो जायमाणो असंखेज्जगुणहीणो चेव जादो त्ति णत्थि अप्णो वियप्पो, असंखेज्जभागहीणो संखेज्जभागहीणो संखेज्जगुणहीणो वा अहोदूण असंखेज्जगुणहाणीए चेव परिणदो त्ति वुत्तं होइ । संपहि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणदु-मुत्तरसुत्तमोहणं—

* जब मोहणीयस्स द्विदिबन्धो उवरि आसी ताव असंखेज्जगुणो आसी । असंखेज्जगुणादो असंखेज्जगुणहीणो जादो ।

§ ११२. गयत्थमेदं सुत्तं । जदो एवं तदो एवंविहो अप्पाबहुअपयारो एत्थ संजादो त्ति जाणावणदुमुत्तरसुत्तमाह—

§ ११०. क्योंकि मोहनीयके स्थितिवन्धके असंख्यात गुणहानिरूपसे नीचे पतित होनेपर इन चार कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा सिद्ध होता है यह न्यायप्राप्त है । अब इस प्रकार गुणकारके परावर्तनका क्या कारण है जिससे यहाँपर अल्पबहुत्वमें लौट-पलट हो गई है इस प्रकारके सन्देहसे जिसका हृदय घुल रहा है ऐसे शिष्यको निःशंक करनेके लिये प्रकृत अल्पबहुत्वका समर्थन करनेवाले आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* क्योंकि एक वारमें ही मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध ज्ञानावरणादि चार कर्मोंके स्थितिवन्धकी अपेक्षा कम स्थितिवाला हो जाता है जो उनके स्थितिवन्धसे असंख्यागुणा हीन होता है, यहाँ अन्य विकल्प नहीं है ।

§ १११. एक वारमें ही विशेष घातको प्राप्तकर मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध ज्ञानावरणादि चार कर्मोंके स्थितिवन्धकी अपेक्षा कम स्थितिवाला होता हुआ नियमसे असंख्यातगुणा हीन हो जाता है, इसलिये यहाँ पर अन्य विकल्प सम्भव नहीं है । अर्थात् वह असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन अथवा संख्यात गुणहीन न होकर असंख्यात गुणहानिरूपसे ही परिणत होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* जब तक मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध ज्ञानावरणादि चार कर्मोंके स्थितिवन्धसे अधिक था तब तक वह असंख्यातगुणा था । अब असंख्यातगुणके स्थानमें असंख्यात-गुणा हीन हो गया है ।

§ ११२. यह सूत्र गतार्थ है । अब कि ऐसा है, इसलिए इस प्रकारका अल्पबहुत्वका प्रकार यहाँपर हो गया है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* तदो जो एसो द्विदिबंधो णामा-गोदाणं थोवो । मोहणीयस्स द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो । इदरेसिं चतुण्हं पि कम्मणं द्विदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो ।

§ ११३. गयन्धमेदं सुत्तं । पेदस्स पुणरुत्तभावो आसंकणिज्जो, पुव्वं सामण्णेण परूविदस्स अप्पाबहुअस्स कारणमुहेण विसेसियूण परूवणे तद्दोसासंभवादो ।

* एदेणअप्पाबहुअविहिणा द्विदिबंधसहस्साणि जाधे बहूणि गदाणि ।

§ ११४. एदेणप्पाबहुअपयारेणाणंतरपरूविदेण द्विदिबंधोसरणसहस्साणि जाधे बहूणि गदाणि ताधे ँण्णारिसो अप्पाबहुअविसेसो होदि त्ति वुत्तं होइ ।

* तदो अण्णो द्विदिबंधो एकसराहेण मोहणीयस्स थोवो । णामा-गोदाणमसंखेज्जगुणो । इदरेसिं चतुण्हं पि कम्मणं तुल्लो असंखेज्जगुणो ।

§ ११५. सुगमो च एसो अप्पाबहुअपयारो, विसेसघादवसेण सुट्ठु ओहट्ठमाणस्स मोहणीयद्विदिबंधस्स णामा-गोदद्विदिबंधादो वि थोवभावसिद्धीए पडिबंधाभावादो ।

* तत्पश्चात् जो यह स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है, उसकी अपेक्षा नामकर्मका और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध सबसे अन्य है, उससे मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा है। उससे इतर चारों ही कर्मोंका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है ।

§ ११३. यह सूत्र गतार्थ है। इसके पुनरुक्तपनेकी आशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले सामान्यरूपसे कहे गये अल्पबहुत्वका कारणके साथ विशेषरूपसे कथन करनेमें पुनरुक्त दोष सम्भव नहीं है ।

* इस अल्पबहुत्वविधिसे जब बहुत हजार स्थितिवन्ध व्यतीत हुए ।

§ ११४. अनन्तर पूर्व प्ररूपित इम अल्पबहुत्वप्रकारके द्वारा बहुत हजार स्थितिवन्धापसरण व्यतीत हुए, तब अन्य प्रकारका अल्पबहुत्व भेद होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तत्पश्चात् अन्य स्थितिवन्ध प्रारम्भ होता है, उसकी अपेक्षा एक बारमें मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध सबसे अन्य हो जाता है। उससे नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है। उससे इतर चार कर्मोंका भी स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा होता है ।

§ ११५. यह अल्पबहुत्वका प्रकार सुगम है, क्योंकि विशेष घात होनेके कारण बहुत अधिक घटनेवाले मोहनीयके स्थितिवन्धके नाम और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धसे भी स्तोकपनेकी सिद्धि होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं पाया जाता ।

* एदेण कमेण संखेज्जाणि ठिदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

§ ११६. सुगमं ।

* तदो अण्णो द्विदिबंधो ।

§ ११७. तदो अण्णारिसो द्विदिबंधपयारो आढत्तो चि मणिदं होदि ।

* एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंधो थोवो ।

§ ११८. सुगमं ।

* णामा-गोदाणं पि कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो ।

§ ११९. एदं पि सुबोहं ।

* णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणं तियहं पि कम्माणं ठिदिबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो ।

§ १२०. पुब्बं वेदणीयद्विदिबंधेण सरिसो एदेसिं तिण्हं घादिकम्माणं ठिदिबंधो विसेमघादवसेण तत्तो असंखेज्जगुणहीणो होदूण हेट्ठा णिवदिदो चि एसो पुब्बिन्ल्लप्पा-बहुअपयारादो एत्थतणो भेदो ।

* वेदणीयस्स द्विदिबंधो असंखेज्जगुणो ।

* इस क्रमसे बहुत संख्यात हजार स्थितिबन्ध व्यतीत हुए ।

§ ११६. यह सूत्र सुगम है ।

* तत्पश्चात् अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है ।

§ ११७. तत्पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिबन्ध प्रकार प्रारम्भ हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तब एक वारमें मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध अल्प हो जाता है ।

§ ११८. यह सूत्र सुगम है ।

* उससे नाम और गोत्रकर्मोंका भी स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यात-गुणा होता है ।

§ ११९. यह सूत्र भी सुबोध है ।

* उससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीनों ही कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा होता है ।

§ १२०. पहले वेदनीयकर्मके स्थितिबन्धके सहस्र इन तीन घाति कर्मोंका स्थिति बन्ध था जो विशेष घात होनेके कारण उससे असंख्यातगुणा हीन होकर नीचे निपतित हुआ यह पूर्वके अल्पबहुत्व प्रकारसे इस अल्पबहुत्वमें अन्तर है ।

* उससे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है ।

§ १२१. कुदो ? घादिकम्माणं व अघादिकम्मस्सेदस्स विसोहिवसेण सुट्ठु, ट्टिदिबंधोसरणासंभवादो । एदस्सेवत्थविसेसस्स फुडीकरणट्टुमुत्तगे सुत्तपबंधो—

* तिण्हं पि कम्माणं ट्टिदिबंधस्स वेदणीयस्स ट्टिदिबंधादो ओसरं-
तस्स णत्थि वियप्पो संखेज्जगुणहीणो वा विसेसहीणो वा, एक्कसराहेण
असंखेज्जगुणहीणो ।

§ १२२. जहा मोहणीयट्टिदिबंधस्स णाणा-वरणादिट्टिदिबंधादो णामागोदट्टिदि-
बंधादो च ओसरंतस्स असंखेज्जगुणहीणं मोत्तूण णत्थि अण्णो वियप्पो एवमेत्थ वि
तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिबंधस्स वेदणीयट्टिदिबंधादो हेट्ठा ओसरमाणस्स असंखेज्जगुण-
हीणत्तमुज्झियूण णत्थि अण्णो वियप्पो असंखेज्जभागहीणो वा, संखेज्जभागहीणो वा
संखेज्जगुणहीणो वा अहोदूण एक्कवारेण विसेसघादेणोवट्टिय असंखेज्जगुणहाणीए
परिणदो सि एसो एत्थ सुत्तथसम्भावो ।

* एदेण अप्पाबहुअविहिणा संखेज्जाणि ट्टिदिबंधसहस्साणि बहूणि
गदाणि ।

§ १२३. सुगमं ।

§ १२१ क्योकि जिस प्रकार घातिकर्मोंका विशुद्धिके वश विशेष घात होता है उस प्रकार इस अघातिकर्मका विशुद्धिके वश बहुत स्थितिवन्धापसरण सम्भव नहीं है। अब इसी अर्थविशेषको स्पष्ट करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

* वेदनीयकर्मके स्थितिवन्धसे तीनों ही कर्मोंका घटता हुआ स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है या विशेष हीन होता है ऐसा कोई विकल्प नहीं है। किन्तु एक वारमें वह असंख्यातगुणा हीन हो जाता है ।

§ १२२ जिस प्रकार मोहनीयका स्थितिवन्ध ज्ञानावरणादि कर्मोंके स्थितिवन्धसे तथा नामकर्म और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धसे घटकर असंख्यात गुणाहीन होता है। इसे छोड़कर इस विषयमें अन्य विकल्प सम्भव नहीं है इसी प्रकार यहाँपर भी तीनों घातिकर्मोंका स्थिति-
बन्ध वेदनीयकर्मके स्थितिवन्धसे कम होकर असंख्यातगुणा हीन होता है। इसे छोड़कर यहाँ-
पर असंख्यात भागहीन, या संख्यात भागहीन या संख्यात गुणाहीन इस प्रकार अन्य विकल्प नहीं है। किन्तु एक वारमें विशेष घातके वश अपवर्तित होकर वह असंख्यातगुणा हीनरूपसे परिणत हुआ है यह इस सूत्रका अर्थ है।

* इस प्रकार इस अल्पबहुत्वविधिसे बहुत संख्यात हजार स्थितिवन्ध
स्यतीत हुए ।

§ १२३. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—यहाँपर मोहनीय कर्मका स्थितिवन्ध सबसे अल्प रह गया है। उससे नाम कर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा हो गया है। उससे

* तदो अण्णो द्विदिबंघो ।

§ १२४. तत्तो परमण्णारिसो द्विदिबंघवियप्पो पयव्वदि त्ति वुत्तं होइ ।

* एकसराहेण मोहणीयस्स द्विदिबंघा थोवो ।

§ १२५. सुगमं ।

* गाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराह्याणं तिण्हं पि कम्मार्णं द्विदिबंघो तुन्लो असंखेज्जगुणो ।

§ १२६. पुन्वमेदेसिं द्विदिबंघो णामा-गोदद्विदिबंघादो असंखेज्जगुणो होतो एकवारेणेव विसेसघादं लद्धू णासंखेज्जगुणहीणो तत्तो जादोत्ति एसो एत्थतणो विसेसो ।

* णामा-गोदाणं द्विदिबंघो असंखेज्जगुणो ।

§ १२७. तिण्हं घादिकम्माणं द्विदिबंघे हेट्ठा असंखेज्जगुणहाणीए णिवदिदे तत्तो एदेसिं द्विदिबंघस्स अपत्तविसेसघादस्स तहाभावमिद्धीए णिव्वाहमुवलंभादो ।

* वेदणीयस्स द्विदिबंघो विसेसाहिओ ।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा हो गया है। उससे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो गया है। जिस प्रकार विमुद्धिके कारण ज्ञानावरणादि कर्मोंका स्थितिबन्ध बहुत अधिक घटा है उस प्रकार अधाति होनेसे वेदनीय कर्मका स्थितिबन्धापसरण होना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि यहाँपर ज्ञानावरणादिके स्थितिबन्धसे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा हो गया है।

* तत्पश्चात् अन्य स्थितिबन्ध प्रारम्भ होता है ।

§ १२४. तत्पश्चात् अन्य प्रकारका स्थितिबन्धभेद प्रारम्भ होता है यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

* एक द्वारमें घटकर वहाँ मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है ।

§ १२५. यह सूत्र सुगम है ।

* उससे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीनों ही कर्मोंका स्थितिबन्ध परस्पर तुल्य होकर असंख्यातगुणा है ।

§ १२६. पहले [इन कर्मोंका स्थितिबन्ध नामकर्म और गोत्रकर्मके स्थितिबन्धसे असंख्यातगुणा है जो एक द्वारमें ही विशेष घातको प्राप्तकर उससे असंख्यातगुणा हीन हो गया है यह इस अल्पबहुत्वसम्बन्धी विशेषता है ।

* उससे नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है ।

§ १२७. क्योंकि तीनों घातिकर्मोंके स्थितिबन्धके नीचे असंख्यातगुणे हीन प्राप्त होनेपर उससे इन कर्मोंके स्थितिबन्धकी विशेष घातको न प्राप्त होनेके कारण उस प्रकारकी सिद्धि निर्बाधरूपसे पाई जाती है ।

* उससे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

§ १२८. एसो वि णामा-गोदट्टिदिबंधादो असंखेज्जगुणो अण्णो वा अडोदूण विसेसाहिओ चेव जादो । केत्तियमेत्तो विसेसो? दुभागमेत्तो । एदेसिं जहण्णुकस्सट्टिदि-
बंधाणं णिव्वियप्पाणमेदेण पट्टिभागेणावट्टाणदंमणादो । संपहि एदस्सेव अप्पावहुअस्स
फुडीकरणट्टुत्तरसुत्तावयारो—

* एत्थ वि णत्थि वियप्पो । तिण्हं पि कम्माणं ट्टिदिबंधो णामा-
गोदाणं ट्टिदिबंधादो हेट्टुवो जायमाणो एकसराहेण असंखेज्जगुणहीणो जादो ।
वेवणीयस्स ट्टिदिबंधो ताधे चेव णामा-गोदाणं ट्टिदिबंधादो विसेसाहिओ
जादो ।

§ १२९. सुगमं । संपहि एत्तो उवरि जाव सव्वेसिं कम्माणमसंखेज्जवस्सिओ
ट्टिदिबंधो ताव एसो चेव अप्पावहुअकमो, णत्थि अण्णो वियप्पो त्ति पदुप्पायेमाणो
उत्तरसुत्तमाह—

* एदेण अप्पावहुअविहिणा संखेज्जाणि ट्टिदिबंधसहस्साणि कादूण
जाणि पुण कम्माणि वज्झंति ताणि पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ १३०. एदेणाणंतरपरुविदेणप्पावहुअविहाणेण ट्टिदिबंधोसरणसहस्साणि कादूण
गच्छमाणस्स केत्तिओ वि कालो गदो ताधे पुण जाणि कम्माणि वज्झंति तेसिं सव्वेसि-

§ १२८ यह भी नामकर्म और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धसे असंख्यातगुणा या अन्य
प्रकारका न होकर विशेष अधिक हो गया है ।

शंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—द्वितीय भागमात्र है, क्योंकि इनके भेदरहित जघन्य और उत्कृष्ट
स्थितिवन्धोंका इस प्रतिभागके अनुसार अवस्थान देखा जाता है ।

अब इसी अल्पबहुत्वका स्पष्टीकरण करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* यहाँपर भी अन्य कोई विकल्प नहीं है । जब तीनों ही कर्मोंका स्थितिवन्ध
नाम और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धसे कम होता हुआ एक वारमें असंख्यातगुणा हो
जाता है तभी वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध नाम और गोत्रकर्मके स्थितिवन्धसे विशेष
अधिक हो गया है ।

§ १२९ यह सूत्र सुगम है । अब इससे ऊपर सब कर्मोंका स्थितिवन्ध जब तक
असंख्यात वर्षवाला है तब तक अल्पबहुत्वका यही क्रम चलता रहता है, अन्य विकल्प नहीं
पाया जाता इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* इस अल्पबहुत्वविधिसे संख्यात हजार स्थितिवन्धोंको करके पुनः जो कर्म
बंधते हैं उनका वह स्थितिवन्ध पन्थोपमके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है ।

§ १३०. अनन्तर पूर्व कही गई इस अल्पबहुत्वविधिसे हजारों स्थितिवन्धापरण
क्रियाको करते हुए जीवका जब कितना ही काल निकल जाता है तब पुनः जो कर्म बंधते हैं

मेव द्विदिबंधो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो चेव णाज्जवि कस्स वि कम्मस्स संखेज्ज-
वस्सिओ द्विदिबंधो पारभदि, एत्तो सुदूरमुवरि गंतूणंतरकरणादो परदो संखेज्जवस्स-
द्विदिबंधस्स पारंभदंसणादो । द्विदिसंतकम्मं पुण सव्वेसिमेव कम्माणमतोकोडाकोडीए
एदम्मि विसये दट्ठव्वं, उवसमसेठीए पयारंतरासंभवादो । एदम्मि अदिकंतद्विदिबंधो-
सरणविसये सव्वत्थेव पुव्वुत्तेणेव बिहिणा द्विदि-अणुभागखंडय-गुणसेदिआदीणमणुगमो
कायव्वो, तत्थ णाणत्ताभावादो । संपहि एत्थुहेसे कीरमाणकज्जभेदपदुप्पायणडुमुवरिमो
सुत्तपबंधो--

* तदो असंखेज्जाण समयपवद्धानुदीरणा च ।

§ १३१. हेट्ठा सव्वत्थेव असंखेज्जलोगपट्टिभागेण पयट्ठमाणा उदीरणा एणिं
परिणामपाहम्मेण पुव्वुत्तकिरियाकलावस्सुवरि असंखेज्जाणं समयपवद्धानुदीरणा च
पवत्तदि, दिवडुगुणहाणिमेत्तममयपवद्धानमोकडुणभागहारादो असंखेज्जगुणेण भागहारेण
खंडिदेयखंडस्स असंखेज्जसमयपवद्दपमाणस्सेत्थुदीरणासरूवेणुदये पवेसदंसणादो ।
उदयस्स पुण असंखेज्जदिभागो चेव उदीरणा एत्थ सव्वत्थ गहेयव्वा, उक्कस्सोदीरणादव्वस्स
वि उदयगदगुणसेदिम्मि गोवुच्छं पेक्खियूणासंखेज्जगुणहीणत्तणियमदंसणादो ।

* तदो संखेज्जे सु ठिदिबंधसहस्सेसु गवेसु मणपज्जवणाणावरणीय-

उन सभी कर्मोंका स्थितिवन्ध पत्त्यांपमके असंख्यातव भागप्रमाण ही होता है, अभी तक
किसी भी कर्मका संख्यात वर्षकी स्थितिवाला बन्ध प्रारम्भ नहीं हुआ है, क्योंकि इससे
बहुत दूर ऊपर जाकर अन्तरकरणके पश्चात् संख्यात वर्षकी स्थितिवाले बन्धका प्रारम्भ देखा
जाता है । किन्तु इस स्थलपर सभी कर्मोंका स्थितिसत्कर्म अन्तःकोडाकोडीके भीतर जानना
चाहिए, क्योंकि उपशमश्रेणिमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । यहाँ ये जितने स्थितिवन्धाप-
सरण हुए हैं वहाँ सर्वत्र ही पूर्वोक्त विधिसे ही स्थितिकाण्डकघात, अनुभागकाण्डकघात और
गुणश्रेणि आविका अनुगम करना चाहिए, क्योंकि इस विषयमें नानात्व नहीं पाया जाता ।
अब इसी स्थलपर किये जानेवाले कार्यभेदका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको
कहते हैं—

* पश्चात् असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा होती है ।

§ १३१. पूर्वमें सर्वत्र ही जा उदीरणा असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार
प्रवृत्त होती आरही थी इस समय वह उदीरणा परिणामोंके माहात्म्यवश पूर्वोक्त क्रियाकलापके
ऊपर असंख्यात समयप्रबद्धोंकी प्रवृत्त होती है, क्योंकि अपकर्षण भागहारसे असंख्यात-
गुणे भागहारके द्वारा डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रबद्धोंको भाजित कर जो असंख्यात
समयप्रबद्धप्रमाण एक भाग लब्धरूपसे प्राप्त होता है उसका यहाँ उदीरणारूपसे उदयमें प्रवेश
देखा जाता है । परन्तु यहाँ सर्वत्र उदीरणाको उदयके असंख्यातव भागप्रमाण ही ग्रहण
करना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट उदीरणाद्रव्यका भी ऐसा नियम है कि वह उदयगत गुण-
श्रेणिकी गोपुच्छाको देखते हुए असंख्यातगुणा हीन देखा जाता है ।

* तत्पश्चात् संख्यात हजार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होने पर मनःपर्यय

दाणंतराह्याणमणुभागो बंधेण देसघादी होइ ।

१३२. तदो पुव्वुत्तसंधीदो उवरि संखेजेसु द्विदिखंडयाविणाभावीसु पादेकमणु-
मामखंडयसहस्सगळेसु वोलीणेसु मणपज्जवणाणावरणीय-दाणंतराह्याणमणुभागो
बंधेण देसघादी होदि, सव्वमंदपरिणामस्स तेसिमणुभागबंधस्स पुव्वमेव तहाभावपरिणामे
विरोहाभावादो । पुव्वमेदेसिमणुभागबंधो हेट्ठा सव्वघादि-विट्ठाणसरूवेहितो एण्हमेक्क-
सराहेण परिणामविसेससहकारिकारणं लद्धूण देसघादिविट्ठाणसरूवेण परिणदो त्ति वुचं
होइ । संतकम्माणुभागो पुण सव्वघादिविट्ठाणिओ चैव, तत्थ देसघादिकरणाभावादो ।

* तदो संखेजेसु द्विदिबंधेसु गदेसु ओहिणाणावरणीयं ओहि-
वंसणावरणीयं लामंतराह्यं च बंधेण देसघादिं करेदि ।

§ १३३. एदेसि तिण्हं कम्माणमणुभागो पुव्विन्लपयडोणमणुभागो अणंतगुणो
अणोणं समाणो च । तदो पच्छा स देसघादी जादो । सेसं सुगमं ।

* तदो संखेजेसु द्विदिबंधेसु गदेसु सुदणाणावरणीयं अचक्खु-
वंसणावरणीयं भोगंतराह्यं च बंधेण देसघादिं करेदि ।

§ १३४. एत्थ वि पुव्वं व कारणहिंसो कायव्वो ।

ज्ञानावरणीय और दानान्तरायका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशघाति होता है ।

१३२. 'तदो' अर्थात् पूर्वोक्त सन्धिके बाद जिस प्रत्येक स्थितिकाण्डकमें हजारों
अनुभागकाण्डक गर्भित हैं ऐसे संख्यात स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर मनःपर्ययज्ञाना-
वरणीय और दानान्तरायकर्मका अनुभाग बन्धकी अपेक्षा देशघाति हो जाता है, क्योंकि
उन कर्मोंके सबसे मन्द परिणामरूप अनुभागबन्धका उस प्रकारसे परिणमन होनेमें विरोध-
का अभाव है । इन कर्मोंका पहले जो अनुभागबन्ध सर्वघाति द्विस्थानरूपसे होता रहा
यहाँ वह एक बारमें सहकारी कारणरूप परिणामविशेषको प्राप्तकर देशघाति द्विस्थानरूपसे
परिणत हो गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । परन्तु वहाँ सत्कर्मका अनुभाग तो सर्व-
घाति द्विस्थानरूप ही होता है, क्योंकि उसका देशघातिकरण नहीं होता ।

* पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होने पर अवधिज्ञानावरणीय अवधि-
दर्शनावरणीय और लामान्तरायकर्मको बन्धकी अपेक्षा देशघाति करता है ।

§ १३३. इन तीन कर्मोंका अनुभाग पूर्वकी दो प्रकृतियोंके अनुभागसे अनन्तगुणा
और परस्पर समान होता है । तत्पश्चात् वह देशघाति हो गया है । शेष कथन सुगम है ।

* तत्पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर श्रुतज्ञानावरणीय, अचक्षु-
दर्शनावरणीय और भोगान्तराय कर्मको बन्धकी अपेक्षा देशघाति करता है ।

§ १३४. यहाँपर भी पहलेके समान कारणका निर्देश करना चाहिए ।

* तदो संखेज्जोसु द्विविबंधेषु गदेसु चक्खुदंसणावरणीयं बंधेण देसघादिं करेदि ।

§ १३५. सुगमं ।

* तदो संखेज्जोसु द्विविबंधेषु गदेसु आभिणिबोहियणाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च बंधेण देसघादिं करेदि ।

§ १३६. सुगमं ।

* तदो संखेज्जोसु द्विविबंधेषु गदेसु बीरियंतराइयं बंधेण देसघादिं करेदि ।

§ १३७. कुदो एवमेदेसिं देसघादिकरणस्म कमणियमो त्ति असंकणिज्जं, अणंत-गुणहीणाहियसत्तीणं कम्ममाणमकमेण देसघादिकरणाणुववत्तीदो । चदुसंजलण-पुरिसवे-दाणमणुभागबंधस्स देसघादिकरणमेत्थ किण्ण परुविदं ? ण, तेसिमणुभागबंधस्स पुव्वमेव संजदासंजदप्पहुडि देसघादिविद्वाणसरूवेण षयडुमाणस्स एदम्मि विसये देसघा-दित्तं पडि विसंवादानुवलंभादो ।

* तत्पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर चक्षुदर्शनावरणीयको बन्ध-की अपेक्षा देशघाति करता है ।

§ १३५ यह सूत्र सुगम है ।

* तत्पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर आभिनिबोधिकज्ञानावरणीय और परिभोगान्तरायको बन्धकी अपेक्षा देशघाति करता है ।

§ १३६. यह सूत्र सुगम है ।

* तत्पश्चात् संख्यात स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर बीर्यान्तरायकर्मको बंधकी अपेक्षा देशघाति करता है ।

§ १३७. शंका—इनके इस प्रकार देशघातिकरणका क्रमनियम किस कारणसे है ?

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि जो कर्म अनन्तगुणी हीन शक्तिवाले हैं और जो कर्म अनन्तगुणी अधिक शक्तिवाले हैं उनका युगपात् देशघातिकरण नहीं बन सकता ।

शंका—चार संवलन और पुरुषवेदके अनुभागबन्धका यहाँपर देशघातिकरण क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनका अनुभागबन्ध पहले ही संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर देशघाति द्विस्थानस्वरूपसे प्रवर्तमान है, अतः इस स्थलपर उनके देशघातिपनेके प्रति विस्वादादुष्य नहीं होता ।

* एदेसि कम्माणमखवगो अणुवसामगो सव्वो सव्वघादिं भंघदि ।

§ १३८. संसारावस्थाए सव्वत्थ खवगोवसमसेटीसु च सुगमं वेदमप्पाहुवअं, देसघादिकरणादो हेट्ठा सव्वो जीवो सव्वघादिं चैव णिरुद्धकम्माणमणुभागं बंधदि ति वुत्तं होइ । संपहि एदेसि कम्माणं देसघादिकरणधरिमसमये ट्ठिदिवंधो केरिसो होइ ति आसंकाए इदमाह—

* ट्ठिदिवंधो मोहणीए थोवो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराहएसु ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । णामागोदेसु ट्ठिदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणी-यस्स ट्ठिदिवंधो विसेसाहिओ ।

§ १३९. एदेसु कम्मेसु देसघादीसु जादेसु वि पुणुत्तो चैव अप्पावहुअपयारो, णत्थि एत्थ पयारंतरमिदि पदुप्पायणफलत्तादो । सपहि एत्तो उवरि कीरमाणकज्जभेद-पदुप्पायणट्ठमुत्तरो सुत्तपबंधो—

* तदो देमघादिकरणादो संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु अंतर-करणं करेदि ।

§ १४०. एदम्हादो देसघादिकरणादो उवरि संखेज्जेसु ट्ठिदिवंधमहस्सेसु एदेणप्पा-वहुअविहिणा गदेसु तम्हि अवत्थतरे अंतरकरणं कादुमाट्ठवेदि ति भणिदं होइ । संपहि

* सब अक्षपक और अनुपशामक जीव इन कर्मोंके सर्वघाती अनुभागकी बाँधते हैं ।

§ १३८. संसार अवस्थामें सर्वत्र क्षपकश्रणि और उपशमश्रेणीमें देशघातीकरणके पूर्व सब जीव विवर्धित कर्मोंके सर्वघाति ही अनुभागकी बाँधते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इन कर्मोंके देशघातिकरणके अन्तिम समयमें स्थितिवन्ध किस प्रकार होता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं—

* इन कर्मोंके देशघाति हो जानेपर भी मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध सबसे थोड़ा होता है । उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । उससे नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा होता है । उससे वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक होता है ।

§ १३९. यह अल्पबहुत्व सुगम है, क्योंकि इन कर्मोंके देशघाति हो जानेपर भी पूर्वोक्त ही अल्पबहुत्वका प्रकार है, यहाँ प्रकारान्तर नहीं है यह इस कथनका फल है । अब इसके आगे किये जानेवाले कार्यभेदका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* पश्चात् देशघाति करनेके बाद संख्यात हजार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर अन्तरकरण करता है ।

§ १४० इस देशघातिकरणके बाद इस अल्पबहुत्वविधिसे संख्यात हजार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर उस अवस्थामें अन्तरकरण करनेके लिए आरम्भ करता है यह उक्त कथनका

केसि कम्माणमंतरं करेइ त्ति आसंकाए इदमाह—

* बारसण्हं कसायाणं णवण्हं णोकसायवेदणीयाणं च, णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं ।

§ १४१. बारसकसायाणं णवणोकसायाणं चैव अंतरकरणमाहवेह, णाण्णेसि कम्माणमिदि वुत्तं होइ । संपाहि एदेसिमतरं करेमाणो केसि कम्माणं केत्तियं पढमट्टिदिं मोत्तूण केत्तियाओ ट्टिदीओ कदमम्मि उदेसे घेत्तूणंतरं करेदि त्ति सिस्साहिण्णायमासं-किय तण्णिण्णयविहाणट्टुमुत्तरं पबंधमाह—

* जं संजलणं वेदयदि, जं च वेदं वेदयदि, एदेसिं दोण्हं कम्माणं पढमट्टिदीओ अंतोमुहुत्तिगाओ ठवेदूण अंतरकरणं करेदि ।

§ १४२. एत्थ ताव पुरिसवेद-कोहसंजलणामुदएण सेट्टिमारूढो जीवो घेत्तव्वो, सव्वेसिमकमेण परूवणोवायाभावादो । तदो दोण्हमेदेसिं कम्माणमंतोमुहुत्तमेत्तोओ पढमट्टिदीओ मोत्तूण उवरि केत्तियाओ वि ट्टिदीओ घेत्तूणंतरं करेदि त्ति सुत्तयविणि-च्छओ । तत्थ पुरिसवेदपढमट्टिदिपमाणं णवुंसयवेदोवसामणद्धा इत्थिवेदोवसामणद्धा सत्तणोकसायोवसामणद्धा चेदि तिण्हमेदेमिं अद्दाणं समासमेत्तं होइ । कोहसंजलणस्स पुण एत्तो विसेसाहिया पढमट्टिदी होइ । केत्तियमेत्तो विसेसो । पुरिसवेदपढमट्टिदीए तात्पर्यं है । अब किन कर्मोका अन्तर करता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं ।

* बारह कपाय और नौ नोकषायवेदनीयका अन्तर करता है, अन्य कर्मका अन्तरकरण नहीं होता ।

§ १४१ बारह कपाय और नौ नोकषायके अन्तरकरणका ही आरम्भ करता है, अन्य कर्मोका नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इन कर्मोका अन्तर करता हुआ किन कर्मोकी कितनी प्रथम स्थितिको छोड़कर किस स्थानपर किसकी कितनी स्थितियोंको ग्रहणकर अन्तर करता है इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायको आशंकारूपसे ग्रहणकर उसका निर्णय करनेके लिए आगेके प्रबंधको कहते हैं—

* जिस संज्वलनका वेदन करता है और जिस वेदका वेदन करता है इन दोनों कर्मोकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थापितकर अन्तरकरण करता है ।

§ १४२ सर्वप्रथम यहाँपर पुरुषवेद और क्रोधसंज्वलनके उदयसे श्रेणीपर चढ़े हुए जीवको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सबके युगपत् कथन करनेका उपाय नहीं पाया जाता । अतः इन दोनों कर्मोकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर ऊपरकी कितनी ही स्थितियोंको ग्रहणकर अन्तर करता है यह इस सूत्रके अर्थका निर्णय है । उसमें पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिका प्रमाण नपुंसकवेदका उपशामन काल, स्त्रीवेदका उपशामन काल और सात नोकषायोंका उपशामन काल इन तीन कालोंका जितना योग हो उतना होता है । परन्तु क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति इससे कुछ अधिक होती है ।

शंका—विशेषका प्रमाण कितना है ?

देसूणतिभागमेतो । तिण्हं कोहाणमुवसामणद्धामेत्तो चि भणिदं होइ । एवमेदेसिं दोण्हं कम्मणमंतोमुहुचमेत्तिं पढमट्टिदिं ठवेयूण पुणो उवरि केत्तियाओ ट्टिदीओ वेत्तणंतरं करेदि त्ति आसंकाए णिण्णयकरणट्टुत्तरसुत्तारंभो—

* पढमट्टिदीवो संखेज्जगुणाओ ट्टिदीओ आगाइवाओ अंतरट्टं ।

§ १४३. अंतरकरणट्टुत्तरि संखेज्जगुणाओ ट्टिदीओ गुणसेट्ठिसीसएण सह गहिदाओ चि वुत्तं होइ । संपहि अण्णदरवेद-संजलणाणं पढमट्टिदिं जहा अंतोमुहुचमेत्तिं ठवेइ, किमेव सेसाणमेकारसकसाय-अट्टणोकसायाणं पि ठवेइ आहो णेदि आसंकाए णिरायरणट्टुमिदमाह—

* सेसाणमेकारसण्हकसायाणमट्टण्हं च णोकसायवेदणीयाणमुदयावल्लियं मोत्त ण अंतरं करेदि ।

§ १४४. एदेसिं कम्मणमुदयावल्लियमेत्तं मोत्तूणावल्लियबाहिरिट्टिदीओ अंतरट्टुमागाएदि त्ति वुत्तं होइ । कुदो एवं चेव ? एदेसिमुदयाभावादो ।

* उवरि समाट्टिदिअंतरं, हेट्ठा विसमट्टिदिअंतरं ।

समाधान—पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिसे कुछ कम तीसरा भागप्रमाण है । तीन क्रोधोके उपशमानेका जितना काल है तत्प्रमाण है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

इस प्रकार इन दोनों कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थितिको स्थापितकर पुनः ऊपर कितनी स्थितियोंको ग्रहणकर अन्तर करता है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* प्रथम स्थितिसे संख्यातगुणी स्थितियाँ अन्तरके लिए ग्रहण की जाती हैं ।

§ १४३. अन्तर करनेके लिए ऊपर संख्यातगुणी स्थितियाँ गुणश्रेणिशेषके साथ ग्रहण की जाती हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब अन्यतर वेद और अन्यतर संवल्लनकी जिस प्रकार प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थापित करता है उस प्रकार क्या शेष ग्यारह कषाय और आठ नोकषायोंकी भी स्थापित करता है या नहीं स्थापित करता है ऐसी आशंकाका निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* शेष ग्यारह कषायों और आठ नोकषायवेदनीयोंका उदयावल्लिको छोड़कर अन्तर करता है ।

§ १४४. इन कर्मोंकी उदयावल्लिप्रमाण स्थितियोंको छोड़कर आषड्बिबाह्य स्थितियोंको अन्तरके लिए ग्रहण करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—ऐसा ही क्यों होता है ।

समाधान—क्योंकि इन शेष कर्मोंका उदय नहीं पाया जाता ।

* इन सब कर्मोंका ऊपर समस्थिति अन्तर है, किन्तु नीचे विषम-स्थिति अन्तर है ।

§ १४५. सञ्चैसिमेव कसाय-भोकसायाणमुदइल्लाणमणुदइल्लाण च अंतरचरिस-
द्विदी सरिसी चैव होइ, विदियद्विदीए पढमणिसेयस्स सच्चत्थ सरिसभावेणावड्ढाण-
दंसणादो । तदो उवरि समद्विदिअंतरमिदि वुत्तं । हेड्ढा वुण विसरिसमंतरं होइ, अणुदइ-
ल्लाणं सञ्चैसिं पि सरिसत्ते वि उदइल्लाणमणणदरवेद-संजलणाणमंतोमुहुत्तमेत्तपढम-
द्विदीदो परदो अंतरपढमद्विदीए समवड्ढाणदंसणादो । तदो पढमद्विदीए विसरिसत्तमस्सियूण
हेड्ढा विसमद्विदियमंतरं होदि चि भणिदं ।

§ १४६. संपहि अंतरं करेमाणो किमेक्केणेव समएणागाहदद्विदीओ सुण्णाओ
करेदि आहो कमेणे चि आसंकाए अंतरुकीरणद्वापमाणणिइ सकरणट्टुमचरो पबंधो—

* जाधे अंतरमुक्कीरदि ताधे अण्णो द्विदिबंधो पबद्धो अण्णं द्विदिबंधय-
मण्णमणुभागखंडयं च गेण्हदि ।

§ १४७. जम्हि समए अंतरकरणं आदत्तं तम्हि चैव समए हेड्ढिमद्विदिबंध-

§ १४५. उदयस्वरूप और अनुदयस्वरूप सभी कषायों और नोकषायोंके अन्तरकी
अन्तिम स्थिति सदृश ही होती है, क्योंकि द्वितीय स्थितिके प्रथम निपेकका सर्वत्र सदृशरूपसे
अवस्थान देखा जाता है, इसलिए ऊपर अन्तर समस्थितिवाला है यह उक्त कथनका तात्पर्य
है । किन्तु नीचे अन्तर विसदृश होता है, क्योंकि अनुदयस्वरूप सभी प्रकृतियोंके अन्तरके
सदृश होनेपर भी उदयस्वरूप अन्यतर वेद और अन्यतर संज्वलनकषायकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण
प्रथम स्थितिसे परे अन्तर और प्रथम स्थितिका अवस्थान देखा जाता है । इसलिये प्रथम
स्थितिके विसदृशपनेका आश्रयकर नीचे विषम स्थिति अन्तर होता है यह कहा है ।

विज्ञेयार्थ—तीन वेद और चार संज्वलनोंमें से जिन दो प्रकृतियोंके उदयसे श्रेणिपर
चढ़ता है उनकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थिति स्थापितकर उनसे ऊपरकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण
स्थितियोंका अन्तर करता है । तथा इनके अतिरिक्त अन्य जिन दो वेदों और ग्यारह कषायोंका
अनुदय रहता है उनकी उदयावलिप्रमाण प्रथम स्थिति स्थापितकर उससे ऊपरकी उतनी
स्थितियोंका अन्तर करता है जिससे ऊपरके भागमें यह अन्तर उदयस्वरूप प्रकृतियोंके
अन्तरके समान हो जाता है । अतः उदयस्वरूप प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण
होती है और अनुदयस्वरूप प्रकृतियोंकी प्रथमस्थिति एक आवली प्रमाण होती है, इसलिये
इस प्रथम स्थितिके विषम होनेसे अधोभागमें अन्तरमें विषमता आ जाती है । अर्थात् जहाँ
उदयस्वरूप प्रकृतियोंका अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर प्रारम्भ होता है वहाँ
अनुदयस्वरूप प्रकृतियोंका वह अन्तर मात्र एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको छोड़कर प्रारम्भ
होता है ।

§ १४६. अब अन्तरको करवा हुआ क्या एक ही समय द्वारा ग्रहण की गई स्थितियोंको
शून्यरूपकर देता है या क्रमसे करता है, ऐसी आज्ञाका होनेपर अन्तर-उत्कीरण कालके प्रमाण-
का निर्देश करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* जब अन्तरका प्रारम्भ करता है तब अन्य स्थितिबन्ध बाँधता है तथा अन्य
स्थितिकाण्डक और अन्य अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता है ।

§ १४७, जिस समय अन्तरकरणका आरम्भ किया उसी समय पूर्वके स्थितिबन्ध,

द्विदिखंडयाणुभागखंडयाणं समत्तिवसेण अण्णो द्विदिवंधो असखेज्जगुणहाणीए
बंधिदुमाढत्तो, अण्णं च द्विदिखंडयं पलिदोवमस्स सखेज्जदिभागपमाणेणागाइदमणु-
भागखंडयं च सेसस्साणंता भागा आगाइदा त्ति सुत्तत्थसंबंधो । एवमकमेणाढत्ताण-
मेदेसिं समत्ती कधं होदि त्ति चे वुच्चदे—

* अणुभागखंडयसहस्सेमु गदेसु अण्णमणुभागखंडयं तं चेव द्विदि-
खंडयं सो चेव द्विदिवंधो अंतरस्स उक्कीरणद्धा च समगं पुण्णाणि ।

§ १४८. कुदो एवं चे ? अणुभागखंडयसहस्साणि अब्भंतरं करिय द्विदत्तकाल-
भाविविद्विदिवंध-द्विदिखंडयकालेहिं अंतर्करणद्वाए सरिमपमाणभुवगमादो । तदो एगद्विदि-
बंधकालमेत्तेण कालेणंतर्करणं ममाणेदि त्ति एमो एत्थ सुत्तत्थसम्भावो । संपहि
एत्तिएण कालेणतर कुणमाणो अंतर्गद्विदीणमुक्कीरिज्जमाण पदेसग्ग कत्थ णिक्खिखवादि,
किं विदियद्विदीए, किं वा पढमद्विदीए, आहो उदयत्थ णिक्खिखवादि त्ति आसंकाए
णिच्छयविहाणदुमुत्तरं पवधमाह—

* अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा बड्झंति वेदिज्जंति तेसिं कम्माण-
मंतरद्विदिओ उक्कीरंतो तासिं द्विदीणं पदेसग्गं बंधपयडीणं पढमद्विदीए च
देदि विदियद्विदीए च देदि ।

स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डक समाप्त हो जानेके कारण अन्य स्थितिवन्धको असंख्यात
गुणहानिरूपसे बंधनेके लिये आरम्भ किया, अन्य स्थितिकाण्डकको पत्न्योपमके संख्यातवे
भाग प्रमाणरूपसे ग्रहण किया और शेष अनुभागके अनन्त बहुभागको ग्रहण किया यह इस
सूत्रका अर्थके साथ सम्यन्ध है । इस प्रकार युगपत् आरम्भ किये गये इनकी समाप्ति कैसे
होती है ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं—

* हजारों अनुभागकाण्डकोंके व्यतीत होनेपर अन्य अनुभागकाण्डक, वही
स्थितिकाण्डक, वही स्थितिवन्ध और अन्तरका उत्कीरणकाल एक साथ सम्पन्न होते हैं ।

§ १४८. शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—हजारों अनुभागकाण्डकोंको भीतरकर तत्काल होनेवाले स्थितिवन्ध और
स्थितिकाण्डकके कालके समान अन्तरकरणका काल स्वीकार किया गया है । अतः एकस्थिति-
बन्धकालप्रमाण कालके द्वारा अन्तरकरणको सम्पन्न करता है यह यहाँ सूत्रके अर्थका तात्पर्य
है । अब इतने काल द्वारा अन्तरको करता हुआ अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके प्रवेशोंको उत्कीर्ण
कर कहीं निश्चित करता है, क्या द्वितीय स्थितिमें निश्चित करता है या क्या प्रथम स्थितिमें
निश्चित करता है ऐसी आशंका होनेपर निश्चय करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* अन्तर करनेवाले जीवके जो कर्मपुञ्ज बंधते हैं और वेदे जाते हैं उन कर्मोंकी
अन्तरस्थितियोंको उत्कीरण करता हुआ उन स्थितियोंके प्रदेशपुञ्जको बन्धको प्राप्त
होनेवाली प्रकृतियोंको प्रथम स्थितिमें देता है और द्वितीय स्थितिमें देता है ।

§ १४९. जे कम्मंसा बज्जंति च वेदिज्जंति च, जहा पुरिसवेदो अण्णदरसंजलणो वा, तेसिमंतरद्विदीसु उक्कीरिज्जमाणं पदेसग्गं कत्थ णिक्खिखदि त्ति चे ? पुचदे— बंधपयडीणसुदइन्लाणं पढमद्विदीए च ओकद्विदूष देदि, बंधपयडीणमेव विदियद्विदीए च देदि, बंधसम्भावेण तत्पुकड्डणाए विरोहाभावादो । तदो बंधोदयसहिदाणं पयडीण-मंतरद्विदीसु उक्कीरिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स समयविरोहेण बंधपयडीणं पढम-विदिय-द्विदीसु संचरणमविरुद्धमिदि सिद्धो सुत्तथसम्भावो । संपहि जेसिं बंधो उदयो च णत्थि, जहा अट्टकसाय-छण्णोकसायाणं, तेसिमंतरद्विदीसुक्कीरिज्जमाणं पदेसग्गं कत्थ कथं संछुहदि त्ति आसंकाए इदमाह—

* जे कम्मंसा ण बज्जंति ण वेदिज्जंति तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि, बज्जमाणणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु द्विदीसु देदि ।

§ १५०. कुदो एदेसिं पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि ? उदयाभावेण पढमद्विदि-संबंधाभावादो बंधसंबंधाभावेण विदियद्विदीए उक्कड्डणामावादो च । तदो सत्थाण-परिहारेण णिरुद्धपयडीणमंतरद्विदिसुक्कीरिज्जमाणं पदेसग्गं बज्जमाणपयडीणं विदिय-द्विदीए बंधपढमणिसेयमादिं कादूणुवरिमबंधद्विदीसु उक्कड्डणाए णिक्खिखदि सोदयाणं

§ १४९. शंका—जो कर्मपुञ्ज बँधते हैं और वेदे जाते हैं, जैसे कि पुरुषवेद और अन्यतर संज्वलन, उनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमेंसे उत्कीरण होनेवाले प्रवेशपुंजको कहाँ निक्षिप्त करता है ?

समाधान—कहते हैं, उदयवाली बन्धप्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिमें अपकर्षित करके देता है और बन्ध प्रकृतियोंकी ही द्वितीय स्थितिमें देता है, क्योंकि बन्धरूप होनेसे उनमें उत्कर्षण होनेमें विरोधका अभाव है । इसलिये बन्ध और उदयसहित प्रकृतियोंकी अन्तर-सम्बन्धी स्थितियोंमेंसे उत्कीर्ण होनेवाले प्रवेशपुंजका आगमके अनुसार वयाविधि बन्ध-प्रकृतियोंकी प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें सञ्चरण अविरुद्ध है इस प्रकार सूत्रार्थ सिद्ध होता है ।

अब जिन प्रकृतियोंका बन्ध और उदय दोनों नहीं होते, जैसे आठ कषाय और छह नोकषाय, उनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमेंसे उत्कीर्ण होनेवाले प्रवेशपुंजको कहाँ किस प्रकार निक्षिप्त करता है ऐसी आशंका होनेपर इस सूत्रको कहते हैं—

* जो कर्मपुञ्ज न बँधते हैं और न वेदे जाते हैं उनके उत्कीर्ण किये जानेवाले प्रवेशपुंजको स्वस्थानमें नहीं देता है, बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंकी अनुत्कीर्ण होनेवाली स्थितियोंमें देता है ।

§ १५०. शंका—इनके प्रवेशपुंजको स्वस्थानमें क्यों नहीं देता है ?

समाधान—क्योंकि उदयका अभाव होनेसे एक तो इनका प्रथम स्थितिसे सम्बन्धका अभाव है, दूसरे इनके बन्धरूप न होनेसे द्वितीय स्थितिमें उत्कर्षणका अभाव है । इसलिये स्वस्थानके परिहार द्वारा विवक्षित प्रकृतियोंकी अन्तरसम्बन्धी स्थितिके उत्कीर्ण होनेवाले

पढमट्टिदीए च ओकट्टियूण णिक्खिवदि त्ति एसो एत्थ सुत्तथणिच्छओ । एत्थ 'बज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसुट्टिदीसु' त्ति वुत्ते बंधपयडीणं विदियट्टिदि-सर्वांधिणीसु अणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु सोदयाणमणुक्कीरमाणपढमट्टिदिसंबंधिणीसु च णिक्खिवदि त्ति धेतत्तवं । संपहि जेसिं कम्माणं बंधसंभवे णत्थि, केवलमुदयो चेष, जहा इत्थ-णवुंसयवेदाणं, तेसिमंतरट्टिदीसुक्कीरिजमाणस्स पदेसग्गस्स कत्थ संचरण-मिच्चासंकाए णिण्णयविहाणट्टुमुत्तरसुत्तमोहण्णं—

* जे कम्मसा ण बज्झंति वेदिज्जंति च तेसिमुक्कीरमाणयं पदेसग्गं अप्पणो पढमट्टिदीए च देवि, बज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु च ट्टिदीसु देवि ।

§ १५१. एदेसिं कम्माणमुक्कीरिजमाणं पदेसग्गमप्पणो पढमट्टिदीए सोदयाणं संजलणाणं च पढमट्टिदीए णिसिंचदि, अप्पणो विदियट्टिदीए ण णिसिंचदि, बंधसंबंधा-भावेण सत्थाणे उक्कट्टणाभावादो । किंतु बज्झमाणीणमणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु देवि, बंधसंभवेण तत्थुकट्टणाए विरोहाभावादो । एत्थ वि बज्झमाणीणमणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु त्ति वुत्ते बंधपयडीणं विदियट्टिदीए जासिमुदयो अत्थि तासिं पढमट्टिदीए च गहणं कायत्तवं । संपहि जेसिं कम्माणं बंधो अत्थि केवलमुदयो णत्थि, जहा सेसवेदोदये

प्रदेशपुञ्जको बंधनेवालो प्रकृतियोंको द्वितीय स्थितिके बन्धरूप प्रथम निषेकसे लेकर उपरिम बन्धरूप स्थितियोंमें उत्कर्षण करके निश्चित करता है यह इस सूत्रके अर्थका निश्चय है ।

यहाँ पर सूत्रमें 'बज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु' ऐसा कहनेपर बन्ध प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिसम्बन्धी अनुत्कीर्ण होनेवाली स्थितियोंमें और उदयसहित बन्ध-प्रकृतियोंकी अनुत्कीर्ण होनेवाली प्रथम स्थितियोंमें निक्षेप करता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । अब जिन कर्मोंका बन्ध सम्भव नहीं है, केवल उदय ही है, जैसे स्वीवेद और नपुंसकवेद, उनका अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमेंसे उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेशपुञ्जका कहाँ संचरण होता है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* जो कर्मपुञ्ज बंधते नहीं, किन्तु वेदे जाते हैं उनके उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेश पुञ्जको अपनी-अपनी प्रथम स्थितिमें देता है और बध्यमान प्रकृतियोंकी अनुत्कीर्ण होनेवाली स्थितियोंमें देता है ।

§ १५१ इन कर्मोंके उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेशपुञ्जको अपनी प्रथम स्थितिमें और उदय-सहित संज्वलनोंकी प्रथम स्थितिमें निश्चित करता है अपनी द्वितीय स्थितिमें निश्चित नहीं करता, क्योंकि इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होनेसे स्वस्थानमें उत्कर्षणका अभाव है । किन्तु बंधनेवालो प्रकृतियोंकी अनुत्कीर्ण होनेवाली स्थितियोंमें देता है, क्योंकि बन्ध होनेसे उनमें उत्कर्षण होनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । यहाँ पर भी 'बज्झमाणीणमणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु' ऐसा कहने पर बन्ध प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिका और जिनका उदय है उनकी प्रथम स्थितिका ग्रहण करना चाहिए । अब जिन कर्मोंका बन्ध होता है, केवल उदय नहीं

गिरुद्धे पुरिसवेदस्स, जहा वा अण्णदरसंजलणोदये गिरुद्धे सेससंजलणाणं, तेसिमंतरट्टिदी-
सुकीरिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स कथं गिक्खेवो होदि त्ति एदस्स गिद्धारणट्ट-
मुत्तरसुत्तावयागे—

* जे कम्मंसा ण बज्झंति ण वेदिज्जंति तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं
बज्झमाणीणं पयडीणमणुक्कीरमाणीसु ट्टिदीसु वेदि ।

§ १५२. एदेसिं च कम्माणं उक्कीरिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स बज्झमाणीणमणुक्कीर-
माणीसु ट्टिदीसु विदियट्टिदिसंबंधिणीसु जासिं नंधपबडीणं पढमट्टिदी अत्थि,
तत्थ य संचरणमोकङ्कणुक्कणुणावसेण ण विरुज्झदि त्ति वुत्तं होइ । संपहि एदेहिं चट्टुहिं
सुत्तेहिं परूविदत्थस्स पुणो वि विसेसणिण्णयं कस्सामो । तं जहा—अंतरं करेमाणो
जाणि कम्माणि बंधदि वेदेदि च तेसिं कम्माणमंतरट्टिदीसुक्कीरिज्जमाणं पदेसग्गमप्पणो
पढमट्टिदीए च गिक्खवदि आवाधं मोत्तण पुणो वि त्रिदियट्टिदीए च गिक्खिवदि,
अंतरट्टिदीसु पुण ण गिक्खिवदि, तासु गित्तेविज्जमाणीसु गिक्खेवविगेहादो । जाव
अंतरदुचरिमफाली ताव सत्थाणे वि ओक्कणुणा-अइच्छावणावलियं मोत्तणंतरट्टिदीसु
पयट्टदि त्ति के वि आइरिया वक्खाणंति एसो अत्थो सच्चवियप्पेसु जाणिय

है, जैसे शेष वेदोंके उदयके रहते हुए पुरुषवेदका केवल बन्ध होता है अथवा जैसे अन्यतर
संज्वलनका उदय रहते हुए शेष संज्वलनोंका मात्र बन्ध होता है, उनकी अन्तरसम्बन्धी
स्थितियोंमेंसे उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेशपुञ्जका कहीं पर निक्षेप होता है इस प्रकार इस सूत्रका
निर्धारण करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

* जो कर्मपुञ्ज न बंधते हैं और न वेदे जाते हैं उनका उत्कीर्ण होनेवाला
प्रदेशपुञ्ज बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंकी उत्कीर्ण नहीं होनेवाली स्थितियोंमें
देता है ।

§ १५२. इन कर्मोंके उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेशपुञ्जका बंधनेवाली प्रकृतियोंकी नहीं
उत्कीर्ण होनेवाली द्वितीय स्थितिसम्बन्धी स्थितियोंमें और जिन बन्ध प्रकृतियोंकी प्रथम
स्थिति है उसमें अपकर्षण और उत्कर्षणके कारण संचरण विरोधको नहीं प्राप्त होता यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । अब इन चार सूत्रों द्वारा प्रकृति अर्थका फिर भी विशेष निर्णय करेंगे ।
यथा—अन्तरको करनेवाला जोव जिन कर्मोंको बाँधता है और वेदता है उन कर्मोंको अन्तर
स्थितियोंमेंसे उत्कीर्ण होनेवाले प्रदेशपुञ्जको अपनी प्रथम स्थितिमें निक्षिप्त करता है और
आवाधाको छोड़कर द्वितीय स्थितिमें भी निक्षिप्त करता है, किन्तु अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें
निक्षिप्त नहीं करता, क्योंकि उनके कर्मपुञ्जसे वे स्थितियाँ रिक्त होनेवाली हैं, इसलिये उनमें
निक्षेप होनेका विरोध है । जबतक अन्तरसम्बन्धी द्विचरम फालि है तब तक स्वस्थानमें भी
अपकर्षणसम्बन्धी अतिस्थापनावलिंको छोड़कर अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें प्रवृत्त रहता है
ऐसा कितने ही आचार्य व्याख्यान करते हैं । यह अर्थ सब विकल्पोंमें जानकर बतलाना

पणणवेयव्वो, सुणे भुत्तकंठमेवविहस्स संभवस्स पडिसिद्धत्तादो । जाणि पुण कम्मणि ण बज्झंति ण वेदिजंति य ताणि कदमाणि त्ति वुत्ते अट्टकमाय-छण्णोकसाय-वेदणीयाणि तेसिमुक्कीरिज्जमाणपदेसग्गमप्पणो द्विदीसु ण दिज्जदि, किंतु बज्झमाणीणं पयडीणं विदियद्विदीए बंधपदमणिसेयमादिं कादूणकड्डुणाए णिसिंचदि । बज्झमाणीण-मबज्झमाणीणं च जासिं पदमद्विदी अत्थि तत्थ वि जहासंभवमोकड्डुण-परपयडिसंकमेहिं णिक्खिवदि, सत्थाणे पुण ण णिक्खिवदि । जे वुण कम्मंसा ण बज्झंति वेदिजंति च, जहा इत्थिवेदो णनुंसयवेदो वा तेसिमंतरद्विदिपदेसग्गं वेत्तूण अप्पणो पदमद्विदीए च ओकड्डुणासंकमेण देदि उदइन्लाणं संजलणाणं पदमद्विदीए च ओकड्डुण-परपयडि-संकमेहिं समयाविरोहेण णिक्खिवदि विदियद्विदीए च बंधम्मि उक्कड्डियूण णिसिंचदि । जे वुण कम्मंसा बज्झमाणा चेव केवलं ण वेदिजमाणा, जहा परोदय-विवक्खाए पुरिसवेदो अण्णदरसंजलणो वा, तेसिमंतरद्विदीसु उक्कीरिज्जमाणस्स पदेसग्गस्स अप्पणो विदियद्विदीए उक्कड्डुणावसेण संचारो सोदयाणं बज्झमाणाणं पदम-विदिय-द्विदीसु अणुदयाणं बज्झमाणाणं विदियद्विदीए च संचारो ण विरुद्धो त्ति । एसो चउण्हं सुत्ताणमत्थसंगहो ।

चाहिए, क्योंकि सूत्रमें इस प्रकारका सम्भव मुक्तकण्ठ प्रतिबद्ध है । परन्तु जो कर्म न बंधते हैं और न वेदे जाते हैं वे कौन हैं ऐसी पृच्छा होने पर वे आठ कषाय और छह नो-कषाय हैं । उनके उत्कीर्ण होनेवाले प्रवेशपुंजको अपनी स्थितियोंमें नहीं देता है, किन्तु बंधने-वाली प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिमें बन्धके प्रथम निषेकसे लेकर उत्कर्षण द्वारा सीचता है । तथा बंधनेवाली और नहीं बंधनेवाली जिन प्रकृतियोंकी प्रथम स्थिति है उनमें भी यथासम्भव अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमद्वारा सीचता है, परन्तु स्वस्थानमें निश्चिन्त नहीं करता । किन्तु जो कर्म बंधते नहीं हैं, किन्तु वेदे जाते हैं, जैसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेद, उनकी अन्तरसंबंधी स्थितियोंके प्रवेशपुंजको ग्रहणकर अपनी-अपनी प्रथम स्थितिमें अपकर्षणसंक्रमद्वारा देता है, उदयको प्राप्त संज्वलनोंकी प्रथमस्थितिमें अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमद्वारा आगमानुसार निश्चिन्त करता है और बन्धकी द्वितीय स्थितिमें उत्कर्षणकर सिञ्चित करता है । परन्तु जो कर्म केवल बन्धको ही प्राप्त होते हैं, वेदे नहीं जाते हैं, जैसे परोदयकी विषक्षामें पुरुष-वेद और अन्यतर संज्वलन, उनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें से उत्कीर्ण होनेवाले प्रवेश-पुञ्जका उत्कर्षणवश अपनी द्वितीय स्थितिमें सञ्चार, उदयसहित बंधनेवाली प्रकृतियोंकी प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें तथा अनुदयरूप बंधनेवाली प्रकृतियोंकी द्वितीय स्थितिमें सञ्चार विरुद्ध नहीं है इस प्रकार पूर्वमें कहे गये चार सूत्रोंका समुच्चयार्थ है ।

विशेषार्थ—जब यह जीव अनिवृत्तिकरणमें चारित्रमोहनीयकी अवशिष्ट बारह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तर करता है तब उन प्रकृतियोंकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमें स्थित प्रवेशपुञ्जका यथासम्भव उत्कर्षण, अपकर्षण या परप्रकृतिसंक्रम होकर निक्षेप कहाँ किस-प्रकार होता है इस प्रकार इस बातका विशेष विचार अनन्तर पूर्वके चार सूत्रोंमें किया गया है । प्रकृतमें उक्त प्रकृतियोंका विचरण इस प्रकार है—

एषेण क्रमेण अंतरमुक्षीरमाणमुक्षिणं ।

§ १५३. एदेणांतरपरुविदेण क्रमेण अंतोमुहुत्तमेत्तफालिसरूवेण पडिसमय-मसंखैअगुणाए सेटीए उकीरिज्जमाणमंतरं चरिमफालीए उकीरिदाए णिरवसेसमुकीरिदं

१. स्वोदय बन्धप्रकृतियाँ यथा—पुरुषवेद'या अन्यतर संव्वलन ।
२. परोदयकी विवक्षामें बन्धप्रकृतियाँ । यथा—पुरुषवेद या अन्यतर संव्वलन ।
३. अबन्धरूप उदयप्रकृतियाँ । यथा—स्त्रीवेद और नपुंसकवेद ।
४. अबन्धरूप और अनुदयरूप प्रकृतियाँ । यथा—मध्यकी आठ कषाय और छह नोकषाय ।

अब इनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके प्रवेशपुञ्जका अन्यत्र निक्षेप किस प्रकार होता है इसका स्पष्टीकरण क्रमसे करते हैं—(१) जब पुरुषवेद और अन्यतर संव्वलनका बन्धके साथ उदय भी रहता है तब इनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुञ्जका एक तो प्रथम स्थितिमें निक्षेप करता है, क्योंकि इनकी प्रथम स्थिति अन्तर्मुहुत्तप्रमाण पाई जाती है। दूसरे इनका उत्कर्षण होकर आबाधाको छोड़कर द्वितीय स्थितिमें निक्षेप करता है। आबाधाको इसलिये छोड़ाया है, क्योंकि उत्कर्षित द्रव्यका आबाधामें निक्षेप नहीं होता। (२) जब अन्यतर संव्वलनको छोड़कर शेष संव्वलनोंका और पुरुषवेदका केवल बन्ध होता है, उदय नहीं होता तब इनकी प्रथम स्थिति आवलिप्रमाण होनेसे इनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुञ्जका एक तो अपनी अपनी द्वितीय स्थितिमें निक्षेप करता है। दूसरे स्वयंको छोड़कर जो अन्य प्रकृतियाँ बँधती हैं उनकी भी प्रथम स्थिति आवलिप्रमाण होनेसे उनकी भी द्वितीय स्थितिमें निक्षेप करता है। तीसरे जो प्रकृतियाँ उदयके साथ बँधती भी हैं उनकी प्रथम और द्वितीय स्थिति दोनोंमें निक्षेप करता है। (३) जब स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जीवके उदय होता है तब इनकी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके निषेकपुञ्जका एक तो अपनी-अपनी प्रथम स्थितिमें निक्षेप करता है। दूसरे इस जीवके जिन संव्वलनोंमें से किसी एक का उदय होता है उसकी प्रथम और द्वितीय स्थितिमें निक्षेप करता है। तथा तीसरे उदयरूप विवक्षित संव्वलनको छोड़कर अन्य जो संव्वलन और पुरुषवेद मात्र बँधते हैं उनकी प्रथम स्थिति आवलिप्रमाण होनेसे उनकी द्वितीय स्थितिमें निक्षेप करता है। (४) अब रहे मध्यके आठ कषाय और छह नोकषाय सो न तो यहाँ इनका बन्ध ही होता है और न उदय ही होता है, अतः इनका, जो प्रकृतियाँ उस समय बँधती हैं उनकी द्वितीय स्थितिमें, निक्षेप करता है और जो प्रकृतियाँ उस समय बन्ध और उदय दोनों रूप हैं उनकी प्रथम और द्वितीय दोनों स्थितियोंसे निक्षेप करता है। परन्तु उनका स्वस्थानमें निक्षेप नहीं होता। कारण स्पष्ट है। यहाँ प्रथम स्थितिमें निक्षेप अपकर्षण होकर होता है, द्वितीय स्थितिमें निक्षेप उत्कर्षण होकर होता है और एक प्रकृतिस्थितिका दूसरी प्रकृतिस्थितिमें निक्षेप परप्रकृति संक्रमपूर्वक यथासम्भव उत्कर्षण या अपकर्षण होकर होता है। शेष कथन मूलके अनुसार जान लेना चाहिये।

इस क्रमसे उत्कीर्ण किया जानेवाला अन्तर उत्कीर्ण किया ।

§ १५३. इस अनन्तर पूर्व कहे गये क्रमसे अन्तर्मुहुत्तप्रमाण फालिरूपसे प्रति समय अक्षर्यावगुणी भ्रोगिद्वारा उत्कीर्ण होनेवाला अन्तर अन्तिम फालिके उत्कीर्ण होनेपर पूरा

होदि चि एसो एदस्स सुत्तस्स अत्थविणिच्छयो । णवरि अंतरचरिमफालीए णिवद-
 माणाए सच्चमंतराड्ढिदिदव्व पढम-विदियट्ठिदीसु पुव्वपरूवणाणुसारेण संकमदि चि
 वत्तव्वं । संपहि एदस्सेवत्थस्स फुड्डीकरणट्ठमिमा परूवणा कीरदे । तं जहा—पढमट्ठिदीदो
 संखेज्जगुणाओ ट्ठिदीओ घेत्तण अवाहव्वमंतरे अंतरं करेमाणो गुणसेट्ठिअग्गगादो
 संखेज्जदिमागं खंडेइ उवरिमण्णाओ च संखेज्जगुणाओ ट्ठिदीओ अंतरट्ठमाणाएदि ।
 एवमागाएतस्स अंतरव्वमंतरे पइट्ठगुणसेट्ठिसीसयं किंपमाणमिदि वुत्ते अणियट्ठिअद्दाए
 जो सेसो संखेज्जदिमागो तेत्तियमेत्तं होदूण पुणो विसेसाहियसुहुमसांपराइयद्दा-
 मेत्तेणव्वमहियं होइ । किं कारणं ? अपुव्वकरणपढमसमए अपुव्वाणियट्ठिकरणद्दाहिंत्तो
 उवसंतद्दाए संखेज्जभागव्वमहियसुहुमसांपराइयद्दामेत्तेण विसेसाहिओ होदूण जो
 गुणसेट्ठिणिकखेवो णिकिखत्तो सो गल्लिदसेसायामत्तादो अंतरपारंभपढमसमये तप्पमाणो
 होदूण दीसइ चि । एदेण कारणेण एवविहगुणसेट्ठिसीसएण सह उवरि संखेज्जगुणाओ
 ट्ठिदीओ घेत्तणंतं करेदि चि णिच्छेयव्वं । एवमेदेणायामेणंतं करेमाणस्स जाव
 अंतरकरणं समप्पइ ताव अंतरग्गमि उक्कीरिज्जमाणट्ठिदीओ अवट्ठिदपमाणोओ चैव भवंति ।
 पढमट्ठिदी वि अवट्ठिदायामो चैव होइ । किं कारणं ? पढमट्ठिदीए एगणिसेगे
 हेट्ठा गल्लिदे उवरिमेगट्ठिदी पढमट्ठिदीए पविसदि, अंतरट्ठिदीसु एगणिसेगस्स पढमट्ठिदीए

उत्कीर्ण हुआ इस प्रकार यह इस सूत्रके अर्थका निश्चय है । इतनी विशेषता है कि अन्तर-
 सम्बन्धी अन्तिम फालिका पतन हो जानेपर अन्तरस्थितिसम्बन्धी सब द्रव्य प्रथम और
 द्वितीय स्थितिमें पहलेकी प्ररूपणाके अनुसार संक्रमित होता है ऐसा कहना चाहिये । अब
 इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये यह प्ररूपणा करते हैं । यथा—प्रथम स्थितिसे संख्यातगुणी
 स्थितियोंको ग्रहणकर आधाधाके भीतर अन्तरको करता हुआ गुणश्रेणीके अग्रभागके अग्र-
 भागमेंसे संख्यातवें भागको खण्डित करता है तथा उससे उपरकी संख्यातगुणी अन्य
 स्थितियोंको भी अन्तरके लिए ग्रहण करता है । इस प्रकार ग्रहण करनेवाले जीवके अन्तरके
 भीतर प्रविष्ट हुए गुणश्रेणीशीर्षका कितना प्रमाण है ऐसी पृच्छा होनेपर अनिबृत्तिकरणके कालका
 जो संख्यातवों भाग शेष है उतना होकर पुनः विशेष अधिक सूक्ष्मसाम्परायका जितना काल
 है उतना अधिक है, क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें अपूर्वकरण और अनिबृत्तिकरणके
 कालसे, तपज्ञान्तमोहके कालसे संख्यातवों भाग अधिक जो सूक्ष्मसाम्परायका काल है उतना,
 विशेष अधिक होकर जो गुणश्रेणीका निक्षेप किया था वह गलित शेष आयामरूप होनेसे
 अन्तरके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें तत्प्रमाण होकर दिखलाई देता है, अतः इस कारणसे
 इस प्रकारके गुणश्रेणीशीर्षके साथ उपरकी संख्यातगुणी स्थितियोंको ग्रहणकर अन्तर करता है
 ऐसा निश्चय करना चाहिये । इस प्रकार इतने आयामवाले अन्तरको करनेवाले जीवके अन्तर
 करनेकी क्रियाके समाप्त होनेतक अन्तरमेंसे उत्कीर्ण होनेवाली स्थितियाँ अवस्थितप्रमाण-
 वाली ही होती हैं, तथा प्रथम स्थिति भी अवस्थित आयामवाली होती है, क्योंकि प्रथम
 स्थितिमेंसे नीचे एक नियेकके गलनेपर उपर प्रथम स्थितिमेंसे एक स्थितिका प्रवेश हो जाता
 है, क्योंकि अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंमेंसे एक नियेकका प्रथम स्थितिमें प्रवेश पाया जाता है

पवेनुबलमादो । त्काले चैव विदियद्विदीए आदिद्विदी वि अंतरद्विदीसु पविसदि चि एदेण कारणेण अंतरायामो पढमद्विदिआयामो च अवद्विदो चैव होदि । तदो एवविहाणेण कीरमाणमंतरमंतोमुहुत्तेण कालेण णिन्लेविदमिदि सिद्धं ।

✱ ताघे चैव मोहणीयस्स आणुपुब्बीसंकमो, लोभस्स असंकमो, मोहणीयस्स एगट्टाणिओ बंधो, णवुंसयवेदस्स पढमसमयउचसामगो, छुसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स एगट्टाणिओ उदयो, मोहणीयस्स संखेअवस्सद्विदिओ बंधो, एदाणि सत्तविहाणि करणाणि अंतरकदपढमसमए होंति ?

तथा उसी समय द्वितीय स्थितिकी पहली स्थितिका भी अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंका प्रवेश हो जाता है, इसलिए इस कारणसे अन्तरायाम और प्रथमस्थितिसम्बन्धी आयाम अवस्थित ही होते हैं, इसलिये इस विधिसे किये जानेवाले अन्तरको अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा निर्लेप कर दिया जाता है यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—यहाँपर जिन स्थितियोंका अन्तर करता है आदि कई बातोंका खुलासा करते हुए जो बतलाया है उसका खुलासा इस प्रकार है—(१) प्रथम स्थितिका जितना प्रमाण है उससे संख्यातगुणी स्थितियोंका अन्तर करता है जो प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थितिके मध्य की स्थितियोंका किया जाता है । (२) गुणश्रेणीका जो अग्रभाग है उसके भी अग्रभागको और उससे भी संख्यातगुणी स्थितियोंको अन्तरके लिये ग्रहण करता है यह उक्त कथनका आशय है । किन्तु अन्तरकरणके कालमें जो कर्मबन्ध होता है उसकी आबाधा इससे भी अधिक होती है (३) यहाँ अन्तरके लिए गुणश्रेणीशीर्षके कितने भागको ग्रहण करता है इसका स्पष्टीकरण करते हुये बतलाया है कि अन्तर करते समय अनिवृत्तिकरणका जो संख्यातवाँ भाग काल शेष है और विशेष अधिक सूक्ष्मसाम्यरायका जितना काल होता है, इन दोनोंके बराबर अन्तरके लिये ग्रहण किया गया गुणश्रेणीशीर्ष है । आगे सप्रमाण इसे ही स्पष्ट किया गया है । (४) अन्तरमेंसे उत्कीर्ण होनेवाली स्थितियाँ और प्रथमस्थिति इनका प्रमाण किस प्रकार अवस्थित है इसका स्पष्टीकरण करते हुये बतलाया है कि अन्तरको प्राप्त होनेवाली स्थितियोंमेंसे नीचे एक स्थितिके प्रथम स्थितिमें प्रवेश करनेपर ऊपर द्वितीय स्थितिमेंसे एक स्थिति अन्तरमें प्रवेश करती रहती है, इसलिये अन्तर क्रियाके होनेके अन्तिम समय तक ये दोनों अवस्थित प्रमाणवाले ही होते हैं । अन्तरकरणके समाप्त होनेपर मात्र प्रथम स्थितिमेंसे एक-एक स्थिति कम होने लगती है । (५) इस प्रकार जिन अन्तरसम्बन्धी स्थितियोंके कर्मपुञ्जका निर्लेपन होता है वे कर्मपुञ्ज यथासम्भव प्रथम और द्वितीय स्थितिमें निक्षिप्त हो जाते हैं और इसलिये अन्तर सम्बन्धी स्थितियोंमेंसे कर्मपुञ्जका अभाव हो जाता है अर्थात् उतनी स्थितियाँ कर्मपुञ्जसे रहित हो जाती हैं । इतना यहाँ अवश्य ही ध्यान रखना चाहिये कि यह अन्तरकरण प्रकृतमें चारिसमोहनीयकी शेष रही १२ कषाय और ९ नोकषायोंका ही होता है ।

✱ तमी मोहनीयका आनुपूर्वीसंक्रम, लोभसंज्वलनका असंक्रम, मोहनीयकर्मका एकस्थानीय बन्ध, नपुंसकवेदका प्रथम समय उपशामक, छह अवलियोंके जानेपर उदीरणा, मोहनीयकर्मका एकस्थानीय उदय, मोहनीयकर्मका संख्यात वर्षकी स्थिति-वाला बन्ध ये सात प्रकारके करण अन्तरकर चुकनेके प्रथम समयमें प्रारम्भ होते हैं ।

§ १५४. अंतरसमत्तिसमकालमेव एदाणि सत्त वि करणाणि पारद्धानि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स समुच्चयत्थो । तत्थ मोहणीयस्स आणुपुच्चीसंकमो णाम पढमं करणं तमेवमणुगंतव्वं । तं जहा—इत्थि-णवुंसयवेदपदेसग्गमेत्तो पाए पुरिसवेदे चैव णियमा संछुहदि । पुरिसवेद-छण्णोकसाय-पच्चक्खाणापच्चक्खायाकोहपदेसग्गं कोहसंजलणस्सुवरि संछुहदि, णाण्णत्थ कत्थ वि । कोहसंजलण-दुविहमाणपदेसग्गं पि माणसंजलणे णियमा संछुहदि, णाण्णमिह कम्मि वि । माणसंजलणदुविहमायापदेसग्गं च णियमा माया-संजलणे णिक्खिवदि । मायासंजलणदुविहलोभपदेसग्गं च लोभसंजलणे णियमा संछुहदि त्ति एसो आणुपुच्चीसंकमो णाम । पुच्चमणाणुपुच्चीए पयड्डमाणो चरित्तमोहपयडीणं संकमो इदाणिमेदाए पड्डिणियदाणुपुच्चीए पयड्डदि त्ति भणिदं होइ ।

§ १५५. 'लोभस्स असंकमो' त्ति विदियं करणं । एत्थ लोभस्से त्ति सामण्ण-णिहेसे वि लोभसंजलणस्सेव गहणं कायव्वं, वक्खाणादो विसेसपडिबत्ती होदि त्ति णायादो । तदो पुच्चमणाणुपुच्चीए लोभसंजलणस्स वि सेससंजलण-पुरिसवेदेसु पयड्डमाणो संकमो एण्हिमाणुपुच्चीसंकमपारंमे पडिलोभसंकमामावेण णिरुद्धो त्ति एत्तो प्पहुडि लोभसंजल-णस्स ण संकमो चैवे त्ति वेत्तव्वं । जइ वि आणुपुच्चीसंकमेण चैव एसो अत्थो समुव-लम्भइ तो वि मंदबुद्धिजणाणुग्गहट्टं पुध णिदिट्ठो त्ति ण पुणरुत्तदोससंभवो ।

§ १५४. अन्तर समाप्तिका जो काल है उसी समयसे ही ये सात करण प्रारम्भ हुये हैं यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है । उनमेंसे मोहनीयकर्मका आनुपूर्वीसंकम यह प्रथम करण है उसे इस प्रकार जानना चाहिये । यथा—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशपुञ्जको यहाँ से लेकर पुरुषवेदमें ही नियमसे संक्रान्त करता है । पुरुषवेद, छह नोकषाय तथा प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यानके प्रदेशपुञ्जको क्रोधसंस्वलनमें संक्रमण करता है, अन्य किसीमें नहीं । क्रोध संस्वलन और दोनों प्रकारके मानके प्रदेशपुञ्जको भी मानसंस्वलनमें नियमसे संक्रमण करता है, अन्य किसीमें नहीं । मानसंस्वलन और दोनों प्रकारके मायाके प्रदेशपुञ्जको नियमसे मायासंस्वलनमें निक्षिप्त करता है । तथा माया संस्वलन और दोनों प्रकारके लोभके प्रदेश-पुञ्जको नियमसे लोभसंस्वलनमें निक्षिप्त करता है यह आनुपूर्वीसंकम है । पहले चारित्रमोह-नीय प्रकृतियोंका आनुपूर्विके बिना प्रवृत्त होता हुआ संक्रम इस समय इस प्रतिनियत आनु-पूर्वीसे प्रवृत्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ १५५ लोभका असंकम यह दूसरा करण है । यहाँ सूत्रमें 'लोभस्स' ऐसा सामान्य निर्देश करनेपर भी लोभसंस्वलनका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि व्याख्यानसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है ऐसा न्याय है । इसलिये पहले आनुपूर्विके बिना लोभसंस्वलनका भी शेष संस्वलन और पुरुषवेदमें प्रवृत्त होनेवाला संक्रम यहाँ आनुपूर्वीसंकमका प्रारम्भ होनेपर प्रतिलोभसंकमका अभाव होनेसे रुक गया । यहाँसे लेकर लोभसंस्वलनका संक्रम नहीं ही होता ऐसा ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि आनुपूर्वीसंकमसे ही यह अर्थ उपलब्ध हो जाता है तो भी मन्वबुद्धिजनोंका अनुग्रह करनेके लिये पृथक् निर्देश किया, इसलिये पुनरुक्त दोष नहीं प्राप्त होता ।

१५६. 'मोहणीयस्त एयद्गुणितो बंधो'ति तद्विचं करणं । एदस्सत्थो—एत्तो हेट्ठं देसधादिविद्वाणिएहिंते मोहणीयस्साणुभागबन्धो एण्हं परिणामपाहम्मणेण ओहड्डिण्ण एयद्गुणितो जादो ति वेत्तव्वो । 'णनुंसयवेदपढमसम्मत्तउवसामओ' ति चउत्थ-
करणमेत्थादवत्तं, णनुंसयवेदस्सेव पढममावुत्तकरणेण उवसामणकिसियाए एत्तो पवुत्ति-
दंसण्णादो । 'छसु आवलियासु गदासु उदीरणा' एदं पंचमं करणमेत्थादवत्तज्जे ।
एदस्सत्थविबरणमुवरि चुण्णिसुत्तावलंबणेण पवंचइस्सामो । 'मोहणीयस्त एगद्गुणितो
उदयो' ति छट्ठं करणं । एदस्सत्थो—पुव्वं विद्वाणियदेसधादिसरूवेण पयद्गुमाणो
मोहणीयाणुभागोदयो अंतरकरणानंतरमेव एयद्गुणियसरूवेण परिणदो ति भणिदं
होइ । 'मोहणीयस्त संखेज्जवस्सिओ द्विदिबंधो' ति सत्तमं करणं । एदस्सत्थो—पुव्व-
मसंखेज्जवस्सियस्स मोहणीयद्विदिबंधस्स एण्हं सुट्ठु ओहड्डिण्ण संखेज्जवस्ससहस्स-
पमाणेणावट्ठानं होइ ति पुत्तं होइ । सेसाणं पुण कम्मणमसंखेज्जवस्सियो वेव ठिदि-
बंधो, तेसिमज्ज वि संखेज्जवस्सियद्विदिबंधपारंभिसियस्साणुप्पत्तीदो । एवमेदेसिं
सत्तण्हं करणाणमंतरं कदपढमसमए जुगवं पारंभो होदि ति एदेण सुत्तेण पदुप्पाइय
संपहि 'छसु आवलियासु गदासु उदीरणा' ति जं पदं तस्स फुडोकरणट्ठमुवरिंमं
सुत्तपबंधमादवेइ—

* छसु आवलियासु गदासु उदीरणा णाम, किं भणिदं होइ ।

१५६. मोहनीयका एकस्थानीय बन्ध यह तीसरा करण है। इसका अर्थ—इससे पूर्व
देशघाति द्विस्थानीयरूपसे मोहनीयका अनुभागबन्ध होता रहा, अब परिणामोंके माहात्म्य
बश घट कर वह एकस्थानीय हो गया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। नपुंसकवेदका प्रथम
समय उपशामक यह चौथा करण यहाँपर आरम्भ हुआ है, क्योंकि प्रथम आयुक्तकरणके द्वारा
नपुंसकवेदकी ही उपशामन क्रियामें यहाँसे प्रवृत्ति देखी जाती है। छह आवलियाओंके जाने-
पर उदीरणा इस पाँचवें करणको यहाँ आरम्भ करता है। इसके अर्थका विवरण आगे
पूर्णिमसूत्रके अवलम्बन द्वारा विस्तारसे करेंगे। मोहनीयका एकस्थानीय उदय यह छटा करण
है। इसका अर्थ—पहले द्विस्थानीय देशघातिरूपसे प्रवृत्त हुआ मोहनीय कर्मका अनुभाग-
उदय अन्तरकरणके अनन्तर ही एकस्थानीयरूपसे परिणत हो गया वह उक्त कथनका तात्पर्य
है। 'मोहनीयकर्मका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध' यह सातवाँ करण है। इसका अर्थ—पहले
मोहनीयकर्मका जो स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षप्रमाण होता रहा उसका इस समय काफी घट-
कर संख्यात हजार वर्षप्रमाणरूपसे अवस्थान होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। परन्तु
शेष कर्मोंका असंख्यात वर्षप्रमाण ही स्थितिवन्ध होता है, क्योंकि उनका अभी भी संख्यात
वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस प्रकार इन सात करणोंका अन्तर कर
चुक्नेके प्रथम समयसे ही युगपत् प्रारम्भ होता है इस प्रकार इस सूत्र द्वारा कथन करके
अब 'छह आवलियाओंके व्यतीत होनेपर उदीरणा' यह जो सूत्रपद है उसका स्पष्टीकरण
करनेके लिये आगेके सूत्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

* 'छह आवलियाओंके व्यतीत होनेपर उदीरणा' ऐसा कहनेका क्या तात्पर्य है ।

§ १५७. सेसाणं छण्हं करणाणमत्थो सुगमो त्ति तत्परिच्छाणेण जत्थ किंचि वि वत्तव्वमत्थि तव्विसयमेव पुच्छावक्कमेदमुवरि णिबद्धमिदि दट्टुव्वं । तं क्वं ? बंधावलियादिकंतस्स कम्मस्स उदीरणा होइ त्ति सुपसिद्धमेदं, इदं पुण छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति तव्विरुद्धमिदाणि परूविज्जदे, तदो छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति किं भणिदं होदि, णेदस्स सरूवं सम्ममवगच्छामो त्ति एदेण पुच्छा कदा होइ । संपहि एवं पुच्छाविसयीकयस्स पयदत्थस्स णिण्णयविहाणट्टमुत्तरो विहासागंधो—

* विहासा ।

§ १५८. सुगमं ।

* जहा णाम समयपबद्धो बद्धो भावलियादिकंतो सक्को उदीरेदु-मेवमंतरादो पढमसमयकदादो पाए जाणि कम्माणि बज्जंति मोहणीयं वा मोहणीयवज्जाणि वा ताणि कम्माणि छसु आवलियासु गदासु सक्काणि उदीरेदुं ऊणिगासु छसु भावलियासु ण सक्काणि उदीरेदुं ।

§ १५९. जहा खलु हेट्ठा सव्वत्थेव समयपबद्धो बंधावलियादिकंतमेत्तो चेव

§ १५७ शेष छह करणोंका अर्थ सुगम है, इसलिए उनको छोड़कर जिस विषयमें कुछ भी बक्तव्य है तद्विषयक ही पुच्छावाक्य यह ऊपर निबद्ध किया गया है ऐसा जानना चाहिए।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—जिस कर्मकी बन्धावलि व्यतीत हो गई है उसकी उदीरणा होती है इस प्रकार यह सुपसिद्ध है, परन्तु छह आवलियाओंके जाने पर उदीरणा होती है यह उसके विरुद्ध है, उसकी इस समय प्ररूपणा करते हैं—‘छह आवलियाओंके जानेपर उदीरणा होती है’ ऐसा कहनेका क्या तात्पर्य है, इसका स्वरूप सम्यक् प्रकारसे नहीं जानते हैं इस प्रकार इस सूत्रद्वारा पुच्छा की गई है । अब इस प्रकार पुच्छाके विषय हुए इस प्रकृत अर्थका निर्णय करनेके लिये आगेका विभाषा ग्रन्थ आया है—

* उसका विशेष व्याख्यान इस प्रकार है ।

§ १५८. यह सूत्र सुगम है ।

* जिस प्रकार बन्धको प्राप्त हुआ समयप्रबद्ध एक आवलिके बाद उदीरणाके लिए शक्य होता रहा इस प्रकार अन्तर किये जानेके प्रथम समयसे लेकर मोहनीय और मोहनीयके अतिरिक्त अन्य जो कर्म बँधते हैं वे कर्म बन्ध-समयसे लेकर छह आवलि-प्रमाण काल जानेपर उदीरणाके लिये शक्य हैं, वे छह आवलियोंसे कम समयमें उदीरणाके लिये शक्य नहीं हैं ।

§ १५९, जैसे पहले सर्वत्र ही समयप्रबद्ध बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद ही नियमसे

सको उदीरेदुं, ण एवमेत्थ सकिज्जदे । किंतु अंतरादो पढमसमयकदादो पाये जाणि कम्माणि बज्जंति मोहणीयं वा मोहणीयवजाणि वा णाणावरणादीणि ताणि कम्माणि छसु आवलियासु समइक्कंतासु सकाणि उदीरेदुं । जाव बंधसमयप्पहुडि छ आवलियाओ संपुण्णाओ ण गदाओ ताव णो उदीरेदुं सकाणि चि भणिदं होइ । जहा अंतरकरणादो हेट्ठा सव्वत्थ बंधावलियादिकंतस्स उदीरणापाओगत्तणियमो सहावपडिबद्धो, एवमेदम्मि वि विसये बंधसमयप्पहुडि छावलियादिकंतस्स उदीरणापाओगत्तणियमो सहावणिबद्धो चि एसो एदस्स भावत्थो ।

* एसा छसु आवलियासु गदासु उदीरणा चि सण्णा ।

§ १६०. गयत्थमेदं पुव्वसुत्तथोवसंहारवक्कं । संपहि एदस्सेवत्थस्स णिण्णय-
करणट्ठं किंचि कारणंतरं परूवेमाणो उत्तरं पबंधमाह—

* केण कारणेण छसु आवलियासु गदासु उदीरणा भवदि ।

§ १६१. पुव्वं बंधावलियादिकंतसमये चेव पयट्टमाणा उदीरणा केण कारणेण
एदम्मि विसये छसु आवलियासु गदासु पयट्टदि चि एसो एत्थ पुच्छाहिप्पाओ ।

* णिदरिस्सणं ।

§ १६२. छसु आवलियासु गदासु उदीरणा चि एदस्सत्थस्स णिण्णयकरणट्ठं

उदीरणाके लिए शक्य रहता आया है इस प्रकार यहाँ पर शक्य नहीं है । किन्तु अन्तर किये जानेके प्रथम समयसे लेकर जो कर्म बँधते है मोहनीय या मोहनीयके अतिरिक्त अन्य ज्ञानावरणादिक वे कर्म छह आवलियोंके व्यतीत होनेके बाद उदीरणाके लिये शक्य होते हैं । बन्ध समयसे लेकर जब तक पूरी छह आवलियाँ व्यतीत नहीं होती हैं तब तक उनकी उदीरणा होना शक्य नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । जिस प्रकार अन्तरकरणके पूर्व सर्वत्र बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद बद्ध कर्म उदीरणाके योग्य होता है यह नियम स्वभावसे प्रतिबद्ध है उसी प्रकार इस स्थल पर भी बन्धसमयसे लेकर छह आवलि व्यतीत होनेके बाद बद्ध कर्म उदीरणाके योग्य होता है यह नियम स्वभावसे प्रतिबद्ध है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

* इसको छह आवलियोंके जानेपर उदीरणा यह संज्ञा है ।

§ १६० पूर्वके सूत्रके अर्थका उपसंहार करनेवाला यह सूत्रवाक्य गतार्थ है । अब इसी अर्थका निर्णय करनेके लिये किंचित् कारणान्तरका कथन करते हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* किस कारणसे छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है ?

§ १६१. पहले बन्धावलिके बादके समयमें ही प्रवृत्त होनेवाली उदीरणा इस स्थलपर किस कारणसे छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर प्रवृत्त होती है यह यहाँपर की गई प्रच्छाका अभिप्राय है ।

* प्रकृत विषयके समर्थनमें निदर्शन ।

§ १६२. छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा होती है इस प्रकार इस अर्थका

किंचि णिदरिसणमिह वचहस्सामो चि भणिदं होइ ।

* जहा णाम बारस किट्ठीओ भवे पुरिसवेदं च बंधइ तस्स जं पदेसगं पुरिसवेदे बद्धं ताव आवलियं अच्छदि ।

§ १६३. उवसमसेठीए ताव बारसण्हं किट्ठीणं संभवो चेष णत्थि, खवगसेडि-विमयाणं तासिमेत्थासंभवणिण्णयादो । तदो खवगसेडिसमालंबणेण णिदरिसणमेदं घटावियव्वं । तत्थ वि पुरिसवेदबंधविसये बारसकिट्ठीणमसंतासंभवो चेष, पुरिसवेदे संछुद्धे अस्सकण्णकरणे च णिट्ठिदे तदो परं किट्ठीकरणद्वाए बारसण्हं किट्ठीणं सरूवोध-लंभादो । तदो एवंबिहइसंभवाभावे वि संभवसद्दमस्सियूण जइ किह वि एसो संभवो ह्वेज्ज तो णिदरिसणमेदमेत्थमणुगंतव्वमिदि एसो णिदरिसणोवण्णसो आढविज्जदि । तं जहा—बारसकिट्ठीसु सेचीयसरूवेण विज्जमाणासु जइ तत्थ पुरिसवेदबंधसंभवो होज्ज तो तस्स तहाबंधमाणस्स खवगस्स पुरिसवेदसरूवेण जं बद्धं पदेसगं तं ताव सत्थाणे चेष बंधावलियमेत्तकालमविचल्लिदसरूवं होदूण चिट्ठिदि चि एसा ताव एका आवलिया उदीरणावत्थापरंमुही समुवल्लभदे ।

* आवलियाविक्रं तं कोहस्स पढमकिट्ठीए विदियकिट्ठीए च संका-मिज्जदि ।

निर्णय करनेके लिए किंचित् निदर्शन यहाँ बतलावेंगे यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* यथा—बारह कृष्टियाँ होवें और पुरुषवेदका बन्ध होता है तो उसके पुरुष-वेदमें बद्ध प्रदेशपुञ्ज एक आवलि काल तक तदवस्थ रहता है ।

§ १६३. उपशमश्रेणिमें तो बारह कृष्टियोंका होना सम्भव ही नहीं है, क्योंकि क्षपक-श्रेणिषिषयक उनका यहाँ नहीं होनेका निर्णय है । अतः क्षपकश्रेणिका आलम्बन लेकर इस निदर्शनको घटित करना चाहिये । उसमें भी पुरुषवेदके बँधते समय बारह कृष्टियोंका होना असम्भव ही है, क्योंकि पुरुषवेदकी निर्जरा होनेके बाद अवकर्मकरणके सम्पन्न होनेपर तत्पश्चात् कृष्टिकरणके कालमें बारह कृष्टियोंका सद्भाव पाया जाता है । इसलिए इस प्रकारकी सम्भावना नहीं होनेपर भी सम्भव शब्दका आश्रयकर यदि कहीं भी यह सम्भव होवे तो इस निदर्शनको यहाँपर जानना चाहिये इस प्रकार इस निदर्शनका निर्देश किया है । यथा—सिचनरूपसे बारह कृष्टियोंके रहते हुए यदि वहाँ पुरुषवेदका बन्ध सम्भव होवे तो उस प्रकार बँधनेवाले उस क्षपकके पुरुषवेदरूपसे जो प्रदेशपुञ्ज बँधा है वह सर्वप्रथम तो स्वस्थानमें ही बन्धावलिप्रमाणकाल तक अविचलितस्वरूप होकर ठहरा रहता है इस प्रकार यह एक आवलि-उदीरणासे विमुख उपलब्ध होती है ।

* बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद पुरुषवेदके उस प्रदेशपुञ्जको क्रोधकी प्रथम कृष्टिमें और द्वितीय कृष्टिमें संक्रान्त करता है ।

§ १६४. सत्तामे बंधावलिवादिक्तं पुरिसवेदस्स णिरुद्धपदेसग्गं कोहसंजलणस्स पढमविदियकिट्ठीसु जदो संकामिज्जदे तदो तत्थ संकमणावलियमेत्तकालमवचिद्धिद-सरूवेणावचिद्धे । तम्हा एसा विदिया आवलिया उदीरणापजायविमुही सम्भवल्लमदि चि एसो एदस्स सुत्तस्स अत्थविणिण्णओ ।

* विदियकिट्ठीदो तम्हि आवलियादिककंतं तं कोहस्स तदियकिट्ठीए च माणस्स पढमविदियकिट्ठीसु च संकामिज्जदि ।

§ १६५. एवं कोहस्स पढम-विदियकिट्ठीसु संकंतं पुरिसवेदस्स पदेसग्गं तत्थावलियमेत्तकालावद्वाणेण संकमपाओग्गं होदूण कोहविदियकिट्ठीदो कोहस्स तदिय-किट्ठीए माणस्स पढम-विदियकिट्ठीसु च संकामिज्जदि चि एसो तदियावलियविसयो ददुज्जो, तत्थ संकमणावलियमेत्तकालमणवट्ठिदस्स अवत्थंतरसंकंतीए अमावादो ।

* माणस्स विदियकिट्ठीदो तम्हि आवलियादिककंतं माणस्स च तदिय-किट्ठीए मायाए पढम-विदियकिट्ठीसु च संकामिज्जदे ।

§ १६६. सुगममेदं सुचं । तदो एत्थ वि संकमणावलियमेत्तकालमवचिद्धिदि चि एसो चउत्थावलियविसयो ।

§ १६४ स्वस्थानमें बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद पुरुषवेदके विवक्षित प्रदेशपुञ्जको क्रोधलज्ज्वलनकी प्रथम और द्वितीय कृष्टिमें यतः संक्रामता है अतः वहाँपर संक्रामावलिप्रमाण काल तक वह अविलितस्वरूपसे ठहरा रहता है, इसलिये वह दूसरी आवलि उदीरणाले विसुख उपलब्ध होती है यह इस सूत्रके अर्थका निर्णय है ।

* क्रोधकी उक्त कृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदके उस प्रदेशपुञ्जको एक आवलिके व्यतीत होनेके बाद क्रोधकी दूसरी कृष्टिमेंसे क्रोधकी तीसरी कृष्टिमें और मानकी पहली और दूसरी कृष्टियोंमें संक्रान्त करता है ।

§ १६५. इस प्रकारपुरुषवेदका जो प्रदेशपुञ्ज क्रोधकी प्रथम और द्वितीय कृष्टियोंमें संक्रान्त हुआ और जो वहाँ आवलिप्रमाण काल तक अवस्थान होनेसे संक्रमके योग्य हो गया उसे क्रोधकी दूसरी कृष्टिमेंसे क्रोधकी तीसरी कृष्टिमें तथा मानकी प्रथम और द्वितीय कृष्टियोंमें संक्रान्त करता है इस प्रकार यह तीसरी आवलिका विषय जानना चाहिये, क्योंकि वहाँपर संक्रमणावलिप्रमाण काल तक अवस्थित हुए उसका अवस्थान्तररूपसे संक्रान्त होनेका अभाव है ।

* क्रोध और मानकी उक्त कृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदके उस प्रदेशपुञ्जको एक आवलिके व्यतीत होनेके बाद मानकी दूसरी कृष्टिमेंसे मानकी तीसरी कृष्टिमें तथा मायाकी प्रथम और द्वितीय कृष्टियोंमें संक्रान्त करता है ।

§ १६६. वह सूत्र सुगम है । इसलिये यहाँ पर भी संक्रमणावलिप्रमाण काल तक अवस्थित रहता है इस प्रकार यह चौथी आवलिका विषय है ।

* मायाए विदियकिट्टीदो तम्हि आवलियादिक्कं तं मायाए तदिय-
किट्टीए लोभस्स च पढम-विदियकिट्टीसु संकामिज्जदि ।

§ १६७. गयत्थमेदं पि सुत्तं ।

* लोभस्स विदियकिट्टीदो तम्हि आयलियादिक्कं तं लोभस्स तदिय-
किट्टीए संकामिज्जदि ।

§ १६८. तदो पुव्वुत्तपणालीए आगंतूण लोभस्स तदियकिट्टीए संकमिय तत्थ
संकमणावलियमेत्तकालभवट्ठिदं संतं पुव्वणिउद्धपुरिसवेदपदेसग्गं छावलियादिक्कंतं होदूण
उदीरणापओग्गं होदि त्ति एसो एदस्स मुत्तस्स भाघत्थो । एवमेदं बालजणाणुग्गहट्ठं
णिदरिसणोवण्णासं कादूण संपहि एदस्सेवत्थस्स दढोकरणट्टमुत्तरसंहारवक्कमाह—

* एदेण कारणेण समयपबद्धो छुसु आवलियासु गदासु उदीरिज्जदे ।

§ १६९. गयत्थमेदं पुव्वुत्तथोवसंहारवक्कं । संपहि जहा एसो अत्थो पुरिसवेद-
णवक्कबंधमस्सियूण णिदरिसिदो, किमेवं कोहसंजलणादीणं पि णिदरिसेदुं सक्किज्जदे आहो
ण सक्किज्जदि त्ति आसंकाए णिरारेगीकरणट्टमुत्तरसुत्तारंभो—

* मान और मायाकी उक्त कृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदके उस प्रदेशपुञ्जको एक
आवलि व्यतीत होनेके बाद मायाकी दूसरी कृष्टिमेंसे मायाकी तीसरी कृष्टिमें तथा
लोभकी पहली और दूसरी कृष्टिमें संक्रान्त करता है ।

§ १६७ यह सूत्र गतार्थ है ।

* माया और लोभकी उक्त कृष्टियोंमें रहे हुए पुरुषवेदके उस प्रदेशपुञ्जको
एक आवलि व्यतीत होनेके बाद लोभकी दूसरी कृष्टिमेंसे लोभकी तीसरी कृष्टिमें
संक्रान्त करता है ।

§ १६८. इसलिये पूर्वोक्त प्रणालीसे आकर लोभकी तीसरी कृष्टिमें संक्रान्त होकर तथा
वहाँ संक्रमणावलिप्रमाण काल तक अवस्थित हुआ पूर्वमें विवक्षित पुरुषवेदका प्रदेशपुञ्ज छह
आवलि कालके जानेके बाद उदीरणाके योग्य होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है । इस प्रकार
बालजनोंके अनुग्रहके लिए इस निर्दर्शनका उपन्यास करके अब इसी अर्थको वृद्ध करनेके लिये
उपसंहार वाक्यको कहते हैं—

* इस कारणसे नवीन बद्ध समयप्रबद्ध छह आवलियोंके व्यतीत होनेपर उदीरणा-
को प्राप्त किया जाता है ।

§ १६९. पूर्वोक्त अर्थका उपसंहार करनेवाला यह वचन गतार्थ है । अब जिस प्रकार
इस अर्थको पुरुषवेदके नवक बन्धका आश्रयकर दिखलाया है क्या इस प्रकार क्रोध संभवलन
आदिको भी दिखलाना शक्य है अथवा शक्य नहीं है इस प्रकारकी आज्ञाके निवारण करने-
के लिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

जहा एवं पुरिसवेदस्स समयपबद्धादो छसु आवल्लियासु गदासु उदीरणा ति कारणं णिदरिसिदं तथा एवं सेसाणं कम्माणं जदि वि एसो विधी णत्थि, तथा वि अंतरादो पढमसमयकवादो पाए जे कम्मंसा बज्ज्भति तेसि कम्माणं छसु आवल्लियासु गदासु उदीरणा ।

§ १७०. सेसाणं कम्माणं कोहसंजलणादीणं णाणावरणादीणं च जइ वि एसो विधी णिदरिसणोवणयविसयो ण संबवइ तथा वि पुरिसवेदविसयणिदरिसणोवणयमेदं णिवंधणं कादूण अंतरकरणादो उवरि सच्चत्थसच्चैसि कम्माणं सहावदो वेव छसु आवल्लियासु गदासु उदीरणाणियमो समालंवेयव्वो ति एसो एदस्स भावत्थो ।

एवं णिदरिसणमेत्तं तं पमाणं कावुं णिच्छयदो गेण्हियव्वं ।

§ १७१. सिस्समइवित्थारणट्टमेदमसब्भूदत्थोदाहरणमुहेण णिदरिसणोवणयण-मम्हेहिं पयासिदं, अण्णहा अव्वुप्पण्णाण सिस्साणं पयदत्थविसयसंमोहणिरायरणानुव-वत्तीदो । तदो दिसामेत्तेणेदेण पुब्बुत्तमत्थजादं पमाणं कादूण विप्पडिवत्तीए विणा णिच्छयदो गेण्हियव्वं, सच्चण्हुवएसस्स सिद्धसरूवस्स विप्पडिवत्तिविसयमुल्लंघियूण सम्भवट्टाणादो ति एसो एदस्स भावत्थो ।

जिस प्रकार उक्त विधिसे पुरुषवेदके नूतन समयप्रबद्धमेंसे छह आवल्लियोंके जानेपर उदीरणा होती है इसका सकारण निदर्शन किया उसी प्रकार उक्त प्रकारसे शेष कर्मोंकी यद्यपि यह विधि नहीं है तथापि अन्तर किये जानेके प्रथम समयसे लेकर जो कर्मपुञ्ज बँधते हैं उन कर्मोंकी छह आवल्लियाँ जानेपर उदीरणा होती है ।

§ १७० शेष क्रोध संवत्तन आदि और ज्ञानावरण आदिकी यद्यपि निदर्शनोपनय विषयक यह विधि सम्भव नहीं है तथापि पुरुषवेदविषयक इस निदर्शनोपनयको कारण बनाकर अन्तरकरणके बाद सर्वत्र सभी कर्मोंके स्वभावासे ही छह आवल्लियोंके जानेपर उदीरणा सम्बन्धी नियमका अवलम्बन करना चाहिए यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

यह निदर्शनमात्र है, इस रूपमें इसे प्रमाण करके निश्चयसे ग्रहण करना चाहिये ।

§ १७१. अति विस्तारसे शिष्यको बतलानेके लिये असद्भूत अर्थरूप उदाहरण द्वारा इस निदर्शनोपनयको हमने प्रकाशित किया है । अन्यथा अव्युत्पन्न शिष्योंका प्रकृत अर्थ-विषयक सम्मोहका निराकरण नहीं बन सकता है, इसलिये दिशामात्र इस निदर्शनद्वारा पूर्वोक्त अर्थजातको प्रमाण करके बिना विवाद्के निश्चयसे अर्थजातको ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि सर्षकका उपदेश सिद्धस्वरूप है, इसलिये विवाद्के विषयको उल्लंघन करके वह अवस्थित है यह इसका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—अन्तर क्रियाके सम्पन्न होनेके प्रथम समयसे लेकर बँधनेवाले जितने भी कर्म हैं उनकी उदीरणा छह आवल्लियोंके बाद ही प्रारम्भ होती है । यह परमार्थ है । इसे स्पष्ट

§ १७२. इवमेदमत्त्वमुवसंहरिय संपदि एतो उवरि णवुंसववेदास्त्रियडीणं
जडाकमभुवसामणाविहाणं परुवेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

* अंतरादौ पढमसमयंकदादो पाए णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणउव-
सामगो, सेसाणं कम्माणं ण किंचि उवसामेदि ।

§ १७३. एतो प्यहुडि अंतोमुहुत्तमेत्तकालं णवुंसयवेदस्स आउत्तकिरियाए
उवसामगो होइ, सेसाणं कम्माणं ण ताव किंचि उवसामेदि तेसिमुवसामणकिरियाए
अज्ज वि पारंभाभावादो ति भणिदं होइ । किमाउत्तकरणं णाम ? आउत्तकरणमुज्ज-
करणं पारंभकरणमिदि एयद्वो । तात्पर्येण नपुंसकवेदमितः शमयत्युपशमयतीत्यर्थः ।
एवमाउत्तकिरियाए णवुंसयवेदोवसामणमाटविय उवसामेमाणो समयं पडि असंखेज्ज-
गुणाए सेटीए णवुंसयवेदपदेसग्गमुवसंतं करेदि ति पटुपायणद्वमुत्तरसुत्तं भणइ—

* जं पढमसमये पदेसग्गमुवसामेदि तं थोवं । जं विदियसमये उव-

करनेके लिए उस समय बँधनेवाले पुरुषवेदको जो उदाहरणरूपमें उपस्थित किया है वह
यद्यपि कल्पित है, क्योंकि उपशमश्रेणियोंमें क्रोध, मान और मायाका कृष्टिकरण नहीं होता । यह
सब क्षपकश्रेणियों सम्भव है । तथा क्षपकश्रेणियोंमें भी पुरुषवेदका कृष्टिकरणके कालमें बन्ध नहीं
होता, इसलिये पुरुषवेदके नवीन बन्धको विषय बनाकर जो निदर्शन उपस्थित किया गया है वह
मात्र कल्पित है । फिर भी उससे इस परमार्थका ज्ञान हो जाता है कि अन्तर क्रियाके सम्पन्न
होनेके प्रथम समयसे लेकर वहाँ बँधनेवाले कर्मोंकी उदीरणा बन्ध समयसे छह आबलियोंके
बाद होती है, इसके पूर्व नहीं ।

§ १७२. इस प्रकार इस अर्थका उपसंहारकर अब इससे ऊपर नपुंसकवेद आदि प्रकृ-
तियोंके क्रमसे उपशामनाविधिका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* अन्तर किये जानेके प्रथम समयसे लेकर नपुंसकवेदका आयुक्तकरण उपशामक
होता है, शेष कर्मोंको किञ्चिन्मात्र भी नहीं उपशमाता है ।

§ १७३. यहाँसे लेकर अन्तमुहूर्तकाल तक नपुंसकवेदका आयुक्त क्रियाके द्वारा उप-
शामक होता है, शेष कर्मोंको तो किञ्चिन्मात्र भी नहीं उपशमाता है, क्योंकि उनकी उपशामन-
क्रियाका अभी भी प्रारम्भ नहीं हुआ है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—आयुक्तकरण किसे कहते हैं ?

समाधान—आयुक्तकरण, उद्यतकरण और प्रारम्भकरण ये तीनों एकार्थक हैं । तात्पर्य
रूपसे यहाँसे लेकर नपुंसकवेदको उपशमाता है यह इसका अर्थ है ।

इस प्रकार आयुक्तक्रियाके द्वारा नपुंसकवेदके उपशामनेका आरम्भकर उपशमाता
हुआ प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे नपुंसकवेदके प्रदेशपुञ्जको उपशान्त करता है इस
बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* प्रथम समयमें जिस प्रदेशपुञ्जको उपशमाता है वह स्तोत्र है । दूसरे समयमें

सामेदि तमसंख्वेज्जगुणं । एवमसंख्वेज्जगुणाए सेहीए उचसामेदि जाव उचस्तंतं ।

§ १७४. कुदो एवं ? समयं पडि तत्कारणपरिणामेसु वट्टमाणेसु उचसामिज्जमाण-पदेसग्गस्स तहाभावसिद्धीए विरोहाभावादो । एवं परिणामपाहम्मेण समयं पडि असं-ख्वेज्जगुणाए सेहीए णवुंसयवेदपदेसग्गमुवसामेमाणस्स पुणो वि उचसामिज्जमाणपदेस-माहप्पजाणावणट्ठमिदमप्पावहुअसुत्तमोइणं—

* णवुंसयवेदस्स पढमसमयउचसामगस्स जस्स वा तस्स वा कम्मस्स पदेसग्गस्स उदीरणा थोवा ।

§ १७५. एत्थ जस्स वा तस्स वा कम्मस्से त्ति वयणं णवुंसयवेदावहारण-णिरायरणदुवारेण सव्वेसिमेव वेदिज्जमाणपयडीणमुदीरणादव्वस्स गहणट्ठं । एसा च उदीरणा असंख्वेज्जसमयपबद्धपमाणा होदूण उवरिमपदावेक्खाए थोवा त्ति गहेयव्वा ।

* उदयो असंख्वेज्जगुणो ।

§ १७६. एत्थ वि जस्स वा तस्स वा कम्मस्से त्ति अहियारसंबंधो कायव्वो । तेण वेदिज्जमाणसव्वपयडीणमुदीरणादव्वादो उदयो असंख्वेज्जगुणो त्ति गहेयव्वो । कुदो एदस्सामसंख्वेज्जगुणत्तणिण्णयो चे ? अंतोमुहुत्तसंचिदगुणसेट्ठिगोवुच्छमाहप्पादो ।

जिस प्रदेशपुंजको उपशमाता है वह उससे असंख्यातगुणा है । इस प्रकार उसके उपशान्त होने तक असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उपशमाता है ।

§ १७४. शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि प्रति समय कारणभूत परिणामोंकी वृद्धि होनेपर उपशमाये जानेवाले प्रदेशपुञ्जके उस प्रकारसे सिद्धि होनेमें विरोधका अभाव है । इस प्रकार परिणामोंके माहात्म्यवश प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे नपुंसकवेदके प्रदेशपुञ्जको उपशमानेवाले जीवके फिर भी उपशमाये जानेवाले प्रदेशोंके माहात्म्यका ज्ञान करानेके लिए यह अल्पबहुत्व सूत्र आया है—

* प्रथम समयमें नपुंसकवेदके उपशामकके जिस-किसी कर्मके प्रदेशपुञ्जकी उदीरणा सबसे स्तोक है ।

§ १७५. यहाँ सूत्रमें 'जिस-किसी कर्मके' यह वचन नपुंसकवेदके अवधारणके निराकरणद्वारा सभी वेदी जानेवाली प्रकृतियोंके उदीरणाद्रव्यके ग्रहणके लिए आया है । यह उदीरणा असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण होकर आगे कहे जानेवाले पदोंकी अपेक्षा स्तोक होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

* उससे उदय असंख्यातगुणा है ।

§ १७६. यहाँ भी 'जस्स वा तस्स वा कम्मस्स' इस वचनका अधिकारके साथ सम्बन्ध करना चाहिये । इसलिये वेदी जानेवाली सभी प्रकृतियोंके उदीरणासम्बन्धी द्रव्यसे उदय-सम्बन्धी द्रव्य असंख्यातगुणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

* णवुंसयवेदस्स पदेसग्गमण्णपयडिस्संकाभिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं ।

§ १७७. ओकड्डणादव्वस्स असंखेज्जदिभागपडिबद्धो उदयं। एसो वुण परपयडीसु गुणसंकमो गहिदो, तेणासंखेज्जगुणो जादो, गुणसंकमभागहारादो ओकड्डण-भागहारस्सासंखेज्जगुणत्तणिच्छयादो ।

* उवसामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं ।

§ १७८. णवुंसयवेदस्स पदेसग्गमिदि अहियारसंबंधो एत्थ कायव्वो, त्काले सेसपयडीणमुवसामिज्जमाणपदेसासंभवादो । गुणसंकमभागहारादो असंखेज्जगुणहीणेण भागहारेण खंडिदेयखड्मेत्तमुवसामिज्जमाणपदेसग्गं होदि त्ति पुव्विन्ळादो एद-मसंखेज्जगुणं जादं । जहा णवुंसयवेदोवसामगस्स पढमसमये एदमप्पावहुअं तथा विदियादिसमएसु वि णेदव्वं इदि जाणावणहुमुत्तरसुत्तं—

* एवं जाव चरिमसमयउवसंते त्ति ।

§ १७९. सुगममेदं सुत्तं । संपहि एदम्मि अवत्थाविसेसे द्विदिबंधस्स पवुत्ती कथं होदि त्ति आसंकाए णिण्णयविहाणट्टमिदमाह—

शंका—उदीरणाके द्रव्यसे उदयका द्रव्य असंख्यातगुणा है इसका निर्णय कैसे किया ?

समाधान—अन्तर्मुहूर्तकालप्रमाण संचित गुणश्रेणिके गोपुच्छाके माहात्म्यसे इसका निर्णय होता है कि प्रकृतमें उदीरणाके द्रव्यसे उदयका द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

* उससे नपुंसकवेदका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमित होनेवाला प्रदेशपुञ्ज असंख्यातगुणा है ।

१७७. अपकर्षणसम्बन्धी द्रव्यके असंख्यातवें भागसे प्रतिबद्ध उदयसम्बन्धी द्रव्य है । परन्तु यह पर-प्रकृतियोंमें गुणसंक्रमरूप ग्रहण किया गया है, इसलिए असंख्यातगुणा हां गया है, क्योंकि गुणसंक्रमसम्बन्धी भागहारसे अपकर्षणसम्बन्धी भागहारके असंख्यातगुणे होनेका निश्चय है ।

* उससे उपशमित होनेवाला प्रदेशपुञ्ज असंख्यातगुणा है ।

§ १७८ यहाँ सूत्रमें 'नपुंसकवेदका प्रदेशपुञ्ज' इतना अधिकारवश सम्बन्ध कर लेना चाहिये, क्योंकि उस समय शेष प्रकृतियोंके उपशमित होनेवाले प्रदेशपुञ्जका अभाव है । गुणसंक्रमसम्बन्धी भागहारसे असंख्यातगुणे हीन भागहारके द्वारा भाजित करनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना उपशमित होनेवाला प्रदेशपुञ्ज है, इसलिये संक्रमित होनेवाले द्रव्यसे यह असंख्यातगुणा हो गया है । जिस प्रकार नपुंसकवेदके उपशामकका प्रथम समयमें यह अल्पबहुत्व है उन्नी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी जानना चाहिये इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकार नपुंसकवेदके उपशम होनेके अन्तिम समयतक जानना चाहिए ।

§ १७९. यह सूत्र सुगम है । अब इस अवस्थाविशेषमें स्थितिवन्धको प्रवृत्ति किस प्रकारकी होती है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं—

* जाधे पाए मोहणीयस्स बंधो संखेज्जवस्सट्टिदिगो जाधो ताधे पाए ट्टिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो संखेज्जगुणहीणो' ट्टिदिबंधो ।

§ १८०. पुव्वमसंखेज्जगुणहाणीए ट्टिदिबंधपमाणो अंतरसमत्तिसमकालमेव मोहणीयस्स संखेज्जवस्सिये ट्टिदिबंधे जादे तदो प्पहुडि अंतोम्वहुत्तेण ट्टिदिबंधं णियत्तिय जमण्णं ट्टिदिबंधमाढवेइ तं संखेज्जगुणहीणमाढवेइ, णाण्णहा त्ति वुत्तं होइ । एवं मोहणीयस्स ट्टिदिबंधोसरणविहिमेदम्मि विसये णिद्धारिय संपहि सेसकम्माणमेदम्मि विसए ट्टिदिबंधोसरणमेदेण विहाणेण करेदि त्ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

* मोहणीयवज्जाणं कम्माणं णधुंसयवेदमुवसामेत्तस्स ट्टिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो ट्टिदिबंधो असंखेज्जगुणहीणो ।

§ १८१. कुदो एवं चेव ? तेसिमज्ज वि संखेज्जवस्सियट्टिदिबंध-विमयस्साणुप्पत्तीदो । एत्थ ट्टिदिबंधप्पावहुअस्स पुव्विन्लो चेवालावो कायव्वो, तत्थ णाणत्ताभावादो । ट्टिदि-अणुभागखंडयाणं पि पुव्वं व अणुगमो कायव्वो । णवरि

* जिस स्थलपर मोहनीयकर्मका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षप्रमाण हों गया है वहाँसे लेकर प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा हीन होता है ।

§ १८० पहले जो स्थितिवन्धका प्रमाण असंख्यात गुणहीनरूपसे चालू था, अन्तरकरणकी समाप्तिके कालमें ही उस स्थितिवन्धके संख्यात वर्षप्रमाण हो जानेपर वहाँसे लेकर अन्तर्मुहूर्तकाल द्वारा एक स्थितिवन्धको निवृत्तकर जिस अन्य स्थितिवन्धको आरम्भ करता है उसे संख्यातगुणा हीन करके आरम्भ करता है, अन्य प्रकारसे नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस प्रकार इस स्थलपर मोहनीयकर्मसम्बन्धी स्थितिवन्धापसरणविधिका निर्धारणकर अब इस स्थलपर शेष कर्मोंके स्थितिवन्धापसरणको इस विधिसे करता है इस बातका ज्ञान करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* नपुंसकवेदका उपशम करनेवाले जीवके मोहनीयकर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके प्रत्येक स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर अन्य स्थितिवन्ध असंख्यातगुणा हीन होता है ।

§ १८१. शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि उनका अभी संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध नहीं प्राप्त हुआ है ।

यहाँपर स्थितिवन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्वका पूर्वोक्त आलाप करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है । स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकका भी पहलेके समान अनुगम करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि अन्तरकरण करके नपुंसकवेदकी उपशामनाका प्रारम्भ होनेपर वहाँसे लेकर मोहनीयकर्मके स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होते ऐसा निश्चय करना चाहिये ।

१ ताःप्रती असंखेज्जगुणहीणो इति पाठः ।

अंतरकरणं कादूण णवुंसयवेदोवसामणाए पारद्वाए तदो प्पहुडि मोहणीयस्स द्विदि-
अणुभागघादा णत्थि त्ति णिच्छयो कायव्वो । कुदो एवं णव्वदे ? तंत-जुत्तीदो । तं
जहा—णवुंसयवेदमुवसामेभाणो पढमसमए सव्वासु द्विदीसु द्विदिपदेमग्गस्स असखेज्जदि-
भागमुवसामेदि । एवमुवसामिय जदि द्विदि-अणुभागे घादेदि तो उवसामिदपदेसग्गाणं
पि द्विदि-अणुभागघादो पसज्जदे, उवसामिदपदेसग्गं मोत्तूण सेसाणं चेव घादणोघाया-
भावादो । ण च उवसामिदस्स पदेसग्गस्स घादसंभवो अत्थि, पसत्थोवसामणाए
उवसामिदस्स तस्स अप्पणो द्विदि-अणुभागोहिं चलणाभावादो । एवं पढमद्विद्विखंड्य-
कालभतरे समए समए उवसामिदपदेसग्गस्स द्विदि-अणुभागघादाइप्पसंगो अणुगंतव्वो
तहा पढमद्विद्विखंडए घादिदे विदियद्विद्विखंडए वि उवसामिदस्स दव्वस्स घादप्पसंगो
जोलेयव्वो । एवं गंतूण पुणो णवुंसयवेदमुवसामिय इत्थिवेदमुवसामेतो जह णवु सय-
वेदस्स द्विदि-अणुभागखंडयं गेण्हइ तो उवसामणा णिरत्थिया पसज्जदे ।

§ १८२. अह जह उवसामिज्जमाणाए उवसताए च पयहीए कंडयघादो णत्थि,
सेसाणमणुवसामिज्जमाणमोहपयहीणं कंडयघादो अत्थि त्ति अब्भुवगम्मदे तो
णवुंसयवेदद्विदीदो इत्थिवेदद्विदी संखेज्जगुणहीणा पसज्जदे । किं कारणं ? णवुंसयवेदोव-
सामणाए उवसामिज्जमाणस्स णवुंसयवेदस्स द्विदिघादो णत्थि, इत्थिवेदो पुण

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—आगमानुसार युक्तिसे जाना जाता है ।

यथा—नपुंसकवेदको उपशमानेवाला जीव प्रथम समयमें सब स्थितियोंमें स्थित प्रदेश-
पुञ्जके असंख्यातके भागप्रमाण स्थितिको उपशमाता है । इस प्रकार उपशमाकर यदि स्थिति
और अनुभागका घात करता है तो उपशमाये गये प्रदेशपुञ्जका भी स्थितिघात और अनु-
भागघात प्राप्त होता है, क्योंकि उपशमाये गये प्रदेशपुञ्जको छोड़कर शेषके भी घातका कोई
उपाय नहीं पाया जाता । और उपशमाये गये प्रदेशपुञ्जका घात सम्भव है नहीं, क्योंकि
प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशमाये गये प्रदेशपुञ्जका अपने स्थिति और अनुभागमें परिवर्तन
नहीं होता । इस प्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकके कालके भीतर समय समयमें उपशमाये गये
प्रदेशपुञ्जके स्थितिघात और अनुभागघातका अतिप्रसंग प्राप्त होता है यह जानना चाहिए ।
तथा प्रथम स्थितिकाण्डकके घाते जानेपर दूसरे स्थितिकाण्डकके भी उपशमाये गये द्रव्यके
घातका प्रसंग प्राप्त होता है ऐसी योजना कर लेनी चाहिये । इस प्रकार जाकर पुनः नपुंसक-
वेदको उपशमाकर स्त्रीवेदका उपशमानेवाला जीव यदि नपुंसकवेदके स्थितिकाण्डक और
अनुभागकाण्डकका घात करता है तो उपशामना निरर्थक प्रसक्त होती है ।

§ १८२ अब यदि उपशमाई जानेवाली या उपशान्त हुई प्रकृतियोंका काण्डकघात नहीं
होता, शेष नहीं उपशमाई जानेवाली मोहप्रकृतियोंका काण्डकघात होता है ऐसा स्वीकार करते
हैं तो नपुंसकवेदकी स्थितिसे स्त्रीवेदकी स्थिति संख्यातगुणी हीन प्राप्त होती है, क्योंकि नपुं-
सकवेदके उपशमानेके कालके भीतर उपशमाये जानेवाले नपुंसकवेदका तो स्थितिघात होता
नहीं, परन्तु स्त्रीवेद बादमें उपशमाया जाता है, इसलिये तब उसका स्थितिघात प्राप्त होता है ।

पञ्च उवसामिज्जदि चि ताषे तस्स द्विदिघादो अत्थि । एवं च संते णनुंसयवेदद्विदोदो इत्थिवेदद्विदीए पत्ताहियघादाए संखेज्जगुणहीणत्तप्पसंगादो सो दुण्णिणवारो । एवमित्थि-वेदे उवसामिज्जमाणे तस्स द्विदिघादो णत्थि, सत्तणोकसाय-बारसकसायद्विदीओ पच्छा उवसामिज्जन्ति चि तासि पि इत्थिवेदद्विदीदो संखेज्जगुणहीणत्तप्पसंगो दुप्पडिसेहे । ण वेदमिच्छिज्जदे, उवसंतावस्थाए बारसकसाय-णवणोकसायाणं द्विदी सरिसा वेव होदि चि परमगुरूवएसेण पडिसिद्धत्तादो । तम्हा अंतरकरणे णिद्विदे मोहणीयस्स द्विदि-अणुभागघादा णत्थि चि पडिवज्जेयव्वं । अण्णं च गंधयारो उवरि मुत्तकंठमेदं भणिद्विदि जहा मायावेदगस्स पढमसमए 'माया-लोहसंजलणाणं द्विदिबंधो दो मासस अंतोमुहुत्तेण ऊणा । सेसाणं कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सेसाणं कम्माणं ठिदिखंडयं पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिभागो चि ।' मोहणीयस्स पुण तत्थ द्विदिखंडयपमाणं ण भणिदं, तेण णव्वदे अंतरकरणे कदे तदो प्पहुडि मोहणीयस्स द्विदि-अणुभागघादो णत्थि चि ।

और ऐसा होनेपर नपुंसकवेदकी स्थितिसे अधिक घात होनेके कारण स्त्रीवेदकी स्थितिके संख्यातगुणी हीन होनेका जो प्रसंग आता है वह दुर्निवार है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके उपशमाते समय उसका तो स्थितिघात होता नहीं, किन्तु सात नोकषाय और बारह कषायोंकी स्थितियाँ बादमें उपशमाई जाती हैं, इसलिए उनकी भी स्थितिके स्त्रीवेदकी स्थितिसे संख्यातगुणे-हीनपनेका प्रसंग निवारण करना कठिन है। और यह इष्ट नहीं है, क्योंकि उपशान्त अवस्थामें बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी स्थिति सदृश ही होती है ऐसा परम गुरुके उपदेशसे सिद्ध है। इसलिए अन्तरकरण सम्पन्न होनेपर मोहनीयकर्मके स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होते ऐसा निश्चय करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि आगे ग्रन्थकार स्वयं यह बात सुफकण्ड होकर कहेंगे। यथा—मायावेदके प्रथम समयमें 'माया और लोभसंज्वलनोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तकर्म दो महीना है। शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्ष है तथा शेष कर्मोंका स्थितिकाण्डक पत्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण है।' इस प्रकार यहाँपर मोहनीयकर्मके स्थितिकाण्डका प्रमाण नहीं कहा है, इससे ज्ञात होता है कि अन्तरकरण कर लेनेपर वहाँसे लेकर मोहनीयकर्मका स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता।

विश्लेषार्थ—अन्तरकरणकी क्रिया सम्पन्न होने पर प्रथम समयसे लेकर मोहनीय-कर्मका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात क्यों नहीं होता इसे स्पष्ट करते हुए जो तर्क और प्रमाण दिये गये हैं उनमें प्रथम तर्क यह दिया है कि (१) यदि अन्तरकरण क्रिया होनेके बाद नपुंसकवेदका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात स्वीकार किया जाता है तो नपुंसकवेदकी उपशमानेकी क्रिया सम्पन्न होनेके पूर्व उसके जिन प्रदेशपुञ्जोंको नहीं उपशमाया गया है उनके साथ जो प्रदेशपुञ्ज उपशमाये जा चुके हैं उनके भी स्थिति-काण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु उपशमाये गये प्रदेश-पुञ्जान न तो स्थितिकाण्डकघातही सम्भव है और न अनुभागकाण्डकघात ही सम्भव है, क्योंकि उनका प्रशस्त उपशामना द्वारा उपशम हुआ है। (२) उक्त विषयके समर्थनमें दूसरा यह तर्क दिया है कि यदि उपशमाई जानेवाली प्रकृतिको छोड़कर उस समय नहीं उपशमाई जाने-वाली मोह प्रकृतिबोधका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात स्वीकार किया जाता है तो

§ १८३. एवमेदीए परूवणाए णवुंसयवेदमुवसामेमाणो अंतोमुहुत्तेण कालेण सव्वप्पणा णवुंसयवेदमुवसंतं करेदि त्ति जाणावणडुम्वत्तरसुत्तमोहण्ण—

* एवं संखेज्जेसु द्विदिबंधसहस्सेसु गवेसु णवुंसयवेदो उवसामिज्ज-माणो उवसंतो ।

§ १८४. सुगममेद सुत्तं। णवरि उवरि 'उवसामिज्जमाणो उवसंतो' त्ति भणिदे पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेटोए उवसामिज्जमाणो संतो कमेण उवसंतो त्ति अत्थो गहेयव्वो । एवं णवुंसयवेदमुवसामिय तदणंतरसमयप्पहुडि इत्थिवेदोवसामणमादवेदि त्ति जाणावणडुमिदमाह—

* णवुंसयवेदे उवसंते से काले इत्थिवेदस्स उवसामणो ।

§ १८५. णवुंसयवेदे उवसंते जादे तदणंतरसमए चेव इत्थिवेदस्स उवसामण-

उपशमश्रेणिमें बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी स्थितियोंमें विषमता आ जाती है जो युक्त नहीं हैं, क्योंकि इन कर्मोंकी उपशान्त अवस्थामें स्थिति सदृश होती है ऐसा गुरुपरम्परासे उपदेश चला आ रहा है। (३) इस प्रकार ये दो तक देनेके बाद इस विषयकी पुष्टि आगम प्रमाणसे भी की गई है। आगे मायवेदकके होनेवाले कार्योंका उल्लेख करते हुए जो चूर्णिसूत्र आये है उनमें जहाँ मोहनीयकर्मको छोड़ कर शेष कर्मोंका स्थितिवन्धके साथ स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात स्वीकार किया गया है वहाँ मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनका केवल स्थितिवन्ध तां स्वीकार किया गया है, परन्तु स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात नहीं स्वीकार किया गया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उपशम-श्रेणिमें उपशामनाविधिके प्रारम्भ होनेके समयसे लेकर बारह कपाय और नौ नोकपायोंका स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात नहीं होता। चूर्णिसूत्रका उक्त वचन मूलमें उद्धृत किया ही है।

§ १८३. इस प्रकार इस प्ररूपणा द्वारा नपुंसकवेदको उपशमानेवाला जीव अन्तर्मुहूर्त काल द्वारा पूरी तरहसे नपुंसकवेदका उपशम करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगे-का सूत्र आया है—

* इस प्रकार संख्यात हज्जार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर उपशममाया जाने-वाला नपुंसकवेद उपशान्त होता है ।

§ १८४ यह सूत्र सुगम है। इतनी विशेषता है कि 'उवसामिज्जमाणो उवसंतो' ऐसा कहने पर प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उपशमाया जाता हुआ क्रमसे उपशान्त होता है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार नपुंसकवेदको उपशमा कर तदनन्तर समयसे लेकर स्त्रीवेदको उपशमानेके लिये आरम्भ करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिये इस सूत्रको-कहते हैं—

* नपुंसकवेदके उपशान्त होनेपर तदनन्तर समयमें स्त्रीवेदका उपशामक होता है ।

§ १८५. नपुंसकवेदका उपशम हो जानेपर तदनन्तर समयमें ही स्त्रीवेदको उपशमाने-

माढवेदि त्ति भणिदं होइ ।

* ताधे च्चैव अपुव्वं द्विद्विखंडयमपुव्वमणुभागखंडयं द्विद्विबंधो च पत्थिदो ।

§ १८६. जाधे इत्थिवेदमुवसामेदुमाढत्तो ताधे च्चैव मोहणीयवज्जाणं कम्मणमपुव्वं द्विद्विखंडयमणुभागखंडयं च पुव्वाढत्तद्विदि-अणुभागखंडयाणं समत्ती-वसेणाढवेइ । मोहणीयस्स पुण एत्थ णत्थि द्विदिघादो अणुभागघादो, द्विद्विबंधो च पत्थिदो । एवं भणिदे णाणावरणादीणमसंखेज्जगुणहाणीए मोहणीयपयडीणं च वज्जमाणियाणं संखेज्जगुणहाणीए पुव्वद्विद्विबंधादो अण्णो द्विद्विबंधो एदम्म संधीए पारद्वो त्ति भणिदं होइ ।

* जहा णवुंसयवेदो उवसामिदो तेणेव कमेण इत्थिवेदं पि गुण-सेटीए उवसामेदि ।

§ १८७. जहा णवुंसयवेदो असंखेज्जगुणाए सेटीए उवसामिदो तहा च्चैव पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेटीए इत्थिवेदं च उवसामेदि त्ति भणिदं होदि । णवरि इत्थिवेदोवसामणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तत्थ जो विसेसो संभवंतओ तण्णिहेस-विहाणद्दुमुत्तरसुत्तावयारो—

के लिये आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* उसी समय अपूर्व स्थितिकाण्डक, अपूर्व अनुभागकाण्डक और अपूर्व स्थिति-बन्ध प्रारम्भ होता है ।

§ १८६ जिस समय स्त्रीवेदको उपशमानेके लिये आरम्भ किया उसी समय मोहनीय कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके पहले आरम्भ किये गये स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंकी समाप्ति हो जानेके कारण अपूर्व स्थितिकाण्डक और अपूर्व अनुभागकाण्डकका आरम्भ करता है । परन्तु मोहनीयकर्मका यहाँ पर स्थितिघात और अनुभागघात नहीं है, मात्र स्थितिबन्धको प्रारम्भ किया । ऐसा कहने पर ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके असंख्यात गुणहानिरूपसे और बँधनेवाली मोहनीय प्रकृतियोंका संख्यात गुणहानिरूपसे इस सन्धिमें अन्य स्थितिबन्ध प्रारंभ किया यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* जिस प्रकार नपुंसकवेदको उपशमाया है उसी क्रमसे स्त्रीवेदको भी गुणश्रेणि-रूपसे उपशमाता है ।

§ १८७. जिस प्रकार असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे नपुंसकवेदको उपशमाया है उसी प्रकार प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे स्त्रीवेदको उपशमाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदके उपशमानेके कालके संख्यातवें भागप्रमाण कालके जाने पर वहाँ जो विशेष सम्भव हो उसका निर्देश करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* इत्थिवेदस्स उवसामणाद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तवो णाणावरणीय-
हंसभावरणीय-अंतराहयाणं संखेज्जबस्सट्टिदिणो बंधो भवादि ।

१८८. एदेसिं तिण्हं घादिकम्माणमेत्थुहेसे असंखेज्जवस्सिओ ट्टिदिबंधो परिहाइ-
दूण संखेज्जवस्सहस्समेचो संजादो चि भणिद होइ । तिण्हं अघादिकम्माणं पुण
णाज्ज वि संखेज्जवस्सिओ ट्टिदिबंधो होइ, घादिकम्माणं व तेसिं सुट्ठु ट्टिदिबंधोसरणम-
संभवादो । एत्थेवुहेसे तिण्हमेदेसिं घादिकम्माणमणुभागबंधविसए वि को वि विसेसो
संबुचो चि जाणावणाफलमुत्तरसुत्तं—

* जाधे संखेज्जबस्सट्टिदिओ बंधो तस्समए चेव एदासिं तिण्हं मूल-
पयडीणं केवलणाणावरण-केवलदंसणावरणवज्जाओ सेसाओ जाओ उत्तर-
पयडीओ तासिमेगट्टाणिओ बंधो ।

§ १८९. जम्हि चेव समए तिण्हमेदासिं घादिकम्ममूलपयडीणं संखेज्जवस्सिओ
ट्टिदिबंधो पारदो तम्हि चेव समए णाणावरणीयस्स केवलणाणावरणवज्जाओ
दंसणावरणीयस्स केवलदंसणावरणवज्जाओ अंतरायस्स मच्चाओ चेव जाओ उत्तर-
पयडीओ एवमेदेसिं बारसण्हं पयडीणं पुव्वं देसघाटविट्टाणियमरूवो अणुभागबंधो
सुट्ठु ओहट्टियूण एगट्टाणियभावेण परिणदो चि वुत्तं होइ ।

* स्त्रीवेदके उपसमानेके कालके संख्यातर्वे भागप्रमाण कालके जानेपर तत्पश्चात्
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है ।

§ १८८. इस स्थल पर इन तीन घाति कर्मोंके असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धको घटा-
कर संख्यात हजार वर्ष प्रमाण हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । परन्तु तीन अघाति
कर्मोंका अभी भी संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध नहीं होता है, क्योंकि घातिकर्मोंके बहुत अधिक
हुए स्थितिवन्धापसरणोंके समान उन कर्मोंका बहुत अधिक स्थितिवन्धापसरण सम्भव नहीं है ।
इस स्थल पर इन तीन घाति कर्मोंके अनुभागबन्धके विषयमें भी कोई विशेषता हो गई है इस
बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* जिस समय संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध हुआ उसी समय इन तीन मूल
प्रकृतियोंकी केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणको छोड़कर जितनी शेष उत्तर
प्रकृतियाँ हैं उनका एकस्थानीय बन्ध होने लगता है ।

§ १८९. जिस समय इन तीन घाति मूल प्रकृतियोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थिति-
बन्ध प्रारम्भ हुआ उसी समय ज्ञानावरणकी केवलज्ञानावरणको छोड़कर और दर्शना-
वरणकी केवलदर्शनावरणको छोड़कर शेष प्रकृतियाँ तथा अन्तराय कर्मोंकी सभी जितनी
उत्तर प्रकृतियाँ हैं इन बाह्य उत्तर प्रकृतियोंका जो पहले देशघाति द्विस्थानीय अनुभागबन्ध
होता रहा वह बहुत घटकर एकस्थानीयरूपसे परिणत हो गया यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* जस्तो पाए णाणावरण-वंसणावरण-अंतराह्याणं संखेज्जवत्स-
ट्टिविओ बंधो तन्हि पुण्णे जो अण्णो ट्टिविबंधो सो संखेज्जगुणहीणो ।

§ १९०. किं कारणं ? संखेज्जवत्सिए ट्टिविबंधे पारद्वे तत्तो परमसंखेज्जगुण-
हाणीए असंभवादो । णामा-गोद-वेदणीयाणं पुण णाज्ज वि संखेज्जवत्सिओ ट्टिविबंधो
पारमदि त्ति तेसिमसंखेज्जगुणहीणो वेव ट्टिविबंधो एत्थ पयद्वदि त्ति वेत्तव्वं । एवं च
पवहुमाणस्स ट्टिविबंधस्स अप्पावहुअपरूवणद्वमिदमाह--

* तन्हि समए सव्वकम्माणमप्पावहुअं भवदि ।

§ १९१. सुगमं ।

* तं जहा ।

§ १९२. सुगमं ।

* मोहणीयस्स सव्वत्थोवो ट्टिविबंधो । णाणावरण-वंसणावरण-
अंतराह्याणं ट्टिविबंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ट्टिविबंधो असंखेज्जगुणो ।
वेदणीयस्स ट्टिविबंधो विसेसाहिओ ।

§ १९३. सुगमत्तादो ण एत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि । एवमित्थिवेदोवसामणद्धाए

* जहाँसे लेकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका जो संख्यात वर्ष-
प्रमाण स्थितिबन्ध हुआ, उसके सम्पन्न होनेपर जो अन्य स्थितिबन्ध होता है वह
संख्यातगुणा हीन होता है ।

§ १९०. क्योंकि संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके प्रारम्भ होनेपर उसके बाद
असंख्यातगुणी हानि होना असम्भव है । परन्तु नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका अभी भी
संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध प्रारम्भ नहीं करता, इसलिए उनका असंख्यात गुणाहीन ही
स्थितिबन्ध यहाँ प्रवृत्त रहता है ऐसा ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार प्रवृत्त हुए स्थितिबन्धके
अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उसी समय सब कर्मोंका अल्पबहुत्व होता है ।

§ १९१. यह सूत्र सुगम है ।

* वह जैसे ।

§ १९२. यह सूत्र सुगम है ।

* मोहनीयकर्मका स्थितिबन्ध सबसे स्तोत्र है । उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण
और अन्तरायकर्मका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । उससे नामकर्म और गोत्रकर्मका
स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है तथा उससे वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध विशेष अधिक है ।

§ १९३. सुगम होनेसे यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं है । इस प्रकार स्त्रीवेदकी उपशामनाके

संखेज्जदिभागे चैव एवविहं द्विदिवंधमाहविय गच्छमाणस्स पुणो वि संखेज्जसहस्समेत्तेसु
द्विदिवंधेसु एदेणव विहाणेण समइकत्तेसु तदो इत्थिवेदोवसामणाद्वा समण्ह, ताधे
चैव इत्थिवेदो सव्वोवसामणाए उवसामिदो त्ति जाणावणट्टमुत्तरमुत्तहिं सो-

* एदेण कमेण संखेज्जेसु द्विदिवंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदो उव-
सामिज्जमाणो उवसामिदो ।

§ १९४. एदं पि सुत्तं सुगमं । एवमित्थिवेदमुवसामिय तदणंतरसमए छण्णो-
कसाय-पुरिसवेदानामुवसामणमाहवेदि त्ति पदुप्पायणफलमुत्तरसुत्तं—

* इत्थिवेदे उवसंते से काले सत्तण्हं णोकसायाणं उवसामगो ।

§ १९५. सुगमं ।

* ताधे चैव अण्णं द्विदिवंधयमण्णमणुभागखंडयं च आगाहदं,
अण्णो च द्विदिवंधो पचद्धो ।

§ १९६. एत्थ द्विदि-अणुभागखंडयाणि मोहणीयवज्जाणं कम्माणं अवगंतव्वाणि,
मोहणीयस्स तदुभयपवुत्तीए एदस्मि विसए जुत्ति-सुत्तेहिं पडिमिद्धत्तादो । द्विदिवंधो
पुण सत्तण्हं पि मूलपयडीणं जाओ उत्तरपयडीओ वज्जति तामि सव्वामिमेव होदि त्ति
दट्टव्व ।

संख्यातवर्ग भागके होनेपर इस प्रकारके स्थितिबन्धका आरम्भ करके जां जीव अवस्थित
है उसके फिर भी संख्यातों हजार स्थितिबन्धोंके इसी विधिसे व्यतीत होनेपर तत्पश्चात् स्त्री-
वेदका उपशामनाकाल समाप्त होता है । अतः उसी समय सर्वोपशामनारूपसे स्त्रीवेद उप-
शमाया गया इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस क्रमसे संख्यात हजार स्थितिबन्धोंके व्यतीत होनेपर उपशामित किये
जानेवाले स्त्रीवेदको उपशामित किया ।

§ १९४. यह सूत्र भी सुगम है । इस प्रकार स्त्रीवेदको उपशामाकर तदनन्तर समयमें
छह नोकषायों और पुरुषवेदको उपशामानेके लिए आरम्भ करता है इस बातका कथन करनेके
लिए उत्तर सूत्रको कहते हैं—

* स्त्रीवेदके उपशान्त होनेपर तदनन्तर समयमें सात नोकषायोंका उपशामक
होता है ।

§ १९५. यह सूत्र सुगम है ।

* उसी समय अन्य स्थितिकाण्डक और अन्य अनुभागकाण्डकको ग्रहण किया
तथा अन्य स्थितिबन्ध बाँधा ।

§ १९६. यहाँपर स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डक मोहनीयकर्मको छोड़कर अन्य
कर्मोंके जानने चाहिये, क्योंकि इस स्थलपर मोहनीयकी उन दोनोंरूप प्रवृत्तिका युक्ति और
सूत्र दोनों प्रकारसे निषेध है । स्थितिबन्ध तो सातों ही मूल प्रकृतियोंकी जो उत्तर प्रकृतियाँ
बंधती हैं उन सभीका होता है ऐसा जानना चाहिये ।

* एवं संखेज्जेसु द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु सत्तण्हं णोकसायाणमुव-
सामणद्धाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णामा-गोद-वेदणीयाणं कम्मणं
संखेज्जवस्सद्विदिगो बंधो ।

§ १९७. एदम्मि अवत्थंतरे तिण्हमघादिकम्मणं द्विदिबंधो असंखेज्जवस्सियादो
परिहाइदूणेकसराहेण संखेज्जवस्सिओ जादो त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसमुच्चओ । एवमेत्थ
सव्वेसिमेव कम्मणं ठिदिखंडे संखेज्जवस्सिये जादे' तत्थ जो द्विदिबंधप्पाबहुअविही
तप्परूवणद्दुमुवरिमो सुत्तपबंधो—

* ताथे द्विदिबंधस्स अप्पाबहुअं ।

§ १९८. सुगम ।

* तं जहा ।

§ १९९. एदं पि सुवोहं ।

* सव्वत्थोवो मोहणीयस्स द्विदिबंधो ।

* णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ।

* णामा-गोदाणं द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ।

* इस प्रकार संख्यात हजार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर सात नोकषायोंके
उपशामनाकालके संख्यातवें भागके व्यतीत होनेपर तत्पश्चात् नामकर्म, गोत्रकर्म और
वेदनीय कर्मोंका संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता है ।

§ १९७ इस अवस्थाके भीतर तीन अघाति कर्मोंका स्थितिवन्ध असंख्यात वर्षसे
घटकर एक बारमे संख्यात वर्षप्रमाण हो गया यह यहाँ सूत्रके अर्थका सार है । इस प्रकार
यहाँपर सभी कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षप्रमाण हो जानेपर वहाँ जो स्थितिवन्धसम्बन्धी
अल्पबहुत्वविधि प्राप्त होती है उसका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* उस समय स्थितिवन्धका अल्पबहुत्व ।

§ १९८. यह सूत्र सुगम है ।

* वह जैसे ।

§ १९९. यह सूत्र भी सुबोध है ।

* मोहनियकर्मका स्थितिवन्ध सबसे अल्प है ।

* उससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात-
गुणा है ।

* उससे नामकर्म और गोत्रकर्मका स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है ।

* वेदणीयस्स द्विदिबंधो विसेसाहिओ ।

§ २००. सुगमो च एसो अप्पाबहुअपबंधो । एत्तो पाए द्विदिबंधे पुण्णे जो अण्णो द्विदिबंधो आढविज्जदि सो सच्चेसिमेव कम्माणं संखेज्जगुणहीणो चेव, णरिअ अण्णो वियप्पो त्ति जाणावणफलमुवरिमसुसं—

* एदम्मि द्विदिबंधे पुण्णे जो अण्णो द्विदिबंधो सो सच्चकम्माणं पि अत्पप्पणो द्विदिबंधादो संखेज्जगुणहीणो ।

§ २०१. गयत्थमेदं सुत्तं ।

* एदेण कमेण द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया उबसंता ।

§ २०२. एवमेदेण कमेण संखेजाणि द्विदिबंधसहस्साणि समुपालेमाणस्स पुरिसवेदपढमद्विदीए चरिमसमयम्मि सत्त णोकसाया सच्चप्पणा उवसंता त्ति वुत्तं होइ । संपहि एदेण सामणवयणेण पुरिसवेदणवकबंधसमयपवद्धानं पि समययूणदो-आबलियमेत्ताणं तत्थुवसंतभावे अहप्पसत्ते तत्थ तेसिमुवसमाभावपटुप्पायणदुमुवरिमं सुचमाह—

* णवरि पुरिसवेदस्स वे आबलिया गंधा समयूणा अप्पुवसंता ।

§ २०३. कुदो एत्तियमेत्ताणं समयपवद्धानमेत्थाणुवसमो चे ? चरिमाबलिय-

* उससे वेदनीयकर्मका स्थितिवन्ध विशेष अधिक हैं ।

§ २००. यह अल्पबहुत्वप्रबन्ध सुगम है । यहाँसे आगे स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जिस अन्य स्थितिवन्धका आरम्भ करता है वह सभी कर्मोंका संख्यातगुणा हीन ही होता है, अन्य विकल्प नहीं है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* इस स्थितिवन्धके पूर्ण होनेपर जो अन्य स्थितिवन्ध होता है वह सभी कर्मोंका अपने-अपने स्थितिवन्धसे संख्यातगुणा हीन होता है ।

§ २०१. यह सूत्र गतार्थ है ।

* इस क्रमसे हजारों स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर सात नोकषाय उपशान्त हो जाते हैं ।

§ २०२. इस प्रकार इस क्रमसे संख्यात हजार स्थितिवन्धोंको करनेवाले जीवके पुरुष-वेदकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें सात नोकषाय सर्वात्मना उपशान्त हो जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इस सामान्य वचनके अनुसार पुरुषवेदके नवक बन्धसम्बन्धी एक समय कम दो आबलिप्रमाण समयप्रबद्धोंके भी वहाँ उपशान्त भावका अतिप्रसंग होनेपर वहाँ उनके उपशमका अभाव बतलानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके एक समय कम दो आबलिप्रमाण समय-प्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं ।

§ २०३. शंका—इतने समयप्रबद्धोंका यहाँपर उपशम क्यों नहीं होता ?

बद्धाणं बंधावलिवाणदिकमादो समयूणहुचरिमावलयियबद्धाणं च उवसामणावलिवाए
अज्जं चि वड्डिवुण्णत्ताभावादो । तम्मि चैव समए द्विदिबंधपमाणावहारणहुमुत्तरो
सुत्तबबंधो—

* तस्समए पुरिसवेदस्स द्विदिबंधो सोलस वस्साणि ।

* संजलणाणं द्विदिबंधो बत्तीस वस्साणि ।

* सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

§ २०४. पुत्रं संखेज्जसहस्समेत्तो एदेसिं द्विदिबंधो, तत्तो संखेज्जगुणहाणीए
हाइदूण सवेदचरिसमए पुरिसवेद-चउसंजलणाणं जहाकमं सोलस-बत्तीसवस्समेत्तो
जादो । सेसाणं पुण कम्माणमज्जं वि संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो चैव दइव्वो चि
मणिदं होदि ।

* पुरिसवेदस्स पढमद्विदीए जाधे धे आवलिवाओ सेसाओ ताधे
आगाल-पडिआगालो चोच्छिण्णो ।

§ २०५. पढम-विदियद्विदिपदेसग्गाणमुक्कड्डणोकड्डणावसेण परोप्परविसयसंकमो
आगाल-पडिआगालो चि मण्णदे । विदियद्विदिपदेसग्गस्स पढमद्विदीए आगमण-
मागालो । पढमद्विदिपदेसग्गस्स विदियद्विदीए पडिलोमेण गमणं पडिआगालो चि

समाधान—क्योंकि जो अन्तिम आवलिमें बँधे हैं उनकी बन्धावलिका काल अभी
व्यतीत नहीं हुआ और जो एक समय कम द्विचरम आवलिमें बँधे हैं उनकी उपशामनावलि
अभी भी पूर्ण नहीं हुई है । अब उसी समय स्थितिवन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये
आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* उस समय पुरुषवेदका स्थितिवन्ध सोलह वर्षप्रमाण होता है ।

* संज्वलनोंका स्थितिवन्ध बत्तीस वर्षप्रमाण होता है ।

* तथा शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है ।

§ २०४. पहले इन कर्मोंका संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता रहा । उससे
संख्यातगुणी हानिरूपसे घटकर सवेद भागके अन्तिम समयमें पुरुषवेद और चार संज्वलनों-
का क्रमसे सोलह वर्ष और बत्तीस वर्ष हो गया । शेष कर्मोंका तो अभी भी संख्यात हजार
वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध जानना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें जब दो आवलि शेष रहीं तब आगाल और प्रत्या-
गालोंकी व्युच्छिप्ति हो गई ।

§ २०५. प्रथम और द्वितीय स्थितिके प्रवेशपुञ्जोंका उत्कर्षण और अपकर्षणवश पर-
स्पर विचरसंक्रमको आगाल और प्रत्यागाल कहते हैं । द्वितीय स्थितिके प्रवेशपुञ्जका प्रथम
स्थितिमें आना आगाल है तथा प्रथम स्थितिके प्रवेशपुञ्जका प्रतिकोमरूपसे दूसरी स्थितिमें

महणादो । एवंविहो आगाल-पडिआगालो ताव, जाव पुरिसवेदपढमड्ढिदीए समय-हियाओ दो आवलियाओ सेसाओ ति । पुणो आवलि-पडिआवलियमेत्तसेसाए ताषे आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो । अथवा आवलिय-पडिआवलियासु पडिवुण्णामु सेसामु आगाल-पडिआगालो होदण पुणो से काले समय-णामु दोआवलियासु सेसामु आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो ति एसो एत्थ सुत्ता-हिप्पायो, उप्पादानुच्छेदमस्सियूण भावचरिमसमए चेव सुत्ते तदभावविहाणादो । एत्तो पाए पुरिसवेदस्स गुणसेदी वि णत्थि । पडिआवलियादो चेव असंखेज्जाणं समय-पवद्धानमुदीरणा होदि ति दट्ठव्वं ।

* अंतरकदादो पाए लुण्णोकसायाणं पदेसगं ण संछुहदि पुरिसवेदे, कोहसंजलणे संछुहदि ।

जाना प्रत्यागाल है ऐसा ग्रहण किया है । इस प्रकार पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक दो आवलियाँ शेष रहने तक आगाल और प्रत्यागाल होते हैं । पुनः आवलि और प्रत्यावलि मात्रके शेष रहनेपर तब आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है । अथवा परिपूर्ण आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागाल होकर पुनः तदनन्तर समयमें एक समय कम दो आवलि शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं यह यहाँपर उक्त सूत्रका अभिप्राय है, क्योंकि उत्पादानुच्छेद का आश्रय लेकर सद्भावके अन्तिम समयमें ही सूत्रमें उसके अभावका विधान किया है । यहाँसे लेकर पुरुषवेदकी गुणश्रंणि भी नहीं होती । प्रत्यावलिमेंसे ही असंख्यात समय-प्रबद्धोंकी उदीरणा होती है ऐसा जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—पुरुषवेदकी कितनी प्रथम स्थिति शेष रहने तक आगाल और प्रत्यागाल होते हैं इस प्रकार प्रश्न होने पर सूत्रमें तो मात्र इतना ही बतलाया है कि पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें दो आवलियाँ शेष रहने पर आगाल-प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । इस पर टीका करते हुए इस सूत्रकी दो प्रकारसे व्याख्या की गई है जिनका उल्लेख मूलमें किया ही है । प्रथम व्याख्याके अनुसार पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक दो आवलियाँ शेष रहने तक आगाल और प्रत्यागाल होते हैं । जब पूरी दो आवलियाँ शेष रहती हैं तब आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । किन्तु दूसरी व्याख्याके अनुसार दो आवलियाँ शेष रहने तक आगाल और प्रत्यागाल होते हैं । किन्तु एक समय कम दो आवलियाँ शेष रहने पर आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं । इस पर यह प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो सूत्रमें यह क्यों कहा कि पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिमें जब दो आवलियाँ शेष रहती हैं तब आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं सो इसका समाधान यह है कि सूत्रमें यह कथन उत्पादानुच्छेद नयका आश्रय लेकर कहा है, क्योंकि उत्पादानुच्छेदके अनुसार विवक्षित वस्तुके सद्भावका जो अन्तिम समय है उस समयमें ही उसके अभावका प्रतिपादन किया जाता है ।

* अन्तरक्रिया सम्पन्न होनेके पश्चात् छह नोकपायोंके प्रदेशपुञ्जको पुरुषवेदमें संक्रमित नहीं करता, क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित करता है ।

§ २०६. कुदो एस गियमो चे ? आणुपुब्बीसंक्रमवसेणे त्ति भणामो । संपहि पुरिसवेदणवकबंधसमयपबद्धाणमवगदवेदभावेण कोहोवसामणकालअंतरे उवसामणविहि परूवेमाणो इदमाह—

* जो पढमसमयअवेवो तस्स पढमसमयअवेदस्स संतं पुरिसवेदस्स दो आवलियबंधा दुसमयूणा अणुवसंता ।

§ २०७. चरिमसमयसवेदस्स समयूणदोआवलियमेत्ता णवकबंधसमयपबद्धा अणुवसंता त्ति पुब्बं परूविदं, एण्ह पुण पढमसमयअवेदभावे वट्टमाणस्स पुरिसवेदसंतं णवकबंधसरूवं केत्तियमत्थि त्ति भणिदे दोआवलियबंधा दुसमयूणा अणुवसंता त्ति णिहिट्ठं, सवेदचरिमावलियणवकबंधाणमणूणाहियाणं दुचरिमावलियणवकबंधाण च दुसमयूणावलियमेत्ताणमणुवसंताणमेत्थ संभवदंसणादो ।

* जो दो आवलियबंधा दुसमयूणा अणुवसंता तेसि पदेसग्गमसंखेज्ज-गुणाए सेठीए उवसामिज्जदि ।

§ २०८. बंधावलियादिकंतणवकबंधसमयपबद्धाणमुवसामणकालो आवलियमेत्तो होइ । तत्थ समयं पडि असंखेज्जगुणा तेसि पदेसग्गमुवसामेदि त्ति वुत्तं होइ । ण

§ २०६ शंका—ऐसा नियम किस कारणसे है ?

समाधान—आनुपूर्वी संक्रमके कारण यह नियम है ऐसा हम कहते हैं ।

अब पुरुषवेदके नवक बन्धसम्बन्धी समयप्रबद्धांकी अवगत वेदरूपसे क्रोधसंज्वलनके उपशमानेके कालके भीतर उपशामनाविधिका कथन करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* जो प्रथम समयवर्ती अपगतवेदी जीव है, प्रथम समयवाले उस अपगतवेदी जीवके जो नवक समयप्रबद्धका सत्त्व दो समय कम दो आवलिप्रमाण शेष है वह अभी अनुपशान्त है

§ २०७. अन्तिम समयवर्ती सवेदी जीवके एक समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं यह पहले कह आये है, इस समय पुनः अवेदभावेके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके नवक बन्धस्वरूप पुरुषवेदका सत्त्व कितना रहता है ऐसा पूछने पर दो समय कम दो आवलिप्रमाण बद्ध कर्म अनुपशान्त रहता है ऐसा निर्देश किया है, क्योंकि सवेद भागकी अन्तिम आवलिके न्यूनता और आधिकतासे रहित पूरा नवकबन्ध तथा द्विचर-मावलिके दो समय कम आवलि प्रमाण नवकबन्ध अनुपशान्तरूपसे यहाँ पर देखे जाते हैं ।

जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं उनके प्रदेशपुञ्जको असंख्यातगुणी श्रेणिके क्रमसे उपशमाता है ।

§ २०८. जो नवक समयप्रबद्ध हैं उनका बन्धावलिके बाद उपशामन काल एक आवलि-प्रमाण होता है । वहाँ पर प्रत्येक समयमें उनके प्रदेशपुञ्जको असंख्यातगुणी श्रेणिके क्रमसे

केवलं तेषिं पदेसग्गं सत्थाणे चेव उवसामेदि, किंतु परपयडीए वि संकामेदि त्ति जाणावणफलो उत्तरसुत्तणिदेसो—

परपयडीए पुण अधापवत्तसंकमेण संकामिज्जदि ।

§ २०९. एत्थ परपयडीए त्ति वुत्ते कोहसंजलणपयडीए गहणं कायध्वं, तत्तो अण्णत्थ पुरिसवेदपदेसग्गस्स एदम्मि विसए संकमासंमवादो । कुदो पुण वंपुवरमे संते गुणसंकमं मोत्तूण अधापवत्तसंकमसंभवो त्ति णासंकणिज्जं, उवरदबंधाणं पि तिसंजलण-पुरिसवेदपयडीए णवकबंधस्स अधापवत्तसंकमञ्चवगमादो ।

पढमसमयअवेदस्स संकामिज्जदि बहुअं, से काले विसेसहीणं ।

§ २१०. कुदो एवं चे ? बंधावलियादिक्कंतणिरुद्धसमयपवद्धमधापवत्तभाग-हारेण खंडिदेयखंडं पढमसमये संकामेयूण पुणो विदियसमये तं चेव समयपवद्धं पढमसमयसंकंतोवसंतसगासंखेज्जभागपरिहीणमधापवत्तभागहारेण खंडिदूणेयखंडमेत्तं संकामेदि त्ति एदेण कारणेण समयं पडि विसेसहीणं चेव संकामिज्जमाणं पदेसग्गं

उपशमाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। उनके प्रदेशपुञ्जको केवल स्वस्थानमें ही नहीं उपशमाता है, किन्तु पर प्रकृतिमें भी संक्रमित करता है यह जतलाने के लिए अगले सूत्रका निर्देश करते हैं—

परन्तु पर प्रकृतिमें अधःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा संक्रमाता है ।

§ २०९. यहाँ पर 'पर प्रकृति' ऐसा कहने पर क्रोध संज्वलन प्रकृतिका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे अतिरिक्त प्रकृतिमें पुरुषवेदके प्रदेशपुञ्जका इस स्थल पर संक्रम नहीं हो सकता ।

शंका—बन्धके उपरम हो जाने पर गुणसंक्रमको छोड़कर अधःप्रवृत्त संक्रम कैसे सम्भव है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बन्धके उपरत हो जाने पर भी तीन संज्वलन और पुरुषवेद प्रकृतियोंके नवकबन्धका अधःप्रवृत्तसंक्रम स्वीकार किया है ।

अवेदभागके प्रथम समयमें बहुत प्रदेशपुञ्जको संक्रमाता है, तदनन्तर समयमें विशेषहीन प्रदेशपुञ्जको संक्रमाता है ।

§ २१०. शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि बन्धावलिके न्यतीत होनेके बाद विवक्षित समयप्रवद्धको अधःप्रवृत्त भागहारसे भाजित कर जो एक भाग प्राप्त हो उसे प्रथम समयमें संक्रमित करे। पुनः दूसरे समयमें जो कि प्रथम समयमें अपने द्रव्यका असंख्यातबाँ भाग उपशान्त और संक्रमित हो गया है उससे हीन शेष उसी समयप्रवद्धको अधःप्रवृत्त भागहारके द्वारा भाजित कर जो एक भाग प्राप्त हो उसे संक्रमित करता है, इस प्रकार इस कारणसे प्रत्येक समयमें विशेषहीन

दहुव्वं । एदं च एयसमयपबद्धविवक्खाए परुविदं । णाणासमयपबद्धप्पणाए चउव्विह-
वट्ठि-हाणीहि संकमपवुत्तीए संभवदसणादो त्ति एदस्स अत्थविसेसस्स जाणावण-
फलमुत्तरसुत्तं—

* एस्स कम्मो एयसमयपबद्धस्स चैव ।

§ २११. अयमेदस्स भावत्थो—णाणासमयपबद्धा चउव्विहवट्ठि-हाणिपरिणद-
जोगेहि बंधावलियादिकंतवसेण संकमपाओग्गभावमुवदुक्कमाणा पुव्विन्लजोगाणुसारेणेवं
संकामिज्जंति त्ति ण तत्थ विसेसहाणीए संकमणियमो, किंतु सिया विसेसहीणं,
सिया विसेसाट्ठियं संखेज्जासंखेज्जभागोहि, सिया संखेज्जगुणहीणं, सिया संखेज्जगुणं,
सिया असंखेज्जगुणहीणं, सिया असंखेज्जगुणं च णाणासमयपबद्धणिबद्धं संकमदव्वं
होइ, तण्णबंधणजोगाणं तथाभावेणावट्ठणादो त्ति । तम्हा णिरुद्धेयसमयपबद्धपडिबद्धं
चैव पदेसग्गं विसेसहीण होइण संकामिज्जदि त्ति पुव्विन्लमप्पाबहुअं सुसंबद्धं ।

* पढमसमयअवेदस्स संजलणाणं ठिदिबंधो बत्तीस वस्साणि
अंतोमुहत्तू णाणि । सेसाणं कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

§ २१२. चरिमसमयसवेदस्स ठिदिबंधो संजलणाणं संपुण्णवत्तीसवस्समेत्तो
तम्मि चैव पज्जवसिदो । तदो तम्मि ट्ठिदिबंधे समत्ते पढमसमयअवेदो अण्णं ट्ठिदि-

ही प्रदेशपुञ्ज संक्रमित होता हुआ जानना चाहिए । यह एक समयप्रबद्धको विवक्षित कर कहा है, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंकी विवक्षामें चार प्रकारकी वृद्धि और हानिरूपसे संक्रमकी प्रवृत्तिकी संभावना देखी जाती है इस प्रकार इस अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* यह क्रम एक समयप्रबद्धका ही है ।

§ २११. इस सूत्रका यह भावार्थ है—बन्धको प्राप्त हुए नाना समयप्रबद्ध चार प्रकारकी वृद्धि और हानिरूपसे परिणत हुए योगोंके द्वारा बन्धावलिके व्यतीत हो जाने पर संक्रमभावके योग्य होकर पूर्वके योगके अनुसार ही संक्रमित होते हैं, इसलिए वहाँ विशेष हानिरूपसे संक्रमका नियम नहीं है । किन्तु संख्यातवें और असंख्यातवें भागरूपसे कदाचित् विशेष हीन और कदाचित् विशेष अधिक तथा कदाचित् संख्यात गुणहीन और कदाचित् संख्यात गुणा तथा कदाचित् असंख्यातगुणा हीन और कदाचित् असंख्यातगुणा नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी संक्रमद्रव्य होता है, क्योंकि उन नाना समयप्रबद्धोंके कारणभूत योगोंका उसी प्रकारसे अवस्थान होता है, इसलिए एक समयप्रबद्धसे सम्बन्धित प्रदेशपुञ्ज ही विशेष हीन होकर संक्रमित किया जाता है, इसलिए पूर्वका अल्पबहुत्व सुसम्बद्ध है ।

* प्रथम समयवर्ती अपगतवेदी जीवके चारों संज्वलनोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम बत्तीस वर्ष है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्ष है ।

§ २१२. सवेदी जीवके अन्विम समयमें संज्वलनोंका स्थितिवन्ध सम्पूर्ण बत्तीस वर्ष-प्रमाण होता है, क्योंकि उस स्थितिवन्धका वही पर्यवसान हो जाता है, इसलिए उस स्थिति-

बंधमाढवेमाणो संजलणाणं पुव्विन्लड्डिदिबंधादो अंतोद्गुत्तुणं ड्डिदिबंधमाढवेइ, एत्तो पाए संजलणाणं ठिदिबंधोसरणस्स अंतोद्गुत्तुत्तपमाणत्तादो । सेसाणं पुण कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणहाणीए बज्जमाणो संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो दट्ठव्वो चि भणिदं होइ ।

* पढमसमयअवेदो तिचिहं कोहमुवसामेइ ।

§ २१३. पुरिसवेदचिराणसंतकम्मे उवसंते तण्णवकबंधं जहावुत्तेण कमेणुवसामेमाणो तदवत्थाए चेव तिचिहं कोहमेत्तो प्पहुडि उवसामेदुमाढवेदि चि वुत्तं होइ ।

* सा चेव पोराणिया पढमड्डिची हवदि ।

§ २१४. जा पुव्वमंतरं करंतेण कोधसंजलणस्स पढमड्डिदी पुरिसवेदपढमड्डिदीदो विसेसाहिया ठविदा सा चेव गलिदसेसपमाणा एण्हि पियड्डुदि चि घेत्तव्वा । जहा उवरि माणादीणमुवसामणाए अपुव्वा पढमड्डिदी सवेदगद्दादो आवलियम्महिया कीरदे ण एवमेत्थ तिचिहस्स कोहस्स उवसामणदुमपुव्वा पढमड्डिदी कीरदे, किंतु सा चेव चिरंतणी पढमड्डिदी विरहदा जाव तिचिहं कोहमुवसामेदि ताव पडिबंधेण विणा पयड्डुदि चि वुत्तं होइ ।

बन्धके समाप्त होनेपर अपगतवेदो जीव अवेदभागके प्रथम समयमें अन्य स्थितिबन्धका आरम्भ करता हुआ संज्वलनोंके पूर्वके स्थितिबन्धसे अन्तर्मुहूर्त कम स्थितिबन्धका आरम्भ करता है, क्योंकि यहाँसे लेकर संज्वलनोंके स्थितिबन्धका उत्तरोत्तर अपसरण अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण होता है । परन्तु शेष कर्मका स्थितिबन्ध संख्यातगुणो हानिके क्रमसे बन्धको प्राप्त होता हुआ संख्यात हजार वर्षप्रमाण जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* प्रथम समयवर्ती अपगतवेदी जीव तीन प्रकारके क्रोधको उपशमाता है ।

§ २१३. पुरुषवेदके पुराने सत्कर्मके उपशान्त होनेपर उसके नवक बन्धको बधोक्त क्रमसे उपशमाता हुआ उस अवस्थामें ही तीन प्रकारके क्रोधको यहाँसे लेकर उपशमानेके लिए आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* इनकी वही पुरानी प्रथम स्थिति होती है ।

§ २१४. पहले अन्तर करते हुए क्रोधसंज्वलनकी जो प्रथम स्थिति पुरुषवेदकी प्रथम स्थितिसे विशेष अधिक स्थापित की थी, गलित होनेसे वहाँपर जितनी शेष बची वही यहाँपर प्रवृत्त रहती है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । जिस प्रकार आगे मानादिककी उपशामना करते समय सवेदकके कालसे एक आवलि अधिक अपूर्व प्रथम स्थिति की जाती है उस प्रकार यहाँपर तीन प्रकारके क्रोधके उपशमानेके लिए अपूर्व प्रथम स्थिति नहीं की जाती, किन्तु रची गई वही पुरानी प्रथम स्थिति तीन प्रकारके क्रोधके उपशमाने तक बिना प्रतिबन्धके प्रवृत्त रहती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* ठिदिबंघे पुण्णे पुण्णे संजलणाणं ठिदिबंघो विसेसहीणो ।

§ २१५. केत्तियमेत्तेण ? अंतोसुहुत्तमेत्तेण ।

* सेसाणं कम्ममाणं ठिदिबंघो संखेज्जगुणहीणो ।

§ २१६. गयत्थमेदं सुत्तं । तदो एत्थ वि ङ्घिदिबंघअप्पाबहुअमणंतरपरुविदेणेव कमेणाणुगंतव्वं, विसेसाभावादो । ठिदि-अणुभागखंडयथादा वि मोहणीयवजाणं कम्ममाणं पुव्वुत्तेणेव कमेण पयडुंति त्ति वत्तव्वं ।

* एदेण कमेण जाघे आबलिय-पडिभावलियाओ सेसाओ कोहसंजलणस्स ताघे विदियट्ठिवीदो पढमट्ठिवीदो आगाल-पडिआगालो बोच्छिण्णो ।

§ २१७. एत्यावलिया त्ति वुत्ते उदयावलिया गहेयव्वा । पडिआवलिया त्ति वुत्ते उदयावलियादो बाहिरा उदयावलिया वेत्तव्वा । एत्तियमेत्तावसेसाए कोहसंजलण-पढमट्ठिदीए आगाल-पडिआगालवोच्छेदो होइ । एदं च उप्पादानुच्छेदमस्सियूण मणिदं, दोसु आवलियासु सेसासु आगाल-पडिआगालो होइण समयूणासु दोसु आवलियासु संतीसु आगाल-पडिआगालवोच्छेदस्स इह विवक्खियत्तादो ।

* पडिआबलियावो वेव उदीरणा कोहसंजलणस्स ।

* प्रत्येक स्थितिबन्धके पूर्ण होनेपर संज्वलनचतुष्कका अन्य स्थितिबन्ध विशेष हीन होता है ।

§ २१५. शंका—कितना हीन होता है ?

समाधान—पूर्वके स्थितिबन्धसे अन्तर्मुहूर्त हीन होता है ।

* शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है ।

§ २१६. यह सूत्र गतार्थ है, इसलिए यहाँपर भी स्थितिबन्धसम्बन्धी अल्पबहुत्वको पूर्वमें कहे गये क्रमके अनुसार ही जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है । स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघात भी मोहनीय कर्मको छोड़कर शेष कर्मोंके पूर्वोक्त क्रमसे ही प्रवर्तते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए ।

* इस क्रमसे जब क्रोधसंज्वलनकी आवलि-प्रत्यावलि शेष रहती है तब द्वितीय स्थितिमेंसे आगाल और प्रथम स्थितिमेंसे प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं ।

§ २१७. यहाँपर आवलि ऐसा कहनेपर उदयावलि को ग्रहण करना चाहिए तथा प्रत्यावलि ऐसा कहनेपर उदयावलिसे बाहरकी उदयावलि को ग्रहण करना चाहिए । क्रोध-संज्वलनकी प्रथम स्थितिके इतनी मात्र शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालकी व्युच्छिप्ति हो जाती है । यह उप्पादानुच्छेदका आश्रय लेकर कहा है, क्योंकि प्रथम स्थितिमें दो आवलियोंके शेष रहनेतक आगाल और प्रत्यागाल होकर एक समय कम दो आवलियोंके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालको यहाँपर व्युच्छिप्ति विवक्षित है ।

* तब क्रोध संज्वलनकी प्रत्यावलिमेंसे ही उदीरणा होती है ।

§ २१८. आगाल-पडिआगालवोच्छेदे संजादे तदो पहुडि कोइसंजलणस्स णत्थि गुणसेटिणिकखेवो, गुणसेटिआयामस्स सव्वजहण्णस्स वि आवलियपमाणादो हेट्ठा संभवाणुवलंभादो । तदो पडिआवलियादो चेव पदेसग्गमोकङ्कियूणासंखेजे समयपबद्धे उदीरेदि ति एसो एत्थ सुत्तथविणिच्छओ ।

* पडिआबलियाए एक्कम्हि समए सेसे कोइसंजलणस्स जहण्णिया ठिडिउदीरणा ।

§ २१९. कुदो ? एकस्से चेव द्विदीए उदयावलियवाहिराए ओकङ्कियूणुदयाव-लियम्भंतंर पवेसिज्जमाणाए जहण्णभावाविरोहादो । संपहि एत्थेव द्विदिवंधपमाणा-वहारणद्वयुत्तरसुत्तमोहण्णं—

* च्चदुण्हं संजलणाणं ठिदिवंधो चत्तारि मासा ।

§ २२०. वत्तीसवस्सियादो पुव्वणिरुद्धद्विदिवंधादो कमेण परिहाइदूण मास-चउक्कमेत्तो एत्थ संजलणाणं ठिदिवंधो जादो ति वुत्तं होइ ।

* सेसाणं कम्ममाणं द्विदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

§ २२१. णाणावरणादिकम्ममाणं संखेज्जवस्सियादो पढमद्विदिवंधादो संखेज्ज-गुणहाणीए संखेज्जसहस्समेत्तेसु द्विदिवंधेषु गदेसु वि तेसिमेत्थतणद्विदिवंधस्स संखेज्ज-वस्ससहस्सपमाणचाविरोहादो । एत्थ द्विदिवंधप्पावहुअं पुव्वुत्तेणेव विहाणेणाणुगंतव्वं ।

§ २१८. आगाल और प्रत्यागालकी व्युत्पत्ति हो जानेपर वहाँसे लेकर क्रोधसंज्वलन-का गुणभ्रंशनिक्षेप नहीं होता, क्योंकि सबसे जघन्य भी गुणश्रेणि आयाम एक आवलिप्रमाण है, वससे कम उपलब्ध होना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रत्यावलिमें से ही प्रदेशपुंजका अपकर्षण करके असंख्यात समयप्रबद्धोंकी उदीरणा करता है यह यहाँ सूत्रार्थका निर्णय है।

* प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहनेपर क्रोधसंज्वलनकी जघन्य स्थिति उदीरणा होती है ।

§ २१९. क्योंकि उदयावलिके बाहर जो एक स्थिति शेष है उसमेंसे अपकर्षणकर उदयावलिमें प्रवेश करानेपर जघन्य स्थिति उदीरणा होती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब यहाँपर स्थितिवन्धके प्रमाणका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* तव चार संज्वलनोंका स्थितिवन्ध चार माह होता है ।

§ २२०. चार संज्वलनोंका जो पहले वत्तीस वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता रहा वह क्रमसे घट कर यहाँपर चार मासप्रमाण हो गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तथा शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है ।

§ २२१. क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मोंके संख्यात वर्षप्रमाण प्रथम स्थितिवन्धमेंसे संख्यात-गुणहानि द्वारा संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिवन्धोंके व्यतीत हो जानेपर भी उनका यहाँपर स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है इसमें कोई विरोध नहीं है। यहाँपर स्थिति-

संपहि कोहसंजलणपढमट्टिदीए उदयावलियं पविट्ठाए जो परूवणाविसेसो तप्परूवणहु-
मुचरो सुत्तपबंधो—

* पडिआवळिया उदयावळियं पविसमाणा पविट्ठा ।

§ २२२. सुगममेदं सुत्तं । णवरि पडिआवळियाए उदयावळियं पविट्ठाए
आवळियमेत्ती चैव कोहसंजलणस्स पढमट्टिदो परिसिट्ठा । एसा च उच्छिट्ठावळिया
णाम, एदिस्से सगसरूवेणाणुभावेणाभावादो ।

* ताधे चैव कोहसंजलणे दोआयळियबंधे दुसमयूणे मोत्तूण सेसा
तिविह्कोधपदेसा उवसामिज्जमाणा उवसंता ।

§ २२३. तमिह चैव णिरुद्धसमये कोहसंजलणस्स दुसमयूणदोआवळियमेत्त-
णवकबंधे मोत्तूण तिविहस्स कोहस्स सेसासेसपदेसग्गं पत्तथोवसामणाए उवसंतमिदि
एसो एत्थ सुत्तत्थसमुच्चओ । 'उवसामिज्जमाणा उवसंता' त्ति वुत्ते पडिसमयमसंखेज्ज-
गुणाए सेटीए उवसामिज्जमाणा संता कमेण उवसंता त्ति चेत्तव्वं । जे ते दुसमयूणदो-
आवळियमेत्ता कोहसंजलणस्स णवकबंधा तेसियुवसामणाए पुरिसवेदमंगो । संपहि
अहकं तत्थविसयं किंचि परामरसं कुणमाणो इदमाह—

* कोहसंजलणे दुविहो कोहो ताव संछुहदि जाव कोहसंजलणस्स

बन्धका अल्पबहुत्व पूर्वोक्त विधिसे ही जानना चाहिए । अब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति-
के उदयावलिमें प्रवृष्ट हो जानेपर जो प्ररूपणाविशेष है उसका कथन करनेके लिए आगेके
सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* प्रत्यावलि उदयावलिमें प्रवेश करती हुई प्रविष्ट हो गई ।

§ २२२. यह सूत्र सुगम है । इतनी विशेषता है कि प्रत्यावलिके उदयावलिमें प्रविष्ट हो
जानेपर क्रोधसंज्वलनकी आवळिमात्र प्रथम स्थिति शेष रही । इसका नाम उच्छिट्ठावलि है ।
इसका अपने रूपसे अनुभवन नहीं होता ।

* तभी क्रोधसंज्वलनके दो समय कम दो आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंको छोड़कर
शेष तीन प्रकारके क्रोधप्रदेश उपशमाये जाते हुए उपशान्त हुए ।

§ २२३, उसी विवक्षित समयमें क्रोधसंज्वलनके दो समय कम दो आवलिप्रमाण
नवकबन्धको छोड़कर बाकीके सभी प्रदेशपुञ्ज प्रशस्त उपशामनारूपसे उपशान्त हो गये यह
यहाँ पर सूत्रके अर्थका समुच्चय है । 'उवसामिज्जमाणा उवसंता' ऐसा कहने पर प्रति समय
असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उपशमाये जाते हुए क्रमसे उपशान्त हुए ऐसा यहाँ ग्रहण करना
चाहिए । तथा जो ये क्रोधसंज्वलनके दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक बन्ध हैं उनके
उपशमानेका अंग पुरुषवेदके समान है । अब अतिक्रान्त हुए अर्थके विषयमें कुछ परामर्श करते
हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* क्रोधसंज्वलनमें दो प्रकारके क्रोधोंका तब तक संक्रमण करता है जब तक क्रोध-

पढमद्विदीए तिण्णि आवलियाओ सेसाओ त्ति ।

§ २२४. एत्थ दुविहो कोहो त्ति वुत्ते पक्कन्हाणापक्कन्हाणकोहाणं महणं कायव्वं, अण्णहासंभवादो। सो ताव कोहसंजलणे गुणसंक्रमेण संछुहदि जाव कोहसंजलण-पढमद्विदी आवलियचियमेत्ता सेसा त्ति । कुदो ? एदम्मि अवत्थंतरे तत्थ तदुमय-संकंतीए विरोहाभावादो । संक्रमणावलियभावेण पढमावलियं बोलाविय पुणो विदिया-बलियाए पढमसमयप्पहुडि उवसामणावलियमेत्तेण कालेण तं दव्वमुवसामेदि । तदो तदियावलियमुच्छिद्धावलियभावेण छंडिदि त्ति एदेण कारणेण तिसु आवलियासु सेसासु कोहसंजलणस्स दुविहस्स कोहस्स संक्रमो ण विरुज्झदे ।

* तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु तत्तो पाए दुविहो कोहो कोहसंजलणे ण संछुमदि ।

§ २२५. कोहसंजलणपढमद्विदीए अणंतरपरूविदाणं तिण्हमावलियाणं पडिवुण्णाणमभावे तमुल्लंघियूण माणसंजलणम्मि दुविहं कोहं संछुमदि, पयारंतासंभवादो त्ति भणिदं होइ । एवमेदेण क्रमेण कोहसंजलणपढमद्विदिं गालेमाणस्स जाधे

संज्वलनकी प्रथम स्थितिमें तीन आवलियां शेष रहती हैं ।

§ २२४. यहाँ पर दो प्रकारका क्रोध ऐसा कहने पर प्रत्याख्यानावरण क्रोध और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रकार सम्भव नहीं है। वे दोनों क्रोधसंज्वलनमें गुणसंक्रमके द्वारा तब तक संक्रमित होते हैं जब तक क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति तीन आवलिप्रमाण शेष रहती है, क्योंकि इस अवस्थाके भीतर उसमें उन दोनों के संक्रमित होनेमें विरोधका अभाव है। संक्रमणावलिरूपसे प्रथम आवलिको विताकर पुनः दूसरी आवलिके प्रथम समयसे उपशमनावलिप्रमाण कालके द्वारा उस द्रव्यको उपशमाता है, इसलिए तीसरी आवलिको उच्छिष्टावलिरूपसे छोड़ देता है। इस कारणसे तीन आवलियाँ शेष रहने तक क्रोधसंज्वलनमें दो प्रकारके क्रोधोंका संक्रम विरोधको नहीं प्राप्त होता।

विशेषार्थ—क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिसम्बन्धी संक्रमणावलि, उपशमनावलि और उच्छिष्टावलि इन तीन आवलियोंके अवशिष्ट रहने तक क्रोधसंज्वलनमें अप्रत्याख्यानावरण क्रोध और प्रत्याख्यानावरण क्रोधका संक्रम होता है। इसके बाद नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

* एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहने पर वहाँसे लेकर दो प्रकारके क्रोधका क्रोधसंज्वलनमें संक्रम नहीं होता।

§ २२५. क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें अनन्तर पूर्व कही गई परिपूर्ण तीन आवलियोंका अभाव होनेपर उसको उल्लंघन कर मानसंज्वलनमें दो प्रकारके क्रोधका संक्रम करता है, क्योंकि दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार

१. ता. प्रती दुविहकोह (हो) संजलणे इति पाठः ।

२. ता. प्रती कोहं [ण] संछुमदि इति पाठः ।

क्रोहसंजलणस्स पढमट्टिदी उच्छिद्वावलियमेत्ता सेसा ताथे क्रोहसंजलणस्स बंधोदया वोच्छिजंति चि जाणावणहुत्तसरसुत्तमोद्वण्णं—

* जाथे क्रोहसंजलणस्स पढमट्टिदीए समयूणावलिया सेसा ताथे वेव क्रोहसंजलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा ।

§ २२६. कुदो एत्थ उच्छिद्वावलियाए समयूणत्तमिदि णासंकाणिज्जं, तम्मि वेव समये उदयवोच्छेदवसेण पढमणिसेगट्टिदीए माणसंजलणोदयम्मि स्थित्तुक्कसंक्रमेण संक्रममाणाए तिस्से तहाभावोवलंभादो ।

* माणसंजलणस्स पढमसमयवेदगो पढमट्टिविकारओ च ।

§ २२७. क्रोहसंजलणस्स पढमट्टिदिं समयूणुच्छिद्वावलियवज्जं गालिय तन्बंधो-दयवोच्छेदं काट्ठण ट्टिदो तम्मि वेव समये माणसंजलणस्स पढमसमयवेदगो होइ । कथं पुण विदियट्टिदीए समवट्टिदस्स माणसंजलणस्स तत्काले वेय उदयसंभवो होदि चि आसकाए ह्दमाह 'पढमट्टिविकारओ चेदि' विदियट्टिदीए समवट्टिदं माणसंजलणस्स

इस क्रमसे क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको गळानेवाले जोबके जब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थिति उच्छिष्टावलिप्रमाण शेष रहती है तब क्रोधसंज्वलनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न हो जाते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* जब क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें एक समय कम एक आवलि शेष रहती है तभी क्रोधसंज्वलनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न हो जाते हैं ।

§ २२६. शंका—यहाँ पर उच्छिष्टावलिमें एक समय कम किस कारणसे किया ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी समय उदयकी व्युच्छिष्टि हो जानेके कारण प्रथम निषेकस्थितिके मानसंज्वलनके उदयमें स्तित्तुक्क संक्रमके द्वारा संक्रमित हो जाने पर उसकी उस प्रकारसे उपलब्धि होती है ।

विश्लेषार्थ—जो क्रोधसंज्वलनके उदयका अन्तिम समय है उसके तदनन्तर समयमें उसकी उदयावलिका अधस्तन प्रथम निषेक मानसंज्वलनमें स्तित्तुक्कसंक्रमके द्वारा संक्रमित हुए रहनेसे उसमेंसे एक निषेकके कम हो जानेके कारण यहाँ पर उच्छिष्टावलिमेंसे एक समय कम किया ।

* तथा तभी वह मानसंज्वलनका प्रथम समय वेदक और प्रथम समय कारक होता है ।

§ २२७. एक समय कम उच्छिष्टावलिसे सिवाय क्रोधसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको गळकर तथा उसके बन्ध और उदयकी व्युच्छिष्टि करके स्थित हुआ जीव उसी समय मानसंज्वलनका प्रथम समय वेदक होता है ।

शंका—द्वितीय स्थितिमें स्थित मानसंज्वलनका उसी समय उदय कैसे सम्भव है ?

समाधान—ऐसी शंका होने पर 'प्रथम स्थितिका करनेवाला' होता है' यह बन्धन कहा है । द्वितीय स्थितिमें स्थित मानसंज्वलनके प्रवेशपुरुजको अपकर्षितकर उदयादि गुणभेजि-

पदेसग्गमोकड्डियुणदयादिगुणसेठीए णिकखेवं कुणमाणो ताधे चैव पढमट्टिदिकारगो होंतो माणवेदगां होदि त्ति एमो एदस्स भावत्थो । संपहि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणहु-
मुत्तरं पबंधमाह—

* पढमट्टिदिं करेमाणो उदये पदेसग्गं थोवं देदि, से काले असंखेज्ज-
गुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेठीए जाव पढमट्टिदिचरिमसमभो त्ति ।

§ २२८. विदियट्टिदिपदेसग्गमोकड्डियुण माणसंजलणस्स पढमट्टिदिं कुणमाणो
एदेण विण्णासेण करेदि त्ति वुत्तं होइ । एत्थ पढमट्टिदिदीहत्तमंतोमुहुत्तपमाणं होदूण
माणवेदगाद्दादो आवलियम्महियं होदि त्ति घेत्तव्वं । एव पढमट्टिदिम्मि तक्कालोकड्डिद-
सव्वदव्वस्सासंखेज्जभागमेत्तदव्वं ट्टिदिं पडि असंखेज्जगुणाए सेठीए णिसिंचिय पुणो
सेसदव्व विदियट्टिदीए कधं णिसिंचिदि त्ति आसंकाए सुत्तमुत्तरं भणइ—

* विदियट्टिदीए जा आदिट्टिदी तिस्से असंखेज्जगुणहीणं, तदो विस्सेस-
हीणं चैव ।

§ २२९. कुदो ताव विदियट्टिदीए आदिट्टिदिम्मि असंखेज्जगुणहीणं णिसिंचिदि
त्ति वुत्ते वुत्तदं—पढमट्टिदीए चरिमणिसेयम्मि गुणसेट्टिसीसयभावेणावट्टिदिम्मि असं-
खेज्जा समयपवद्धा णिसिंचिदि । संपहि विदियट्टिदीए आदिमट्टिदिम्मि णिसिंचमाण-

रूपसे निक्षेप करता हुआ उसी समय प्रथम स्थितिका करनेवाला होकर मानवेदक होता है
यह इस सूत्रका भावार्थ है । अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* प्रथम स्थितिको करता हुआ उदयमें अल्प प्रदेशपुञ्जको देता है । तदनन्तर
समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है । इम प्रकार असंख्यातगुणे श्रेणिक्रमसे
प्रथम स्थितिके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक देता है ।

§ २२८. द्वितीय स्थितिके प्रदेशपुञ्जको अपकर्षित कर मानसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको
करता हुआ इस रचनाके अनुसार करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यहाँ पर प्रथम
स्थितिकी लम्बाई अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होकर मानसंज्वलनके वेदककालसे एक आवलिप्रमाण
अधिक होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार प्रथम स्थितिमें तत्काल अपकर्षित
किये गये सर्व द्रव्यके असंख्यातवे भागप्रमाण द्रव्यको प्रत्येक स्थितिकी अपेक्षा असंख्यातगुणे
श्रेणिरूपसे सिंचित कर पुनः शेष द्रव्यको दूसरी स्थितिमें किस प्रकार सिंचित करता है ऐसी
आशंका हाने पर आगेके सूत्रको कहते हैं—

* द्वितीय स्थितिकी जो आदि स्थिति है उसमें असंख्यातगुणे हीन प्रदेशपुञ्जका
सिंचन करता है । उससे आगे विशेष हीन प्रदेशपुञ्जका ही सिंचन करता है ।

§ २२९. द्वितीय स्थितिकी आदि स्थितिमें किस कारणसे असंख्यातगुणे हीन प्रदेश-
पुञ्जका सिंचन करता है ऐसा कहने पर कहते हैं—क्योंकि प्रथम स्थितिके गुणश्रेणिकीरूपसे
अवस्थित अन्तिम निषेकमें असंख्यात समयप्रवद्ध निक्षिप्त करता है । अब द्वितीय स्थितिमें

द्वयपमाणमेगसमयपवद्दसंखेज्जभागमेत्तं वेव होइ, त्कालोकट्टिददव्वस्स असंखेज्जणं भागाणं दिवट्टुगुणहाणिपडिभागेण लद्धेमभागपमाणत्तादो । तम्हा सिद्धमेदस्सासंखेज्जगुणहीणत्तं । एत्तो उवरि सव्वत्थ विसेसहीणं वेव णिकिस्सवदि जाव चरिमट्ठिदिमहञ्छावणावलयमेत्तेण अपत्तो त्ति, तत्थ पयारंतरासंभवादो । एवं वेव माणवेदगस्स विदियादिसमएसु वि पढम-विदियट्ठिदीसु पदेसविण्णासकमो दट्ठव्वो । णवरि समयं पडि असंखेज्जगुणाए सेटीए पदेसग्गमोकट्टियूण गलिटसेसायामेण उदयादिगुणसेटिणिकस्सेवं करेदि त्ति वत्तव्वं ।

* जाधे कोधस्स वंधोदया चोकछिण्णा ताधे पाये माणस्स तिचिहस्स उवसामगो ।

§ २३०. कोहसंजलणोवसामणांतरं जहावसरपत्तस्स तिचिहस्स माणस्स आयुत्तकिरियाए उवसामगो होदि त्ति वुत्तं होइ । संपहि एत्थेयुद्देसे ट्टिदिवंधपमाणावहारणट्टुमुवरिमसुत्तावयारो—

* ताधे संजलणाणं ट्टिदिवंधो चत्तारि मासा अंतोमुहुसेण ऊणया । सेसाणं कम्मणं ट्टिदिवंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

§ २३१. अणंतराइकंतहेट्टिमट्ठिदिवंधो संजलणाणं चत्तारि मासा पडिबुण्णा त्ति आविको स्थितिमं निक्षिप्त किये जानेवाले द्रव्यका प्रमाण एक समयप्रबद्धके असंख्यातवं भाग-प्रमाण ही होता है, क्योंकि वह उस समय जितने द्रव्यका अपकर्षण होता है उसे डेढ़ गुण-हाणिसे भाजित करने पर असंख्यात बहुभागोंके अतिरिक्त जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण होता है । इसलिये यह असंख्यातगुणा हीन होता है वह सिद्ध हुआ । इससे ऊपर सर्वत्र अति-स्थापनावलिप्रमाण स्थितिको छोड़कर अन्तिम स्थिति तक विशेष हीन द्रव्यको ही निक्षिप्त करता है, क्योंकि वहाँ अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है । इसी प्रकार मानवेदके द्वितीयादि समयोंमें भी प्रथम और द्वितीय स्थितियोंमें प्रवेशोंके विन्यासका क्रम जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे प्रवेशपुञ्जका अपकर्षण कर उद्यादि गुणश्रेणिका जितना आयाम गलित होता जाय उससे शेष रहनेवाले उसके आयाममें निक्षेप करता है ऐसा कहना चाहिए ।

* जिस समय क्रोधसंवलनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न होते हैं उसी समय तीन प्रकारके मानका उपसामक होता है ।

§ २३०. क्रोधसंवलनके उपसामये जानेके अनन्तर यथावसर प्राप्त तीन प्रकारके मानका आयुक्त क्रिया द्वारा उपसामक होता है यह एक कथनका तात्पर्य है । अब इसी स्थलपर स्थितिवन्धके प्रमाणका निश्चय करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* उस समय तीन संवलनोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम चार मास होता है और शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्ष होता है ।

§ २३१. अनन्तर पूर्व संवलनोंका स्थितिवन्ध पूरा चार माह कह आवे हैं । परन्तु

बुचं । एण्हं पुण तिण्हं संजलणाणं ढ्ढिदिबंधो अंतोमहुत्तणमासचउकमेत्तो होइ, एदम्मि विसए संजलणाणं ढ्ढिदिबंधोसरणस्स अंतोमहुत्तणमासचउकमेत्तो । सेसकम्माणं पुण ढ्ढिदिबंधो संखेजवस्ससहस्समेत्तो होदूण समणंतरहेड्ढिमड्ढिदिबंधादो संखेजगुणहीणो समारद्धो चि एसो एत्थ सुचत्थविणिच्छयो । ढ्ढिदिबंधप्पाबहुअमेत्थ पुच्चुत्तेणव विहाणे-णाणुगतंत्वं । एवं तिविहस्स माणस्स उवसामणमाढविय समयं पडि असंखेजगुणाए सेटीए पदेसग्गमुवसामेमाणस्स संखेजसहस्समेत्तेसु ढ्ढिदिबंधेसु गढेसु माणसंजलणस्स पढमड्ढिदीए ज्जीयमाणाए थोवावसेसाए जो किरियामेदो तप्पदुप्पायणड्ढुत्तरो सुचपबंधो—

* माणसंजलणस्स पढमड्ढिदीए तिसु आबल्लियासु समयूणासु सेसासु बुबिहो माणो माणसंजलणे ण सत्कुम्भदि ।

§ २३२. गयत्थमेदं सुत्तं, कोहसंजलणपरूवणाए षवंचियत्तादो । संपहि एत्तो पुणो वि समयूणावल्लियमेत्तं गालिय दोआवल्लियमेत्ति पढमड्ढिदि धरेदूणावड्ढिदस्स आगाल-पडिआगालवोच्छेदविहाणड्ढुत्तरसुत्तमोइण्णं—

* पडिआवल्लियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो ।

§ २३३. का पडिआवल्लिया नाम ? उदयावल्लियादो उवरिमा जा विदियावल्लिया सा पडियावल्लिया चि भण्णदे । सेसं सुगमं । एत्थो पुणो वि समयूणावल्लियं गालिय यहाँपर तीन संज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तमुहूर्त कम चार मास होता है, क्योंकि इस स्थल पर संज्वलनोंके बन्धापसरणका प्रमाण अन्तमुहूर्तमात्र होता है । परन्तु शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होकर अनन्तर पूर्वके स्थितिबन्धसे संख्यातगुणा हीन आरम्भ करता है यह यहाँ सूत्रके अर्थका निश्चय है । यहाँ पर स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व पूर्वोक्त विधिसे ही जानना चाहिए । इस प्रकार तीनों प्रकारके मानके उपशमानेका आरम्भ करके प्रति समय असंख्यातगुणी भणिरूपसे प्रद्वेषपुञ्जको उपशमानेवाले जीवके संख्यात हजार स्थितिबन्धोंके जानेपर क्षीण होती हुई मान संज्वलनकी प्रथम स्थितिके थोड़ी शेष रहनेपर जो क्रियाभेद होता है उसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* मानसंज्वलनकी प्रथम स्थितिके एक समय कम तीन आवलिप्रमाण शेष रहनेपर दो प्रकारके मानको मानसंज्वलनमें संक्रान्त नहीं करता है ।

§ २३२. यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि शेषसंज्वलनके कथनके समय इसका विस्तारसे विवेचन कर आये हैं । अब इससे आगे फिर भी एक समय कम एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको गलाकर दो आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको धारणकर स्थित हुए जीवके आगाल और प्रत्यागालकी व्युच्छिन्निका विधान करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* प्रत्यावल्लिके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं ।

§ २३३. शंका—प्रत्यावल्लि किसे कहते हैं ?

समाधान—उदयावल्लिके ऊपरकी जो दूसरी आवलि है उसे प्रत्यावल्लि कहते हैं ।

शेष कथन सुगम है । इससे आगे फिर भी एक समय कम एक आवलिप्रमाण गला-

समयाहियावलयमेवपहमद्विदिं धरेद्व्यावद्विदिस्त जो परवृत्ताभेदो तप्यदुप्यायणफलो उत्तरसुषणिहे सो—

* पद्विभावलियाए एकद्विह समए सेसे भाणसंजलणस्स दोभाव-
लियासमयूणबंधे मोत्तूण सेसं तिबिहस्स माणस्स पदेससंतकम्मं चरिभ-
समयउचसंतं ।

§ २३४. एदम्मि अवत्थाविसेसे तिबिहस्स माणस्स द्विदि-अणु भाग-पदेससंतकम्मं सव्वं पि जहाणिहिद्वपमाणमाणसंजलणणवकवंधुच्छिद्वावलयवज्जं सव्वोवसामणाए चरिमसमयोवसंतं जादमिदि वुचं होइ, जहाकममवसामिज्जमाणस्स तस्स ताधे गिरव-
सेसमवसंतभावेण परिणमणदंसणादो । एत्थ उच्छिद्वावलयमप्याहाणं कादूण माण-
संजलणस्स समयूणदोआवलयबंधे मात्तूणे चि सुचे णिदिद्वं । एत्थेव समए माण-
संजलणस्स जहणिया द्विदिउदीरणा च ददुम्वा । संपहि एत्थतणद्विदिबंधपमाणवहार-
णदुमुत्तरसुत्तमोहणं—

* ताधे माण-माया-खोभसंजलणाणं कुमासद्विदिगो बंधो ।

§ २३५. सुगमं ।

* सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाभि वस्ससहस्साणि ।

कर एक समय अधिक एक आबलिप्रमाण प्रथम स्थितिको धरकर स्थित हुए जीवके विषयमें जो प्ररूपणाभेद है उसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं—

* प्रत्यावलिमें एक समय शेष रहनेपर मानसंज्वलनके एक समय कम दो आबलिप्रमाण समयप्रबद्धोंको छोड़कर तीन प्रकारके मानका शेष प्रदेशसत्कर्म अन्तिम समयमें उपशान्त हो जाता है ।

§ २३४. इस अवस्थाविशेषमें मानसंज्वलनके यथा निर्दिष्ट प्रमाणवाले नवकबन्धकी उच्छिष्टावलिको छोड़कर तीन प्रकारके मानकी सभी स्थिति, अनुभाग और प्रदेशसत्कर्म सर्वोपशान्तरूपसे अन्तिम समयमें उपशान्त हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि यथाक्रम उपशमाये जानेवाले उसका उस समय निरवशेष उपशान्तरूपसे परिणमन देखा जाता है । यहाँ पर उच्छिष्टावलिको गौणकर मानसंज्वलनके एक समय कम दो आबलिप्रमाण बन्धको छोड़कर ऐसा सूत्रमें निर्देश किया है । तथा इसी समय मानसंज्वलनकी जघन्य स्थिति-उदीरणा जाननी चाहिए । अब यहाँ पर स्थितिबन्धके प्रमाणका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* उस समय मान, माया और लोभ संज्वलनका स्थितिबन्ध दो माहप्रमाण होता है ।

§ २३५. यह सूत्र सुगम है ।

* शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है ।

§ २३६. गयत्यमेदं सुत्तं । एदम्मि चैव समए माणसंजलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा, उप्पादाणुच्छेदमस्सियूण तदुववचीदो ।

* तबो से काले मायासंजलणमोकड्डियूण मायासंजलणस्स पढम-द्विदिं करेवि ।

§ २३७. तदो माणवेदगचरिमसमयादो से काले समणंतरसमए मायासंजलण-पदेसग्गमोकड्डियूण उदयादिगुणसेटिकमेण णिक्खिण्वमाणो मायासंजलणस्स पढम-द्विदिमंतोमुहुत्तायाममुप्पादिय मायावेदगो होदि त्ति । एत्थ मायासंजलणस्स पढमद्विदि-दीहत्तमावलियन्महियसगवेदगद्धामेत्तमिति गहेयव्वं ।

* ताधे पाये तिबिहाए मायाए उवसामगो ।

§ २३८. गयत्यमेदं सुत्तं । संपहि एदम्मि चैव मायावेदगपढमसमये द्विदिबंध-पमाणपरूवणहुत्तुत्तरसुत्तारंभो—

* माया-लोभसंजलणार्णं द्विदिबंधो दो मासा अंतोमुहुत्तेण ऊणया ।

§ २३९. अणंतराइकतदोमासमेत्तद्विदिबंधादो अंतोमुहुत्तमेत्तमोसरियूण दोण्हं संजलणाणमेण्हं द्विदिबंधमाढवेदि त्ति वुत्तं होइ ।

* सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

§ २४०. अवगयत्यमेदं सुत्तं ।

§ २३६. यह सूत्र गतार्थ है । इसी समय मानसंज्वलनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न होते हैं, क्योंकि उत्पादानुच्छेदका आलम्बनकर ऐसा बन जाता है ।

* इसके एक समय बाद मायासंज्वलनका अपकर्षणकर उसकी प्रथम स्थिति करता है ।

§ २३७. मानवेदकके अन्तिम समयके बाद तदनन्तर समयमें मायासंज्वलनके प्रवेश-पुञ्जका अपकर्षणकर तथा उदयादि गुणश्रेणिरूपसे उसका निक्षेप करता हुआ मायासंज्वलनकी प्रथम स्थितिको अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्पन्न करके मायासंज्वलनका वेदक होता है । यहाँपर मायासंज्वलनकी प्रथम स्थितिको लम्बाई एक आवलि अधिक अपने वेदक कालप्रमाण होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

* वहाँसे लेकर यह तीन प्रकारकी मायाका उपशामक होता है ।

§ २३८. यह सूत्र गतार्थ है । अब इसी मायावेदकके प्रथम समयमें स्थितिबन्धके प्रमाणका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* माया और लोभसंज्वलनोंका स्थितिबन्ध अन्तर्मुहूर्तकम दो माहप्रमाण होता है ।

§ २३९. अनन्तर पूर्व व्यतीत हुए दो माहप्रमाण स्थितिबन्धसे अन्तर्मुहूर्त घटकर इस समय दो संज्वलनोंका स्थितिबन्ध आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है ।

§ २४० इस सूत्रका अर्थ अबगत है ।

* सेसाणं कम्मणां द्विविधं चर्यं पत्तिपोचमस्स संखेज्जविभागो ।

§ २४१. एत्थ सेसकम्मणि देसेण अंतरकरणसमचीदो प्पहुडि मोहणीयस्स द्विवि-
खंडयासंभवो जाणाविदो, मोहणीयवजाणमिह सेसभावेण विवस्सियत्तादो । एवमणु-
भागखंडयस्स वि मोहणीयवज्जेसु कम्मेषु अगतंगुणहाणीए पवुत्ती अणुगतंत्वा,
सुखस्सेदस्स देसामासयत्तादो । संपहि माणसंजलणुच्छिट्ठावलियाए समयूणावलियमेव-
गोवुच्छाणं कत्थ कथं वा विवागो होदि ति आसंकाए उत्तरसुत्तामह—

* जं तं माणसंतकम्ममुदयावलिआए समयूणाए तं भायाए स्थिवुक्क-
संकमेण उदए विपत्तिहिदि ।

§ २४२. जं तं चरिमसमए माणवेदगेण माणसंतकम्ममुच्छिट्ठावलियाए परिसे-
सिद तमिदाणि मायासंजलणसरूवेण स्थिवुक्कसंकमेण उदये विपत्तिदि ति भणिदं होइ ।
को स्थिवुक्कसंकमो णाम ? उदयसरूवेण ममट्टिदीए जो संकमो सो स्थिवुक्कसंकमो ति
भण्णदे । एसो स्थिवुक्कसंकमेण उच्छिट्ठावलियाए विवागकमो कोहसंजलणस्स वि
जोजेयव्वो । संपहि माणसंजलणस्स दुसमयूणदोआवलियमेत्ते णवकबंधसमयपबद्धान-
मणुवसंताणं मायावेदगकालअंतरे उवसामणकमजाणावट्टसुत्तरसुत्तिण्णिदेसो—

* तथा शेष कर्मोका स्थितिकाण्डक पन्योपमके संख्यातवें भागप्रमाण होता है ।

§ २४१. यहाँपर शेष कर्म ऐसा निर्देश करनेसे अन्तरकरणकी समाप्तिके समयसे लेकर
मोहनीयकर्मका स्थितिकाण्डक असम्भव है इस बातका ज्ञान कराया है, क्योंकि मोहनीय
कर्मके अतिरिक्त कर्म यहाँपर 'शेष कर्म' पद द्वारा विवक्षित किये गये हैं । इसी प्रकार मोहनीय-
कर्मसे अतिरिक्त कर्मोंके अनुभागकाण्डककी भी अनन्तगुणी हानिरूपसे प्रवृत्ति जाननी
चाहिये, क्योंकि यह सूत्र देशामर्षक है । अब मानसंज्वलनसम्बन्धी उच्छिट्ठावलिके एक
समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छोंका कहींपर किस प्रकार विपाक होता है ऐसी आजका
होनेपर आगेके सूत्रको कहते हैं—

* उस समय मान संज्वलनका जो एक समय कम उदयावलिप्रमाण सत्कर्म
शेष रहा वह स्तिवुक्कसंक्रमके द्वारा मायाके उदयमें विपाकको प्राप्त होगा ।

§ २४२. मानवेदकने अपने अन्तिम समयमें जो उच्छिट्ठावलिप्रमाण मानसत्कर्म शेष
रखा वह इस समय स्तिवुक्कसंक्रमके द्वारा मायासंज्वलनरूपसे उसके उदयमें विपाकको प्राप्त
होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—स्तिवुक्कसंक्रम कित्से कहते हैं ?

समाधान—उदयरूपसे समान स्थितिमें जो संक्रम होता है उसे स्तिवुक्कसंक्रम
कहते हैं ।

यह स्तिवुक्कसंक्रमके द्वारा उच्छिट्ठावलिका यह विपाकक्रम क्रोधसंज्वलनका भी
लगा लेना चाहिये । अब मानसंज्वलनके दो समय कम दो आवलिप्रमाण अनुपशान्त नवक
समयप्रवृत्तियोंके मायासंज्वलनके वेदककालके भीतर उपशमानेके क्रमका ज्ञान करानेके लिए
आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं—

* जे माणसंजलणस्स दोण्हमावळियाणं दुसमयूणाणं समयपबद्धा अणुवसंता ते गुणसेटीए उवसाभिज्जमाणा दोहि आवळियाहिं दुसमयूणाहिं उवसाभिज्जिहिति ।

§ २४३. एत्थ मायावेदगपढममए पुव्वपरूविदाणं समयूणादोआवळियमेत्त-णवकबंधसमयपबद्धानमादिमो समयपबद्धो णिल्लेविज्जदि णि तं भोत्त ण अवसेसा दुसमयूणा दोआवळियमेत्ता चेव णवकबंधसमयपबद्धा सुत्तणिहिट्ठा ते च समयं पडि असंखेज्जगुणाए सेटीए उवसाभिज्जमाणा मायवेदगकालन्भंतरे समयूणादोआवळिय-मेत्तकालेण णिरवसेसणुवसामिज्जंति, तत्थ समए समए एकेकस्स समयपबद्धस्स उवसामण-किरियाए परिसमत्तिदंसणादो ।

* जं पदेसगं मायाए संकमदि तं विसेसहीणाए सेटीए संकमदि ।

§ २४४. एदस्स सुत्तस्स अत्थो जहा पुरिससवेदणवकबंधसंकमणाए पडिबद्ध-सुपत्तस्स वुत्तो तहा परूवेयव्वो, विसेसाभावादो ।

* एसा परूवणा मायाए पढमसमयउवसामगस्स ।

§ २४५. सुगमं । एवमेदीए परूवणाए मायासंजलणमसंखेज्जगुणाए सेटीए उवसामेमाणस्स बहुएसु ट्ठिदिखंडयसहस्सेसु गदेसु मायासंजलणपढमट्ठिदीए समयूणा-

* मान संज्वलनके दो समय कम दो आवळिप्रमाण जो अनुपशान्त समयप्रबद्ध हैं वे गुणश्रेणिद्वारा उपशमाये जाते हुए दो समय कम दो आवळिप्रमाण काल द्वारा उपशमाये जावेंगे ।

§ २४३. यहाँपर मायावेदकके प्रथम समयमें पूर्वमें कहे गये एक समय कम दो आवळि-प्रमाण नवकबन्धके समयप्रबद्धोंका आदिका समयप्रबद्ध निर्लेप होता है, इसलिए उसे छोड़कर सूत्रमें निर्दिष्ट जो दो समय कम दो आवळिप्रमाण नवकबन्ध समयप्रबद्ध हैं वे प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उपशमाये जाते हुए मायावेदकके कालके भीतर एक समय कम दो आवळिप्रमाण कालके द्वारा पूरी तरहसे उपशमाये जाते हैं, क्योंकि वहाँपर प्रत्येक समयमें एक-एक समयप्रबद्धके उपशामन क्रियाकी समाप्ति देखी जाती है ।

* जो प्रवेशपुञ्ज मायासंज्वलनमें संक्रमण करता है वह विशेष हीन श्रेणिक्रमसे संक्रमण करता है ।

§ २४४. पुरुषवेदके नवकबन्धके संक्रमणसे सम्बन्ध रखनेवाले सूत्रका अर्थ जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार इस सूत्रका अर्थ कहना चाहिए, क्योंकि उसके कथनसे इसके कथनमें कोई अन्तर नहीं है ।

* मायाकषायके प्रथम समयमें उपशामकक्षी यह प्ररूपणा है ।

§ २४५. यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार इस प्ररूपणा द्वारा माया संज्वलनके अक्ष-ख्यातगुणी श्रेणिरूपसे उपशमाये जानेवाले जीवके बहुत हजार स्थितिकाण्डकोंके व्यतीत

बलियमेपसेसाए जो अत्थविसेसो तप्परुवणङ्गुत्तरसुत्तावयारो—

* एत्तो द्विदिबन्धयसहस्साणि बह्वणि गवाणि, तवो मायाए पहम-
द्विबीए तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु दुबिहा माया मायासंजलणे
ण संडुहदि, लोहसंजलणे च संडुहदि ।

§ २४६. एत्थ कारणं पुञ्चं व परूवेयध्वं ।

* पडिभावलियाए सेसाए आगाल-पडिभागाखो वोच्छिण्णो ।

§ २४७. सुगमं ।

* समयाहियाए आवलियाए सेसाए मायाए चरिमसमयउवसामणो
मोत्तूण दोभावलियबन्धे समयूणे ।

§ २४८. एदं पि सुत्तं सुगमं । संपहि एदम्मि संधिविसेसे वट्टमाणस्स चरिम-
समयमायावेदगस्स द्विदिबन्धपमाणावहारणङ्गुत्तरसुत्तारंभो—

* ताधे माया-लोभसंजलणाणं द्विदिबन्धो मासो ।

§ २४९. सुगमं ।

* सेसाणं कम्ममाणं द्विदिबन्धो संखेज्जाणि वस्साणि ।

होनेपर मायासंज्वलनकी प्रथम स्थितिके एक समय कम तीन आवलिप्रमाण शेष रहनेपर जो
अर्थ विशेष होता है उसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* इसके बाद बहुत हजार स्थितिकाण्डक व्यतीत होते हैं, तब मायासंज्वलनकी
प्रथम स्थितिमें एक समय कम तीन आवलियोंके शेष रहनेपर दो प्रकारकी मायाको
मायासंज्वलनमें संक्रान्त नहीं करता है, लोभसंज्वलनमें संक्रान्त करता है ।

§ २४६. यहाँपर कारणका पहलेके समान कथन करना चाहिये ।

* प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागाल व्युच्छिन्न होते हैं ।

§ २४७. यह सूत्र सुगम है ?

* एक समय अधिक एक आवलिकालके शेष रहनेपर एक समय कम दो आवलि-
प्रमाण नवकवन्धको छोड़कर तीन प्रकारकी मायाका अन्तिम समयवर्ती होकर उप-
शामक होता है ।

§ २४८. यह सूत्र भी सुगम है । अब इस सन्धिबिषयमें विद्यमान अन्तिम समयवर्ती
मायावेदकके स्थितिबन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* उस समय माया और लोभसंज्वलनका स्थितिबन्ध एक मास होता है ।

§ २४९. यह सूत्र सुगम है ।

* शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है ।

§ २५०. सुगमं ।

* तदो से काले मायासंजलणस्स बंधोवया वोच्छिण्णा ।

§ २५१. अणुप्पादानुच्छेदमस्सियणेदं वृत्तं, उप्पादानुच्छेदविवक्खाए पृथ्विण्ण-समए चेव तदुभयवोच्छेदविहाणोववत्तीदो । एत्तो पाए लोभसंजलणं वेदेमाणो तिबिहं लोभमुवसामेदमादवेह । तत्थ मायासंजलणुच्छिद्धावलिआए तिथवुकसंक्रमेण लोभसंजल-णम्मि विवागो होदि त्ति जाणावणड्डुफलमुत्तरसुत्तं—

* मायासंजलणस्स पढमट्टिदीए समयूणा आवलिया सेसा तिथवुक-संक्रमेण लोभे विपच्चिह्दि ।

§ २५२. गयत्थमेदं सुत्तं ।

* ताघे चेव लोभसंजलणमोक्कड्डियूण लोभस्स पढमट्टिदिं करेदि ।

§ २५३. तक्काले चेव विदियट्टिदीदं लोहसंजलणपदेसग्गमोक्कड्डियूण उदयादि-गुणसेट्ठीए णिक्खिवमाणो अंतोमुहुत्तमेत्ति लोहसंजलणस्स पढमट्टिदिं समुप्पादिय वेदेदि त्ति भणिदं होदि । संपहि एदिस्से लोभसंजलणपढमट्टिदीए दीहत्तमेत्तियं होदि त्ति जाणावणड्डुमुत्तरसुत्तमाह—

* एत्तो पाए जा लोभवेदगद्धा होदि तिस्से लोभवेदगद्धाए वेत्ति-माणा एत्तीयमेत्ती लोभस्स पढमट्टिदी कवा ।

§ २५०. यह सूत्र सुगम है ।

* उसके एक समय बाद मायासंज्वलनके बन्ध और उदय व्युच्छिन्न होते हैं ।

§ २५१. अनुत्पादानुच्छेदका आश्रय लेकर यह सूत्र कहा है, क्योंकि उत्पादानुच्छेदकी विवक्षामें अनन्तर पूर्वके समयमें ही इन दोनोंके व्युच्छित्तिका कथन घन जाता है । यहाँसे लेकर लोभसंज्वलनका वेदन करता हुआ तीन प्रकारके लोभको उपशमानेके लिए आरम्भ करता है । वहाँपर मायासंज्वलनकी उच्छिष्टावलिका स्तिवुकसंक्रमके द्वारा लोभसंज्वलनमें विपाक होता है । इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* मायासंज्वलनकी प्रथम स्थितिमें जो एक समय कम एक आवलि शेष है वह स्तिवुकसंक्रमके द्वारा लोभसंज्वलनमें विपाकको प्राप्त होगी ।

§ २५२. यह सूत्र गतार्थ है ।

* उसी समय लोभसंज्वलनका अपकर्षणकर लोभकी प्रथम स्थिति करता है ।

§ २५३. उसी समय द्वितीय स्थितिसे लोभसंज्वलनके प्रदेशपुञ्जका अपकर्षणकर उदयादि गुणभे गिरूपसे निक्षेप करता हुआ लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिको अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण स्थापित कर वेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इस लोभसंज्वलनकी प्रथम स्थितिकी उन्माइ इतनी होती है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* यहाँसे लेकर जो लोभ वेदककाल है उस लोभवेदक कालके दो त्रिभाग प्रमाण लोभकी प्रथम स्थिति की ।

§ २५४. एददुक्कं भवति—एत्तो प्यहुडि आ लोमवेदगद्धा होइ सुहुमसांपराइव-
चरिमसमयपज्जंता तं लोमवेदगद्धं तिण्णि मागे कादूण तत्थ सादियेयवेत्तिमागमेत्ती
लोमसंजलणस्स पढमड्ढिदो एण्हि कदा चि । किं कारणं ? एत्तो उवरिमासेसलोमवेद-
गद्धाए देसुणतिमागमेत्ती सुहुमलोमवेदगद्धा होदि । तं मोत्तण तत्तो सादियेयदुगुण-
मेत्तवादरलोमवेदगद्धमावलियमग्महियं कादूण वादरसांपराइओ पढमड्ढिदिं करेदिचि ।
एदेण कारणेण सव्विस्से लोमवेदगद्धाए सादियेयवेत्तिमागमेत्ती लोमस्स पढमड्ढिदी
एसा दहुव्वा । एवमेत्तियमेत्ति पढमड्ढिदिं कादूण तिविहं लोममुवसामेमाणस्स पढव-
समए लोमसंजलणादीणं ड्ढिदिबंधपमाणावहारणहुमुरो सुचपबंधो—

ताथे लोमसंजलणस्स ड्ढिदिबंधो मासो अंतोमुहुत्तेण ऊणो ।

§ २५५. चरिमसमयमायावेदगस्स ड्ढिदिबंधो मासो पड्विबुण्णो, तत्तो
अंतोमुहुत्तेण ओसरिदूण लोमसंजलणस्स ड्ढिदिबंधमेण्हिमाढवेदि चि बुत्तं होइ ।

सेसाणं कम्ममाणं ड्ढिदिबंधो संखेज्जाणि वस्साणि ।

§ २५६. णाणावरणादिकम्ममाणं ड्ढिदिबंधो पुव्विन्लड्ढिदिबंधादो संखेज्ज-
गुणहाणीए पयट्टमाणो अज्ज वि संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो वेव, संखेज्जवस्ससहस्स-
वियप्पाणमणेयमेयभिण्णत्तादो चि भजिदं होदि । एत्थ णाणावरणादिकम्मार्णं ड्ढिदि-

§ २५४. इसका यह तात्पर्य है—यहाँसे लेकर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम
समय पर्यन्त जो लोमवेदक काल है उस लोमवेदक कालके तीन भाग करके उनमेंसे
साधिक दो त्रिभागप्रमाण लोमसंज्वलनकी प्रथम स्थिति इस समय की, क्योंकि यहाँसे
उपरिम समय लोम वेदक कालके कुछ कम तीसरे भागप्रमाण सूक्ष्म लोमवेदक काल होता
है। उसे छोड़कर उससे साधिक दूने बाद लोम वेदक कालको एक आवलिप्रमाण अधिक
करके बादर साम्परायिक जीव प्रथम स्थिति करता है। इस कारणसे पूरा लोम वेदककाल
साधिक दो त्रिभागप्रमाण लोमको यह प्रथम स्थिति जाननी चाहिए। इस प्रकार इतनी प्रथम
स्थिति करके तीन प्रकारके लोमको उपश्रमानेवाले जीवके प्रथम समयमें लोम-
संज्वलनादिकके स्थितिवन्धके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये आगेका सूत्रप्रबन्ध
कहते हैं—

तव लोमसंज्वलनका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तकम एक मास होता है ।

§ २५५. अन्तिम समयवर्षी मायावेदकका स्थितिवन्ध पूरा एक मास होता है, उससे
अन्तर्मुहूर्त घटाकर इस समय लोमसंज्वलनके स्थितिवन्धको आरम्भ करता है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है ।

शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात वर्षप्रमाण होता है ।

§ २५६. परन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोंका स्थितिवन्ध पूर्वके स्थितिवन्धसे संख्यातगुणी
हानिरूपसे प्रवृत्त होता हुआ अभी भी संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही होता है, क्योंकि
संख्यात हजार वर्षके अनेक भेद पाये जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँ पर ज्ञाना-

अनुभागसंख्यपमाणं पि पुब्वुत्तेण विहिणा अणुगंतव्वं । एवमेदेण कमेणाहविय तिविहं
खोमसुवसायमेमाणस्स संखेजेसु द्विदिबंधसहस्सेसु गवेसु णिरुद्धपढमद्विदीए अद्धमेत्तं गालिय
द्विदस्स तदवत्थाए जो विसेससंभवो तप्परूवणद्वुत्तरिमो सुत्तपबंधो—

* तदो संखेजेहिं द्विदिबंधसहस्सेहिं गवेहिं तिस्से खोमस्स पढम-
द्विदीए अद्धं गदं ।

§ २५७. एत्थ 'पढमद्विदीए अद्धं गदं' इदि बुत्ते सादिरेयमद्धं गदमिदि वेत्तव्वं ।
इदो एदमवगम्मदे ? उवरिमअप्पावहुअमुत्तादो ।

* तदो अद्धस्स चरिमसमए खोहसंजलणस्स द्विदिबंधो दिवसपुषत्तां ।

§ २५८. पुब्वुत्तसंधीए लोभसंजलणस्स द्विदिबंधो अंतोसुहुत्तणमासमेत्तो हंतो
ततो कमेण परिहाइदूण एदमिह संभिविसेसे दिवसपुषत्तमेत्तो संजादो चि एसो एदस्स
सुत्तस्सत्थो ।

* सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो वस्ससहस्सपुषत्तां ।

§ २५९. पुब्वुत्तसंखेजवस्ससहस्साणं सुहु ओहद्विदूण तप्पमाणेत्थ समवट्टा-
णादो । संपहि एदमि चैव समए अणुभागसंतकम्मगयविसैसपरूवणद्वुत्तरिसुत्तारंभो—

वरणादि कर्मोंके स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंका प्रमाण भी पूर्वोक्त विधिसे जानना
चाहिए । इस प्रकार इस क्रमसे आरम्भ करके तीन प्रकारके लोभको उपशमानेवाले जीवके
संख्यात हजार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर विवक्षित प्रथम स्थितिके अर्धभागको गलाकर
स्थित होनेपर उस अवस्थामें जो विशेष सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेके
सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* तत्पश्चात् संख्यात हजार स्थितिवन्धोंके व्यतीत होनेपर लोभकी उस प्रथम
स्थितिका अर्ध भाग व्यतीत हो गया ।

§ २५७. यहाँपर 'प्रथम स्थितिका अर्ध भाग व्यतीत हो गया' ऐसा कहनेपर 'साधिक
अर्ध भाग व्यतीत हो गया' ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—आगे आनेवाले अल्पबहुत्वसम्बन्धी सूत्रसे जाना जाता है ।

* वहाँ अर्ध भागके अन्तिम समयमें लोभ संज्वलनका स्थितिवन्ध दिवस-
पृथक्त्वप्रमाण होता है ।

§ २५८. पूर्वोक्त सन्धिके प्राप्त होनेपर लोभसंज्वलनका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्त कम
एक माहप्रमाण था, उससे क्रमसे घटकर इस सन्धिविशेषके प्राप्त होनेपर दिवसपृथक्त्व
प्रमाण हो जाता है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

* शेष कर्मोंका स्थितिवन्ध सहस्र वर्षपृथक्त्वप्रमाण होता है ।

§ २५९. क्योंकि संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध अशुद्धी तरह घट कर यहाँ
पर उसका अवस्थान तत्प्रमाण हो गया है । अब इसी समय अनुभाग सत्कर्मसम्बन्धी
विशेषका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* ताथे पुण फहयगदं संतकम्मं ।

§ २६० वेदं सुचमारंभणीयं, पुण्वं पि अणुभागसंतकम्मस्स फहयगदत्तं मोत्तण पयारंतरासंभवादो चि ? सक्खेदं, किंतु अंतदीवयभावेणेदस्स परुवणं कादूण एत्ते उव्वरि लोभसंजलणस्साणुभागाकिट्टीयं संभवपरुवणइमेदं सुचमोहणमिदि ण किंचि त्रिक्खइदं ।

* से काले विविद्यतिभागस्स पढमसमये लोभसंजलणाणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफहयं तस्स हेट्ठवो अणुभागकिट्टीओ करेदि ।

§ २६१. 'से काले' तदनंतरसमये चि वुत्तं होदि । एदस्सेव फुडीकरणइं 'विविद्यतिभागस्स पढमसमए' वे चि णिहिइं । तम्मि समए लोभसंजलणाणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफहयं तस्से हेट्ठवो अणंतगुणहाणीए ओवट्टियूणाणुभागाकिट्टीओ करेदि । किमेदाओ बादरकिट्टीओ आहो सुहुमकिट्टीओ चि पुच्छिदे सुहुमकिट्टीओ एदाओ चि वेत्तव्वं, उवसमसेटीए बादरकिट्टीणमसंभवादो । तम्हा पुव्वफहएहिंते पदेसग्गमोकडियूण सव्वजहण्णलदासमाणफहयादिवग्गणाविभागपलिच्छेदेहिंते अणंतगुणहीणाणुभागाओ सुहुमकिट्टीओ करेदि चि एसो एत्थ सुत्तथसमुच्चओ । संपहि एदासिं किट्टीयं पमाणमेत्थियं होदि चि जाणावणइमुत्तरसुत्तावयाओ—

* परन्तु उस समय सत्कर्म स्पर्शकगत होता है ।

§ २६०. शंका—इस सूत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहलेसे ही अनुभाग सत्कर्म स्पर्शकगत रहवा आ रहा है, उसे छोड़कर प्रकारान्तर सम्भव नहीं है ?

समाधान—यह सच है, किन्तु अन्तरीपरूपसे इसका कथन करके इससे आगे लोभसंज्वलनकी अनुभागसन्बन्धी कृष्टियाँ सम्भव हैं सो उनका कथन करनेके लिये इस सूत्रका अबतार हुआ है, इसलिये कुछ भी बिरुद्ध नहीं है ।

* तदनन्तर कालमें दूसरे त्रिभागके प्रथम समयमें लोभसंज्वलनके अनुबाध सत्कर्मका जो जघन्य स्पर्शक है उसके नीचे अनुभागकृष्टियोंको करता है ।

§ २६१. 'तदनन्तर कालमें' इसका तात्पर्य है तदनन्तर समय में । इसीको स्पष्ट करनेके लिये 'दूसरे त्रिभागके प्रथम समयमें' विकल्परूपसे ऐसा निर्देश किया है । उस समय लोभसंज्वलनके अनुभागसत्कर्मका जो जघन्य स्पर्शक है उसके नीचे अनन्तगुण हानिरूपसे अपवर्तित कर अनुभागकृष्टियोंको करता है ।

शंका—क्या ये बादर कृष्टियाँ हैं या सूक्ष्म कृष्टियाँ हैं ?

समाधान—ऐसी प्रच्छा होनेपर ये सूक्ष्म कृष्टियाँ हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपश्रमभेगिमें बादर कृष्टियोंका होना असम्भव है । इसलिये पहलेके स्पर्शकोंसे प्रवेशपुञ्जका अपकर्षण कर सबसे जघन्य उतासमान स्पर्शककी प्रथम वर्गणाके अविभागप्रविच्छेदोंसे अनन्तगुणे हीन अनुभागयुक्त सूक्ष्म कृष्टियोंको करता है यह यहाँपर सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है । अब इन कृष्टियोंका प्रमाण इतना है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अबतार करते हैं—

१. ता.प्रती तस्सेव इति पाठः ।

* तासि पमाणमेयफद्दयवग्गणाणमणंतभाणो ।

§ २६२. अमवसिद्धिएहितो अणंतगुणं सिद्धाणंतभागवग्गणाहिं एगं फद्दयं होदि । एवंविहमेयफद्दयवग्गणद्वानं तप्पाओग्गेहिं अणंतरूवेहिं खंडियूण तत्थेय-खंडम्मि जत्तियाओ वग्गणाओ तत्तियमेत्तपमाणाओ किट्ठीओ एत्थ णिच्चत्तिजंत्ति चि वुत्तं होइ ।

* पढमसमए बहुआओ किट्ठीओ कदाओ । से काले अपुब्बाओ असंखेज्जगुणहीणाओ । एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमओ च्चि असंखेज्जगुणहीणाओ ।

§ २६३. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुब्बदे । तं जहा—किट्ठीकरणद्वाए पढमसमए जाओ किट्ठीओ णिच्चत्तिदाओ अमवसिद्धिएहितो अणंतगुणाओ सिद्धाणमणंत-भागमेत्तिओ होदण एयफद्दयवग्गणाणमणंतभागपमाणाओ ताओ बहुगीओ । पुणो तदणंतरसमए पढमसमयणिच्चत्तिदकिट्ठीणं हेट्ठा जाओ अपुब्बाओ किट्ठीओ णिच्चत्तिजंत्ति ताओ असंखेज्जगुणहीणाओ । एवं जाव विदियस्स तिभागस्स चरिमसमओ ताव समए समए णिच्चत्तिज्जमाणाओ अपुब्बकिट्ठीओ अणंतराणंतरादो असंखेज्जगुण-हीणाओ दट्ठ्वाओ । किं कारणं ? ओकट्ठिदसयलद्वस्सासंखेज्जभागमेत्तमेव दव्वमपुब्बकिट्ठीसु समयविरोहेण णिसिंचिय सेसबहुभागानुव्वरिमपुब्बकिट्ठीसु

* उनका प्रमाण एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तवें भागप्रमाण है ।

§ २६२. अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण वर्गणाओंका एक स्पर्धक होता है । इस प्रकारके एक स्पर्धककी वर्गणाओंके आयाभमें तत्प्रायोग्य अनन्तसे भाजित कर वहाँ एक खण्डमें जितनी वर्गणाएँ प्राप्त हों तत्प्रमाण कृष्टियाँ यहाँपर बनती हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* पहले समयमें बहुत कृष्टियाँ की जाती हैं । तदनन्तर समयमें अपूर्व असंख्यातगुणी हीन कृष्टियाँ की जाती हैं । इस प्रकार दूसरे त्रिभागके अन्तिम समयके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी हीन कृष्टियाँ की जाती हैं ।

§ २६३. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—कृष्टिकरणके कालके प्रथम समयमें जो कृष्टियाँ की गईं वे अभव्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण होकर एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । वे बहुत हैं । पुनः तदनन्तर समयमें प्रथम समयमें उत्पन्न की गईं कृष्टियोंके नीचे जो अपूर्व कृष्टियाँ उत्पन्न की जाती हैं वे उनसे असंख्यातगुणी हीन होती हैं । इस प्रकार द्वितीय त्रिभागके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक समय समयमें जो अपूर्व कृष्टियाँ रची जाती हैं वे अनन्तर पूर्व अनन्तर पूर्वकी कृष्टियोंसे असंख्यातगुणी हीन जाननी चाहिए, क्योंकि अपकर्षित समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यको ही अपूर्व कृष्टियोंमें यथाशास्त्र सिंचितकर शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यको उपरिम पूर्वकी कृष्टियोंमें और स्पर्धकोंमें अपने-अपने विभागानुसार विभाजितकर निषेकोंकी

फदूदएसु च जहापविभातं विहंखियूण णिसेवविण्णासकरणादो । संपहि एवमसंखेज-
गुणहाणीए सेडीए अंतोह्हुत्तमेवकालं किट्ठीओ णिव्वचेमाणेण समयं पडि ओकड्डिज-
माणदव्वस्स थोवबहुत्तविहाणह्हुत्तपरसुचं भणदि—

जं पढमसमए पदेसग्गं किट्ठीओ करंतेण किट्ठीसु णिक्खित्तं तं थोवं, से काले असंखेज्जगुणं । एवं जाव चरिमसमयो त्ति असंखेज्जगुणं ।

§ २६४. पढमसमए सव्वसमासेण किट्ठीसु णिक्खित्तदव्वमोकड्डिदसयल-
दव्वस्सासंखेज्जदिभागमेचं होदूण सव्वत्थोवं जादं । तदो विदियसमए विसोहि-
पाहम्मैणासंखेज्जगुणं दव्वमोकड्डिगुण तत्तो असंखेज्जदिभागं घेत्तूण पुव्वाणुव्वकिट्ठीसु
णिसिचमाणदव्वं पुव्विण्णादो असंखेज्जगुणं । किं कारणमसंखेज्जगुणं ? तत्कालोकड्डिद-
दव्वादो किट्ठीसु णिव्वदमाणदव्वस्स वि तप्पडिभागोणेव पवुत्तिदंसणादो । एवं
तदियादिसमएसु वि परूवणा कायव्वा जाव चरिमसमयो त्ति । संपहि एवमव्वोमाद-
सरूवेण किट्ठीसु णिसिचपदेसपिडस्स थोवबहुत्तगवेसणं कादूण संपहि पढमादि-
समएसु किट्ठी पडि णिसिचमाणपदेसग्गस्स सेट्ठिपरूवणाह्हुत्तरो सुत्तपबंधो—

रचना करता है । अब इस प्रकार असंख्यातगुणे हानिरूप श्रेणिके क्रमसे अन्तसु हूतं काल तक कृष्टियोंको करनेवाले जीवके द्वारा प्रति समय अपकर्षित किये जानेवाले द्रव्यके अल्पबहुत्वका विधान करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

कृष्टियोंको करनेवाले जीवने प्रथम समयमें जिस प्रदेशपुञ्जको कृष्टियोंमें निक्षिप्त किया वह सबसे थोड़ा है । तदनन्तर समयमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको निक्षिप्त करता है । इस प्रकार अन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रति समय असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको निक्षिप्त करता है ।

§ २६४. प्रथम समयमें कृष्टियोंमें सबके जोड़रूपसे निक्षिप्त हुआ द्रव्य अपकर्षित किये गये समस्त द्रव्यके असंख्यातवर्षं भागप्रमाण होकर सबसे अल्प हो जाता है । तदनन्तर दूसरे समयमें विमुक्तिके माहात्म्यबश असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षणकर उसमेंसे असंख्यातवर्षं भागप्रमाण द्रव्यको ग्रहणकर पूर्वानुपूर्वोरूपसे स्थित कृष्टियोंमें सिंचित किया जानेवाला द्रव्य पूर्वके द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है ।

शंका—यह असंख्यातगुणा किस कारणसे होता है ?

समाधान—क्योंकि तत्काल अपकर्षित किये जानेवाले द्रव्यमेंसे कृष्टियोंमें दिये जाने-
वाले द्रव्यकी उसीके प्रतिभागके अर्थात् प्रवृत्ति देखी जाती है । इसी प्रकार अन्तिम समयके प्राप्त होनेतक तीसरे आदि समयोंमें भी ग्रहणणा करनी चाहिए । अब इस प्रकार सधन-
रूपसे कृष्टियोंमें दिये जानेवाले प्रदेशपिंडके अल्पबहुत्वका अनुसन्धान करके अब प्रथम आदि
समयोंमें प्रत्येक कृष्टिके प्रति दिये जानेवाले प्रदेशपुञ्जकी श्रेणिका कथन करनेके लिये आगेके
सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* पढमसमए जहणियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं, बिबियाए पदेसग्गं बिसेसहीणं । एणं जाव चरिमाए किट्टीए पदेसग्गं तं बिसेसहीणं ।

§ २६५. पढमसमए ताव ओकड्ढिदसयलपदेसग्गस्सासंखेजदिभागं वेत्तुण किट्टीसु णिक्खिवमाणो जहणियाए किट्टीए पदेसग्गं बहुअं देदि । तत्तो उवरिमाणंतराए विदियाए किट्टीए पदेसग्गं बिसेसहीणं देदि । केचियमेचेण ? अणंतिमभागमेत्तेण दोगुणहाणिपडिभागिएण । एवमेदेण पडिभागोणाणंतराणंतरादो बिसेसहीणं काट्ठण णेदव्वं जाव चरिमाए किट्टीए पदेसग्गं बिसेसहीणं ति । णवरि परंपरोवणिधाए वि जोइज्जमाणाए पढमकिट्टीए णिक्खित्तपदेसग्गादो चरिमकिट्टीए णिसित्तपदेसग्गमणंतभागहीणं चैव होदि । कुदो ? किट्टीणमट्ठानस्स एयफट्ठदयवग्गणाणमणंतिमभागपमाणत्तादो । पुणो चरिमकिट्टीए णिक्खित्तपदेसादो उवरि जहणणफट्ठदयस्सादिवग्गणाए अणंतगुणहीणं पदेसग्गं देदि । सुत्तेणाणुवइट्ठमेदं कुदो परिच्छिज्जे ? सुत्ताविरोहितंतजुत्तीदो । तं जहा—चरिमकिट्टीए णिसित्तपदेसग्गं इच्छामो त्ति तस्सोवट्ठणे ठविज्जमाणे एगमादिवग्गणं ठविय दिवट्ठगुणहाणीए तम्मि गुणिदे फट्ठदयगदसयलदव्वं होइ । एत्तो सव्ववग्गणाहितो ओकड्ढिदसयलदव्वागमण-

* प्रथम समयमें जघन्य कृष्टिका प्रदेशपुञ्ज बहुत है । उससे दूसरी कृष्टिमें प्रदेशपुञ्ज विशेष हीन है । इस प्रकार अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक प्रत्येक कृष्टिका प्रदेशपुञ्ज उत्तरोत्तर विशेष हीन है ।

§ २६५ सर्वप्रथम प्रथम समयमें अपकर्षित किये गये समस्त प्रदेशपुञ्जके असंख्यातवें भागको ग्रहणकर कृष्टियोंमें निक्षेप करता हुआ जघन्य कृष्टिमें बहुत प्रदेशपुञ्जको देता है । उससे अनन्तर उपरिम दूसरी कृष्टिमें प्रदेशपुञ्ज विशेष हीन देता है ।

शंका—कितना कम देता है ?

समाधान—दो गुणहानिके प्रतिभागके अनुसार अनन्तवें भागप्रमाण विशेष हीन देता है ।

इस प्रकार इस प्रतिभागके अनुसार उत्तरोत्तर अनन्तर पूर्व कृष्टिके प्रदेशपुञ्जसे विशेष हीन करके अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होनेतक विशेष हीन प्रदेशपुञ्ज देता है । इतनी विशेषता है कि परम्परोपनिधाकी अपेक्षासे भी गणना करनेपर प्रथम कृष्टिमें निक्षिप्त हुए प्रदेशपुञ्जसे अन्तिम कृष्टिमें निक्षिप्त प्रदेशपुञ्ज अनन्तवें भागहीन ही होता है, क्योंकि कृष्टियोंका आधाम एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तवें भागप्रमाण है । पुनः अन्तिम कृष्टिमें निक्षिप्त हुए प्रदेशपुञ्जसे उपर जघन्य स्पर्धककी आदि वर्गणामें अनन्तगुणे हीन प्रदेशपुञ्जको देता है ।

शंका—सूत्रद्वारा अनुपदिष्ट इसे किस प्रमाणसे जानते हैं ?

समाधान—सूत्रके अविरोधी आगमानुसार युक्तिसे जानते हैं । यथा—

अन्तिम कृष्टिमें निक्षिप्त हुए प्रदेशपुञ्जको ढाना चाहते हैं, इसलिये उसके अपवर्तनको स्थापित करनेपर एक आदि वर्गणाको स्थापितकर डेढ़ गुणहानि द्वारा उसके गुणित करनेपर स्पर्धकगत समस्त द्रव्य होता है । आगे सर्व वर्गणाओंसे अपकर्षित किये

मिच्छियूजेदस्स ओकहुणमागहारो हेट्ठा ठवेयन्थो । पुणो द्दस्सासखेज्जदिभागो चेव किट्ठीसु पिसिचदि त्ति तप्पाओग्गासंखेज्जकूवेहि पुणो वि खंडियूण तत्थ बहुमाये पुध इविय एगभागं वेत्तूण किट्ठिअद्वाणेणोवड्ठिदे चरिमकिट्ठीए णिवदिददव्वमणंतादि-वग्गणपमाणमागच्छदि । एवमेदं ठविय पुणो जहण्णफइयस्सादिवग्गणाए णिवदिद-पदेसग्गपमाणावहारणहुमोवट्ठणविहिं वत्थइस्सामो । तं जहा—पुब्बं पुध इविदवहुमाये फइयवग्गणासु सव्वासु विहजिय एगगोवुच्छायारेण मिसिचदि त्ति तेसिं दिवहुगुण-हाणिमागहारो हेट्ठा इवेयन्थो, पढमवग्गणाए णिसित्तदव्वपमाणेण सयलदण्णे कीरमाणे दिवहुगुणहाणिपमाणाप्यत्तिदंसपादो । तदो गुणमार-मागहारेसु सरिसमवणिय जोइदे आदिवग्गणाए असंखेज्जदिभागमेत्तं चेव तत्थ णिवदिददव्वपमाणमागच्छदि । तदो चरिमकिट्ठीए णिवदिददव्वादो अणंतादिवग्गणपरिमाणादो एमादिवग्गणासंखेज्जदि-भागमेत्तमेदं दव्वमणंतगुणहीणमिदि सिद्धं, दिस्समाणं पि पेक्खियूण भण्णमाये तहाभावोवलंभादो । तम्हा किट्ठीसु एया गोवुच्छा, सेट्ठिकइएसु अण्णा त्ति एवमेत्थ दोगोवुच्छसेट्ठीओ, दोण्हमेयगोवुच्छकरणोवायाभावादो ।

§ २६६. अण्णे वक्खणाणाहरिया किट्ठीसु फइएसु च एयगोवुच्छासेट्ठी होदि त्ति भण्णमाणा एवं भणंति—जहा चरिमकिट्ठीए णिक्खित्तपदेसादो जहण्णादिफइय-

गये समस्त द्रव्यको लाना चाहते हैं, इसलिये इसके अपकर्षण भागहारको इसके नीचे स्थापित करना चाहिए। पुनः इसका असंख्यातवाँ भाग ही कृष्टियोंमें निक्षिप्त होता है, इसलिये तत्प्रायोग्य असंख्यातके द्वारा फिर भी खण्डितकर उसमेंसे बहुभागको पृथक् स्थापित कर एक भागको ग्रहणकर कृष्टिसम्बन्धी अर्थात्के द्वारा अपवर्तित करनेपर अन्तिम कृष्टिमें प्राप्त द्रव्य अनन्त आदि वर्गणाप्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार इसको स्थापितकर पुनः जघन्य स्पर्धककी आदि वर्गणामें प्राप्त प्रवेशपुञ्जके प्रमाणका अवधारण करनेके लिये अपकर्षणविधिको बतलायेंगे। यथा—पहले पृथक् स्थापित किये गये बहुभागको स्पर्धककी सभी वर्गणाओंमें विभाजित कर एक गोपुच्छाकाररूपसे सिञ्चित करता है, इसलिये उनका डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार नीचे स्थापित करना चाहिए, क्योंकि प्रथम वर्गणामें निक्षिप्त हुए द्रव्यके प्रमाणरूपसे सकल द्रव्यके करनेपर डेढ़ गुणहानिप्रमाणकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये गुणकार और भागहारमेंसे सदृशका अपनयनकर देखनेपर, आदि-वर्गणाका असंख्यातवाँ भाग ही वहाँ प्राप्त हुआ द्रव्यप्रमाव आता है। इसलिये अन्तिम कृष्टिमें प्राप्त द्रव्यकी अपेक्षा अनन्त आदि वर्गणाके प्रमाणसे एक आदि वर्गणाके असंख्यातवें भागप्रमाण यह द्रव्य अनन्तगुणा हीन है यह सिद्ध हुआ, क्योंकि दृश्यमान द्रव्यको भी देखते हुए कथन करनेपर उस प्रकारकी उपलब्धि होती है। इसलिये कृष्टियोंमें एक गोपुच्छा होती है तथा अग्नि-स्पर्धकोंमें अन्य गोपुच्छा होती है इस प्रकार यहाँपर दो गोपुच्छाश्रेणियाँ होती हैं, क्योंकि दोनों गोपुच्छाओंका एक गोपुच्छा करनेके उपायका अभाव है।

§ २६६. अन्य व्याख्यानाचार्य कृष्टियोंमें और स्पर्धकोंमें एक गोपुच्छाश्रेणि होती है ऐसा बतलाते हुए ऐसा कहते हैं—अन्तिम कृष्टिमें निक्षिप्त हुए प्रवेशोंसे जघन्य स्पर्धककी

बग्गणाए असंखेज्जगुणहीणं विसेसहीणं च पदेसग्गं देदि अणंतभागोणे चि णेदं चड्ढे,
तहा इच्छिज्जमाणे किट्ठीसु णिवदिदासेसदब्बस्स एयसमयपबद्धानंतभागपमाणच-
पसंगादो । होदु चे ? ण, तहाब्बुवगमे कीरमाणे सुहुमकिट्ठीओ वेदयमाणस्स
सुहुमसांपराइयस्स पढमट्ठीदीए गुणसेट्ठिणिक्खेवामावदोसपसंगादो । ण च समय-
पबद्धानंतिमभागमेचपदेसेहिं गुणसेट्ठिणिक्खेवसंभवो, विप्पडिसेहादो । तम्हा पुब्बुत्तो
समयपबद्धो धेत्तव्वो । एवं ताव पढमसमए किट्ठीसु दिज्जमाणपदेसग्गस्स सेट्ठिपरूवणं
कादूण संपहिं विदियसमए तप्परूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणइ—

* विदियसमए जहणियाए किट्ठीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । विदियाए
विसेसहीणं । एवं जाव ओच्चुक्कस्सियाए विसेसहीणं ।

§ २६७. एदस्स सुचस्सत्थो । तं जहा—पढमसमयोक्कड्ढिददवादो असंखेज्ज-
गुणं पढमोक्कड्ढियूण विदियसमए पुव्वापुव्वकिट्ठीसु णिसिंचमाणो विदियसमए जा
जहणिया किट्ठी तक्कालिणिव्वत्तिज्जमाणामपुव्वकिट्ठीणमादिमा, तिस्से आयारेण
पदेसग्गमसंखेज्जगुणं देदि । कत्तो एदं दब्बमसंखेज्जगुणमिदि चे ? पढमसमए चरिमकिट्ठीए

आदिवर्गणामे असंख्यातगुणे हीन और विशेष हीन प्रदेशपुञ्जको देता है, अनन्तवें भाग
हीन देता है यह घटित नहीं होता है, क्योंकि उस प्रकारसे इच्छित करनेपर कृष्टियोंमें
पतित हुआ समस्त द्रव्य एक समयप्रबद्धके अनन्तवें भागप्रमाण होता है ऐसा प्रसंग प्राप्त
होता है ।

शंका—ऐसा होओ ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वैसा स्वीकार करनेपर सूक्ष्म कृष्टियोंका वेदन करनेवाले
सूक्ष्मसाम्परायिककी प्रथम स्थितिमें गुणश्रेणिनिक्षेपके अभावरूप दोषका प्रसंग प्राप्त होता
है । और समयप्रबद्धके अनन्तवें भागप्रमाण प्रदेशोंके द्वारा गुणश्रेणिनिक्षेप सम्भव नहीं है,
क्योंकि इसका निषेध है । इसलिये पूर्वोक्त समयप्रबद्ध ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार
प्रथम समयमें कृष्टियोंमें दिये जानेवाले प्रदेशपुञ्जकी श्रेणिका कथन करके अब दूसरे
समयमें उसका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* उससे दूसरे समयमें जघन्य कृष्टिमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है ।
उससे दूसरी कृष्टिमें विशेष हीन प्रदेशपुञ्जको देता है । इस प्रकार ओघ उत्कृष्ट
कृष्टिके प्राप्त होने तक विशेष हीन प्रदेशपुञ्जको देता है ।

§ २६७. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—प्रथम समयमें अपकर्षित द्रव्यसे
असंख्यातगुणे द्रव्यको प्रथम अपकर्षित कर द्वितीय समयमें पूर्व और अपूर्व कृष्टियोंमें सिंचन
करता हुआ द्वितीय समयमें तत्काल रची जानेवाली अपूर्व कृष्टियोंकी जो आदि जघन्य
कृष्टि है उसमें असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको देता है ।

शंका—किससे यह द्रव्य असंख्यातगुणा है ?

समाधान—प्रथम समयकी अन्तिम कृष्टिमें निश्चित रूप प्रदेशपुञ्जसे यह असंख्यात-
गुणा है ।

णिसिचपदेसग्गादो । ण तपो एदस्सासंखेज्जगुणसमसिद्धं, असंखेज्जगुणोक्खिददव्व-
माहप्पेणेदस्स ततो तद्वाभावसिद्धोए विरोहाभावादो । एत्तो विदियाए अपुव्वकिट्ठीए
विसेसहीणं वेदि । केत्तियमेत्तेण ? अणंतभागमेत्तेण । एवं णेदव्वं जाव अपुव्वानं
चरिमकिट्ठि त्ति । तदो पढमसमयणिव्वत्तिदाणं किट्ठीणं जहणियाए किट्ठीए विसेस-
हीणं० । केत्तियमेत्तेण ? असंखेज्जदिभागमेत्तेण अणंतिमभागमेत्तेण च । तं क्वं ?
पुव्वकिट्ठीणमुवरि पढमसमए णिसित्तदव्वादो एण्हं णिसिचमाणदव्वमोक्खिददव्व-
पाहम्मेणासंखेज्जगुणं होदि, तेण तत्थ पुव्वावट्ठिददव्वमेण्हं णिसिचमाणदव्वस्सासंखेज्जदि-
भागमेत्तमत्थि । तदो तेत्तियमेत्तेणुणं क्कट्ठण पुणो एगगोवुक्खविसेसमेत्तेण च ऊणं
काट्ठण पदेसविण्णासं करेदि, अण्णहा किट्ठीसु एगगोवुक्खासेटीए अणुप्पत्तीदो । एत्तो
उवरि सव्वत्थ विसेसहीणमणंतभागेण जाव ओघुक्कस्सियाए पढमसमयणिव्वत्तिदकिट्ठीणं
चरिमा किट्ठि त्ति । तदो जहणणफइयादिवग्गणाए अणंतगुणहीणं । ततो विसेसहीण-
मणंतभागेणे त्ति णेदव्वं जाव उक्कस्सफइयादो जहण्णाइक्खावणामेत्तफइयाणि हेट्ठा

तथा उसकी अपेक्षा इसका असंख्यातगुणापन असिद्ध नहीं है, क्योंकि अपकर्षित किये गये असंख्यातगुणे द्रव्यके माहात्म्यवश इसके उसकी अपेक्षा उस प्रकारके सिद्ध होनेमें विरोधका अभाव है। इसकी अपेक्षा दूसरी अपूर्व कृष्टिमें विशेष हीन देता है।

शंका—कितना कम देता है ?

समाधान—अनन्तवें भागप्रमाण कम देता है।

इसप्रकार अपूर्व कृष्टियोंमें जो अन्तिम कृष्टि है वहाँ तक इसी क्रमसे द्रव्य देते हुए छे जाना चाहिए। उसके बाद प्रथम समयमें रची गई कृष्टियोंमें जो जघन्य कृष्टि है उसमें विशेष हीन देता है।

शंका—कितना कम देता है ?

समाधान—असंख्यातवें भागप्रमाण और अनन्तवें भागप्रमाण कम देता है।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—पूर्वकी कृष्टियोंके ऊपर प्रथम समयमें निक्षिप्त किये गये द्रव्यसे इस समय निक्षिप्त किये जानेवाला द्रव्य अपकर्षित किये गये द्रव्यके माहात्म्यवश असंख्यातगुणा होता है, इसलिए उसमें पहलेका अवस्थित द्रव्य इस समय सिंचित किये जानेवाले द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है।

इसलिये उतना कम करके पुनः एक गोपुच्छाविशेष और कम करके प्रदेशविन्यास करता है, अन्यथा कृष्टियोंमें एक गोपुच्छाश्रेणिकी वृत्त्यन्ति नहीं हो सकती। इससे आगे ओष उक्कट्ट कृष्टिकी अपेक्षा प्रथम समयमें रची गई कृष्टियोंमें अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक सर्वत्र अनन्तवें भागप्रमाण विशेष हीन प्रदेश विन्यास करता है। पुनः उससे जघन्य स्पर्धककी आदिकी वर्गणामें अनन्तगुणा हीन प्रदेश विन्यास करता है। पुनः उससे उक्कट्ट स्पर्धकसे जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण स्पर्धक नीचे सरककर स्थित हुए वहाँके स्पर्धककी

ओसरिदूण द्विदतदित्थफइयस्स उकस्सिया वग्गणा त्ति । संपहि एसा चैव फरूज्जणा तदियादिसमएसु वि कायच्चा विसेमाभावादो त्ति पदुप्पायणइमुत्तसुत्तमाह—

* जहा विदियसमए तहा सेसेसु समएसु ।

§ २६८. सुगमं । एसा दिज्जमाणस्स दच्चस्स सेट्ठिपरूवणा । संपहि दिस्समाणस्स सेट्ठिपरूवणे भण्णमाणे पढमाए किट्ठीए दिस्समाणं पदेसग्गं बहुअं, विदियाए विसेस-हीणमणंतभाणेण । एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाव चरिमकिट्ठि त्ति । पुणो फइय-वग्गणासु वि दिस्समाणं विसेसहीणं चैव भवदि । णवरि किट्ठीदो फइयसंधी अणंत-गुणहीणा । संपहि किट्ठीणं तिच्चमंददाए अप्पावहुअपरूवणइमुत्तरसुत्तं भणइ—

* तिच्चमंददाए जहण्णिण्या किट्ठी थोवा । विदिया किट्ठी अणंतगुणा । तदिया अणंतगुणा । एवमणंतगुणाए सेट्ठीए गच्छुदि जाव चरिमकिट्ठि त्ति ।

§ २६९. एत्थ 'जहण्णिण्या किट्ठी थोवा' त्ति भणिदे जहण्णकिट्ठीए सरिस-धणियपरमाणुं भोत्तूण तत्थेयपरमाणुअविभागपलिच्छेदे घेत्तूण एगा किट्ठी भवदि । इमा थोवा त्ति घेत्तूवा । पुणो विदियकिट्ठी अणंतगुणा त्ति वुत्ते एसो वि एगपरमाणु-धरिदाविभागपलिच्छेदकलावो चैव गहेयव्वो । एवमेगेगरपरमाणुं चैव घेत्तूण अणंतगुण-

उत्कृष्ट वर्गणाके प्राप्त होने तक अनन्तवाँ भागप्रमाण विशेष हीन प्रदेशविन्यास करता है । अब विशेषका अभाव होनेसे यही प्ररूपणा तृतीयादि समयोंमें भी करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* प्रदेशविन्यासका जैसा क्रम दूसरे समयमें है वैसा शेष समयोंमें जानना चाहिए ।

§ २६८. यह सूत्र सुगम है । दिये जानेवाले द्रव्यकी यह श्रेणिप्ररूपणा है । अब द्रश्यमान द्रव्यकी श्रेणि प्ररूपणा करनेपर प्रथम कृष्टिमें द्रश्यमान प्रदेशपुंज बहुत है । उससे दूसरीमें अनन्तवाँ भागप्रमाण विशेष हीन है । इस प्रकार अन्तिम कृष्टि तक उत्तरोत्तर विशेष हीन है । पुन स्पर्धककी वर्गणाओंमें भी द्रश्यमान द्रव्य विशेष हीन ही होता है । अब कृष्टियोंकी तीव्र-मन्दता सम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं—

* तीव्रमन्दताकी अपेक्षा जघन्य कृष्टि स्तोक है । उससे दूसरी कृष्टि अनन्त-गुणी है । उससे तीसरी अनन्तगुणी है । इस प्रकार अन्तिम कृष्टि तक अनन्तगुणित श्रेणिरूपसे क्रम चालू रहता है ।

§ २६९. यहाँपर 'जघन्य कृष्टि स्तोक है' ऐसा कहनेपर जघन्य कृष्टिके सद्गुण धनवाले परमाणुको छोड़कर वहाँके एक परमाणुके अविभाग प्रतिच्छेदोंको ग्रहणकर एक कृष्टि होती है । यह स्तोक है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । पुन: 'दूसरी कृष्टि अनन्तगुणी है' ऐसा कहने पर यह भी एक परमाणुमें जितने अविभागप्रतिच्छेद प्राप्त हों उनका समुदाय

कमेण पेद्व्वं जाव चरिमकिट्टि त्ति । अथवा 'जहण्णिया किट्टी थोवा' एवं भणिदे जहण्णकिट्टीए सरिसधणियपरमाणू अणंता अत्थि । ते सव्वे घेत्तूण जहण्णकिट्टी णाम उच्चदे । एसा थोवा भवदि । एवं विदियकिट्टीए वि सरिसधणियसव्वपरमाणू घेत्तूणाणंत-गुणत्तमवगंतव्वं । एवं जाव चरिमकिट्टि त्ति । अदो चैव एदासिं किट्टिववएसो-अविभागपडिच्छेदुत्तरकमवट्टीए एत्थाणुवलंभादो । पुणो चरिमकिट्टीदो उवरि जहण्ण-फह्यपटमवग्गणा अणंतगुणा । एवं सव्वाओ वग्गणाओ जाणिय पेदव्वाओ—

* एसो विदियतिभागो किट्टीकरणद्धा णाम ।

§ २७०. जदो एवमेत्थ फह्यगदाणुभागमोवट्टिय किट्टीओ करेदि तदो एदस्स लोभवेदगद्धाविदियतिभागस्स किट्टीकरणद्धा त्ति सण्णा अत्थाणुगया दट्टव्वा त्ति भणिदं होदि । जहा खवगसेटीए किट्टीओ करेमाणो पुव्वापुव्वफह्ययाणि सव्वाणि णिरवसेस-मोवट्टेयूण किट्टीओ चैव ठवेदि, ण एवमेत्थ संभवो । किंतु पुव्वफह्यएसु सव्वेसु सगसरूव-मछंडिय तहावट्टिदेसु सव्वफह्यएहिंतो असंखेज्जिभागमेत्तदव्वमोकिट्टियूण एयफह्य-वग्गणाणमणंतभागमेत्ताओ सुट्टमकिट्टीओ एत्थ णिवत्तेदि त्ति वत्तव्वं ।

* किट्टीकरणद्धासंखेज्जेसु भागेसु गदेसु लोभसंजलणस्स अंतो-सुट्टत्तिदिगो बंधो ।

ही प्रहण करना चाहिए । इस प्रकार एक-एक परमाणुको ही प्रहणकर अनन्तगुणित क्रमसे अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । अथवा 'जघन्य कृष्टि स्तोक है' ऐसा कहनेपर जघन्य कृष्टिमें सदृश धनवाले परमाणु अनन्त हैं । उन सबको प्रहण कर जघन्य कृष्टि कहते हैं । यह स्तोक है । इसीप्रकार दूसरी कृष्टिमें भी सदृश धनवाले सब परमाणुओंको प्रहण कर अनन्तगुणा जानना चाहिए । इसी प्रकार अन्तिम कृष्टि तक जानना चाहिए । इसीलिये इनकी कृष्टि संज्ञा है, क्योंकि उत्तरोत्तर अविभाग प्रतिच्छेदोंकी क्रम वृद्धि यहाँपर नहीं पाई जाती । पुनः अन्तिम कृष्टिसे ऊपर जघन्य स्पर्धककी प्रथम वर्गणा अनन्तगुणी है । इसी प्रकार सभी वर्गणाओंको जानकर कथन करना चाहिए ।

* इस द्वितीय त्रिभागका नाम कृष्टिकरणकाल है ।

§ २७०. यतः इस प्रकार यहाँपर स्पर्धकगत अनुभागका अपवर्तनकर कृष्टियोंको करता है, अतः इस लोभवेदककालके द्वितीय त्रिभागकी कृष्टिकरणकाल यह सार्थक संज्ञा जाननी चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है । जिस प्रकार क्षपकश्रेणिमें कृष्टियोंको करता हुआ सभी पूर्व और अपूर्व स्पर्धकोंका पूरी तरहसे अपवर्तनकर कृष्टियोंको ही स्थापित करता है, उस प्रकार यहाँपर सम्भव नहीं है, क्योंकि सभी पूर्व स्पर्धकोंके अपने-अपने स्वरूपको त छोड़कर उस प्रकार अवस्थित रहते हुए सब स्पर्धकोंमेंसे असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यका अपकर्षण-कर एक स्पर्धककी वर्गणाओंके अनन्तवें भागप्रमाण सूक्ष्म कृष्टियोंकी यहाँपर रचना करता है ऐसा कहना चाहिये ।

* कृष्टिकरणकालके संख्यात बहुभागके व्यतीत होनेपर लोभसंज्वलनका स्थिति-बन्ध अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है ।

§ २७१. किट्टीकरणद्वाए चरिमसमयमपावेयूण अंतोमुहुत्तं हेद्वा ओसरियूण तिस्से संखेज्जाणं भागाणं चरिमसमए वट्टमाणस्स त्कालिओ लोभसंजलणस्स ट्टिदिवंधो पुण्व-णिरुद्धदिवसपुधत्तमेत्तट्टिदिवंधादो जहाकममोसरियूण अंतोमुहुत्तपमाणो संजादो त्ति पुत्तं होइ ।

* तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो दिवसपुधत्तां ।

§ २७२. तिण्हं घादिकम्माणं ट्टिदिवंधो वस्ससहस्सपुधत्तमेत्तो होंतो जहाकमं संखेज्जगुणहाणीए ओहट्टियूण त्काले दिवसपुधत्तमेत्तो जादो त्ति भणिदं होदि ।

* जाव किट्टीकरणद्वाए दुच्चरिमो ट्टिदिवंधो ताव णामा-गोद-वेदणीयाणं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ट्टिदिवंधो ।

§ २७३. एतदुक्तं भवति—तिण्हमेदेसिमघादिकम्माणं ट्टिदिवंधो जाव किट्टी-करणद्वाए दुच्चरिमो ट्टिदिवंधो ताव संखेज्जवस्ससहस्सिओ चैव, घादिकम्माणं व अघादि-कम्माणं सुट्टं ट्टिदिवंधोसरणासंभवादो । तम्हा णिरुद्धसमए एदेसिं ट्टिदिवंधो णियमा संखेज्जवस्ससहस्समेत्तो त्ति । संपहि किट्टीकरणद्वाए चरिमो ट्टिदिवंधो किंपमाणो त्ति णिणयविहाणट्टुत्तरसुत्तावयारो—

* किट्टीकरणद्वाए चरिमो ट्टिदिवंधो लोहसंजलणस्स अंतोमुहुत्तिओ ।

§ २७१ कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयको प्राप्त किये बिना वहाँसे अन्तर्मुहूर्त नीचे सरककर उस कालके संख्यात भागोंके अन्तिम समयमें विद्यमान जीवके लोभसंज्वलनका तात्कालिक स्थितिवन्ध पूर्वमें होनेवाले दिवसपृथक्त्वप्रमाण स्थितिवन्धसे यथाक्रम घटकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण हो गया यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तीन घातिकर्मोंका स्थितिवन्ध दिवसपृथक्त्वप्रमाण होता है ।

§ २७२. इससे पहले तीन घातिकर्मोंका स्थितिवन्ध सहस्रवर्षपृथक्त्वप्रमाण होता रहा जो यथाक्रम संख्यात गुणहानिके क्रमसे घटकर तत्काल दिवसपृथक्त्वप्रमाण हो गया यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* कृष्टिकरणकालके द्विचरम स्थितिवन्ध तक नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है ।

§ २७३. यह तात्पर्य है कि कृष्टिकरणकालके द्विचरम स्थितिवन्धके समाप्त होने तक इन तीन अघातिकर्मोंका स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही होता है, क्योंकि घातिकर्मोंके स्थितिवन्धके अपसरण होनेके समान अघातिकर्मोंके स्थितिवन्धका बहुत अधिक अपसरण होना असम्भव है । इसलिए विवक्षित समयमें इनका स्थितिवन्ध नियमसे संख्यात हजारवर्षप्रमाण होता है । अब कृष्टिकरणकालके भीतर होनेवाले अन्तिम स्थितिवन्धका क्या प्रमाण है इस बातका निर्णय करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* कृष्टिकरणकालमें अन्तिम स्थितिवन्ध लोभसंज्वलनका अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता

णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणमहोरत्तस्संतो । णामा-गोव-वेदणीयाणं वेण्हं वस्साणमंतो ।

§ २७४. एत्थ किट्टीकरणद्वाए चरिमट्टिदिबंधो णाम बादरसांपराइयस्स चरिमो ट्टिदिबंधो घेत्तव्वो । एसो च लोहसंजलणस्स अंतोमुहुत्तिओ होदूण खवगसेटीए चरिम-ट्टिदिबंधादो दुगुणमेत्तो होइ । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं च अहोरत्तस्संतो होदूण खवगस्स बादरसांपराइयचरिमट्टिदिबंधादो दुगुणमेत्तो घेत्तव्वो । णामा-गोव-वेदणीयाणं पि संखेज्जवस्ससहस्सियादो ट्टिदिबंधादो परिहाइदूण वेण्हं वस्साणमंतो पयट्टमाणो एत्थतणो ट्टिदिबंधो बादरसांपराइयक्खवगस्स चरिमट्टिदिबंधादो दुगुण-पमाणो चेव गहेयव्वो, तत्थतणट्टिदिबंधस्स वस्सस्संतो इदि पमाणपरूवणोवलंभादो । संपदि बादरसांपराइयपढमट्टिदी जाधे समययूणावलियमेत्तियमेत्ता सेसा ताधे जो विसेससंभवो तप्परूवणट्टमुत्तरसुत्तावयारो—

* तिस्से किट्टीकरणद्वाए तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु दुविहो लोहो लोहसंजलणे ण संकामिज्जदि सत्थाणे चेव उवसामिज्जदि ।

§ २७५. कुदो ? संकमणोवसामणावलियाणमेत्तपडिपुण्णाणमसंभवादो । तम्हा तदवत्थाए दुविहो लोहो लोहसंजलणे ण संकामिज्जदि । किंतु सत्थाणे चेव उवसामेदि है । ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अनन्तराय कर्मोंका कुछ कम दिन-रात्रिप्रमाण होता है तथा नाम गोत्र और वेदनीय कर्मोंका कुछ कम दो वर्षप्रमाण होता है ।

§ २७४. यहाँपर कृष्टिकरणके कालमें जो अन्तिम स्थितिबन्ध होता है वह बादरसाम्प-रायिक जीवका अन्तिम स्थितिबन्ध है ऐसा ग्रहण करना चाहिये । वह लोभसंज्वलनका अन्तमुहूर्तप्रमाण होता है जो क्षपकश्रेणिमें होनेवाले स्थितिबन्धसे दूना है । ज्ञानावरण, दर्शना-वरण और अन्तरायकर्मका कुछ कम दिन-रात्रिप्रमाण होता है जो क्षपकके बादरसाम्परायिक गुणस्थानमें होनेवाले अन्तिम स्थितिबन्धसे दूना ग्रहण करना चाहिए । तथा नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मके भी संख्यात हजार वर्षप्रमाण स्थितिबन्धसे घटकर इस स्थलपर प्राप्त होनेवाला कुछ कम दो वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध बादरसाम्परायिक क्षपकके अन्तिम स्थितिबन्धसे दूना ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि क्षपकश्रेणिमें इस स्थलपर प्राप्त होनेवाला स्थितिबन्ध एक वर्षसे कुछ कम होता है इस प्रकारके प्रमाणकी प्ररूपणा पाई जाती है । अब जब बादरसाम्परायिक जीवके प्रथम स्थिति एक समय कम एक समय आवलिप्रमाण शेष रहती है तब जो विशेष सम्भव है उसका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

* उस कृष्टिकरणके कालमें एक समय कम तीन आवलियाँ शेष रहनेपर दो प्रकारका लोभ लोभसंज्वलनमें संक्रान्त नहीं होता है । स्वस्थानमें ही उपशमाया जाता है ।

§ २७५. क्योंकि संक्रमणावलि और उपशमनावलिका यहाँपर परिपूर्ण होना असम्भव है, इसलिये उस अवस्थामें दो प्रकारका लोभ लोभसंज्वलनमें नहीं संक्रमाता है, किन्तु

त्ति समीचीणमेदं । संपहि एत्तो पुणो वि विसमयूणावलियाए गलिदाए जो अत्थविसेसो त्तिण्णहे सकरणद्वुत्तरसु त्तरंभो—

* किट्टीकरणद्धाए आवलिय-पडिआवलियाए सेसाए आगाल-पडि-आगालो बोच्छिण्णो ।

§ २७६. सुगमं । संपहि पडिआवलियाए उदयावलियं पविसमाणाए जाधे एक्को समयो सेसो ताधे लोमसंजलणस्स जहण्णिया ठिदिउदीरणा होइ त्ति पटुप्पाएमाणो इदमाह—

* पडिआवलियाए एकम्हि समए सेसे लोहसंजलणस्स जहण्णिया ट्टिदिउदीरणा ।

§ २७७. सुगमं ।

* ताधे चेव जाओ दो आवलियाओ समयूणाओ एत्तियमेत्ता लोह-संजलणस्स समयपबद्धा अणुवसंता, किट्टीओ सच्च्वाओ चेव अणुवसंताओ, तव्वदिरिचं लोहसंजलणस्स पदेसग्गं उवसंतं, दुविहो लोहो सच्चो चेव उव-संतो णवकवंधुच्छिट्ठावलियवज्जं ।

स्वस्थानमें ही उपशमाता है इस प्रकार यह कथन समीचीन है । अब यहाँसे आगे फिर भी दो समय कम एक आवलिके गल जानेपर जो अवस्था विशेष होती है उसका निर्देश करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* कृष्टिकरणके कालमें आवलि और प्रत्यावलिके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्या-गाल व्युच्छिन्न हो जाते हैं ।

§ २७६. यह सूत्र सुगम है । अब प्रत्यावलिके उदयावलिके प्रवेश करनेपर जब एक समय शेष रहता है तब लोमसंज्वलनकी जघन्य स्थिति उदीरणा होती है इसका कथन करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* प्रत्यावलिके एक समय शेष रहनेपर लोमसंज्वलनकी जघन्य स्थितिउदीरणा होती है ।

§ २७७. यह सूत्र सुगम है ।

* उसी समय जो एक समय कम दो आवलियाँ हैं इतने लोमसंज्वलनके समय-प्रबद्ध अनुपशान्त रहते हैं, कृष्टियाँ सभी अनुपशान्त रहती हैं । उनके अतिरिक्त नवकबन्ध और उच्छिष्टावलिको छोड़ लोमसंज्वलनका सभी प्रदेशपुञ्ज उपशान्त रहता है तथा दोनों प्रकारका सर्व लोभ उपशान्त रहता है ।

§ २७८. सव्वमेदं लोभसंजलणपदेसग्गं फइयगदमेदम्मि समए सव्वप्पणा उवसंतं किट्ठीगदमज्ज वि अनुवसंतं, सुहुमसांपराइयद्वाए किट्ठीणमुवसामणदंसणादो । दुविहो पुण लोभो सव्वो चेव उवसंतो, तत्थ णवकबन्धादीणमणुवसमं होदूण मणुबलंभादो त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स समुदायत्थो ।

* एसो चेव चरिमसमयवादरसांपराइयो ।

§ २७९. एसो चेव किट्ठीकरणद्वाए चरिमसमए वट्टमाणो चरिमसमयवादरसांपराइयो णाम भवदि, एत्थेवाणियट्ठिकरणद्वाए परिच्छेददंसणादो ।

* से काले पढमसमयसुहुमसांपराइयो जावो ।

§ २८०. अणियट्ठिअद्वाए खीणाए तदणंतरसमए चेव सुहुमकिट्ठिवेदगभावेण परिणमिय सुहुमसांपराइयगुणट्ठाणं पडिवण्णो त्ति भणिदं होदि । कधं पुण एसो विदियट्ठिदीए ट्ठिदाओ लोभकिट्ठीओ वेदेदि त्ति आसंकाए गिरारेगीकरणट्टिमिदमाह—

* तेण पढमसमयसुहुमसांपराइएण अण्णा पढमट्ठिदी कदा ।

§ २८१. एसो पढमसमयसुहुमसांपराइओ ताधे चेव विदियट्ठिदीदो किट्ठीगदं पदेसग्गमोकट्टणभाग-पडिभागोणोकिट्ठियूणुदयादिगुणसेटीए अंतोमुहुत्तायामेण पढमट्ठिदिविण्णासं कुणदि त्ति भणिदं होइ । संपहि एदिस्से सुहुमसांपराइयपढमट्ठिदीए

§ २७८. स्पर्धकगत यह सब लोभसंज्वलनसम्बन्धी प्रदेशपुञ्ज इस समय पूरी तरहसे उपशान्त हो जाता है, किन्तु कृष्टिगत प्रदेशपुञ्ज अभी भी अनुपशान्त रहता है, क्योंकि सूक्ष्मसाम्परायिक कालमें कृष्टियोंकी उपशामना देखी जाती है । परन्तु दोनों प्रकारका लोभ पूरा ही उपशान्त हो जाता है, क्योंकि वहाँपर नवकबन्धादिकका अनुपशम पाया जाता है यह इस सूत्रका समुदायरूप अर्थ है ।

* यही अन्तिम समयवर्ती वादरसाम्परायिक संयत है ।

§ २७९. कृष्टिकरणकालके अन्तिम समयमें विद्यमान यही अन्तिम समयवर्ती वादरसाम्परायिक संयत है, क्योंकि यहीपर अनिश्रुत्तिकरणके कालका अन्त देखा जाता है ।

* तदनन्तर समयमें प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत हो जाता है ।

§ २८०. अनिश्रुत्तिकरणके कालके क्षीण होनेपर तदनन्तर समयमें ही वह सूक्ष्म कृष्टिवेदकरूपसे परिणमकर सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है यह एक कथनका तात्पर्य है । परन्तु यह द्वितीय स्थितिमें स्थित लोभसंज्वलनकी कृष्टियोंका वेदन कैसे करता है ऐसी आज्ञाका होनेपर निःशंक करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं—

* उस समय उस प्रथम समयवर्ती संयतने अन्य प्रथम स्थिति की ।

§ २८१. वह प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीव उसी समय दूसरी स्थितिमें से कृष्टिगत प्रदेशपुञ्जका अपकर्षण भागाहारके द्वारा अपकर्षणकर उदयादि श्रेणिरूपसे अन्तमुहूर्त आशामको लिये हुए प्रथम स्थितिका विन्यास करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य

पमाणमेत्तियं होदि त्ति जाणावणडुमुत्तरसुत्तमाह—

* जा पढमसमयलो भवेदगस्स पढमट्टिदी तिस्से पढमट्टिदीए इमा सुहुमसांपराइयस्स पढमट्टिदी कुभागो थोऊणाओ ।

§ २८२. कोहोदएणुवट्टिदस्स पढमसमयलो भवेदगस्स बादरसांपराइयस्स जा पढमट्टिदी सव्विस्से एत्थतणलो भवेदगद्धाए सादिश्यवेत्तिभागमेत्ता तिस्से थोवूणदु-भागमेत्तो इमो सुहुमसांपराइयस्स पढमट्टिदिविण्णासो त्ति भणिदं होदि । होंतो वि सुहुमसांपराइयद्धामेत्तो चैव एत्थतणपढमट्टिदिआयामो त्ति वेत्तव्वो । णाणावरणादीणं पुण गुणसेट्ठिणिक्खेवो तत्कालभाविओ सुहुमसांपराइयद्धादो विसेसाहिओ होदूण उदया-वलियवाहिरे णिक्खित्तो, अपुव्वकरणपढमसमए णिक्खित्तगुणसेट्ठिणिक्खेवस्स गलित्त-सेसस्स तप्पमाणेणेण्हमवसिट्ठत्तादो । एवंविहपढमट्टिदिं कादूण सुहुमकिट्ठीओ वेदेमाणो कथं वेदेदि त्ति आसंकाए किट्ठीणभेदेण सरूवेण वेदगो होदि त्ति पदुप्पायणडुमुवरिमं पबंधमाह—

* पढमसमयसुहुमसांपराइओ किट्ठीणमसंखेज्जे भागे वेदयदि ।

§ २८३. पढमसमए ताव किट्ठीणं हेट्टिमोवरिमअसंखेज्जदिभागं मोत्तूण सेस-

है । अब सूक्ष्मसाम्परायिक संयतकी इस प्रथम स्थितिका प्रमाण इतना होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* प्रथम समयवर्ती लोभवेदककी जो प्रथम स्थिति होती है उस प्रथम स्थितिके कुछ कम दो त्रिभाग प्रमाण सूक्ष्मसाम्परायिक संयतकी यह प्रथम स्थिति होती है ।

§ २८२ क्रोधके उदयसे चढ़े हुए प्रथम समयवर्ती लोभवेदक बादर साम्परायिक संयतके यहाँके समस्त लोभवेदक कालके साधिक दो बटे तीन भागप्रमाण जो प्रथम स्थिति होती है उसका कुछ कम दो भागप्रमाण सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके यह प्रथम स्थितिविन्यास होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । ऐसा होता हुआ भी यहाँ की प्रथम स्थितिकी रचना सूक्ष्म-साम्परायिकके कालके बराबर होती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । परन्तु ज्ञाना-वरणादिकका उस कालमें होनेवाला गुणभ्रेणिनिक्षेप सूक्ष्मसाम्परायिकके कालसे विशेष अधिक होकर उदयावलिके बाहर निक्षिप्त हुआ है, क्योंकि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें निक्षिप्त हुआ गुणभ्रेणिनिक्षेप गलित्तशेष होकर इस समय तत्प्रमाण अवशिष्ट रहता है । इस प्रकारकी प्रथम स्थितिको करके सूक्ष्म कृष्टियोंका वेदन करता हुआ किस प्रकार वेदन करता है ऐसी आशंका होनेपर कृष्टियोंका इस प्रकार वेदक होता है इस बातका कथन करनेके लिये आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

* प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक संयत कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका वेदन करता है ।

§ २८३. सर्वप्रथम प्रथम समयमें कृष्टियोंके अधस्तन और उपरिम असंख्यातवें

असंखेज्जे भागे वेदयदि, सव्वाहितो किट्ठीहितो पदेसग्गस्स असंखेज्जिभागमोकिट्ठियूण वेदयमाणो मज्झिमकिट्ठिसरूवेण वेदेदि चि मणिदं होदि । संपहि एदं चैव अत्थं विसेसियूण परूवेमाणो उत्तरसुत्तमाह—

* जाओ अपढम-अचरिमेसु समएसु अपुव्वाओ किट्ठीओ कदाओ ताओ सव्वाओ पढमसमए उदिण्णाओ ।

§ २८४. किट्ठीकरणद्वाए पढमसमयं चरिमसमयं च मोत्तूण सेससमएसु जाओ अपुव्वाओ किट्ठीओ कदाओ ताओ सव्वाओ चैव सुहुमसांपराइयस्स पढमसमए उदिण्णाओ दहुव्वाओ । एदं च सरिसधणियविवक्खाए मणिदं, अण्णहा तासिं सव्वासिमेव पढमसमए गिरवसेसमुदिण्णत्तप्पसंगादो । ण च एवं, ताहितो असंखेज्जिदिभागमेत्तस्सेव सरिसधणियपरमाणुपुंजस्स ओकड्डणापडिभागेणुदयदंसणादो ।

* जाओ पढमसमये कदाओ किट्ठीओ तासिमग्गगादो असंखेज्जिदिभागं मोत्तूण ।

§ २८५. पढमसमए णिव्वत्तिदाणं किट्ठीणमुवरिमासंखेज्जिभागं मोत्तूण सेसाओ सव्वाओ किट्ठीओ पढमसमए उदिण्णाओ चि सुत्तत्थसंगहो । एदं पि सरिसधणियविवक्खाए वुत्तं, तासिं सव्वासिमैक्कसमयेण गिरवसेसमुदयपरिणामाणुवलंभादो ।

भागको छोड़कर शेष असंख्यात बहुभागका वेदन करता है, क्योंकि सब कृष्टियोंमेंसे प्रवेश-पुञ्जके असंख्यातवें भागका अपकर्षणकर वेदन करता हुआ मध्यम कृष्टिरूपसे वेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इसी अर्थका विशेषरूपसे कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* अप्रथम और अचरम समयमें जो अपूर्व कृष्टियाँ की गईं वे सब प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाती हैं ।

§ २८४. कृष्टिकरणके कालमेंसे प्रथम समय और अन्तिम समयको छोड़कर शेष समयोंमें जो अपूर्व कृष्टियाँ की गईं वे सभी सूक्ष्मसान्प्ररायिकके प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाती हैं ऐसा जानना चाहिए और यह सवृश धनकी विवक्षामें कहा है, अन्यथा उन सभीका प्रथम समयमें पूरी तरहसे उदीर्ण होनेका प्रसंग आता है । परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमेंसे असंख्यातवें भागमात्र सवृश धनवाले परमाणुपुंजका ही अपकर्षण प्रतिभागके अनुसार उदय देखा जाता है ।

* प्रथम समयमें जो कृष्टियाँ की गईं उनके अग्राग्रमेंसे असंख्यातवें भागको छोड़कर शेष समस्त कृष्टियाँ प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाती हैं ।

§ २८५. प्रथम समयमें जो कृष्टियाँ रची गईं उनके उपरिम असंख्यातवें भागको छोड़कर शेष सब कृष्टियाँ प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाती हैं यह सूत्रार्थसंग्रह है । यह भी सवृश धनकी विवक्षामें कहा है, क्योंकि उन सबका एक समयमें पूरी तरहसे

तम्हा पलिदोवमस असंखेज्जदिभागेण खंडिदेयखंडमेत्तमुवरिमासंखेज्जदिभागं भोत्तूण सेसा जे पढमसमए कदकिट्टीणमसंखेज्जा भागा ते वि सुहुमसांपराइयस्स पढमसमए उदिण्णा त्ति घेत्तव्वं ।

* जाओ चरिमसमए कदाओ किट्टीओ तासिं च जहण्णकिट्टिप्पहुडि असंखेज्जदिभागं भोत्तूण सेसाओ सव्वाओ किट्टीओ उदिण्णाओ ।

§ २८६. किट्टीकरणद्वारे चरिमसमए णिव्वत्तिदाणं किट्टीणं जहण्णकिट्टीदो पहुडि हेट्टिमसंखेज्जदिभागपलिदोवमासंखेज्जदिभागपडिभागियमुज्झयूण सेसबहुभाग-विसयाओ सव्वाओ चैव किट्टीओ त्कालमुदये पवेसिदाओ त्ति भणिदं होदि । तदो सिद्धं पढमसमयसुहुमसांपराइयो किट्टीणमसंखेज्जे भागे वेदेदि त्ति पढम-चरिमसमय-णिव्वत्तिदकिट्टीणमुवरिमहेट्टिमासंखेज्जदिभागविसयाणं चैव किट्टीणमेत्थोदयवहिंभाव-दंसणादो । णवरि पढमसमयम्मि कदकिट्टीणमवेदिज्जमाणउवरिमासंखेज्जदिभागम्भंतर-किट्टीओ ओकड्डणाए अणंतगुणाहीणाओ होदूण मज्झिमकिट्टिसरूवेण वेदिज्जति । चरिमसमए णिव्वत्तिदकिट्टीणं जहण्णकिट्टिप्पहुडि अवेदिज्जमाणहेट्टिमासंखेज्जदिभाग-म्भंतरकिट्टीओ च मज्झिमकिट्टिसरूवेणाणंतगुणाओ होदूण वेदिज्जति त्ति वचाव्वं, सगसरूवेणेव तेसिमुदयाभावपदुप्पायणादो, मज्झिमायारेण तदुदयसिद्धीए पडिसेहा-

उदयरूप परिणाम नहीं पाया जाता, इसलिये पत्न्योपमके असंख्यातवे भागसे खण्डित एक भागप्रमाण उपरिम असंख्यातवे भागको छोड़कर प्रथम समयमें की गई कृष्टियोंका शेष जो असंख्यात बहुभाग बचता है वह सूक्ष्मसाम्प्रायिकके प्रथम समयमें उदीर्ण हो जाता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

* और जो कृष्टियाँ अन्तिम समयमें की गईं उनकी जघन्य कृष्टिसे लेकर असंख्यातवें भागको छोड़कर शेष सब कृष्टियाँ उदीर्ण हो जाती हैं ।

§ २८६. कृष्टिकरणके कालके अन्तिम समयमें रची गईं कृष्टियोंके पत्न्योपमके असंख्यातवे भागरूप प्रतिभाग द्वारा प्राप्त जघन्य कृष्टिसे लेकर, अधस्तन असंख्यातवें भागको छोड़कर शेष बहुभागप्रमाण सभी कृष्टियोंको उस समय उदयमें प्रविष्ट कराई गई यह उक्त कथनका तात्पर्य है, इसलिए सिद्ध हुआ कि प्रथम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्प्रायिक संयत जीव कृष्टियोंके असंख्यात बहुभागका वेदन करता है, अतः प्रथम समय और अन्तिम समयमें रचित कृष्टियोंमेंसे उपरिम और अधस्तन असंख्यातवे भागप्रमाण कृष्टियोंका ही यहाँपर उदयाभाव देखा जाता है । इतनी विशेषता है कि प्रथम समयमें की गईं कृष्टियोंमेंसे नहीं वेदे जानेवाले उपरिम असंख्यातवें भागके भीतरकी कृष्टियाँ अपकर्षण द्वारा अनन्तगुणी हीन होकर मध्यम कृष्टिरूपसे वेदी जाती हैं । तथा अन्तिम समयमें रची गईं कृष्टियोंमेंसे जघन्य कृष्टिसे लेकर नहीं वेदे जानेवाले अधस्तन असंख्यातवें भागके भीतरकी कृष्टियाँ मध्यम कृष्टिरूपसे अनन्तगुणी होकर वेदी जाती हैं ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि अपने रूपसे ही उनके उदयाभावका कथन किया है, मध्यम आकाररूप होकर उनके उदयकी सिद्धिका प्रतिषेध नहीं

भावादो । जहा मिच्छत्तफहयाणि सम्मत्तसरूवेणुदयमागच्छमाणाणि सगसरूवं छट्ठिय अणंतगुणहीणाणि होदणुदये पविसंति, सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तफहयाणि मिच्छत्तायारेण उदयमागच्छमाणाणि सगसरूवपरिच्चागेणाणंतगुणाणि होदणुदये णिवदंति, ण च विरोहो, एवमिहावि उवरिमहेट्टिमासंखेज्जदिभागकिट्टीओ मज्झिमकिट्टिसरूवेण वेदिज्जंति त्ति ण किंचि विप्पडिसिद्धं । संपहि तम्मि चैव समए किट्टीणमुवसामणाविहाणपरूवणहु-मिदमाह—

✽ ताघे चैव सव्वासु किट्टीसु पदेसग्गमुवसामेदि गुणसेटीए ।

§ २८७. तक्काले चैव सव्वासु किट्टीसु द्विदपदेसग्गमुवसामेदि । तं कधमुव-सामेदि ? गुणसेटीए । समयं पडि असंखेज्जगुणाए सेटीए किट्टीणं पदेसग्गमुवसामेदि त्ति वुचं होदि । तं जहा—पटमसमए ताव सव्वासिं किट्टीणं पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-भागेण भागलद्धमेत्तं पदेसग्गमुवसामेदि । पुणो विदियसमयम्मि सव्वकिट्टीणं पदेसग्गं पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण भागलद्धमेत्तमुवसामेमाणो पटमसमयम्मि उवसामिदपदे-सग्गमादो अमंखेज्जगुणं पदेसग्गमुवसामेदि त्ति । कुदो एवं चैव ? परिणामपाहम्ममादो । एवं सव्वत्थ गुणसेटिकमेणुवसामेदि त्ति जाव सुहुमसांपराइयचरिमसमयो त्ति । संपहि

है । जिस प्रकार मिथ्यात्वके स्पर्धक सम्यक्स्वरूपसे उदयको प्राप्त होते हुए अपने स्वरूपको छोड़कर अनन्तगुणे हीन होकर उदयमें प्रवेश करते हैं तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके स्पर्धक मिथ्यास्वरूपसे उदयको प्राप्त होते हुए अपने स्वरूपको छोड़कर अनन्तगुणे होकर उदयको प्राप्त होते हैं और इसमें कोई विरोध नहीं है इसी प्रकार यहाँपर भी उपरिम और अधस्तन असंख्यातवै भागप्रमाण कृष्टियों मध्यम कृष्टिरूपसे वेदी जाती हैं, इसलिए कुछ निषिद्ध नहीं हैं । अब उसी समय कृष्टियोंको उपशमना विधिका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

✽ उसी समय सभी कृष्टियोंके प्रदेशपुञ्जको गुणश्रेणिरूपसे उपशमाता है ।

§ २८७. उसी समय सभी कृष्टियोंमें स्थित प्रदेशपुञ्जको उपशमाता है ।

शंका—उसे किस प्रकार उपशमाता है ?

समाधान—गुणश्रेणिक्रमसे उपशमाता है । अर्थात् प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे कृष्टियोंके प्रदेशपुञ्जको उपशमाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यथा—सर्वप्रथम प्रथम समयमें सब कृष्टियोंमें पल्योपमके असंख्यातवै भागका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उतने प्रदेशपुञ्जको उपशमाता है । पुनः दूसरे समयमें सब कृष्टियोंमें पल्योपमके असंख्यातवै भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतने प्रदेशपुञ्जको उपशमाता हुआ प्रथम समयमें उपशमाये गये प्रदेशपुञ्जसे असंख्यातगुणे प्रदेशपुञ्जको उपशमाता है ।

शंका—यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—परिणामोंके माहात्म्यसे जाना जाता है ।

इस प्रकार सूक्ष्म साम्परायिक गुणस्थानके अन्तिम समयको प्राप्त होने तक सर्वत्र गुणश्रेणिके क्रमसे उपशमाता है । अब केवल कृष्टियोंको ही असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे नहीं

ण केवलं किट्टीओ चेव असंखेज्जगुणाए सेठीए उवसामेदि, किंतु जे दुसमयूणदो-
आवलियमेत्तणवकबंधसमयपबद्धा फहयगदा ते वि समयं पडि असंखेज्जगुणाए सेठीए
उवसामिदि त्ति पदुप्पायणण्डुमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

* जे दोआवलियबंधा दुसमयूणा ते वि उवसामेदि ।

§ २८८. असंखेज्जगुणाए सेठीए त्ति अत्थवसेणेत्थाहियारसंबंधो कायव्वो ।
सुगममण्णं ।

* जा उदयावलिया छंडिदा सा त्थिवुक्कसंकमेण किट्टीसु विपच्चिहिदि ।

§ २८९. जा सा बादरसांपराइएण पुव्वमुच्छिड्ढावलिया छंडिया फहयगदा सा
एण्हं किट्टिसरूवेण परिणमिय त्थिवुक्कसंकमेण विपच्चिहिदि त्ति भाणंदं होदि । एवं
सुहुमसांपराइयपढमसमए सव्वमेदं किरियाकलावं परूविय संपहि विदियादिसमएसु
किट्टीओ वेदेमाणो एदेण सरूवेण वेदेदि त्ति जाणावणट्टमिदमाह—

* विदियसमए उदिण्णाणं किट्टीणमग्गगादो असंखेज्जदिभागं मु'चदि,
हेट्ठदो अपुव्वमसंखेज्जदिपडिभागमाफुंददि, एवं जाव चरिमसमयसुहुम-
सांपराइयो त्ति ।

§ २९०. विदियसमए ताव पढमसमयोदिण्णाणं किट्टीणमग्गगादो सव्वुवरिम-

उपशमाता है किन्तु जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण स्पर्धकगत नवक समयप्रबद्ध हैं उन्हें
भी असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे उपशमाता है इसका कथन करनेके लिए आंगके सूत्रका अव-
तार हुआ है—

* जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक समयप्रबद्ध हैं उन्हें भी
उपशमाता है ।

§ २८८. 'असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे' इसका अर्थवश वहाँपर अधिकारके साथ संबंध
कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

* जो उदयावलि छोड़ दी गई थी वह स्तितुक संक्रमके द्वारा कृष्टियोंमें
विपाकको प्राप्त होगी ।

§ २८९. बादरसांपरायिक संयतने पहले जो उच्छिष्टावलि छोड़ दी थी स्पर्धकगत
वह यहाँपर कृष्टिरूपसे परिणमकर स्तितुकसंक्रमके द्वारा विपाकको प्राप्त होगी यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । इस प्रकार सूक्ष्मसांपरायिकके प्रथम समयमें इस सब क्रियाकलापका
कथनकर अब दूसरे आदि समयोंमें कृष्टियोंका वेदन करता हुआ इस रूपसे वेदन करता है
इस बातका ज्ञान करानेके इस सूत्रको कहते हैं—

* द्वितीय समयमें उदीर्ण हुई कृष्टियोंके अग्राग्रसे असंख्यातवें भागको छोड़ता
है तथा नीचेसे अपूर्व असंख्यातवें भागका स्पर्श करता है । इस प्रकार सूक्ष्मसां-
रायिकके अन्तिम समय तक जानना चाहिए ।

§ २९०. दूसरे समयमें तो प्रथम समयमें उदीर्ण हुई कृष्टियोंके अग्रामसे अर्थात् सबसे

किट्ठीदो पहुडि हेहा असंखेज्जदिभागं मुंचदि । कुदो एवमिदि चे ? पढमसमयो-
दयादो विदियसमयोदयस्स अणत्तगुणहीणत्तण्णहाणुववचीदो । तम्हा पुव्वसमयो-
दिण्णाणं किट्ठीणमगमकिट्ठीदो पहुडि असंखेज्जदिभागमेत्तमुवरिमभागं मोत्तूण हेट्ठिम-
बहुभागाकारेण विदियसमए किट्ठीओ वेदेदि त्ति सिद्धं । हेट्ठदो पुण पढमसमए अणु-
दिण्णाणं किट्ठीणमसंखेज्जदिभागमेत्तमपुव्वमाफुंददि आस्पृशति वेदयत्यवपुंभ्य गृह्हा-
तीत्यर्थः, पढमसमयोदिण्णकिट्ठीहितो विदियसमयोदिण्णकिट्ठीओ विसेसहीणाओ असंखे-
ज्जदिभागेण । कुदो ? हेट्ठिमापुव्वलाहादो उवरिमपरिचत्तभागस्स बहुत्तञ्चवगमादो ।
एवं तदियादिसमएसु वि वत्तव्वं जाव चरिमसमयसुहुमसांपराइओ त्ति । एवमेदीए
परुवणाए सुहुमसांपराइयद्धमणुपालेमाणो आवलिय-पडिआवलियासु सेसासु आगाल-
पडिआगालवोच्छेदं कादूण तदो समयाहियावलियसेसे जहण्णयं ट्ठिदिउदीरणं कादूण
पुणो क्रमेण चरिमसमयसुहुमसांपराइयो जादो । संपहि तत्थतण्णट्ठिदिवंधपमाणावहार-
णट्ठमुत्तरसुत्तपबंधो—

* चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स णाणावरण-दंस्सणावरण-अंतराइ-
याणमंतोमुहुत्तिओ ट्ठिदिवंधो ।

§ २९१ सुगमं ।

उपरिम कृष्टिसे लेकर नीचे असंख्यातवें भागको छोड़ता है ।

शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि ऐसा न हो तो प्रथम समयके उदयसे दूसरे समयका उदय
अनन्तगुणा हीन नहीं बन सकता है ।

इसलिए पूर्व समयमें उदीर्ण हुई कृष्टियोंमेंसे सबसे उपरिम कृष्टिसे लेकर असंख्यातवें
भागप्रमाण उपरिम भागको छोड़कर अधस्तन बहुभागप्रमाण कृष्टियोंका दूसरे समयमें वेदन
करता है यह सिद्ध हुआ । परन्तु नीचेसे प्रथम समयमें अनुदीर्ण हुई कृष्टियोंके अपूर्व असं-
ख्यातवें भागप्रमाणको 'आफुंढदि' स्पर्ज करता है, वेदता है, आलम्बन कर ग्रहण करता है
यह उक्त कथनका तात्पर्य है । प्रथम समयमें उदीर्ण कृष्टियोंसे दूसरे समयमें उदीर्ण हुई
कृष्टियाँ असंख्यातवें भागप्रमाण विशेष हीन हैं, क्योंकि अधस्तन अपूर्व लाभसे उपरिम परि-
त्यक्त भाग बहुत स्वीकार किया गया है । इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायिक संयतके अन्तिम
समयके प्राप्त होने तक तीसरे आदि समयोंमें भी कथन करना चाहिए । इस प्रकार इस प्ररू-
पणाके अनुसार सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानके कालका पालन करता हुआ आवलि और
प्रत्याबलिके शेष रहनेपर आगाल और प्रत्यागालका विच्छेद करके पश्चात् एक समय अधिक
आबलिप्रमाण कालके शेष रहनेपर जचन्य स्थिति उदीरणको करके पुनः क्रमसे अन्तिम
समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है । अब वहाँपर होनेवाले स्थितिवन्धके प्रमाणका
अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रबन्धको कहते हैं—

* अन्तिम समयवर्ती सूक्ष्मसाम्परायिकके ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय-
कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तर्मुहूर्तप्रमाण होता है ।

§ २९१. यह सूत्र सुगम है ।

* णामा-गोदाणं द्विदिबंधो सोलस मुहुत्ता ।

§ २९२. सुगमं ।

* वेदणीयस्स द्विदिबंधो चउवीस मुहुत्ता ।

§ २९३. कुदो ? बारसमुहुत्तियादो खवगचरिमद्विदिबंधादो दुगुणपमाणत्तादो । एत्थेव मन्वेमि कम्माणं पयडि-द्विदि-अणुभाग-पदेसबंधवोच्छेदो दडुच्चो । णवरि वेदणीयस्स पयडिबंधो उवसंतकसाए वि अत्थि, तस्स जोगणिबंधणस्स जाव सजोगि-चरिमसमयो ति बंधसंभवादो । एवमेदेण विहिणा सुहुमसंपाराइयकालं बोलिय तदणंतरसमये वडुमाणस्स मोहणीयं मन्वमुवसंतं होदि ति जाणावणडुमुत्तर-सुत्तणिहे सो—

* से काले सच्चं मोहणीयमुवसंतं ।

§ २९४. कुदो ? तत्थ मोहणीयस्स बंधोदयसंकमोदीरणोकडुहुकडुणादीणं सन्वेसिमेव करणाण सच्चप्पणा उवसंतभावेणावडुणादंसणादो । संपहि एत्तो पडुडि अतोमुहुत्तमेत्तकालमुवसंतकसायवीदरागछदुमत्थो होदूण चिदुदि ति पदुप्पायणडु-मुत्तरसुत्तारभो—

* तदो पाए अंतोमुहुत्तमुवसंतकसायवीदरागो ।

§ २९५. उवसंता सच्चे कसाया जस्स सो उवसंतकसायो । उवसंतकसाओ च सो

* नाम और गोत्र कर्मोका स्थितिबन्ध सोलह मुहूर्तप्रमाण होता है ।

§ २९२ यह सूत्र सुगम है ।

* वेदनीयकर्मका स्थितिबन्ध चौबीस मुहूर्तप्रमाण होता है ।

§ २९३ क्योंकि क्षपकके होनेवाले बारह मुहूर्तप्रमाण अन्तिम स्थितिबन्धसे यह दूने प्रमाणको लिये हुए होता है । यही पर सभी कर्मोंके प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धकी व्युच्छित्ति जाननी चाहिए । इतनी विशेषता है कि वेदनीयकर्मका प्रकृति-बन्ध उपशान्तकषाय गुणस्थानमें भी होता है, क्योंकि प्रकृतिबन्ध योगके निमित्तसे होता है, इसलिए सयोगकेबलोके अन्तिम समय तक उक्त बन्ध सम्भव है । इस प्रकार इस विधिसे सूक्ष्मसाम्परायिकके कालको विताकर तदनन्तर समयमें विद्यमान जीवके मोहनीयकर्म पूरा उपशान्त रहता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं—

* तदनन्तर समयमें सब मोहनीयकर्म उपशान्त हो जाता है ।

§ २९४. क्योंकि वहाँपर मोहनीयकर्मके बन्ध, उदय, संक्रम, उदीरणा, अपकर्षण और उत्कर्षण आदि सभी करणोंका पूरी तरहसे उपशान्तरूपसे अबस्थान देखा जाता है । अब यहाँसे लेकर अन्तमुहूर्त काल तक उपशान्तकषायवीतरागछद्मशय होकर स्थित रहता है इसका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* यहाँसे लेकर अन्तमुहूर्त काल तक उपशान्तकषायवीतराग रहता है ।

§ २९५ जिसके सब कषाय उपशान्त हो गये हैं वह उपशान्तकषाय कहलाता है तथा

वीदरागो च उवसंतकसायवीदरागो, उवसमिदासेसकसायत्तादो उवसंतकसायो, विणहुत्सेसरागपरिणामत्तादो वीदरागो च होदूण अंतोमुहुत्तमेसो सच्छपरिणामो होदूणच्छदि चि वुत्तं होइ । अंतोमुहुत्तादो अहिबं कालमेत्तोवसंतकसायभावेण किण्णावचिद्वदे ? ण, अंतोमुहुत्तादो परमुवसमपजायस्सावट्टाणासंभवादो ।

* सत्विस्से उवसंतद्वाए अवट्टिदपरिणामो ।

§ २९६. कुदो ? परिणामहाणि-वट्टिणिवंधणकसायाणमुदयाभावादो अवट्टिद-जहाकखादविहारसुद्धिसंजमाणुत्तिद्वसुविसुद्धवीयरायपरिणामेण पडिसभयमभिण्णसरूवेण सगद्धमेसो अणुपालेदि चि वुत्तं होइ । संपहि एदेण कीरमाणगुणसेट्ठिणिक्खेवस्स पमाणावहारणहुत्तरसुत्तणिहेसो—

* गुणसेट्ठिणिक्खेवो उवसंतद्वाए संखेज्जदिभागो ।

§ २९७. उवसंतद्वा अंतोमुहुत्तपमाणा, एदिस्से उवसंतद्वाए संखेज्जदिभाग-मेत्तायामो एदस्स गुणसेट्ठिणिक्खेवो णाणावरणादिकम्मपडिवट्टो होदि । होंतो वि अणुव्वकरणपढमसमए कदगलिदसेसगुणसेट्ठिणिक्खेवस्स एण्हिमुवल्लभमाणसीसयादो संखेज्जगुणो । कुदो एदं णव्वदे । उवरि भणिस्समाणअप्पाबहुअसुत्तादो ।

उपशान्तकषाय वीतराग वह उपशान्तकषायवीतराग कहलाता है । समस्त कषायोंके उपशान्त हो जानेसे उपशान्तकषाय और समस्त रागपरिणामके नष्ट हो जानेसे वीतराग होकर वह अन्तर्मुहूर्त काल तक अत्यन्त स्वच्छ परिणामवाला होकर अबस्थित रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक वह उपशान्तकषायभावके साथ क्यों अवस्थित नहीं रहता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्तर्मुहूर्तसे और अधिक काल तक उपशम पर्यायका अवस्थान असम्भव है ।

* तव समस्त उपशान्त कालमें वह अवस्थित परिणामवाला होता है ।

§ २९६. क्योंकि परिणामोंकी हानि और वृद्धिके कारणभूत कषायोंके उदयका अभाव होनेसे अवस्थित यथाख्यातविहारसुद्धिसंयमसे युक्त सुविशुद्ध वीतरागपरिणामके साथ प्रति समय अभिन्नरूपसे उपशान्तकषाय वीतरागके कालका यह पालन करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इस द्वारा किये जानेवाले गुणश्रेणिनिक्षेपके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं—

* वहाँ गुणश्रेणिनिक्षेप उपशान्त कालके संख्यातवें भागप्रमाण होता है ।

§ २९७. उपशान्त काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । इस उपशान्त कालके संख्यातवें भाग-प्रमाण आयामवाला इस जीवके ज्ञानावरणादि कर्मोंका गुणश्रेणि निक्षेप होता है । होता हुआ भी अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किये गये गलित शेष गुणश्रेणिनिक्षेपके इस समय प्राप्त होनेवाले शीघ्रसे संख्यातगुण होता है ।

* सव्विस्से उवसंतद्वाए गुणसेटिणिक्खेवेण वि पदेसग्गेण वि अवट्ठिवा ।

§ २९८. कुदो एवं ? अवट्ठिदपरिणामत्तादो । ण चावट्ठिदपरिणामस्साण-वट्ठिदायामेणावट्ठिदपदेसग्गोकङ्कणाए च गुणसेटिविण्णाससंभवो, विप्पडिसेहत्तादो । तम्हा सव्विस्से वि उवसंतद्वाए कीरमाणगुणसेटिणिक्खेवायामेण ओकङ्कित्तमाणपदे-सग्गेण च अवट्ठिदा चेव होदि त्ति सम्ममवहारिदं । अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि जाव सुहुमचरिमसमयो त्ति ताव मोहणीयवज्जाणं कम्माणं गुणसेटिणिक्खेवो उदयावलियवाहिरे गल्लिदसेसो भवदि । पुणो उवसंतपढमसमयप्पहुडि जाव तस्सेव चरिमसमयो त्ति ताव गुणसेटिणिक्खेवो उदयादिवट्ठिदायामो अवट्ठिदपदेसविण्णासो च होदि त्ति एसो एत्थ सुत्तत्थसम्भावो ।

* पढमे गुणसेटिसीसये उदिण्णे उक्कस्सओ पदेसुदओ ।

§ २९९. एत्थ पढमगुणसेटिसीसये त्ति भणिदे उवसंतकसाएण पढमसमए णिक्खित्तगुणसेटिणिक्खेवस्स अग्गट्ठिदीए गहणं कायव्वं । तम्हि उदयमागदे णाणावरणादिकम्माणमुक्कस्सओ पदेसुदयो होदि । किं कारणमिदि चे ? तत्थ

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—आगे कहे जानेवाले अल्पबहुत्व सूत्रसे जाना जाता है ।

* सम्पूर्ण उपशान्त कालमें वह (गुणश्रेणि) गुणश्रेणि निक्षेपकी अपेक्षा भी और प्रदेशपुञ्जकी अपेक्षा भी अवस्थित होती है ।

§ २९८. शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—अवस्थित परिणाम होनेसे । और अवस्थित परिणामवाले जीवके अनवस्थित आयामरूपसे तथा अनवस्थित प्रदेशपुञ्जके अपकर्षणरूपसे गुणश्रेणिबिन्द्यास सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका निषेध है । इसलिये पूरे ही उपशान्त कालके भीतर किये जानेवाले गुणश्रेणिनिक्षेपके आयामकी अपेक्षा और अपकर्षित किये जानेवाले प्रदेशपुञ्जकी अपेक्षा वह अवस्थित ही होती है यह सम्यक् प्रकारसे निश्चित हुआ । अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर सूक्ष्मसात्परायके अन्तिम समय तक मोहनीयको छोड़कर शेष कर्मोंका गुणश्रेणिनिक्षेप उदयावलिसे बाहर गलित शेष होता है । परन्तु उपशान्तकषायके प्रथम समयसे लेकर उसीके अन्तिम समय तक गुणश्रेणिनिक्षेप उदयसे लेकर अवस्थित आयामवाला और अवस्थित प्रदेशोंकी रचनाको लिये हुए होता है यह यहाँ पर सूत्रके अर्थका तात्पर्य है ।

* प्रथम गुणश्रेणिशीर्षके उदीर्ण होनेपर उत्कृष्ट प्रदेश-उदय होता है ।

§ २९९. यहाँ पर प्रथम गुणश्रेणिशीर्ष ऐसा कहने पर उपशान्तकषाय जीवके द्वारा प्रथम समयमें निक्षिप्त गुणश्रेणिनिक्षेपकी अत्र स्थितिका ग्रहण करना चाहिए । उसके उदय को प्राप्त होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेश उदय होता है ।

शंका—इसका क्या कारण है ?

अंतोभुङ्गमेतगुणसेटिगोबुच्छाअमेधीभूदानमुदयदंसणादो । तं जहा—पढमसमयो-
वसंतकसायस्स ताव गुणसेटिसीसयं तत्थाविणडुसरूवमुवलम्भदे । विदियसमयोव-
संतकसायस्स वि दुचरिमगुणसेटिगोबुच्छा तत्थेव दीसइ । तदियसमयोवसंतकसायस्स
त्तिचरिमगुणसेटिगोबुच्छा वि तत्थेव समुवलम्भदे । एवमेदेण क्रमेण पढमसमयम्मि
कदगुणसेटिणिक्खेवायाममेत्तीओ चेव गुणसेटिगोबुच्छाओ तत्थ दीसंति । एदेण कारणेण
विसयंतरपरिहारेणेत्थेवुकस्सओ पदेसुदओ गहिओ । एत्तो उवरिमसमयप्पहुडि जाव
उवसंतकसायचरिमसमओ त्ति एदेसु वि ट्ठिदिचिसेसेसु एत्तियमेत्तीओ चेव गुणसेटि-
गोबुच्छाओ अणूणाहियपमाणाओ लम्भंति, तदो तत्थ वि उकस्सपदेसुदयसामित्तेजेदेण
होदव्वमिदि वुत्ते ण, तथा चेप्पमाणे पयडिगोबुच्छावेक्खाए जहाक्रममेगोगोबुच्छ-
विसेसहाणिदंसणादो । तदो गोबुच्छविसेसलाहमुदिसिय जहाणिदिट्ठविसेवे चेव सामिच-
मेदं गहेयव्वमिदि सिद्धं । अत्राह—अपुव्वकरणपढमसमयम्मि कदगुणसेटिसीसयं
उवसंतकसायपढमसमयणिक्खत्तगुणसेटिणिक्खेवम्भंतरे चेव हेट्ठा समुवलम्भदे, तदो
तम्मि उदयमागदे मामित्तमेदं गेणहामो, संचयगोबुच्छमाहप्पेण तस्स सुट्ठु बहुत्त-
दंसणादो त्ति ? एत्थ परिहारो बुच्छदे—णेदं घेतुं सक्किज्जे, एदम्हादो सव्वदव्वादो

समाधान—क्योंकि वहाँ पर एक पिण्ड होकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण गुणश्रेणिगोपुच्छाओं-
का उदय देखा जाता है । यथा—प्रथम समयवर्ती उपशान्तकषायका गुणश्रेणिशीर्ष वहाँ
अविनष्टरूपसे उपलब्ध होता है । द्वितीय समयवर्ती उपशान्तकषायकी भी द्विचरम गुण-
श्रेणिगोपुच्छा वहाँ दिखलाई देती है । तृतीय समयवर्ती उपशान्तकषायकी त्रिचरम गुणश्रेणि-
गोपुच्छा भी वहाँ उपलब्ध होती है । इस प्रकार इस क्रमसे प्रथम समयमें किये गये गुण-
श्रेणिनिष्केपके आयामप्रमाण ही गुणश्रेणिगोपुच्छाएँ वहाँ दिखलाई देती हैं । इस कारण दूसरे
स्थानको छोड़कर यहीं पर उत्कृष्ट प्रदेश-उदयको ग्रहण किया है ।

शंका—यहाँसे जो अगला समय है उससे लेकर उपशान्तकषायके अन्तिम समय
तक इन स्थितिविशेषोंमें भी न्यूनाधिकतासे रहित इतनी ही गुणश्रेणिगोपुच्छाएँ प्राप्त होती
हैं, इसलिये वहाँ पर भी उत्कृष्ट प्रदेशउदयका यह स्वामित्व होना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँपर उन स्थितिविशेषोंमें वैसा ग्रहण करने पर प्रकृति
गोपुच्छाकी अपेक्षा क्रमसे एक-एक गोपुच्छाविशेषकी हानि देखी जाती है । इसलिये गोपुच्छा-
विशेषके लाभको लक्ष्य कर यथा निर्दिष्ट स्थानपर ही इस स्वामित्वको ग्रहण करना चाहिए
यह सिद्ध हुआ ।

शंका—यहाँ पर अंकाकार कहता है कि अपूर्वकरणके प्रथम समयमें किया गया
गुणश्रेणिशीर्ष उपशान्तकषायके प्रथम समयमें निश्चित गुणश्रेणिशीर्षके भीतर ही नीचे उप-
लब्ध होता है, इसलिये उसके उदयको प्राप्त होनेपर इस स्वामित्वको हम ग्रहण करते हैं,
क्योंकि संचयको प्राप्त हुए गोपुच्छाके माहात्म्यवश उसके बहुत अधिक प्रदेशोंका संचय देखा
जाता है ?

समाधान—अब यहाँ पर इस अंकाका परिहार करते हैं—सबसे अधिक प्रदेशपुच्छकी
अपेक्षा इसे ग्रहण करना शक्य नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्धी समयस्त द्रव्यसे भी उपशान्त-

वि उवसंतकसाएण पढमसमयम्मि कदगुणसीसेडिसयस्स परिणाममाहप्पेणासंखेज-
गुणत्तदंसणादो । तम्हा पुव्वुत्तविसये चेव णाणावरणादीणं छण्हं मूलपयडीणं
जहासंभवमुत्तरपयडीणं च उक्कस्सओ पदेसुदयो वेत्तव्वो । आदेसुक्कस्सो च एसो,
खवगसेडीए एदासिमोघुक्कस्सपदेसुदयदंसणादो ।

§ ३००. संपहि उवसंतकसायम्मि णाणावरणादिकम्माणमणुभागोदओ
किमवट्ठिदो आहो अणवट्ठिदसरूवो त्ति आसंकाए गिरारेगीकरणट्टमुत्तरो सुत्तपबंधो—

✽ केवलणाणावरण-केवलदंसणावरणीयाणमणुभागुदएण सत्त्वउव-
संतद्वाए अवट्ठिदवेदगो ।

कषाय द्वारा प्रथम समयमें किया गया गुणश्रेणिशीर्ष परिणामोंके माहात्म्यवश असंख्यात-
गुणा देखा जाता है। इसलिये पूर्वोक्त स्थलपर ही ज्ञानावरणादि छह मूळ प्रकृतियोंका और
यथासम्भव उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश-उदय ग्रहण करना चाहिए। किन्तु यह आवेश
उत्कृष्ट है, क्योंकि इनका ओष उत्कृष्ट प्रदेश-उदय क्षपकश्रेणियोंमें देखा जाता है।

विशेषार्थ—यहाँ इस पूरे प्रकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उपशान्तकषायके
प्रथम समयमें अवस्थित आयामवाले गुणश्रेणिशीर्षमें द्रव्यका निक्षेप होता है, और जब
क्रमसे उसका उदय होता है तब उत्कृष्ट प्रदेश-उदय होता है, क्योंकि इसमें अपूर्वकरणके प्रथम
समयमें किये गये गलित श्रेष गुणश्रेणिशीर्षमें निक्षिप्त पूरे द्रव्यको अपेक्षा असंख्यातगुणे
द्रव्यका निक्षेप होता है। किन्तु ज्ञानावरणादि कर्मोंके इस प्रदेश-उदयको ओष-उत्कृष्ट नहीं
समझना चाहिए, क्योंकि इन कर्मोंका ओषसे उत्कृष्ट प्रदेश-उदय क्षपकश्रेणियोंमें होता है।
यहाँ पर एक अंका यह भी की गई है कि उपशान्तकषाय जीवके गुणश्रेणिसम्बन्धी प्रत्येक
स्थितिमें प्रति समय अवस्थित पुञ्जका ही निक्षेप होता है, ऐसी अवस्थामें उपशान्तकषायके
प्रथम समयमें जो गुणश्रेणिशीर्ष किया गया है उसीके उदयमें आनेपर उत्कृष्ट प्रदेश-
उदय क्यों कहा है। उसके बादके उपशान्तकषायमें प्राप्त होनेवाले जितने स्थितिविशेष हैं
उनमें भी जब उतने ही प्रदेशपुञ्जका निक्षेप होता है तब उनके भी क्रमसे उदयमें आनेपर वहाँ
भी उत्कृष्ट प्रदेश-उदय कहना चाहिये। यह एक प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए जो कुछ
कहा गया है उसका आशय यह है कि उन स्थितिविशेषोंमें जो पूर्वकी गोपुच्छा है जिसे
प्रकृति गोपुच्छा कहते हैं उसके प्रत्येक स्थितिविशेषमें उत्तरोत्तर एक-एक गोपुच्छाविशेषकी
हानि देखी जाती है, अतः उन स्थितिविशेषोंमेंसे प्रत्येकमें संचित हुआ समग्र द्रव्य उपशान्त-
कषायके प्रथम समयमें किये गये गुणश्रेणिशीर्षके द्रव्यसे उत्तरोत्तर हीन-हीन होता गया है,
अतः उत्कृष्ट प्रदेश-उदय निर्दिष्ट स्थलपर ही जानना चाहिए।

§ ३००. अब उपशान्तकषायमें ज्ञानावरणादि कर्मोंका अनुभाग-उदय क्या अवस्थित
होता है या अनवस्थितस्वरूप होता है ऐसी आशंका होनेपर उसका निराकरण करनेके लिए
आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

✽ समग्र उपशान्तकालके भीतर केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणके अनु-
भाग-उदयकी अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है।

§ ३०१. एदासिं दोण्हं सच्चवादिपयडीणमणुमायुदएण णिहालिज्जमाणे सच्चिस्से उवसंतद्दाए अवट्टिदवेदगो होदि । किं कारणं ? अवट्टिदपरिणामत्तादो । अ केवलमेदासिं चेवावट्टिदवेदगो, किंतु अण्णासिं पि सच्चवादिपयडीणमुदइन्लाण-मवट्टिदवेदगो चेव होदि त्ति जाणावणट्टमुत्तरसुत्तारंमो—

* णिहा-पयलाणं पि जाव वेदगो ताव अवट्टिदवेदगो ।

§ ३०२. एदाओ णिहा-पयलाओ अट्टुवोदयाओ, तदो एदासिं सिया वेदगो सिया ण वेदगो । जदि वेदगो, जाव वेदगो ताव अवट्टिदवेदगो चेव होदि अवट्टिद-परिणामत्तादो त्ति भणिदं होदि ।

* अंतराइयस्स अवट्टिदवेदगो ।

§ ३०३. अंतराइयस्स वि पंचण्हं पयडीणमवट्टिदवेदगो चेव होदि, अवट्टिद-परिणामत्तादो । जह वि एदासिं पयडीणं खओवसमलद्धिसंभवादो छवट्टि-हाणीहिं हेट्ठा उदयसभवो तो वि एत्थेदासिमवट्टिदो चेव उदयपरिणामो होदि, अवट्टिदेयवियप्प-परिणामविसए परिणामायत्ताणमेदाणमुदयस्स पयारंतरासंभवादो त्ति एसो एदस्स भावत्थो ।

§ ३०१. इन दोनों सर्वघाति प्रकृतियोंका अनुभाग-उदयकी अपेक्षा विचार करनेपर समग्र उपशान्तकालमें अवस्थित वेदक होता है ।

शंका—इसका क्या कारण है ?

समाधान—अवस्थित परिणाम होनेसे यह जीव उक्त कर्मके अनुभाग-उदयका अव-स्थित वेदक होता है ।

केवल इन्हीं प्रकृतियोंका अवस्थित वेदक नहीं होता । किन्तु उदयस्वरूप जो अन्य सर्वघाति प्रकृतियों हैं उनका भी अवस्थित वेदक ही होता है इसका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* निद्रा और प्रचलाका भी जब तक वेदक है तब तक अवस्थित वेदक होता है ।

§ ३०२. ये निद्रा और प्रचला अध्रुव उदयवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिये इनका कदाचित् वेदक नहीं होता है । यदि वेदक होता है तो जब तक वेदक होता है तब तक अवस्थित वेदक ही होता है, क्योंकि बहाँपर अवस्थित परिणाम होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* अन्तरायकर्मका अवस्थितवेदक होता है ।

§ ३०३. अन्तरायकर्मकी भी पाँचों प्रकृतियोंका अवस्थित वेदक ही होता है, क्योंकि उसके अवस्थित परिणाम होता है । यद्यपि इन प्रकृतियोंकी क्षयोपशम लक्षि सम्भव होनेसे छह बुद्धियों और छह हानियों द्वारा नीचे उदय सम्भव है तो भी यहाँ पर इन प्रकृतियोंका अवस्थित ही उदयपरिणाम होता है, क्योंकि अवस्थित एक भेदरूप परिणामके होनेपर परि-णामके आधीन इनके उदयका दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

* सेसाणं लद्धिकम्मंसाणमणुभागुदयो वट्ठी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा ।

§ ३०४. एत्थ सेसग्महणेण पंचंतराहयाणं बुदामो कओ दट्ठव्वो । तदो ते भोत्तूण च्चदुणाणावरण-तिदंसणावरणाणमिह ग्गहणं कायव्वं, तत्तो अण्णेसिं लद्धिकम्मंसाणमेत्थाणुवलंभादो । जेसिं खओवसमपरिणामो अत्थि ते लद्धि-कम्मंसा चि भण्णंते, खओवसमलद्धी होदूण कम्मंसाणं लद्धिकम्मस्स ववएससिद्धीए विरोहाभावादो । एदेसिं च लद्धिकम्मंसाणमणुभागोदयो अवट्ठिदो चेवे त्ति णत्थि णियमो, किंतु तेसिमणुभागुदयस्स वट्ठी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा होअ । कुदो एवं चे? परिणामपच्चयत्ते वि तेसिं छवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदपरिणामाणमेत्थ संभवोवएसदो । तं जहा—ओहिणाणावरणीयस्स ताव उच्चदे । उवसंतकसायम्मि जह ओहिणाणावरणस्स खओवसमो णत्थि तो अवट्ठिदोदयो भवदि, तत्थाणवट्ठाणकारणाणुवलंभादो । अथ खओवसमो अत्थि तो तत्थ छवट्ठि-हाणि-अवट्ठिदकमेणाणुभागस्स उदयो होदि । किं कारणं ? ओहिणाणावरणक्खओवसमस्स देस-परमोहिणाणीसु असंखैज्जल्लोयमेय-मिण्णस्स वट्ठि-हाणि-अवट्ठिदाणमवट्ठिदपरिणामाणं वज्झंतरंगकारणसच्चपेक्खाणं संभवे विरोहाभावादो । तदो सच्चुक्कस्सखओवसमपरिणदम्मि उक्कस्सोहिणाणिन्मि

* शेष लब्धिकर्मांशोका अनुभाग-उदय वृद्धि, हानि या अवस्थानस्वरूप होता है ।

§ ३०४ यहाँपर सूत्रमें 'शेष' पदके ग्रहण करनेसे पाँच अन्तराय प्रकृतियोंका निराकरण किया हुआ जानना चाहिए, इसलिए उन्हें छोड़कर चार ज्ञानावरण और तीन दर्शनावरण प्रकृतियोंका यहाँपर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उनसे अतिरिक्त अन्य लब्धिकर्मांश यहाँ उपलब्ध नहीं होते । जिनका क्षयोपशमरूप परिणाम होता है वे लब्धिकर्मांश कहे जाते हैं, क्योंकि क्षयोपशमलब्धि होकर कर्मांशोकी लब्धिकर्मांश संज्ञाकी सिद्धि होनेमें विरोधका अभाव है । इन लब्धिकर्मांशोका अनुभागउदय अवस्थित ही होता है यह नियम नहीं है । किन्तु उनके अनुभागके उदयकी वृद्धि, हानि या अवस्थान होता है ।

शंका—ऐसा किस कारणसे होता है ?

समाधान—क्योंकि परिणाम प्रत्यय होनेपर भी उनकी छह प्रकारकी वृद्धि, छह प्रकारकी हानि और अवस्थित परिणामका यहाँपर सम्भव होनेका उपदेश पाया जाता है । यथा—सर्वप्रथम अवधिज्ञानावरणका कहते हैं । उपशान्तकषायमें यदि अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम नहीं है तो अवस्थित उदय होता है, क्योंकि अनवस्थितपनेका कारण नहीं पाया जाता । यदि क्षयोपशम है तो वहाँ छह वृद्धियों, छह हानियों और अवस्थित क्रमसे अनुभाग का उदय होता है, क्योंकि देशावधि और परसावधि ज्ञानी जीवोंमें असंख्यात लोकप्रमाण भेदरूप अवधिज्ञानावरणसम्बन्धी क्षयोपशमके अवस्थित परिणामके होनेपर भी वृद्धि, हानि और अवस्थानके बाह्य और आभ्यन्तर कारणोंकी अपेक्षासे होनेमें विरोधका अभाव है । इसलिए सबसे उत्कृष्ट क्षयोपशमसे परिणत हुए उत्कृष्ट अवधिज्ञानी जीवोंमें अवधिज्ञानावरण-

अवद्विदो ओहिणाणावरणाणुभागुदयो होह, तत्ते अण्णत्थ छवद्वि-हाणि-अवद्विद-
सरूवेणाणवद्विदो तुदुदयो होदि चि एसो एदस्स भावत्थो ।

§ ३०५. एवं मणपज्जवणाणावरणीयस्स वि वत्तव्वं । एवं सेसणाणावरण-
दंसणावरणीयाणं पि समयाविरोहेण एसो अत्थो जाणिगूण परूवेयव्वो । संपहि अघादि-
कम्माणि वि जाणि परिणामपच्चयाणि तेसिमवद्विदवेदगो चेव होदि चि पदुप्पायणह-
मुत्तरसुत्तं भणदि—

* णामाणि गोदाणि जाणि परिणामपच्चयाणि तेसिमवद्विदवेदगो
अणुभागोदएण ।

§ ३०६. एत्थ णामग्गहणेण वेदिज्जमाणणामपयडोणं गहणं कायव्वं, अवेदिज्ज-
माणपयडोणमेत्थाणहियारादो । ताओ कदमाओ चि भणिदे—मणुसगह-पंचिदियजादि-
ओरालिय-तेजा-कम्मइयसरीर० छण्हं संठाणाणमेकदर० ओरालियसरीरअंगोवंग०
तिण्हं संघडणाणमेकदर० वण्ण-गंध-रस-फास-अगुरुअलहुअ-उवघाद-परघाद-उस्सास०
दोण्हं विहायगदीणमेकदर० तस-बादर-पज्जत्त-पत्तेयसरीर-थिराथिर-सुभासुम० सुस्सर-
दुस्सराणमेकदर० आदेज्ज-जसगिचि-णिमिणमिदि एदाओ । एत्थ तेजा-कम्मइयसरीर-
वण्ण-गंध-रस-सोदुण्ह-णिद्रुकखणामाणि अगुरुअलहुअ-थिराथिर-सुभासुम-सुमगादेज्ज-
जसगिचि-णिमिणणाममिदि एदाणि परिणामपच्चइयाणि । गोदग्गहणेण उच्चागोदस्स

का उदय अवस्थित होता है । तथा उससे अन्यत्र उसका उदय ब्रह्म वृद्धियों, छह हानियों
और अवस्थितरूपसे अनवस्थित होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

§ ३०५. इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानावरणकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । इसी
प्रकार शेष ज्ञानावरण और शेष दर्शनावरणकी अपेक्षा भी आगमानुसार यह अर्थ जानकर
कथन करना चाहिये । अब अघातिकर्म भी जो परिणामप्रत्यय हैं उनका अवस्थित वेदक ही
होता है इसका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

* जो नामकर्म और गोत्रकर्म परिणामप्रत्यय होते हैं उनका अनुभागउदयकी
अपेक्षा अवस्थित वेदक होता है ।

§ ३०६. यहाँपर 'नाम' पदके ग्रहण करनेसे वेदी जानेवाली नामप्रकृतियोंका ग्रहण
करना चाहिये, क्योंकि नहीं वेदी जानेवाली नामप्रकृतियोंका यहाँ अधिकार नहीं है । वे कौन
हैं ऐसा कहनेपर मनुष्यगति, परूचेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामंणशरीर,
ब्रह्म संस्थानोंमेंसे कोई एक संस्थान, औदारिक शरीर आंगोपांग, तीन संहननोंमेंसे कोई एक
संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, दो विहायोगतियोंमेंसे
कोई एक विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुस्वर
और दुःस्वरमेंसे कोई एक, आदेय, यज्ञःकीर्ति और निर्माण ये प्रकृतियाँ हैं । इनमेंसे तैजस-
शरीर, कामंणशरीर, वर्ण, गन्ध, रस, शीत-उष्ण-स्निग्ध-रुक्ष स्पर्श, अगुरुलघु, स्थिर, अस्थिर,
शुभ, अशुभ, सुभग, ओदय, यज्ञःकीर्ति और निर्माणनाम ये प्रकृतियाँ परिणामप्रत्यय हैं ।
गोत्रकर्मके ग्रहण करनेसे परिणामप्रत्यय उरुचगोत्रका ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार परि-

परिणामपञ्चइयस्स गहणं कायव्वं । एवमेदेसिं परिणामपञ्चइयाणं णामा-गोदाणमेसो
अणुभागोदएणावट्ठिदवेदगो चेव होइ, परिणामपञ्चइयाणं तेसिमवट्ठिदपरिणामविसथे
पयारंतरासंभवादो त्ति सुत्तत्थसंगहो । सेसाणं पुण भवपञ्चइयाणमेत्थ वेदिअमाणघादि-
पयडीणं सादादीणं छवट्ठि-छहाणिकमेणाणुभागमेसो वेदेदि त्ति चेत्तव्वं । एवमेत्तिएण
पवंधेण कसायोवसामगस्स परूवणाविहासणं कादूण संपहि पयदमत्थमुवसंहरेमाणो
इदमाह—

* एवमुवसामगस्स परूवणा विहासा समत्ता ।

§ ३०७. सुगमं ।

णामप्रत्यय इन नाम और गोत्रकर्मका यह अनुभाग-उदयकी अपेक्षा अवस्थितवेदक ही है,
क्योंकि परिणामप्रत्यय उनके अवस्थित परिणामविषयक होनेपर दूसरा प्रकार सम्भव नहीं
है यह सूत्रार्थसमुच्चय है । परन्तु यहाँपर वेदी जानेवाली भवप्रत्यय शेष सातावेदनीय आदि
अघाति प्रकृतियोंके छह वृद्धि और छह हानिके क्रमसे अनुभागको यह वेदता है ऐसा ग्रहण
करना चाहिए । इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा कषायोंके उपशामककी प्ररूपणाका विशेष
व्याख्यान करके अब प्रकृत अर्थका उपसंहार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* इस प्रकार उपशामकका प्ररूपणासम्बन्धी विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ ।

§ ३०७. यह सूत्र सुगम है ।



परिसिद्धाणि

परिसिद्धाणि

दंसणमोहकखवणा-अत्याहियारो

१ सूत्रगाहा-बुणिसुत्ताणि

^१दंसणमोहकखवणाए पुव्वं गमणिज्जाओ पंच सुत्तगाहाओ । ^२तं जहा—

(५७) दंसणमोहकखवणापट्टवगो कम्मभूमिजादो दु ।

णियमा मणुसगदीए णिडुवगो चावि सव्वत्थ ॥ ११० ॥

(५८) ^३मिच्छत्तवेदणीए कम्मे ओघट्टिदम्मि सम्मत्ते ।

खवणाए पट्टवगो जहण्णगो तेउलेस्साए ॥ १११ ॥

(५९) ^४अंतोमुहुत्तमद्वं दंसणमोहस्स णियमसा खवगो ।

खीणे देव-मणुस्से सिया वि णामाउगो बंधो ॥ ११२ ॥

(६०) ^५खवणाए पट्टवगो जम्हि भवे णियमसा तदो अण्णो ।

णाधिच्छदि तिण्णि भवे दंसणमोहम्मि खीणम्मि ॥ ११३ ॥

(६१) ^६संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा ।

सेसासु खीणमोहा गदीसु णियमा असंखेज्जा (५) ॥ ११४ ॥

^७पच्छा सुत्तविहासा । तत्थ ताव पुव्वं गमणिज्जा परिहासा । ^८तं जहा—तिण्हं कम्माणं द्विदीओ आट्टिद्ववाओ । ^९अणुभागफहयाणि च ओट्टियव्याणि । ^{१०}तदो अण्णमधापवत्तकरणं पट्टमं अपुव्वकरणं विदियं अणियट्टिकरणं तदियं । एदाणि ओट्टेदूण अघापवत्तकरणस्स लक्खणं भाणियव्वं । एवमपुव्वकरणस्स वि । अणियट्टिकरणस्स वि । ^{११}पदेस्सि लक्खणाणि जारिसाणि उव्वसाभगस्स तारिसाणि चेय ।

अघापवत्तकरणस्स चरिमसमए इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ परुवेयव्वाओ । तं जहा-दंसणमोहकखवगस्स० १ । काणि वा पुव्वबद्धाणि २ । के असे णीयदे पुव्वं ३ । किं ट्टिदियाणि कम्माणि ४ ।

^{१२}एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियूण अपुव्वकरणपट्टमसमए आढवेयव्वाओ । ^{१३}अघापवत्तकरणे ताव णत्थि द्विदिवादो वा अणुभागघादो वा गुणसेदी वा गुणसंकमो वा । णवरि विसोहीए अणंतगुणाए बड्ढदि । सुहाणं कम्मसाणमणंतगुणवत्तिबंधो असुहाणं कम्मसाणमणंतगुणहाणिबंधो । बंधे पुण्णे पल्लिदोवमस्स संखेज्जदिआणेण हावदि । ^{१४}एसा अघापवत्तकरणे परुवणा ।

अपुव्वकरणस्स पट्टमसमए दोण्हं जीवाणं ट्टिदिसंतकम्मादो ट्टिदिसंतकम्मं तुल्लं वा विसेसाहियं वा संखेज्जगुणं वा । ट्टिदिसंतकवादो वि ट्टिदिसंतकयं दोण्हं जीवाणं तुल्लं वा

(१) पृ. १ । (२) पृ. २ । (३) पृ. ४ । (४) पृ. ७ । (५) पृ. ९ । (६) पृ. १० । (७) पृ. ११ । (८) पृ. १२ । (९) पृ. १३ । (१०) पृ. १४ । (११) पृ. १५ । (१२) पृ. २१ । (१३) पृ. २२ । (१४) पृ. २३ ।

विसेसाहियं वा संखेज्जगुणं वा । ^१तं जहा—दोष्णं जीवाणमेकको कसाए उवसामेयूण खीणदंसणमोहणीयो जादो । एक्को कसाए अणुवसामेयूण खीणदंसणमोहणीओ जादो । जो अणुवसामेयूण खीणदंसणमोहणीओ जादो तस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । ^२जो पुव्वं दंसणमोहणीयं खवेदुणं पच्छा कसाए उवसामेदि वा, जो दंसणमोहणीयमक्खवेयूण कसाए उवसामेइ तेसिं दोहं पि जीवाणं कसाएसु उवसंतेसु तुल्लकाले समधिच्छिदे तुल्लं द्विदिसंतकम्मं । ^३जो पुव्वं कसाए उवसामेयूणं पच्छा दंसणमोहणीयं खवेइ, अण्णो पुव्वं दंसणमोहणीयं खवेयूणं पच्छा कसाए उवसामेइ एदेसिं दोहं पि खीणदंसणमोहणीयाणं खवणकरणेसु उवसमणकरणेसु च णिद्विदेसु तुल्ले काले विदिककंते जेण पच्छा दंसणमोहणीयं खविदं तस्स द्विदिसंतकम्मं थोवं । जेण पुव्वं दंसणमोहणीयं खवेयूणं पच्छा कसाया उवसामिदा तस्स द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

^४अपुव्वकरणस्स पढमसमये जहणणेण कम्मेण उवद्विदस्स द्विदिसंखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । उक्कसेण उवद्विदस्स सागरोवमपुव्वतं । ^५द्विदिवधादो जाओ ओसरिदाओ द्विदोओ ताओ पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । अप्पसत्थाणं कम्माणमणुभागखंडयपमाणमणुभागफहयाणमणंता भागा आगाइदा । ^६गुणसेढी उदयावलिवाहिरा । ^७विदियसमए तं चेव द्विदिसंखंडयं तं चेव अणुभागखंडयं सो चेव द्विदिवंधो । गुणसेढी अण्णा । एवमंतोसुहुत्तं जाव्वं अणुभागखंडयं पुण्णं । एवमणुभागखंडयसहस्सेसु पुण्णेषु अण्णं द्विदिसंखंडयं द्विदिवंधमणुभागखंडयं च पट्टवेइ । ^८पढमं द्विदिसंखंडयं बहुअं । विदिय द्विदिसंखंडयं विसेसहीणं । तदियं द्विदिसंखंडयं विसेसहीणं । एवं पढमादो द्विदिसंखंडयादो अंतो अपुव्वकरणद्वाए संसेज्जगुणहीणं पि अत्थि । ^९एदेण कमेण द्विदिसंखंडयसहस्सेहिं बहुएहिं गदेहिं अपुव्वकरणद्वाए चरिमसमयं पत्तो । तस्स अणुभागखंडयउक्कीरणकालो द्विदिसंखंडयउक्कीरणकालो द्विदिवंधकालो च समगं समत्तो । ^{१०}चरिमसमयअपुव्वकरणे द्विदिसंतकम्मं थोवं । पढमसमयअपुव्वकरणे द्विदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । द्विदिवधो वि पढमसमयअपुव्वकरणे बहुगो । चरिमसमयअपुव्वकरणे संखेज्जगुणहीणो ।

पढमसमय-अणियट्टिकरणपविट्टस्स अपुव्वं द्विदिसंखंडयमपुव्वमणुभागखंडयमपुव्वो द्विदिवंधो तहा चेव गुणसेढी । ^{११}अणियट्टिकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयमप्पसत्थमुवसामणाए अणुवसंतं । सेसाणि कम्माणि उवसंताणि च अणुवसंताणि च ।

^{१२}अणियट्टिकरणस्स पढमसमए दंसणमोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं सागरोवमसदसइस्स-पुव्वत्तमतोकोढीए । सेसाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्मं कोडिसदसहस्सपुव्वत्तमतोकोढाकोढीए । तदो द्विदिसंखंडयसहस्सेहिं अणियट्टिअद्वाए संखेज्जेसु भागेषु गदेसु असण्णिद्विदिवंधेण दंसणमोहणीयस्स द्विदिसंतकम्मं समगं । ^{१३}तदो द्विदिसंखंडयपुव्वत्तेण च उरिदियबंधेण द्विदिसंतकम्मं समगं । तदो द्विदिसंखंडयपुव्वत्तेण तोइदियबंधेण द्विदिसंतकम्मं समगं । तदो द्विदिसंखंडयपुव्वत्तेण बीइदियबंधेण द्विदिसंतकम्मं समगं । तदो द्विदिसंखंडयपुव्वत्तेण एइदियबंधेण द्विदिसंतकम्मं समगं । ^{१४}तदो द्विदिसंखंडयपुव्वत्तेण पलिदोवमद्विदिगं जादं दंसणमोहणीयद्विदिसंतकम्मं । जाव पलिदोवमद्विदिसंतकम्मं ठाव पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो द्विदिसंखंडयं । पलिदोवमे ओलुत्ते तदो पलिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइदा । ^{१५}तदो सेसस्स संखेज्जा भागा आगा-

(१) पृ. २६ । (२) पृ. २७ । (३) पृ. २९ । (४) पृ. ३१ । (५) पृ. ३२ । (६) पृ. ३३ । (७) पृ. ३४ । (८) पृ. ३५ । (९) पृ. ३६ । (१०) पृ. ३७ । (११) पृ. ३८ । (१२) पृ. ४० । (१३) पृ. ४१ । (१४) पृ. ४२ । (१५) पृ. ४३ । (१६) पृ. ४४ ।

इवा । एवं द्विद्विखंडयसहस्त्रेषु गवेषु दूरावकिट्टी पळिदोवमस्स संखेज्जे मागे द्विदिसंतकम्मे सेसे तदो सेसस्स असंखेज्जा भागा आगाइवा ।

‘एवं पळिदोवमस्स असंखेज्जभागिगेषु बहुपसु द्विद्विखंडयसहस्त्रेषु गवेषु तदो सम्मत्तस्स असंखेज्जाणं समयपवद्धानमुदीरणा । तदो बहुपसु द्विद्विखंडयसु गवेषु मिच्छत्तस्स आबलिय-वाहिरं सव्वमागाइव । सम्मत्तसम्भामिच्छत्ताणं पळिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो सेसो ।’^१ तदो द्विद्विखंडए णिट्ठावमाणे णिट्ठिदे मिच्छत्तस्स जहण्णाओ द्विदिसंकमो उक्कसओ पदेस-संकमो । तावे सम्भामिच्छत्तस्स उक्कससगं पदेससंतकम्मं । तदो आबलियाए दुसम-वृणाए गदाए मिच्छत्तस्स जहण्णयं द्विदिसंतकम्मं । ‘मिच्छत्ते पढमसमयसंकते सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमसंखेज्जा भागा आगाइवा । एवं संखेज्जेहि द्विद्विखंडएहि गदेहि सम्भामिच्छत्तमाबलियवाहिरं सव्वमागाइव ।

‘तावे सम्मत्तस्स दोण्णि उववेसा । कै वि भणति संखेज्जाणि वत्ससहस्साणि द्विदाणि ति । पवाइज्जतेण उवदेसेण अट्ट वत्साणि सम्मत्तस्स सेसाणि । सेसाओ द्विदोओ आगाइ-दाओ ति ।’^२ एदम्मि द्विद्विखंडए णिट्ठिदे तावे जहण्णगो सम्भामिच्छत्तस्स द्विदिसंकमो । सम्मत्तस्स उक्कसपदेससंतकम्मं ।

‘अट्टवत्स-उवदेसेण परुविज्जिहिदि । तं जहा—अपुव्वकरणस्स पढमसमए पळिदोवमस्स संखेज्जदिभागिगं द्विद्विखंडयं ताव जाव पळिदोवमद्विदिसंतकम्मं जाव । पळिदोवमे ओलुत्ते पळिदोवमस्स संखेज्जा भागा आगाइवा । तस्मि गदे सेसस्स संखेज्जा भागा आगाइवा । एवं संखेज्जाणि द्विद्विखंडयसहस्त्राणि गवाणि । तदो दूरावकिट्टी पळिदोवमस्स संखेज्जदिभागो संत-कम्मे सेसे तदो द्विद्विखंडयं सेसस्स असंखेज्जा भागा । एवं ताव सेसस्स असंखेज्जा भागा जाव मिच्छत्तं खविदं ति । सम्भामिच्छत्तं पि खवेंतस्स सेसस्स असंखेज्जा भागा जाव सम्भामिच्छत्तं पि खविज्जमाणं खविदं संलुम्भमाणं संलुद्धं । तावे चेव सम्मत्तस्स संतकम्ममट्ट-वत्सद्विदिगं जाव ।’^३ तावे चेव दंसणमोहणीयक्खवगो ति भणइ ।

‘‘एसो पाए अंतोमुहुत्तिगं द्विद्विखंडयं ।’’^४ अपुव्वकरणस्स पढमसमयादो पाए जाव चरिमं पळिदोवमस्स असंखेज्जभागद्विद्विखंडयं ति एदम्मि काले जं पदेसगमोक्कइमाणो सव्वरहस्साए आबलियवाहिरद्विदीए पदेसगं देदि तं थोवं । समयुत्तराए द्विदीए जं पदेसगं देदि व-मसंखेज्जगुणं । एवं जाव गुणसेठिसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो गुणसेठिसीसयादो उवरि-माणंतरद्विदीए पदेसगमसंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं । सेसासु वि द्विदीसु विसेसहीणं चेव । णत्थि गुणगारपरावती । ‘‘जाधे अट्टवासद्विदिगं संतकम्मं सम्मत्तस्स तावे पाए सम्मत्तस्स अनुभागस्स अनुसमय-ओवहणा । एसो ताव एक्को किरियापरिवत्तो ।’’^५ अंतो-मुहुत्तिगं चरिमद्विद्विखंडयं । ‘‘तावे पाए ओवद्विज्जमाणासु द्विदीसु उद्व थोवं पदेसगं विज्जे । से काले असंखेज्जगुणं जाव गुणसेठिसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । तदो उवरिमाणंतरद्विदीए वि असंखेज्जगुणं देदि । तदो विसेसहीणं ।’’^६ एवं जाव दुचरिमद्विद्विखंडयं ति ।

‘‘सम्मत्तस्स चरिमद्विद्विखंडए णिट्ठिदे जाओ द्विदीओ सम्मत्तस्स सेसाओ ताओ द्विदीओ थोवाओ । दुचरिमद्विद्विखंडयं संखेज्जगुणं । चरिमद्विद्विखंडयं संखेज्जगुणं ।

(१) घृ. ४८ । (२) घृ. ४९ । (३) घृ. ५१ । (४) घृ. ५२ । (५) घृ. ५३ । (६) घृ. ५४ । (७) घृ. ५५ । (८) घृ. ५६ । (९) घृ. ५८ । (१०) घृ. ५९ । (११) घृ. ६० । (१२) घृ. ६२ । (१३) घृ. ६३ । (१४) . ५६४ । (१५) घृ. ७० । (१६) घृ. ७१ ।

१३ चरिमद्विद्विखंडयमागाएंतो गुणसेढीए संखेजे भागे आगाएदि । अण्णाओ च उवरि संखेजे गुणाओ द्विदीओ ।

१४ सम्मत्तस्स चरिमद्विद्विखंडए पढमसमयमागाइदे ओवद्विज्जभाणासु १५ द्विदीसु जं पदेस-ग्गमुए दिज्जदि तं शोवं । से काले असंखेज्जगुण ताव जाव ठिद्विखंडयस्स जहण्णियाए द्विदीए चरिमसमयअपत्तो त्ति । १६ सा चैव द्विदी गुणसेढिसीसयं जादं । जमिदाणि गुणसेढि-सीसयं तदो उवरिमाणं वराए द्विदीए असंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं जाव पोगणगुणसेढि-सीसयं ताव । तदो उवरिमाणंतरद्विदीए असंखेज्जगुणहीणं । तदो विसेसहीणं । सेसासु वि विसेसहीणं । १७ विद्वियसमए जमुक्कीरदि पदेसग्गं तं पि एदेणेव कमेण दिज्जदि । १८ एवं ताव जाव द्विद्विखंडय-उक्कीरणद्वाए दुचरिमसमयो त्ति । द्विद्विखंडयस्स चरिमसमये ओकङ्कमाणो उदये पदेसग्गं शोवं वेदि । से काले असंखेज्जगुणं वेदि । एवं जाव गुणसेढिसीसयं ताव असंखेज्जगुणं । गुणगारो वि दुचरिमाए द्विदीए पदेसग्गादो चरिमाए द्विदीए पदेसग्गस्स असंखेज्जाणि पळिदोवमवग्गमूलाणि । १९ चरिमे द्विद्विखंडए णिट्ठिदे कदकरणिज्जो त्ति भण्णदे ।

ताषे मरणं पि होज्ज । लेस्तापरिणामं पि परिणामेज्ज । २० काउ-तेउ-पम्म-सुक्कलेस्साण-मण्णदरो । उदीरणा पुण संकिळिट्ठस्सदु वा विसुज्जदु वा तो वि असंखेज्जसमयपवद्धा असं-खेज्जगुणाए सेढीए जाव समयाहिया आवलिया सेसा त्ति । २१ उदयस्स पुण असंखेज्जदिभागो उक्कस्सिया वि उदीरणा ।

२२ पळिदोवमस्स असंखेज्जभागियमपच्छिमं ठिद्विखंडयं तस्स ठिद्विखंडयस्स चरिम-समए गुणगारपरावत्ती तदो आडत्ता ताव गुणगारपरावत्ती जाव चरिमस्स द्विद्विखंडयस्स दु-चरिमसमयो त्ति । सेसेसु समयेसु णत्थि गुणगारपरावत्ती । २३ पढमसमय-कदकरणिज्जो जदि मरदि देवेसु उववज्जदि णियमा । २४ जइ णेरइएसु तिरिक्खज्जोणिएसु वा मणुसेसु वा उववज्जदि णियमा अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो । २५ जइ तेउ-पम्म-सुक्के वि अंतोमुहुत्तकदकरणिज्जो । २६ एवं परिभासा समत्ता ।

२७ वंसणमोहणीयक्खवग्गस्स पढमसमए अपुव्वकरणमादि कादूण जाव पढमसमयकद-करणिज्जो त्ति एदस्सि अंतरे अणुभागखंडय-द्विद्विखंडयउक्कीरणद्वाण जहण्णुक्कस्सियाणं द्विद्विखंडय-द्विद्विखंडय-द्विद्विखंडयउक्कीरणद्वाण जहण्णुक्कस्सयाणं आवाहाणं च जहण्णुक्कस्सियाण-मण्णेसि च पदाणमप्पाबहुअं वचइस्सामो । तं जहा— २८ सव्वत्थोवा जहण्णिया अणुभागखंडय-उक्कीरणद्वा । उक्कस्सिया अणुभागखंडयउक्कीरणद्वा विसेसाहिया । २९ द्विद्विखंडयउक्कीरणद्वा द्विद्विखंडयद्वा च जहण्णियाओ दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ताओ उक्कस्सियाओ दो वि तुल्लाओ विसेसाहियाओ । कदकरणिज्जस्स अद्वा संखेज्जगुणा । ३० सम्मत्तक्खवग्गद्वा संखेज्जगुणा । अणिवद्विद्विखंडय संखेज्जगुणा । अपुव्वकरणद्वा संखेज्जगुणा । गुणसेढिणिक्खेवो विसेसाहियो । ३१ सम्मत्तस्स दुचरिमद्विद्विखंडयं संखेज्जगुणं । तस्सेव चरिमद्विद्विखंडयं संखेज्जगुणं । अहुवस्सद्विदिगे संतकम्मे सेसे जं पढमं द्विद्विखंडयं तं संखेज्जगुणं । जहण्णिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा । ३२ पढमसमयअणुभागं अणु-

(१) पृ. ७२ । (२) पृ. ७३ । (३) पृ. ७४ । (४) पृ. ७५ । (५) पृ. ७६ । (६) पृ. ७७ । (७) पृ. ७८ । (८) पृ. ७९ । (९) पृ. ८१ । (१०) पृ. ८२ । (११) पृ. ८३ । (१२) पृ. ८४ । (१३) पृ. ८६ । (१४) पृ. ८७ । (१५) पृ. ८८ । (१६) पृ. ८९ । (१७) पृ. ९० । (१८) पृ. ९१ । (१९) पृ. ९२ । (२०) पृ. ९३ । (२१) पृ. ९४ । (२२) पृ. ९५ ।

समयोषट्प्राणगस्त अट्ट वस्तसि ढ्दिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । सम्मत्तस्स असंखेज्ज-
वस्सियं चरिमढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं । सम्मामिच्छत्तस्स चरिमसंखेज्जवस्सियं
ढ्दिदिसंखंअसंखेसाहियं । मिच्छत्ते खविदे सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पढमढ्दिदिसंखंअ-
संखेज्जगुणं । ^१मिच्छत्तसंतकम्मियस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चरिमढ्दिदिसंखंअसंखेज्ज-
गुणं । मिच्छत्तस्स चरिमढ्दिदिसंखंअसंखेसाहियं । ^२असंखेज्जगुणहाणिढ्दिदिसंखंअयाणं पढम-
ढ्दिदिसंखंअसंखेज्ज-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमसंखेज्जगुणं । संखेज्जगुणहाणिढ्दिदिसंखंअयाणं
चरिमढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं । पलिदोवमसंतकम्मादो ढ्दिदियं ढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं ।
जम्हि ढ्दिदिसंखंअवअवगदे दंसणमोहणीयस्स पलिदोवममेत्ते ढ्दिदिसंतकम्मं होइ तं ढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं ।
अपुव्वकरणे पढमढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं । पलिदोवममेत्ते ढ्दिदिसंतकम्मे जादे
तदो पढमं ढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं । ^३पलिदोवमढ्दिदिसंतकम्मं विसेसाहियं । अपुव्वकरणे
पढमस्स उक्कस्सगढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयस्स अनियट्ठिपट्टमसमयं
पविट्टस्स ढ्दिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । दंसणमोहणीयवज्जाणं कम्माणं जहण्णओ ढ्दिदिसंखंअ
संखेज्जगुणो । तेसिं चेव उक्कस्सओ ढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणो । दंसणमोहणीयवज्जाणं जहण्णयं
ढ्दिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । तेसिं चेव उक्कस्सयं ढ्दिदिसंतकम्मं संखेज्जगुणं । ^४एदम्हि दंड्ण
समत्ते सुत्तगाहाओ अनुसंवणणेदव्वाओ ।

^५संखेज्जा च मणुस्सेसु खीणमोहा सहस्ससो णियमा त्ति एदिस्से गाहाए अट्ट अणियोग-
हाराणि । तं जहा—संतपरूवणा दव्वपमाणं खेतं फोसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पा-
वट्ठअं च । एवं दंसणमोहक्खवणाए पंबण्हं सुत्तगाहाणमत्थविहासा समत्ता ।

१२ संजमासंजमलद्धि-अत्याहियारो

^६देसविरदे त्ति अणिओगहारे एया सुत्तगाहा । ^७तं जहा—

(६२) लद्धी य संजमासंजमस्स लद्धी तथा चरित्तस्स ।

वट्ठवट्ठी उवसामणा य तथा पुव्ववट्ठाणं ॥ ११५ ॥

^{१०}एवस्स अणियोगहारस्स पुव्वं गमणिज्जा परिभासा । तं जहा—एत्थ अधापवत्तकरणद्धा
अपुव्वकरणद्धा च अत्थि, अणियट्ठिकरणं णत्थि । ^{११}संजमासंजममतोसुट्ठत्तेण लभिहिदिं त्ति
तदो प्पहुडिं सव्वो जीवो आडगवज्जाणं कम्माणं ढ्दिदिसंखंअ ढ्दिदिसंतकम्मं च अंतोकोढाकोढीए
करेदिं सुमाणं कम्माणमणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च चट्ठुट्ठाणियं करेदिं । असुभाणं कम्माण-
मणुभागबंधमणुभागसंतकम्मं च हुट्ठाणियं करेदिं । ^{१२}तदो अधापवत्तकरणं णाम अणंतगुणाए
विसोहोए विसुच्छदिं । णत्थि ढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं वा अणुभागसंखंअसंखेज्जगुणं वा । केवलं ढ्दिदिसंखंअसंखेज्जगुणं
पलिदोवमस्स संखेज्जविभागहीणेण ढ्दिदिं बंधदिं । जे सुभा कम्मंसा ते अणुभागोहिं अणंत-
गुणेहिं बंधदिं । जे असुट्ठकम्मंसा ते अणंतगुणहीणेहिं बंधदिं ।

^{१३}विसोहोए तिक्क-मंदं वत्तहस्सामो । अधापवत्तकरणस्स जदो प्पहुडिं विसुट्ठो तस्स

- (१) पृ. ९६ । (२) पृ. ९७ । (३) पृ. ९८ । (४) पृ. ९९ । (५) पृ. १०० । (६) पृ. १०१ ।
(७) पृ. १०३ । (८) पृ. १०५ । (९) पृ. १०६ । (१०) पृ. ११३ । (११) पृ. ११४ । (१२) पृ. ११६ ।
(१३) पृ. ११७ ।

पढमसमय जहणिया विसोही थोवा । बिदियसमय जहणिया विसोही अर्णतगुणा । तदियसमय जहणिया विसोही अर्णतगुणा । एवमंतोमुहुत्तं जहणिया चैव विसोही अर्णतगुणेण गच्छइ । तदो पढमसमय उक्कस्सिया विसोही अर्णतगुणा । सेस-अधापवत्त-करणविसोही जहा दंसणमोहउवसामगस्स अधापवत्तकरणविसोही तथा चैव कायन्वा ।

^१अपुव्वकरणस्त पढमसमय जहणयं ठिदिल्लंढयं पल्लिदोवमस्स संखेज्जविभागो । उक्कस्सयं ठिदिल्लंढयं सागरोवमपुव्वत्तं । ^२अणुभागखंडयमसुहाणं कम्ममाणमणुभागस्स अर्णता भागा आगाइदा । सुभाणं कम्ममाणमणुभागघादो णत्थि । गुणसेढी च णत्थि ।

द्विदिवंधो पल्लिदोवमस्स संखेज्जविभागेण हीणो । ^३अणुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु द्विदिव-खंडय-उक्कौरणकालो द्विदिवंधकालो च अण्णो च अणुभागखंडय-उक्कौरणकालो समगं समत्ता भवति । तदो अर्णं द्विदिल्लंढयं पल्लिदोवमस्स संखेज्जभागिणं अर्णं द्विदिवंधमण्णमणुभाग-खंडयं च पट्टवेइ । एवं द्विदिल्लंढयसहस्सेसु गदेसु अपुव्वकरणद्धा समत्ता भवदि ।

^४तदो से काले पढमसमय-संजदासंजदो जादो । ^५ताचे अपुव्वं द्विदिल्लंढयमपुव्वमणु-भागखंडयमपुव्वं द्विदिवंधं च पट्टवेदि । असंखेजे समयपवद्धे ओकस्सियूण गुणसेढीए उदयावल्लियवाहिरे रचेदि । ^६से काले तं चैव द्विदिल्लंढयं तं चैव अणुभागखंडयं सो चैव द्विदिवंधो । गुणसेढी असंखेज्जगुणा । गुणसेढिणक्खेवो अबद्धिद्वगुणसेढी तत्तिगा चैव । ^७एवं द्विदिल्लंढयसु बहुपसु गदेसु तदो अधापवत्तसंजदासंजदो जायदे ।

^८अधापवत्तसंजदासंजदस्स ठिदिघादो वा अणुभागघादो वा णत्थि । जदि संजमा-संजमादो परिणामपच्चएण णिग्गदो, पुणो वि परिणामपच्चएण अंतोमुहुत्तेण आणीदो संजमा-संजमं पडिबज्जइ तस्स वि णत्थि द्विदिघादो वा अणुभागघादो वा । ^९जाव संजदासंजदो ताव गुणसेढिं समय समय करेदि । ^{१०}विमुज्जंतो असंखेज्जगुणं वा संखेज्ज-भागुत्तरं असंखेज्जभागुत्तरं वा करेदि । संकिल्लिस्संतो एवं चैव गुणहीणं वा विसेसहीणं वा करेदि । ^{११}जदि संजमासंजमादो पडिबदिदूण आगुजाए मिच्छत्तं गंतूण तदो संजमासंजमं पडिबज्जइ अंतोमुहुत्तेण वा विप्पकट्टेण वा कालेण तस्स वि संजमासंजमं पडिबज्जमाणयस्स एदाणि चैव करणाणि काइन्वाणि ।

^{१२}तदो एदिस्से परूवणाए समत्ताए संजमासंजमं पडिबज्जमाणगस्स पढमसमय-अपुव्व-करणादो जाव संजदासंजदो एयंताणुवट्ठीए चरित्ताचरित्तत्तद्धीए वट्ठुदि एदम्मि काले द्विदिवंध-द्विदिसंतकम्मद्विदिल्लंढयाणं जहण्णुककस्सयाणमावाहाणं जहण्णुककस्सियाणमुक्कौरणद्वानं जहण्णुककस्सियाणं अण्णेसिं च पदाणमण्णावहुअं वत्तइस्सामो । ^{१३}तं जहा—

सन्वत्थोवा जहणिया अणुभागखंडय-उक्कौरणद्धा । उक्कस्सिया अणुभागखंडयउक्कौर-णद्धा विसेसाहिया । जहणिया द्विदिल्लंढय-उक्कौरणद्धा जहणिया द्विदिवंधगद्धा च दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । उक्कस्सियाओ विसेसाहियाओ । ^{१४}पढमसमयसंजदासंजदपुहुडि जं एगंताणुवट्ठीए वट्ठुदि चरित्ताचरित्तपज्जएहिं एसो वट्ठिकाओ संखेज्जगुणो । अपुव्वकरणद्धा संखेज्जगुणा । जहणिया संजमासंजमद्धा सम्मत्तद्धा मिच्छत्तद्धा संजमद्धा असंजमद्धा सम्मा-मिच्छत्तद्धा च एदाओ छप्पि अद्धाओ तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । गुणसेढी संखेज्जगुणा ।

(१) पृ. ११८ । (२) पृ. १२० । (३) पृ. १२१ । (४) पृ. १२२ । (५) पृ. १२३ । (६) पृ. १२४ । (७) पृ. १२५ । (८) पृ. १२६ । (९) पृ. १२७ । (१०) पृ. १२९ । (११) पृ. १३० । (१२) पृ. १३१ । (१३) पृ. १३२ । (१४) पृ. १३३ । (१५) पृ. १३४ ।

^१जहणिया आबाहा संखेजगुणा । उक्कस्सिया आबाहा संखेजगुणा । जहण्यं द्विद्विखंडव-
मसंखेजगुणं । अपुव्वकरणस्स पढमं जहण्यं द्विद्विखंडवं संखेजगुणं । पंडिदोवमं संखेजगुणं ।
उक्कस्सयं द्विद्विखंडवं संखेजगुणं । जहण्यो द्विद्विबंधो संखेजगुणो । उक्कस्सो द्विद्विबंधो
संखेजगुणो । जहण्यं द्विद्विसंतकम्मं संखेजगुणं । उक्कस्सयं द्विद्विसंतकम्मं संखेजगुणं ।

संजदासंजदाणमट्ट अणियोगदाराणि । तं जहा—संतपरुव्वाणा दव्वपमार्णं खेत्तं फोसर्णं
कालो अंतरं भागाभागो अप्पाबहुअं च ।^४ एवेसु अणियोगहारेसु समत्तेसु तिक्क-मंददाए
सामित्तमप्पाबहुअं च कायव्वं ।

^५सामित्तं । उक्कस्सिया लद्धी कस्स ? संजदासंजदस्स सव्वविसुद्धस्स से काले संजम-
गाहयस्स । जहणिया लद्धी कस्स ? तप्पाओग्गसंक्किल्लिद्धस्स से काले मिच्छत्तं गाहदि ति ।

^६अप्पाबहुअं । तं जहा—जहणिया संजमासंजमलद्धी थोवा । उक्कस्सिया संजमा-
संजमलद्धी अणंतगुणा ।

एत्तो सजदासंजदस्स लद्धिद्धानाणि वत्तइस्सामो ।^७ तं जहा—^८जहण्यं लद्धिद्धान-
मणताणि फहयाणि ।^९ तदो विदियलद्धिद्धानमणंतभागुत्तरं ।^{१०} एवं लद्धिद्धानपविदलद्धिद्धानाणि ।
^{११} असंखेज्जा लोगा । जहण्येण लद्धिद्धाने संजमासंजमं ण पडिवज्जदि ।^{१२} तदो असंखेज्जे लोगे
अइच्छिद्दूण जहण्यं पडिवज्जमाणस्स पाओग्गं लद्धिद्धानमणंतगुणं ।

^{१३}तिक्क-मंददाए अप्पाबहुअं । सव्वमंदाणुभागं जहण्यं संजमासंजमस्स लद्धिद्धानं ।

^{१४}मणुसस्स पडिवदमाणयस्स जहण्यं लद्धिद्धानं तत्तियं वेव । तिरिक्खजोणियस्स पडिवदमाण-
यस्स जहण्यं लद्धिद्धानमणंतगुणं । तिरिक्खजोणियस्स पडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्धान-
मणंतगुणं । मणुससंजदासंजदस्स पडिवदमाणयस्स लद्धिद्धानमणंतगुणं ।^{१५} मणुसस्स पडिवज्ज-
माणयस्स जहण्यं लद्धिद्धानमणंतगुणं ।^{१६} तिरिक्खजोणियस्स पडिवज्जमाणयस्स जहण्यं
लद्धिद्धानमणंतगुणं । तिरिक्खजोणियस्स पडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्धानमणंतगुणं ।

मणुसस्स पडिवज्जमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्धानमणंतगुणं । मणुसस्स अपडिवज्जमाण-
अपडिवदमाणयस्स जहण्यं लद्धिद्धानमणंतगुणं । तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाण-
अपडिवदमाणयस्स जहण्यं लद्धिद्धानमणंतगुणं ।^{१७} तिरिक्खजोणियस्स अपडिवज्जमाण-
अपडिवदमाणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्धानमणंतगुणं । मणुसस्स अपडिवज्जमाण-अपडिवद-
माणयस्स उक्कस्सयं लद्धिद्धानमणंतगुणं ।

संजदासंजदो अपक्कक्खणाणकसाए ण वेदयदि ।^{१८} पक्कक्खणावरणीया वि संजमा-
संजमस्स ण किंवि आवरेत्ति । सेसा चट्टुकसायाणवणोकसायवेदणियाणि च उद्विण्णाणि
देसघादिं करेत्ति संजमासंजमं ।^{१९} जइ पक्कक्खणावरणीयं वेदो सेसाणि चरित्तमोहणीयाणि ण
वेदेज्ज तदो संजमासंजमलद्धी खइया होज्ज ।^{२०} एत्थेण वि उद्विण्णेण खओवसमलद्धी भवदि ।

३३ संजमलद्धि-अत्थाहियातो

^{२१}लद्धी तहा चरित्तस्से ति अणियोगहारे पुव्वं गमणिज्जं सुत्तं ।^{२२} तं जहा—जा वेव
संजमासंजमे भगिदा गाहा खा खेव एत्थ वि कायव्वं । चरित्तसमय-अधापवत्तकरणे चत्तारि

- (१) पृ. १३५ । (२) पृ. १३६ । (३) पृ. १३७ । (४) पृ. १३८ । (५) पृ. १३९ । (६)
पृ. १४० । (७) पृ. १४१ । (८) पृ. १४२ । (९) पृ. १४३ । (१०) पृ. १४४ । (११) पृ. १४५ ।
(१२) पृ. १४६ । (१३) पृ. १४७ । (१४) पृ. १४८ । (१५) पृ. १५० । (१६) पृ. १५१ ।
(१७) पृ. १५२ । (१८) पृ. १५३ । (१९) पृ. १५४ । (२०) पृ. १५५ । (२१) पृ. १५६ ।
(२२) पृ. १५७ । (२३) पृ. १५८ ।

गाहाओ । तं जहा—संजमं पडिवज्जमाणस्स परिणामो केरिसो भवे० (१) । काणि वा पुण्ववद्वाणि० (२) । के अंसे झीयदे पुण्वं० (३) । किं द्विवियाणि कम्माणि० (४) ।
 २पदाओ सुत्तगाहाओ विहासियूण तदो संजमं पडिवज्जमाणस्स उक्कमविधिविहासा ।
 तं जहा—जो संजमं पढमदाए पडिवज्जदि तस्स दुविहा अद्दा—अधापवत्तकरणद्दा च अपुण्वकरणद्दा च ।

३अधापवत्तकरण-अपुण्वकरणणि जहा संजमासंजमं पडिवज्जमाणयस्स परुविदाणि तहा संजमं पडिवज्जमाणयस्स वि कायव्वाणि । तदो पढमसमए संजमपुहुडि अंतोसुहुत्तभणंत-गुणाए चरित्तलद्धीए वडुदि । ४जाव चरित्तलद्धीए एगंताणुवडुणीए वडुदि ताव अपुण्वकरण-सण्णियो भवदि । ५एयं तरवडुणीदो से काले चरित्तलद्धीए सिया वडुजे वा हाएज वा अबहाएज वा ।

६संजमं पडिवज्जमाणयस्स वि पढमसमय-अपुण्वकरणमादि कादूण जाव ताव अधापवत्त-संजदो ति एदमिह काले इमेसि पदानमप्पावहुअं कादव्वं । तं जहा—अणुभागखंडय-उक्कीरण-द्दाओ द्विदिखंडयुक्कीरणद्दाओ जहणुक्कस्सियाओ इच्चेवमादीणि पदाणि । सव्वत्थोवा जहणिया अणुभागखंडय-उक्कीरणद्दा । सा चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया । जहणिया द्विदि-खंडय-उक्कीरणद्दा ठिदिवंधगद्दा च दो वि तुल्लाओ संखेज्जगुणाओ । ७तेसि चेव उक्कस्सिया विसेसाहिया । पढमसमयसंजदमादि कादूण जं कालमेयंताणुवडुणीए वडुदि एसा अद्दा संखेज्ज-गुणा । अपुण्वकरणद्दा संखेज्जगुणा । जहणिया संजमद्दा संखेज्जगुणा । गुणसेट्ठिणिक्खेवो संखेज्जगुणा । जहणिया आवाहा संखेज्जगुणा । उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा । जह-णयं द्विदिखंडयमसंखेज्जगुणं । अपुण्वकरणस्स पढमसमए जहणद्विदिखंडयं संखेज्जगुणं । पल्लोचमं संखेज्जगुणं । पढमस्स द्विदिखंडयस्स विसेसो सागरोवमुपुधत्तं संखेज्जगुणं । जह-णयो द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । उक्कस्सओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो । ८जहणयं द्विदसंतकम्मं संखेज्जगुणं । उक्कस्सयं द्विदसंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

संजमादो णिग्गदो असंजमं गंतूण जो द्विदिसंतकम्मेण अणवद्विदेण पुणो संजमं पडिवज्जदि तस्स संजमं पडिवज्जमाणगस्स णत्थि अपुण्वकरणं णत्थि द्विदिघादो णत्थि अणु-भागघादो ।

९एत्तो चरित्तलद्धिगाणं जीवाणं अट्ठ अणिआंगहाराणि । तं जहा—संतपरुवणा वव्वं खेत्तं पांसणं कालो अंतरं भागाभागो अप्पावहुअं च अणुगंतव्वं । १०लद्धीए तिण्व-अददाए सामित्तमप्पावहुअं च ।

११एत्तो जाणि द्वाणाणि ताणि तिविहाणि । तं जहा—पडिवादद्दाणाणि उप्पाए १-द्वाणाणि लद्धिद्वाणाणि ३ । १२पडिवादद्दाणं णाम जहा जमिह द्वाणे मिच्छत्तं वा असंजमसम-त्तं वा संजमासंजमं वा गच्छइ तं पडिवादद्दाणं । १३उप्पादयद्दाणं णाम जहा जमिह द्वाणे संजमं पडिवज्जइ तमुप्पादयद्दाणं णाम । सव्वाणि चेव चरित्तद्दाणाणि लद्धिद्वाणाणि ।

१४एदेसि लद्धिद्दाणाणमप्पावहुअं । तं जहा—सव्वत्थोवाणि पडिवादद्दाणाणि । उप्पादयद्दाणाणि असंखेज्जगुणाणि । १५लद्धिद्दाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

- (१) पृ. १५९ । (२) पृ. १६४ । (३) पृ. १६५ । (४) पृ. १६६ । (५) पृ. १६७ ।
 (६) पृ. १६८ । (७) पृ. १७९ । (८) पृ. १७० । (९) पृ. १७१ । (१०) पृ. १७४ । (११) पृ. १७५ ।
 (१२) पृ. १७६ । (१३) पृ. १७७ । (१४) पृ. १७८ । (१५) पृ. १७९ ।

^१तिव्व-मंवदाए सव्वमंदाणुभागं भिच्छत्तं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमट्ठाणं । तस्सेवु-
क्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । अस्संजवसम्मत्तं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं ।
^२तस्सेवुक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । संजमासंजमं गच्छमाणस्स जहण्णयं संजमट्ठाण-
मणंतगुणं । तस्सेवुक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । कम्मभूमियस्स पडिबज्जमाणयस्स जहण्णयं
संजमट्ठाणमणंतगुणं । ^३अकम्मभूमियस्स पडिबज्जमाणयस्स जहण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं ।
^४तस्सेवुक्कस्सयं पडिज्जमाणयस्स संजमट्ठाणमणंतगुणं । कम्मभूमियस्स पडिबज्जमाणयस्स
उक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । परिहारसुद्धिसंजवस्स जहण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । तस्सेव
उक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । ^५सामाहय-च्छेदोवट्ठावियाणमुक्कस्सयं संजमट्ठाणमणंतगुणं ।
सुहुमसापराहयसुद्धिसंजवस्स जहण्णयं संजमट्ठाणमणंतगुणं । तस्सेव उक्कस्सयं संजमट्ठाण-
मणंतगुणं । ^६वीरारायस्स अजहण्णमणुक्कस्सयं चरित्तलद्धिट्ठाणमणंतगुणं ।

लद्धी तथा चरित्तस्से त्ति समत्तमणिओगहारं ।

१४ चरित्तमोहोवसामणा-अत्थाहियारो

^१चरित्तमोहणीयस्स उवसाणाए पुव्वं गमणिज्जं सुत्तं । तं जहा—

- (६३) ^२उवसामणा कदिविधो उवसामो कस्स कस्स कम्मस्स ।
कं कम्मं उवसंतं अणउवसंतं च कं कम्मं ॥ ११६ ॥
- (६४) कदिभागुवसामिज्जदि संकमणसुदीरणा च कदिभागो ।
कदिभागं वा बंधदि द्विदि-अणुभागे पदेसग्गे ॥ ११७ ॥
- (६५) ^३केवचिरसुवसामिज्जदि संकमणसुदीरणा च केवचिरं ।
केवचिरं उवसंतं अणउवसंतं च केवचिरं ॥ ११८ ॥
- (६६) ^४कं करणं बोच्छिज्जदि अब्धोच्छिण्णं च होइ कं करणं ।
कं करणं उवसंतं अणउवसंतं च कं करणं ॥ ११९ ॥
- (६७) ^५पडिवादो च कदिविधो कम्मि कसायमिह होइ पडिबदिदो ।
केसिं कम्मसाणंप डिवदिदो बंधगो होइ ॥ १२० ॥
- (६८) दुविहो खलु पडिवादो भवक्खयादुवसमक्खयादो दु ।
सुहुमे च संपराए वादररागे च बोद्धव्वा ॥ १२१ ॥
- (६९) ^६उवसामणाखएण दु पडिबदिदो होइ सुहुभरागमिह ।
वादररागे णियमा भवक्खया होइ परिवदिदो ॥ १२२ ॥
- (७०) उवसामणाक्खएण दु अंसे बंधदि जहाणुपुब्बीए ।
एमेव य वेदयदे जहाणुपुब्बीय कम्मसे ॥ १२३ ॥

^{१३}चरित्तमोहणीयस्स उवसामणाए पुव्वं गमणिज्जा उवक्कमपरिभासा । तं जहा—

(१) पृ. १८२ । (२) पृ. १८३ । (३) पृ. १८४ । (४) पृ. १८५ । (५) पृ. १८६ । (६) पृ.
१८७ । (७) पृ. १९९ । (८) पृ. १९१ । (९) पृ. १९२ । (१०) पृ. १९३ । (११) पृ. १९४ । (१२)
पृ. १९५ । (१३) पृ. १९६ ।

वेद्यसम्माइह्दी अणंताणुबंधी अविंसंजोएदूण कसाए उवसामेदुं णो उवट्टादि । सो ताव पुव्वमेव अणंताणुबंधी विंसंजोएदि । तदो अणंताणुबंधी विंसंजोएतस्स जाणि करणाणि ताणि सव्वाणि परूवेयव्वाणि । तं जहा—अधापवत्तकरणमपुव्वकरणमणियट्टिकरणं च । अधापवत्तकरणे णत्थि ट्टिदिघादो वा अणुभागघादो वा गुणसेढी वा गुणसंकमो वा । अपुव्वकरणे अत्थि ट्टिदिघादो अणुभागघादो गुणसेढी च गुणसंकमो वि । अणियट्टिकरणे वि एदाणि चेव । अंतरकरणं णत्थि । एसा ताव जो अणंताणुबंधी विंसंजोएदि तस्स समासपरूवणा ।

तदो अणंताणुबंधी विंसंजोइदे अंतोमुहुत्तमधापवत्तो जादो असाद-अरति-सोग-अजस-गित्तिघादीणि ताव कम्माणि बंधादि । तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयमुवसामेदि । ताघे ण अंतरं । तदो दंसणमोहमुवसामेतस्स जाणि करणाणि पुव्वपरूविदाणि ताणि सव्वाणि इमस्स वि परूवेयव्वाणि । तहा ट्टिदिघादो अणुभागघादो गुणसेढी च अत्थि ।

अपुव्वकरणस्स जं पढमसमए ट्टिदिसंतकम्मं तं चरिमसमए संखेज्जगुणहणीं । दंसणमोहणीय-उवसा।मणा-अणियट्टिअद्दाए संखेज्जेसु भागेषु गदेसु सम्मत्तस्स असंखेज्जाण समयपबद्धाणमुदीरणा । तदो अंतोमुहुत्तेण दंसणमोहणीयस्स अंतरं करेदि ।

सम्मत्तस्स पढमट्टिदीए शीणाए जं तं मिच्छत्तस्स पदेसग्गं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तेसु गुणसंकमेण संकमिदि पढमदाए सम्मत्तमुपाएतस्स तथा एत्थ णत्थि गुणसंकमो, इमस्स विज्जाद्दसकमो चेव । पढमदाए सम्मत्तमुपाद्यमाणस्स जो गुणसंकमेण पूरणकालो तदो संखेज्जगुणं कालमिमो उवसंतदंसणमोहणीओ विसोहीए वड्डदि । तेण परं हायदि वा वड्डदि वा अवट्टायदि वा । तहा चेव ताव उवसतदंसणमोहणिज्जां असाद-अरदि-सोग-अजसगित्तिआदीसु बंधपरावत्तसहस्साणि कादूण । तदो कसाए उवसामेदुं कच्चे अधापवत्त-परिमाणस्स परिणामं परिणमइ । जं अणंताणुबंधी विंसंजोएतेण हदं दंसणमोहणीयं च उवसामेतैण हदं कम्मं तमुवरि हदं ।

इदाणि कसाए उवसामेतस्स जमधापवत्तकरणं तन्हि णत्थि ट्टिदिघादो अणुभाग-घादो गुणसेढी च । णवरि विसोहीए अणंतगुणाए वड्डदि । तं चेव इमस्स वि अधाप-पवत्तकरणमए लक्खणं जं पुव्वं परूविद । तदो अधापवत्तकरणस्स चरिमसमये इमाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ । तं जहा—कसायउवसामणपवट्टवगमसं (१) । काणि वा पुव्व-बद्धाणि (२) । के असे शीयदे (३) । किं ट्टिदियाणि (४) । एदाओ चत्तारि सुत्तगाहाओ विहासियूण तदो अपुव्वकरणस्स पढमसमए इसाणि आवासयाणि परूवेदव्वाणि ।

जो खविददंसणमोहणिज्जो कसाय-उवसामगो तस्स खीणदंसणमोहणिज्जस्स कसाय-उवसमणाए अपुव्वकरणे पढमट्टिदिखंडयं णियमा पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । ट्टिदि-बंधेण जमोसरदि सो वि पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो । असुभाणं कम्मसाणमणता भागा अणुभागखंडयं । ट्टिदिसंतकम्ममंतोकोडाकोडीए । ट्टिदिबंधो वि अंतोकोडाकोडीए । गुणसेढी च अंतोमुहुत्तमेत्ता णिखिन्ता । तदो अणुभागखंडयपुधत्ते गदे अणमणुभागखंडयं पढमं ट्टिदिखंडयं जो च अपुव्वकरणस्स पढमो ट्टिदिबंधो एदाणि समगं णिट्टिदाणि । तदो ट्टिदि-

- (१) पृ. १९७ । (२) पृ. १९८ । (३) पृ. १९९ । (४) पृ. २०० । (५) पृ. २०१ । (६) पृ. २०२ । (७) पृ. २०३ । (८) पृ. २०४ । (९) पृ. २०५ । (१०) पृ. २०७ । (११) पृ. २०८ । (१२) पृ. २०९ । (१३) पृ. २१० । (१४) पृ. २१२ । (१५) पृ. २१३ । (१६) पृ. २१४ । (१७) पृ. २१५ । (१८) पृ. २१६ । (१९) पृ. २२२ । (२०) पृ. २२३ । (२१) पृ. २२४ । (२२) पृ. २२५ ।

खंडवपुधत्ते गदे णिहा-पयळाणं बंधवोच्छेदो । तदो अंतोमुहुत्ते गदे परभवियणामा-गोदाणं बंधवोच्छेदो ।

^१अपुव्वकरणपविट्टस्स जम्हि णिहा-पयळाओ वोच्छिज्जाओ सो कालो थोवो । पर-भवियणामाणं वोच्छिज्जकालो संखेज्जगुणो ।^२ अपुव्वकरणद्धा विसैसाहिया । तदो अपुव्व-करणद्धाए चरिमसमए द्विदिखंडयमणुभागखंडयं द्विदिबंधो च समगं णिद्धिदाणि । एवम्हि चेव समए हस्स-रइ-भय-दुगुंछाण बंधवोच्छेदो । हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंछाणमेदेसि छण्हं कम्माणमुव्वयवोच्छेदो च ।^३ तदो से काले पढमसमयअणियट्ठी जावो । पढमसमय-अणियट्ठिकरणस्स ठिदिखंडयं पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।^४ "अपुव्वो द्विदिबंधो पलिदोव-मस्स संखेज्जदिभागेण हीणो । अणुभागखंडयं सेसस्स अणंता भागा । गुणसेढी असंखेज्जगुणाए सेढोए सेसे सेसे णिवखेधो ।^५ तस्से चेव अणियट्ठि-अद्धाए पढमसमए अप्पसत्थउव्वसामणा-करणं णिघत्तीकरणं णिकाचणाकरणं च वोच्छिज्जाणि ।

आउगवज्जाणं कम्माणं द्विदिसंतकम्ममतोकोडाकोडीए ।^६ द्विदिबंधो अंतोकोडाकोडोए सदसहस्मपुधत्तं । तदो द्विदिखंडयसहस्सेसु गदेसु द्विदिबंधो सहस्सपुधत्तं । तदो अणियट्ठि-अद्धाए संखेज्जेसु भागोसु गदेसु असणिणद्विदिबधेण समगो द्विदिबंधो । तदो द्विदिबंधपुधत्तं गदे चट्ठुरिंदियद्विदिबंधसमगो द्विदिबंधो । एवं तीइदिय-वीइदियद्विदिबंधसमगो द्विदिबंधो । एइदियद्विदिबंधसमगो द्विदिबंधो ।

तदो द्विदिबंधपुधत्तेण गामा-गोदाणं पलिदोवमद्विदिगो द्विदिबंधो ।^७ णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं च दिवहुपलिदोवममेत्तद्विदिगो वधो । मोहणीयस्स वेपलिदोवमद्विदिगो बंधो ।^८ एदम्हि काले अदिच्छिदे सव्वम्हि पलिदोवमस्स संखेज्जदि-भागोण द्विदिबंधेण ओसरदि । गामा-गोदाणं पलिदोवमद्विदिगावो बंधावो अण्णं जं द्विदिबंधं बंधद्विदि सो द्विदिबंधो संखेज्जगुणहीणो ।^९ "सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जभागहीणो ।

तदो प्पहुद्धि गामा-गोदाणं द्विदिबंधे पुण्णे संखेज्जगुणहीणो द्विदिबंधो होइ । सेसाणं कम्माणं जाव पलिदोवमद्विदिगं बंधं ण पावदि ताव पुण्णे द्विदिबंधे पलिदोवमस्स संखेज्जदि-भागहीणो द्विदिबंधो ।^{१०} एवं द्विदिबंधसहस्सेसु गदेसु णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं पलिदोवमद्विदिगो बंधो । मोहणीयस्स तिभागुत्तरं पलिदोवमद्विदिगो बंधो । तदो जो अण्णो णाणावरणादिचदुण्हं पि द्विदिबंधो सो संखेज्जगुणहीणो । मोहणीयस्स द्विदिबंधो विसैसहीणो ।

^{११} तदो द्विदिबंधपुधत्तेण गदेण मोहणीयस्स वि द्विदिबंधो पलिदोवमं । तदो जो अण्णो द्विदिबंधो सो आउगवज्जाणं कम्माणं द्विदिबंधो पलिदोवमस्स संखेज्जदिभागो ।^{१२} तस्स अप्पावहुअं । तं जहा—णामा-गोदाणं द्विदिबंधो थोवो । मोहणीयवज्जाणं कम्माणं द्विदिबंधो तुल्लो संखेज्जगुणो । मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ।^{१३} "एदेण अप्पावहुअविहिणा द्विदि-बंधसहस्साणि बहूणि गदाणि । तदो अण्णो द्विदिबंधो गामा-गोदाणं थोवो । इदरेसि चउण्हं पि तुल्लो असंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स द्विदिबंधो संखेज्जगुणो ।^{१४} एदेण अप्पावहुअविहिणा द्विदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

(१) पृ. २२६ । (२) पृ. २२७ । (३) पृ. २२८ । (४) पृ. २२९ । (५) पृ. २३० । (६) पृ. २३१ । (७) पृ. २३२ । (८) पृ. २३३ । (९) पृ. २३४ । (१०) पृ. २३५ । (११) पृ. २३६ । (१२) पृ. २३७ । (१३) पृ. २३८ । (१४) पृ. २३९ । (१५) पृ. २४० । (१६) पृ. २४१ ।

तदो अण्णो द्विद्विबंधो णामा-गोदाणं थोवो । इदरेसिं चटुण्हं णि कम्मणं द्विद्विबंधो अमंखेज्जगुणो । मोहणीयस्स द्विद्विबंधो असंखेज्जगुणो । एदेण कमेण द्विद्विबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि । तदो अण्णो द्विद्विबंधो णामा-गोदाणं थोवो । मोहणीयस्स द्विद्विबंधो असंखेज्जगुणो । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-वेदणीय-अंतराइयाणं द्विद्विबंधो असंखेज्जगुणो । एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विद्विबंधो णाणावरणादिद्विद्विबंधादो हेट्ठदो जादो असंखेज्जगुणहीणो च । णत्थि अण्णो वियप्पो । जाव मोहणीयस्स द्विद्विबंधो उवरि आसी ताव असंखेज्जगुणो आसी । असंखेज्जगुणादो असंखेज्जगुणहीणो जादो । तदो जो एसो द्विद्विबंधो णामा-गोदाणं थोवो । मोहणीयस्स द्विद्विबंधो असंखेज्जगुणो । इदरेसिं चटुण्हं पि कम्मणं द्विद्विबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो ।

एदेण अप्पावहुअविहिणा द्विद्विबंधसहस्साणि जावे बहूणि गदाणि । तदो अण्णो द्विद्विबंधो एक्कसराहेण मोहणीयस्स थोवो । णामा-गोदाणमसंखेज्जगुणो । इदरेसिं चटुण्हं पि कम्मणं तुल्लो असंखेज्जगुणो । एदेण कमेण संखेज्जाणि द्विद्विबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

तदो अण्णो द्विद्विबंधो । एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विद्विबंधो थोवो । णामा-गोदाणं पि कम्मणं द्विद्विबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अतराइयाणं तिण्हं पि कम्मणं द्विद्विबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विद्विबंधो असंखेज्जगुणो । तिण्हं पि कम्मणं द्विद्विबंधस्स वेदणीयस्स द्विद्विबंधादो ओसरंतस्स णत्थि वियप्पो संखेज्जगुणहीणो वा विसेसहीणो वा, एक्कसराहेण असंखेज्जगुणहीणो । एदेण अप्पावहुअविहिणा संखेज्जाणि द्विद्विबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि ।

तदो अण्णो द्विद्विबंधो । एक्कसराहेण मोहणीयस्स द्विद्विबंधो थोवो । णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणं तिण्हं पि कम्मणं द्विद्विबंधो तुल्लो असंखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं द्विद्विबंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विद्विबंधो विसेसाहिओ । एत्थ त्रि णत्थि वियप्पो । तिण्हं पि कम्मणं द्विद्विबंधो णामा-गोदाणं द्विद्विबंधादो हेट्ठदो जायमाणो एक्कसराहेण असंखेज्जगुणहीणो जादो । वेदणीयस्स द्विद्विबंधो तावे चेव णामा-गोदाणं द्विद्विबंधादो विसेसाहिओ जादो । एदेण अप्पावहुअविहिणा संखेज्जाणि द्विद्विबंधसहस्साणि कादूण जाणि पुण कम्मणि बज्झंति ताणि पळिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । तदो असंखेज्जाणं समय-पबद्धानुसुदीरणा च । तदो संखेज्जेसु द्विद्विबंधसहस्सेसु गदेसु मणपज्जवणाणावरणीय-दाणंतरा-इयाणमणुभागो बंधेण देसघादी होइ ।

तदो संखेज्जेसु द्विद्विबंधेसु गदेसु ओहिणाणावरणीयं ओहिदंसणावरणीयं लाभंतराइयं च बंधेण देसघादिं करेदि । तदो संखेज्जेसु द्विद्विबंधेसु गदेसु सुवणाणावरणीयं अचक्खु-दसणावरणीयं भोगंतराइयं च बंधेण देसघादिं करेदि । तदो संखेज्जेसु द्विद्विबंधेसु गदेसु चक्खुदंसणावरणीयं बंधेण देसघादिं करेदि । तदो संखेज्जेसु द्विद्विबंधेसु गदेसु आभिणिबोहिच-णाणावरणीयं परिभोगंतराइयं च बंधेण देसघादिं करेदि ।

तदो संखेज्जेसु द्विद्विबंधेसु गदेसु वीरियंतराइयं बंधेण देसघादिं करेदि । ऐदेसिं कम्मणमखवगो अणुवसामगो सव्वो सव्वघादिं बंधदि । एदेसु कम्मेषु देसघादीसु जावेसु

- (१) पृ. २४२ । (२) पृ. २४३ । (३) पृ. २४४ । (४) पृ. २४५ । (५) पृ. २४६ ।
(७) पृ. २४७ । (७) पृ. २४८ । (८) पृ. २४९ । (९) पृ. २५० । (१०) पृ. २५१ । (११) पृ. २५२ ।

वि द्विदिवंधो मोहणाये योवो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतरादसु द्विदिवंधो असंखेज्जगुणं । णामा-गोदेसु द्विदिवंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स द्विदिवंधो विसेसाहो ।

तदो विसवादिकरणदो संखेज्जेसु ठिदिवंधसहस्सेसु गदेसु अंतरकरणं करेदि । बौर-सण्हं कसायाणं णवण्हं णोकसायवेदणीयाणं च । णत्थि अण्णस्स कम्मस्स अंतरकरणं । जं संजळणं वेदयदि जं च वेदं वेदयदि एदेसि दोण्हं कम्माणं पढमद्विदीओ अंतोमुहुत्तिगाओ ठवेदूणं अंतरकरणं करेदि । पढमद्विदीओ संखेज्जगुणाओ द्विदीओ आगाइदाओ अंतरहं । खेसाणमेककारसण्हं कसायाणमदूण्हं च णोकसायवेदणीयाणमुदयावलियं मोत्तूणं अंतरं करेदि । उवरि समद्विदि-अंतरं हेट्ठा विसमद्विदिअंतरं ।

^१जावे अंतरमुक्कीरदि ताथे अण्णो द्विदिवंधो पवद्धो, अण्णं द्विदिवंधयमण्णमणुभाग-खंडयं च गेण्हदि । अण्णुभागखंडयसहस्सेसु गदेसु अण्णमणुभागखंडयं, तं चेव द्विदिवंधयं सो चेव द्विदिवंधो अंतरस्स उक्कीरणद्धा च समगं पुण्णाणि ।

अंतरं करेमाणस्स जे कम्मंसा बज्झति वेदिज्जति तेसि कम्माणमंतरद्विदीओ उक्कीरंतो तासि द्विदीणं पदेसग्गं बंधपयडोणं पढमद्विदीए च देदि विदियद्विदीए च देदि । ^२जे कम्मंसा ण बज्झति ण वेदिज्जति तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं सत्थाणे ण देदि, बज्झमाणीणं पयडोण-मणुक्कीरमाणीसु द्विदीसु देदि । ^३जे कम्मंसा ण बज्झति वेदिज्जति च तेसिमुक्कीरमाणयं पदेसग्गं अप्पण्णो पढमद्विदीए च देदि, बज्झमाणीणं पयडोणमणुक्कीरमाणीसु च द्विदीसु देदि । ^४जे कम्मंसा ण बज्झति ण वेदिज्जति तेसिमुक्कीरमाणं पदेसग्गं बज्झमाणीणं पयडोण-मणुक्कीरमाणीसु द्विदीसु देदि । ^५एदेण कमेण अंतरमुक्कीरमाणमुक्किण्णं ।

^६ताथे चेव मोहणीयस्स आणुपुग्गीसकमो, लोभस्स असंकमो । मोहणीयस्स एगट्ठा-णिओ बंधो, णवुंसयवेदस्स पढमसमय-उवसामगो, छसु आवलियासु गदासु उदीरणा, मोहणीयस्स एगट्ठाणिओ उदयो, मोहणीयस्स संखेज्जवस्सद्विदिओ बंधो एदाणि सत्तविधाणि करणाणि अंतरकदपढमसमए हंति ।

^७छसु आवलियासु गदासु उदीरणा णाम किं भणिदं होइ । ^८विहासा । जहा णाम समयपवद्धो बद्धो आवलियादिककंतो सक्को उदीरेदुमेवमंतरादो पढमसमयकदादो पाए जाणि कम्माणि बज्झति मोहणीयं वा मोहणीयवज्जाणि वा ताणि कम्माणि छसु आवलियासु गदासु सक्काणि उदीरेदुं, ऊणिगासु छसु आवलियासु ण सक्काणि उदीरेदुं । ^९एसा छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति सण्णा ।

केण कारणेण छसु आवलियासु गदासु उदीरणा भवदि ? णिदरिसणं । ^{१०}जहा णाम बारस किट्ठीओ भवे पुरिसवेदं च बंधइ तस्स जं पदेसग्गं पुरिसवेदे बद्धं ताव आवलियं अख्खदि । आवलियादिककंतं कोहस्स पढमकिट्ठीए विदियकिट्ठीए च संकामिज्जदि । ^{११}विदिय-किट्ठीदो तम्हि आवलियादिककंतं तं कोहस्स तदियकिट्ठीए च माणस्स पढम-विदियकिट्ठीसु च संकामिज्जदि । माणस्स विदियकिट्ठीदो तम्हि आवलियादिककंतं माणस्स च तदियकिट्ठीए मायाए पढम-विदियकिट्ठीसु च संकामिज्जदे । ^{१२}मायाए विदियकिट्ठीदो तम्हि आवलिया-दिककंतं मायाए तदियकिट्ठीए लोभस्स च पढम-विदियाकिट्ठीसु संकामिज्जदि । लोभस्स

(१) पृ. २५३ । (२) पृ. २५४ । (३) पृ. २५५ । (४) पृ. २५६ । (५) पृ. २५७ । (६) पृ. २५८ । (७) पृ. २५९ । (८) पृ. २६१ । (९) पृ. २६३ । (१०) पृ. २६५ । (११) पृ. २६६ । (१२) पृ. २६७ । (१३) पृ. २६८ । (१४) पृ. २६९ । (१५) पृ. २७० ।

विदि यक्किट्टीदो तम्हि आवलियादिक्कंतं लोभस्स तदिक्किट्टीए संकामिज्जदि । एदेण कारणेण समयपवद्धो छसु आवलियासु गदासु उदीरिज्जेदो ।

जहा एवं पुरिसवेदस्स समयपवद्धादो छसु आवलियासु गदासु उदीरणा त्ति कारणं णिदरिसवं तथा एवं सेसाणं कम्माणं जदि वि एसो विधी णत्थि तथा वि अंतरादो पढम-समयकदादो पाए जे कम्मंसा बज्जति तेसिं कम्माणं छसु आवलियासु गदासु उदीरणा । एवं णिदरिसणमेत्तं तं पमाणं काटुं णिच्छयदो गेण्हियव्वं ।

अंतरादो पढमसमयकदादो पाए णवुंसयवेदस्स आउत्तकरणउवसामगो । सेसाणं कम्माणं ण णिच्चि उवसामेदि । जं पढमसमये पदेसग्गं उवसामेदि तं थोवं । जं विदियसमए उवसामेदि तमसंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेटोए उवसामेदि जाव उवसंतं । णवुंसय-वेदस्स पढमसमय-उवसामगम्म जस्स वा तस्स वा कम्मस पदेसग्गस्स उदीरणा थोवा । उदयो असंखेज्जगुणो । णवुंसयवेदस्स पदेसग्गामणपयडिंसंकामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । उवसामिज्जमाणयमसंखेज्जगुणं । एवं जाव चरिमसमय-उवसंतं त्ति ।

जाधे पाए मोहणीयस्स बंधो संखेज्जवस्सट्टिदिगो जादो ताधे पाए ठिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो संखेज्जगुणहीणो ट्टिदिबंधो । मोहणीयवज्जाणं कम्माणं णवुंसयवेदमुवसामेतस्स ट्टिदिबंधे पुण्णे पुण्णे अण्णो ट्टिदिबंधो असंखेज्जगुणहीणो । एवं संखेज्जेसु ट्टिदिबंधसहस्सेसु गदेसु णवुंसयवेदो उवसामिज्जमाणो उवसंतो ।

णवुंसयवेदे उवसंतं से काले इत्थिवेदस्स उवसामगो । ताधे चेव अपुव्वं ट्टिदिखंडय-मपुव्वमणुभागखंडयं ट्टिदिबंधो च पत्थिदो । जहा णवुंसयवेदो उवसामिदां तेणेव कमेण इत्थिवेदं पि गुणसेटोए उवसामेदि । इत्थिवेदस्स उपसामणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णाणावरणीय-दंसणावरणीय-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो भवदि । जाधे संखेज्ज-वस्सट्टिदिगो बंधो तस्समए चेव एदासिं तिण्हं मूलपयडीणं केवल्लणाणावरण-केवलदंसणा-वरणवज्जाओ सेसाओ जाओ उत्तरपयडीओ तासिमेगट्टाणिओ बंधो । जत्तो पाए णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं संखेज्जवस्सट्टिदिओ बंधो तम्हि पुण्णे जो अण्णो ट्टिदिबंधो सो संखेज्जगुणहीणो । तम्हि समए सव्वकम्माणमपाबहुअं भवदि । तं जहा—मोहणीयस्स सव्वत्थोओ ट्टिदिबंधो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो । णामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो असंखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्टिदिबंधो विसेसाहिओ । एदेण कमेण संखेज्जेसु ट्टिदिबंधसहस्सेसु गदेसु इत्थिवेदो उवसामिज्जमाणो उवसामिदो ।

इत्थिवेदे उवसंतं से काले सत्तण्हं णोकसायाणं उवसामगो । ताधे चेव अण्णं ट्टिदि-खंडयमणमणुभागखंडयं च आगाइदं । अण्णो च ट्टिदिबंधो पवद्धो । एवं संखेज्जेसु ट्टिदि-बंधसहस्सेसु गदेसु सत्तण्हं णोकसायाणमुवसामणद्वाए संखेज्जदिभागे गदे तदो णामा-गोद-वेदणीयाण कम्माणं संखेज्जवस्सट्टिदिगो बंधो । ताधे ट्टिदिबंधस्स अप्पाबहुणं । तं जहा—सव्वत्थोओ मोहणीयस्स ट्टिदिबंधो । णाणावरण-दंसणावरण-अंतराइयाणं ट्टिदिबंधो संखेज्ज-गुणो । णामा-गोदाणं ट्टिदिबंधो संखेज्जगुणो । वेदणीयस्स ट्टिदिबंधो विसेसाहिओ ।

एदम्मि ट्टिदिबंधे पुण्णे जो अण्णो ट्टिदिबंधो सो सव्वकम्माणं पि अप्पण्णो ट्टिदि-बंधादो संखेज्जगुणहीणो । एदेण कमेण ट्टिदिबंधसहस्सेसु गदेसु सत्त णोकसाया उवसंतो ।

- (१) पृ. २७१ । (२) पृ. २७२ । (३) पृ. २७३ । (४) पृ. २७४ । (५) पृ. २७५ ।
 (६) पृ. २७८ । (७) पृ. २७९ । (८) पृ. २८० । (९) पृ. २८१ । (१०) २८२ । (११) पृ. २८३ ।
 (१२) पृ. २८४ ।

णवरि पुरिसवेदस्स वे आवलिया बंधा समयूणा अणुवसंता । ^१तस्समए पुरिसवेदस्स द्विदि-
बंधो सोलस वस्साणि । संजलणाणं द्विदिबंधो बत्तीस वस्साणि । सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो
संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । पुरिसवेदस्स पढमट्टिदीए जाधे वे आवलियाओ सेसाओ ताधे
आगाल-पडिआगालो बोच्छिण्णो ।

^२अंतरकदादो पाए छण्णोकसायाणं पदेसग्गं ण संलुहदि पुरिसवेदे, कोहसंजलणे
संलुहदि । ^३जो पढमसमय-अवेदो तस्स पढमसमय-अवेदस्स संतं पुरिसवेदस्स दोआवलिय-
बंधा दुसमययूणा अणुवसंता । जे दोआवलियबंधा दुसमयूणा अणुवसंता तेसिं पदेसग्ग-
मसंखेज्जगुणाए सेठीए उवसामिज्जदि । ^४परपयडीए वुण अघापवत्तसंकमेण संकामिज्जदि ।
पढमसमय-अवेदस्स मंकामिज्जदि बहुअं । से काले विसेसहीणं । एंस कमो एयसमय-
पवदस्स चेव ।

पढमसमय-अवेदस्स संजलणाणं ठिदिबंधो बत्तीस वस्साणि अंतोमुहुत्तणाणि ।
सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । पढमसमय-अवेदो तिविहं कोह-
मुयसामेइ । मा चेव पोरणिआ पढमट्टिदी हवदि । ^५द्विदिबंधे पुण्णे पुण्णे संजलणाणं
द्विदिबंधो विसेसहीणो । सेसाणं कम्माणं ठिदिबंधो संखेज्जगुणाहीणो । एदेण कमेण जाधे
आवलि-पडिआवलियाओ सेसाओ कोहसंजलणस्स ताधो विदियट्टिदीदो पढमट्टिदीदो
आगाल-पडिआगालो बोच्छिण्णो । पडिआवलियादो चेव उदीरणा कोहसंजलणस्स । ^६पडि-
आवलियाए एकग्ग्हि समए सेसे कोहसंजलणस्स जहणिया द्विदिबदीरणा । चटुण्हं संजलणाणं
द्विदिबंधो चत्तारि मासा । सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ^७पडि-
आवलिया उदयावलियं पविसमाणा पविट्ठा । ताधे चेव कोहसंजलणे दो आवलियबंधे
दुसमयूणे मोत्तूण सेसा तिविहकोधपदेसा उवसामिज्जमाणा उवसंता । कोहसंजलणे दुविहो
कोहो ताव संलुहदि जाव कोहसंजलणस्स ^८पढमट्टिदीए तिण्णि आवलियाओ सेसाओ त्ति ।
तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु तत्तो पाए दुविहो कोहो कोहसंजलणे ण संलुहदि ।

^९जाधे कोहसंजलणस्स पढमट्टिदीए समयूणावलिया सेसा ताधे चेव कोहसंजलणस्स
बंधोदया बोच्छिण्णा । माणसंजलणस्स पढमसमयवेदगो पढमट्टिदिकारओ च । ^{१०}पढमट्टिदि
करेमाणो उदये पदेसग्गं थोवं देदि । से काले असंखेज्जगुणं । एवमसंखेज्जगुणाए सेठीए जाध
पढमट्टिदिचरिमसमओ त्ति । विदियाट्टिदीए जा आदिट्टिदी तिसे असंखेज्जगुणाहीणं । तदो
विसेसहीणं चेव । ^{११}जाधे कोधस्स बंधोदया बोच्छिण्णा ताधे पाए माणस्स तिविहस्स उव-
सामगो । ताधे संजलणाणं द्विदिबंधो चत्तारि मासा अंतोमुहुत्तेण ऊणया । सेसाणं कम्माणं
द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

^{१२}माणसंजलणस्स पढमट्टिदीए तिसु आवलियासु समयूणासु सेसासु दुविहो माणो
माणसंजलणे ण लंहुमदि । पडिआवलियाए सेसाए आगालपडिआगालो बोच्छिण्णो ।
^{१३}पडिआवलियाए एकग्ग्हि समए सेसे माणसंजलणस्स दोआवलिसमयूणाबंधे मोत्तूण सेसं
तिविहस्स माणस्स पदेससंतकम्मं चरिमसमय-उवसंतं । ताधे माण-माया-ओमसंजलणाणं
धुमासट्टिदिगो बंधो । सेसाणं कम्माणं द्विदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि ।

(१) पृ. २८५ । (२) पृ. २८६ । (३) पृ. २८७ । (४) पृ. २८८ । (५) पृ. २८९ । (६) पृ.
२९० । (७) पृ. २९१ । (८) पृ. २९२ । (९) पृ. २९३ । (१०) पृ. २९४ । (११) पृ. २९५ । (१२) पृ.
२९६ । (१३) २९७ । (१४) पृ. २९८ । (१५) २९९ ।

तदो से काले मायासंजलणमोकङ्कियूण मायासंजलणस्स पढमट्टिदिं करेदि । ताथे पाए विविहाए मायाए उवसामगो । माया-लोभसंजलणाणं ट्टिदिबंधो दो मासा अंतोमुहुत्तेण उगया । सेसाणं कम्मणं ट्टिदिबंधो संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । सेसाणं कम्मणं ट्टिदिबंधं पल्लिदोवमस्स सखेज्जदिभागो । जं तं माणसंतकम्ममुदयावळियाए समयूणाए तं मायाए तिथवुक्कसंकमेण उदए विपच्चिहिदि ।

जे माणसंजलणस्स दोण्हमावळियाणं दुसमयूणाणं समयपवद्धा अणुवसंता ते गुण-सेढीए उवसामिज्जमाणा दोहिं आवळियाहिं दुसमयूणाहिं उवसामिज्जिहिंति । जं पदेसग्गं मायाए संकमदि तं विसेसहीणाए सेढीए संकमदि । एसा पक्खगा मायाए पढमसमग-उव-सामगस्स । एत्तो ट्टिदिबंधसहस्साणि बहूणि गदाणि । तदो मायाए पढमट्टिदीए तिसु आवळियासु समयूणासु सेसासु दुविहा माया मायासंजलणे ण संखुहदि, लोहसंजलणे च संखुहदि । पडिआवळियाए सेसाए आगालपडिआगालो वोच्छिण्णो ।

समयाहियाए आवळियाए सेसाए मायाए चरिमसमय-उवसामगो मोत्तण दो आव-ळियबंधे समयूणे । ताथे माया-लोभसंजलणाणं ट्टिदिबंधो मासो । सेसाणं कम्मणं ट्टिदिबंधो संखेज्जाणि वस्साणि । तदो से काले मायासंजलणस्स बंधोदया वोच्छिण्णा । मायासंजलणस्स पढमट्टिदीए समयूणा आवळिया सेसा तिथवुक्कसंकमेण लोभे विपच्चिहिदि ।

ताथे चेव लोभसंजलणमोकङ्कियूण लोभस्स पढमट्टिदिं करेदि । एत्तो पाए जा लोभवेद-गद्धा होदि तिस्से लोभवेदगद्धाए वेत्तिभागा एत्तियमेत्ती लोभस्स पढमट्टिदी कदा । ताथे लोभसंजलणस्स ट्टिदिबंधो मासो अंतोमुहुत्तेण उगो । सेसाणं कम्मणं ट्टिदिबंधो संखेज्जाणि वस्साणि । तदो संखेज्जेहिं ट्टिदिबंधसहस्सेहिं गदेहिं तिस्से लोभस्स पढमट्टिदीए अद्धं गदं । तदो अद्धस्स चरिमसमए लोहसंजलणस्स ट्टिदिबंधो दिवसपुधत्तं । सेसाणं कम्मणं ट्टिदिबंधो वस्ससहस्सपु धत्तं । ताथे पुण फहयगद संतकम्मं ।

से काले विदियतिभागस्स पढमसमए लोभसंजलणाणुभागसंतकम्मस्स जं जहण्णफहयं तस्स हेट्टदो अणुभाक्किट्टीओ करेदि । तासिं पमाणमेगफहयवग्गाणणमणंतभागो । पढम-समए बहुआओ किट्टीओ कदाओ । से काले अपुव्वाओ असंखेज्जगुणहीणाओ । एवं जाव विदि-यस्स विभागस्स चरिमसमओ त्ति असंखेज्जगुणहीणाओ । जं पढमसमए पदेसग्गं किट्टीओ करंतेण किट्टीसु णिक्खत्तं तं थोवं । से काले असंखेज्जगुणं । एवं जाव चरिमसमयो सि असंखेज्जगुणं । पढमसमए जहणियाए ट्टिपीए पदेसग्गं बहुअं । विदियाए पदेसग्गं विसेस-हीण । एवं जाव चरिमाए किदीए पदेसग्गं तं विसेसहीणं । विदियसमए जहणियाए किट्टीए पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । विदियाए विसेसहीणं । एवं जाव ओपुक्कस्सियाए विसेस-हीणं । जहा विदियसमए तहा सेसेसु समएसु ।

तिव्व-भंददाए जहणिया किट्टी थोवा । विदियकिट्टी अणंतगुणा । तदिया किट्टी अणंत-गुणा । एवमणंतगुणाए सेढीए गच्छदि जाव चरिमकिट्टि त्ति । एत्तोविदियतिभागो किट्टी-करणद्ध गाम । किट्टीकरणद्धसंखेज्जेसु भागेषु गदेषु लोभसंजलणस्स अंतोमुहुत्तट्टिदिगो बंधो । तिण्हं घादिकम्मणं ट्टिदिबंधो दिवसपुधत्तं । जाव किट्टीकरणद्धाए दुचरिमो ट्टिदिबंधो ताथे

(१) पृ. ३०० । (२) पृ. ३०१ । (३) पृ. ३०२ । (४) पृ. ३०३ । (५) पृ. ३०४ । (६) पृ. ३०५ । (७) पृ. ३०६ । (८) पृ. ३०७ । (९) पृ. ३०८ । (१०) पृ. ३०९ । (११) पृ. ३१० । (१२) पृ. ३१२ । (१३) पृ. ३१४ । (१४) पृ. ३१५ । (१५) पृ. ३१६ ।

गामा-गोद-वेदणीयत्वं संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि द्विविंशो । किट्टीकरणद्वाए चरिमो ठिदि-
बंधो लोहसंजळणस्स अंतोमुहुत्तिओ । ^१गणावरण-वंसणावरण-अंतराइयाणमहोरत्तसंततो ।
गामा-गोद-वेदणीयाणं वेण्हं वस्साणत्तो । तिस्से किट्टीकरणद्वाए तिसु आबळियासु समयूणासु
सेसासु दुविहो लोहो लोहसंजळणे ण संकामिज्जदि । सत्थाणं चेव उवसामिज्जदि ।

^२किट्टीकरणद्वाए आबळिय-पडिआबळियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो ।
पडिआबळियाए एकम्हि समये सेसे लोहसंजळणस्स जहणिया द्विविदीरणा । तावे चेव
जाओ दो आबळियाओ समयूणाओ एत्तियमेत्ता लोहसंजळणस्स समयपचद्दा अणुवसंता ।
किट्टीओ सन्वाओ चेव अणुवसंताओ । तवदिदित्तं लोहसंजळणस्स पवेसग्ग उवसंतं । दुविहो
लोहो सन्वो चेव उवसंतो णवकबंधुक्खिट्ठावळियवज्जं । ^३एसो चेव चरिमसमयवाद्द-
सांपराइयो ।

से काले पढमसमयसुहुमसांपराइयो जाओ । तेण पढमसमयसुहुमसांपराइएण अण्णा
पढमद्विदी कदा । ^४जा पढमसमयलोभवैदगस्स पढमद्विदी तिस्से पढमद्विदीए इमा सुहुम-
सांपराइयस्स पढमद्विदी दुभागो थोवूणओ । पढमसमयसुहुमसांपराइओ किट्टीणमसंखेज्जे
भागो वेदयदि । ^५जाओ अपढम-अचरिमेसु समयसु अणुवओ किट्टीओ कदाओ ताओ
सन्वाओ पढमसमए उदिण्णाओ । जाओ पढमसमए कदाओ किट्टीओ तासिमग्गगादो
असंखेज्जदिभागं मोत्तूण । ^६जाओ चरिमसमए कदाओ किट्टीओ तासिं च जहण्णकिट्टिपहुडि
असंखेज्जदिभागं मोत्तूण सेसाओ सन्वाओ किट्टीओ उदिण्णाओ । ^७तावे चेव सन्वासु
किट्टीसु पवेसग्गमुवसामेदि गुणसेढीए ।

^८जे दो आबळियबंधा दुसमयूणा ते वि उवसामेदि । जा उदयावळिया छंडिदा सा
त्थिवुक्कसंकमेण किट्टीसु विपबिहिदि । विदियसमए उदिण्णाणं किट्टीणमग्गगादो असंखेज्जदि-
भागं मुंचदि हेट्ठदो अणुवमसंखेज्जदिपडिभागमाफुंददि । एवं जाव चरिमसमयसुहुम-
सांपराइयो ति । ^९चरिमसमयसुहुमसांपराइयस्स जाणावरण-वंसणावरण-अंतराइयाणमंतो-
मुहुत्तिओ द्विविंशो । ^{१०}गामा-गोदाणं द्विविंशो सोळस मुहुत्ता । वेदणीयस्स द्विविंशो
चचवीस मुहुत्ता । से काले सच्चं मोहणीयमुवसंतं ।

तदो पाए अतोमुहुत्तमुवसंतकसायथीवरागो । ^{११}सत्थिस्से उवसंतद्वाए अबद्विदपरिणामो ।
गुणसेठिणिक्खेवो उवसंतद्वाए संखेज्जदिभागो । स^{१२}त्थिस्से उवसंतद्वाए गुणसेठिणिक्खेवैण
वि पदेसग्गेण वि अबद्विदा । पढमे गुणसेठिसीसये उदिण्णे उक्कस्सओ पदेसुदओ । ^{१३}केवल-
णाणावरण-केवलवंसणावरणीयाणमणुभागुदएण सव्वउवसंतद्वाए अबद्विदवेदगो । ^{१४}णिहा-
पयळणं पि जाव वेदगो ताव अबद्विदवेदगो । अंतराइयस्स अबद्विदवेदगो । ^{१५}सेसाणं लद्धि-
कम्मसाणमणुभागुदयो बट्ठी वा हाणी वा अबद्विदवा । ^{१६}गामाणिगोदाणि जाणि परिणाम-
पक्कयाणि तेसिमबद्विदवेदगो अणुभागोदएण । ^{१७}एवमुवसामगस्स परूवणा विहासा समत्ता ।

(१) पृ. ३१७ । (२) पृ. ३१८ । (३) पृ. ३१९ । (४) पृ. ३२० । (५) पृ. ३२१ । (६) पृ.
३२२ । (७) पृ. ३२३ । (८) पृ. ३२४ । (९) पृ. ३२५ । (१०) पृ. ३२६ । (११) पृ. ३२७ ।
(१२) पृ. ३२८ । (१३) पृ. ३३० । (१४) पृ. ३३१ । (१५) पृ. ३३२ । (१६) पृ. ३३३ ।
(१७) पृ. ३३४ ।

१ अवतरण सूची

क्रमांक पृष्ठ
ज १ जम्हि जिणा केवली तिन्बयरा ३

३ ऐतिहासिक नामसूची

	पृष्ठ		पृ०		पृ०
अ अजमंलुमहावाचय	५४	ब बुग्णिसुत्तयार		ग गामहृत्तिमहावाचय	५४
प गुणहराद्धरिय	१	८२, १०१, १७२, २१५, २१६		स सुत्तयार	१४३
गंबयार	२७७	अ जइमसह	५४		

४ ग्रन्थनामोल्लेख

	पृ०		पृ०		पृ०
अ अणउवदेश	१७	ब बुग्णिसुत्त	१६, ५४, ९८, १२७, २६५	स सुत्तंर	३
अपवाइज्जंत (उवएस)	५४				
क कसायपाहुड	१५७	प पवाइज्जमाण (उवएस)	५६		
		पवाइज्जंत	५४		

५ सूत्रगाथा-चूर्णित शब्दसूची

	पृ०		पृ०		पृ०
अ अकम्भभूमिय	१८४	अणुवसामग	२५२	अपच्छिम	८४
असवग	२५२	अणुवसंत	४०	अपडिबद-अपडिमाणग	१५३
अक्खसुंदसणावरणीय	२५०	अणुसंभण्णोवब्ब	१०१	अपसत्थ	४०
अजसगिति	२०९	अणंताणुबंधी	१९७, २०१	अणुम्बकरण	१४, २१, २३ आ.
अट्टवत्सउवदेश	५६		२१०	अणुम्बकरणट्ठा	३६, ३७,
अणउवसंत	१९, १९२, १९३, १९४	अत्थविहासा	१०३		११३ आ.
अणियट्टिकरण	१४, ३८	अदिच्छिय	२३५	अपसत्थ	३२
	४०, ४१, ११३, आ.	अट्ठा	७	अप्यसत्थउवसामण्यकरण	
अणियोगहार	१०१, १०५	अट्ठा	९२		२३१
	११३, १३७ आ.	अधापवत्तकरण	१४, २२, २३, ११६ आ.	अप्याबहुव	१०१, १३७
अणुवकीरमाण	२५७				१४१ आ.
अणुभाग	६२	अधापवत्तकरणट्ठा	११३	अरइ	२२८
अणुभागकिट्टि	३०७	अधापवत्तकरणविसोहि		अरयि	२२८
अणुभागखंडय	३२, ३४, ३५, ३७ आ.	अधापवत्तसंकम	२८८	अबट्टिदगुणसेट्ठि	१२५
अणुभागघाद	२२	अधापवत्तसंजदासंजद	१२६,	अबट्टिदपरिगाम	३२७
अणुभागकम्भ	१३		१२७	अबट्टिदबैवग	३३०, ३३१
		अपप्यक्खमाणकसाय	१५३	अबैद	२८७
				अब्भोच्छिण	१९३

अष्टाष्टिकविषय	४१, २३२
अष्टुथ	१२१
अष्टुह	२२
अष्टुहकर्मसं	११६
असंक्रम	२६३
आ आशय	२३८
आशयकरण	२७२
आशाद	३२, ४३, ४४ आ.
आशाल	२८५, २९१, आदि
आशुंज	१३१
आणुपुष्पीसंक्रम	२६३
आबाहा	१४, १३५
आभिनिवोह्यणाणावरणीय	२५१
आवलयबाहिर	४९, ५३
	६० आ.
आवलिवा	२६५, २६६ आ.
आवलिवादिप्रकंत	२६६,
	२६८ आ.
इ इत्यिवेद	२७८, २७९ आ.
उ उभिकण्य	२६०
उक्तीरणकाल	३७
उक्तीरणदा	९०, ९१,
	९२ आ.
उक्तीरमाण	२५७, २५९ आ.
उक्तीरमाणय	२५८
उदय	६४, ७४, ८३ आ.
उदयबोष्छेद	२२८
उदयावलिबाहिर	३३, ३४
उधिष्ण	१५४, १५६
उदीरणा	४८, ८०, ८३ आ.
उक्ककमविधिविहासा	१६४
उक्ककमपरिभासा	१९६
उपद्रिष्ट	३१
उपवेश	५४
उपरिमाणंतरद्रिष्टि	७६
उक्कसमकरण	२९
उक्कसमकलय	१९४
उक्कसाम	१९१

उक्कसामय	१५, २७८
उक्कसामणा	४०, १०६,
	१९० आ०
उक्कसामभास्य	१९५
उक्कसामिच्छमाण	२७८,
	२८२
उक्कसामिष्ट	२९, २७९
उक्कसंत	४०, १९१, १९२ आ
उक्कसंतकसामवीरयण	३२६
उक्कसंतदा	३२७
ए एहंदिद्यद्रिष्टिविषय	२३२
एहंदिद्यबंध	४२
एक्कसराह	२४३
एगद्रिष्टिगणिय	२६३
एगंताणुवस्त्रि	१३४, १३६
ओ ओकहुमाण	६०, ७८, ९५
ओद्रिष्टव्य	१२
ओद्रिष्टव्य	१३
ओवट्टणा	६२
ओवट्टिच्छमाण	६४, ७३
ओवट्टिष्ट	५४
ओसुत	४३, ५६
ओसरिव	३२
ओहिष्णाणावरणीय	२५०
ओहिष्णणावरणीय	२५०
अंतर	१०७, १३७, १७१ आ.
अंतरकद	२८६
अंतरकरण	२००, २५२ आ.
अंतरद्रिष्टि	२५६
अंतराय	२३४, २३७
अंस	१५, १५९, १९५
क कदकरणिष्ठ	८१, ८६, ८८ आ.
कम्म	१२, १५, २२ आ.
कम्मभूमिआय	२
कम्मभूमिय	१८३
कम्मसं	२२
करण	१९३, १९७ आ.
कसाज	२६, २७
कसाय	२६३

कसामउक्कसामय	२२३
किट्टि	२६८, २६९ आ.
किट्टिकरणदा	३१५
किरिमापरावत्त	६२
कोह	२६८, २६९
कोहसंजलण	२९१, २९२
ख खोपसमलट्टि	१५६
खवक्करण	२९
खवणा	४, ९
खविच्छमाण	५७
खविद	९५
खवैत	५७
खीण	५९
खीणदंसणमोहणिष्ठ	२२२
खीणदंसणमोहणीय	२६, २९
खीणमोह	१०, १०१
खेत	१०१, १३७, १७१
ग गदि	१०
गुणगार	७९
गुणगारपरवात्ति	६०, ८४
गुणसेदि	३३, ३४, ७२ आ.
गुणसेदिणिक्खेव	९३, १९५
गुणसेदिसीसय	६०, ६४, ७५ आ.
गुणसंक्रम	२०७, २०८
गोद	२३३, २२५ आ.
घ घादिकम्म	३१६
घ चरिदियबंध	४२, २३२
घक्कसुदंसणावरणीय	२५१
घक्कसामय	१५४ आ.
घक्कद्रिष्टिगणिय	११४
घरित्तलट्टि	१०६, १६५
घरित्तलट्टिदाण	१७७
घरित्ताघरित्तपञ्जय	१३४
घरित्ताघरित्तलट्टि	१३२
घरिमद्रिष्टिसंडव	६३, ७१ आ.
ज जहाणुपुष्पी	१९५
जारित्त	१५
जीव	२६, २७ आ.
ट ट्टिदि	३२, ५४ आ.

द्विविस्त्रय	२३, ३४ आ.
द्विविस्त्रयपुष्य	४२, ४३ आ.
द्विविस्त्रयसहस्र	४४
द्विविस्त्रय	३२, ३४ आ
द्विविस्त्रयगद्दा	९२
द्विविस्त्रयकम	५१
द्विविस्त्रयकम्म	२६, ३८ आ.
ठ ठिदि	१५
ठिविस्त्रयकम्म	२३, २८
ण णवुंसयवेद	२७३, २७४ आ.
णाणावरणीय	२३४, २३७
णाम	२३३, २३५ आ.
णामाउग	७
णिकाचणाकरण	२३१
णिच्छय	२७१
णिव्वग	२
णिट्टायमाण	५१
णिट्टिद	२९, ५१ आ.
णिवरिसण	२६७
णिवरिसणमेस	२७१
णिहा	२२७
णियत्तीकरण	२३१
णियमसा	५१
णेरहय	८७
णोकसाय	१५४, २५३ आ.
णारिस	१५
णिरिक्खजोगिज	८७, १५० आ
त तिव्व-मंद	११७
तिव्व-मंददा	१३८, १४९ आ.
तीर्हदियट्टिविबध	२३२
तीर्हदियबंध	४२
तेउलेस्सा	८२
तिथवुक्कसंकम	३०१
द दब्ब	१०१, १३७ आ
दब्बपमाण	१०१, १३७
दाणंतराहय	२५०
दुगुंका	२२८
दुचरिमट्टिविस्त्रय	७१

दुट्टाणिय	११४
दूरावकिट्टि	४५, ५७
देव	७, ८६
देसधावि	२५०, २५१
देसधाधिकरण	२५२
देसविरद	१०५
दंडय	१०१
दंसणमोह	७, ९
दंसणमोहउवसामय	१५, ११८
दंसणमोहक्खवणा	१०३
दंसणमोहक्खवणापट्टवग	२
दंसणमोहणीय	२७, २९ आ.
दंसणमोहणीयक्खवग	९०
दंसणावरणीय	२३४, २३७
प पच्चक्खणाणावरणीय	१५४, १५५
पट्टवग	४, ९
पडिआणाल	१९१
पडिविज्जमाण	१४७, १४९
पडिवदमाणय	१५०
पडिपदिद	१९४, १९५
पडिवाह	१९४
पडिवाहट्टाण	१७५, १७६
पडमट्टिदि	२९०
पडमट्टिविस्त्रय	९५
पदेसग्ग	६०, ७४ आ.
पदेससंकम	५१
पम्मलेस्सा	८२, ८८
पयडि	२५७, २५८
पयला	२२७
परभविमणाम	२२७
परभविमणामा-मोव	२२६
परिणाम	२१०
परिणामपच्चय	१२७, २३३
परिभासा	८९, ११३
परिभोगंतराहय	२५१
परिहारविमुट्टिसंजय	१८५
परिहासा	११
पवाहजंत	५४

पविट्ट	१९३
पयिसमाण	२९३
पुरिसवेद	२६८
पुग्गवद	१५, १०६ आ.
पूरणकाल	२०८
पोराणमुणसेडिसीसय	७६
फ फहय	१४३
फहयगद	३०७
फोसण	१०१, १३७ आ.
ब बज्जमाण	२५७, २५८
बादरराग	१९४, १९५
बादरसांपराहय	३१९
बीर्हदियट्टिविबध	२३२
बीर्हदियबंध	४२
बंधय	१९४
बंधबोच्छेद	२२५, २२८
य मणपउत्रवणाणावरणीय	२४९
मणुस	८७, १०१ आ.
मणुसगदि	२
मणुस्स	७, १०
मरण	८१
माण	२६९
माणसंजलण	२९५, २९८
माया	२६९
मायासंजलण	३००
मिच्छत्त	५१, ५२ आ.
मिच्छत्तवेदणीज	४
मिच्छत्तसंतकम्मिय	९६
मूलपयडि	२८०
मोहणीय	२३७, २३८
र रह	२८८
रहस्स	६०
ल लक्खण	१४, १५ आ.
लडि	१३९, १४० आ.
लडिकम्मंस	३३२
लडिट्टाण	१४१, १३३ आ.
लाभंतराहय	२५०
लेस्सापरिणाम	८१

कोष	२७० आ.	स सत्याय	२५७	सुम	१२१
कोहवेदगद्दा	३०४	समय	४२	सुह	२२
कोहसंबलण	३०३, ३०५	समदिठदिवंत	२५४	सुहकम्मस	११६
क वनपूल	७९	समयपबद्ध	४८, २४९, २६६ आ.	सुहुमराग	१९५
कड्ढावड्डी	१०६	समासपल्लवणा	२०१	सुहुमसांपराइय	१८६, ३१९
विष्णावसंकम	२०७	सम्मत्त	४९, ५३, ५४ आ.	सेठि	८२
विषिककंत	२९	सम्मत्तकल्लवणद्दा	९३	सोय	२०९, २२८
विप्पकट्ट	१३१	सम्मामिच्छत्त	४९, ५१, ५३ आ.	संकिलिट्ठ	१४०
विसमट्ठिविजंतर	३५४	सब्बघादि	२५२	संकिसंसं	१३०
विसुज्जंत	१३०	सब्बमंवाणुभाग	१४९	संजम	१५९, १६४
विसुद्ध	११७	सब्बविसुद्ध	१३९	संजमग्गाहय	१३९
विशोही	२२, ११७	सामाइय-छेदोबट्ठाणिय	१८६	संजवांसंजद	१२३, १२९ आ.
वीयराय	१८७	सामित्त	१३९, १७४	संजमासंजमलद्धि	१०६, १२८ आ.
वीरियंतराइय	२५१	सुक्कलेस्सा	८२, ८८	संजलण	२५३
वेद	२५३	सुत्त	१५७, १९०	संलपकूपणा	१०१, १२७ आ.
वेदणीय	२३४, २३७	सुत्तगाहा	३१, १०३, १०५ आ.	संपराय	१९३
वेदमसम्माइट्ठ	१९७	सुत्तविहासा	११	ह हव	२१०
वाच्छिणकाल	२२७	सुदणाणावरणीय	२५०	हस्स	२२८

३ जयधवलगत-पारिभाषिक-शब्दसूची

सूचना—इस सूचीमें वे पारिभाषिक शब्द लिये गये हैं जिनकी मूलमें परिभाषा दी है या जिनके विषयमें छ स्पष्टीकरण मिलता है।

अ अकम्मभूमिय	१८४	ए एकसराह	२४३	पडिवाबट्ठाण	१४२, १७६
अणुभायउबसामणा	१०९	ग गुणमार	६२	पदेसोवसामणा	११०
अपडिवावापडिवज्जामाण	१४२	च चरित्तावरित्तलद्धि	१३२	पयडिउवसामणा	१०८
अपवाइज्जंत	५४	ट ट्ठिठिविउबसामणा	१०९	परिणामपक्कइय	३३३
अप्यसब्बउबसामणा	४०	ण णिकाचयाकरण	२३१	पवाइज्जंत	५४
अप्यसब्बउबसामणाकरण	२३१	णिकाचिद	४०	म भवपक्कइय	३३४
आ आउत्तकरण	२७२	विघत्त	४०	ल लद्धिकम्मस	३३२
आवाक	२८५	विघसोकीकरण	२३१	लद्धिट्ठाण	१४२, १७७
आगुजा	१३१	त त्तियवुक्कसंकम	३०१	व वड्ढावड्डी	१०८, १११
उ उत्पादकस्थान	१७७	द दूरावकिट्ठि	४५	विसमट्ठिविजंतर	२५५
उपक्रम	१६४	प पडिभागाल	२८५	स समदिठदिवंत	२५५
उपक्रमपरिभाषा	१९६	पडिभाषिकिया	२९१	संजमलद्धि	१०७
उबसावथा	१०८	पडिवावापडिउवज्जामाण	१४२	संजमासंजमलद्धि	१०७

शुद्धि पत्र

पृ०	ष०	अशुद्धि	शुद्धि
५०	७	एव	एव
५३	३	सञ्च	सञ्च
५५	५	गिद्धिदे	गिद्धिदे
५७	१	खडयस्साणि	खडयसहस्साणि
"	७	पुञ्चुत्त	पुञ्चुत्त
"	९	सङ्गुद्ध	सङ्गुद्ध
५८	२	एत्तो	एत्तो
६१	७	दव्व	दव्व
"	१३	मेत्तणापत्तो	मेत्तमणापत्तो
६४	८	अट्ट	अट्ट
६८	७	फुटीकरणट्ट-	फुटीकरणट्ट-
८१	८	णि	पि
१०३	१९	दर्शनमोहलपणा इस नामका अनुयोगद्वारा समास होता है ।	दर्शनमोहलपणामे पाँच सूत्रगाथाओकी अर्थ विभाषा समाप्त हुई ।
१३०	२७	आकषण कर	अपकर्षण कर
१९१	१०	णवसय	णवसय
१९३	१५	विह्वाणट्ट	विहाणट्ट
२१७	३७	चक्षुदर्शन	चक्षुदर्शन और अक्षुदर्शन
२१७	४७	वह	यह
२२०	२९	घटे	छटे
२४९	८	असं उजाणं	असंख्येउजाणं
२४९	२५	पश्चात्	वहाँ से
२५४	१३	समाट्टिदि	समट्टिदि
२४९	४	कम्मसा ण बज्झति	कम्मसा बज्झंति
"	१९	न बँचते हैं और न वेदे जाते	बँचते हैं वेदे नहीं जाते

